

8304

प्रतिष्ठ रत्नाकर

प गुलाबचन्द्र 'पुष्प'

सम्पादक

डा. दरबारी लाल कोठिया
पूर्व-रीडर
काशी हिन्द विश्वविद्यालय
वाराणसी

ब्र. जयकुमार 'निशान्त'
एम एस सी
टीकमगढ

प्रकाशक

प्रीत विहार जैन समाज (पंजी.)

श्री १००८ महावीर स्वामी जिनालय
एफ ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली-१२

प्रतिष्ठा रत्नाकर
प गुलाबचन्द्र 'पुष्प'

प्रथम संस्करण

१००० प्रतिया

पावन प्रसंग

श्री १००८ आदिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव
जैन समाज, ग्रीत विहार (पजी) दिल्ली-६२

अर्थ सौजन्य

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति
ग्रीत विहार, दिल्ली-६२

प्राप्ति स्थान

ब्र जय "निशात"

पुष्प भवन, टीकमगढ (म प्र)

फोन (०७६८३) ३३१३८

श्री महावीर स्वामी जिनालय

जन समाज ग्रीत विहार (पजी)

एफ-ब्लाक दिल्ली-६२

फोन २०५६८६६

अरिहंत साहित्य सदन

४ रनवो विहार

मुजफ्फरनगर (उ प्र)

फोन ४३३६१३

लागत मूल्य . दो सौ एक रुपए मात्र

मुद्रक नरुला प्रिंटर्स, दिल्ली

पकाशन व्यवस्था प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

मंगलाचरण

णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण,
णमो उवज्झायाण, णमो लोएसव्वसाहूण

- चत्तारि मंगलं - अरिहता मगल सिद्धामगल
साहू मगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो मगल ।
- चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।
- चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिहते सरण पव्वज्जामि
सिद्धे सरण पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि,
केवलि पण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि ।

एसो पंच णमोयारो सव्वपावप्पणासणो
मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं होइ मंगलं ॥
मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी ।
मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

विषय-अनुक्रमणिका

प्रथम परिच्छेद

१	शुभाशीर्वाद/शुभकामनाए	१
२	प्रस्तावना—प जगन्मोहन लाल जी शास्त्री, कटनी	११
३	सम्पादकीय—डा० (प०) दरबारी लाल जी कोठिया, न्यायाचार्य	१५
४	आमुख—पच कल्याण बनाम शिलापुत्र का जन्म —पूज्य उपाध्याय श्री १०८ गुप्तिसागर जी महाराज	१९
५	प्रकाशकीय—सुभाष चद जैन, दिल्ली	२१
६	पुष्प जी एक यशस्वी प्रतिष्ठाचार्य—श्री नीरज जैन, खतना	२३
७	अपनी बात—प गुलाब चन्द्र 'पुष्प' टीकमगढ	२५
८	कब, कहा, कैसे ?	५१
९	जिन वच मे शका ना धार—ब्र जय कुमार 'निशात' (१) अभिषेक क्या और क्यों ?	५९
	(२) जिनेन्द्र पूजा एव पूजा के अग।	७०
	(३) धूप एव हवन आगम की दृष्टि मे।	८३
१०	पण्डाल निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश	९१
११	प्रतिष्ठा सम्बन्धी आवश्यक सामग्री सूची	९४

द्वितीय परिच्छेद

१	मगलाष्टक	१
२	मगल पचक	३
३	स्वस्ति मगल पाठ	४
४	शान्त्याष्टक (हिन्दी)	५
५	गृहस्थ के कर्त्तव्यो मे जिनबिम्ब प्रतिष्ठा का महत्व	६
६	प्रतिष्ठा मे आवश्यक पात्र	७
७	प्रतिष्ठा लक्षण	७
८	प्रतिष्ठा कारक के लक्षण	७
९	प्रतिष्ठाचार्य लक्षण	८
१०	प्रतिष्ठा फल	९

तृतीय परिच्छेद

११ मंदिर निर्माण विधि	१०
(१) भूमिपरीक्षा	१२
(२) मंदिर निर्माण मुहूर्त	१२
१२. भूमिशुद्धि - शिलान्यास	१५
(१) भूमि शुद्धि विधि	१७
(२) विनायकयंत्र अभिषेक, शातिधारा	१८
(३) विनायकयंत्र पूजा (सस्वृत्त)	२०
(४) विनायकयंत्र पूजा (हिन्दी)	२४
(५) शिलान्यास क्रिया	३१

चतुर्थ परिच्छेद

१३ प्रतिमा निर्माण विधि	३७
(१) प्रतिमा लक्षण	३७
(२) प्रतिमा माप	३७
(३) एक सौ आठ भागो का विशेष विवरण	४०
(४) हीनाग प्रतिमा का फल	४५
(५) खण्डित प्रतिमा का फल	४६
(६) प्रतिमा माप पर विशेष विचार	४६
(७) प्राचीन प्रतिमा का शुभाशुभ फल	४७
(८) प्रतिमा की दृष्टि का प्रमाण	४८
(९) प्रतिमा पर रेखा विचार	४९

पंचम परिच्छेद

१४ मुहूर्तावली	
(१) प्रतिमा निर्माण मुहूर्त	५१
(२) प्रतिष्ठा मुहूर्त एव शुभाशुभ योग	५१
(३) शिलान्यास मुहूर्त	५१
	६६

षष्ठ परिच्छेद

१५ पचकल्याणक पत्रिका	७४
१६. प्रतिमा एव पाण्डुक शिला प्रशस्ति	७६
१७ गुर्वाज्ञालभन विधि	७७
१८ प्रतिष्ठाचार्य निमत्रण विधि	७८
१९. मगल ध्वजारोहण	७९
२० घटयात्रा	८९
२१ यज्ञवेदी शुद्धि विधान	९३
२२ मण्डप प्रतिष्ठा	९७
२३ सकलीकरण एव मत्राराधन	१०३
२४ इन्द्रप्रतिष्ठा-नान्दी विधान	११३

सप्तम् परिच्छेद

२५ नित्यमह पूजा	१२३
(१) अभिषेक पाठ	१२५
(२) शान्ति धारा	१२७
(३) हिन्दी अभिषेक पाठ	१३२
(४) आरती	१३७
(५) विनय पाठ	१३८
(६) पूजा पीठिका एव पूजा	१४०
(७) अर्घावली	१४६
(८) शांति पाठ विसर्जन	१५८

अष्टम् परिच्छेद

२६ यागमण्डल	१६१
(१) यागमण्डल रचना	१६१
(२) यागमण्डल विधान (सस्वृत्त)	१६४
(३) यागमण्डल विधान (हिन्दी)	१९५

नवम् परिच्छेद

२७. गर्भकल्याणक पूर्व रूप	२२७
(१) इन्द्रसभा-तत्त्व चर्चा	२३०
(२) देवियों की कल्पना	२३६
(३) माता की सेवा, तत्त्व चर्चा, स्वप्न दर्शन	२३९
२८ चौबीस तीर्थकर विवरण	२४९
२९ चौबीस तीर्थकरों की पंचकल्याणक तिथिया	२५२
३१. आदिनाथ के पूर्व भव	२५३
३२ गर्भ क्रिया	२५४
(१) आकर शुद्धि विधि	२५४
(२) गर्भावतरण क्रिया	२५७
३३ गर्भकल्याण पूजा (संस्कृत)	२६०
३४ गर्भकल्याणक पूजा (हिन्दी)	२६५
३५ हवन विधि	२७१
३६ वृहच्छांति मंत्र	२८२
३७ पुण्याह वाचन	२९०
३८ गर्भकल्याणक - उत्तररूप	२९२
(१) महाराजा नाभिराय दरबार	२९२
(२) स्वप्नों का फलादेश	२९६
(३) देवियों द्वारा प्रश्नोत्तर	२९८

दशम् परिच्छेद

३९ जन्मकल्याणक	३०५
(१) जन्म क्रिया	३०९
(२) जन्मातिशय एव सस्कारारोपण	३११
(३) नामकरण	३१२
४० जन्माभिषेक	३१३
(१) पाण्डुक शिला की क्रियायें	३१३
(२) आरती	३१५
४१ जन्मकल्याणक पूजा (संस्कृत)	३१७

४२ जन्मकल्याणक पूजा (हिन्दी)	३२२
४३. पालना एवं बाल क्रीड़ा	३२७

एकादश परिच्छेद

४४ तप कल्याणक	३२९
(१) तीर्थकर का राज्याभिषेक	३३१
(२) राज्य व्यवस्था एवं राजाओ द्वारा भेट समर्पण	३३४
(३) ब्राह्मीसुन्दरी द्वारा व्रत संकल्प	३३५
(४) वैराग्य	३३६
(५) लौकातिक देवो द्वारा स्तवन	३३७
(६) दीक्षाभिषेक	३३९
४५ दीक्षावन क्रिया	३४३
(१) दीक्षा विधि	३४५
(२) अकन्यास	३४७
(३) सस्कारारोपण	३४९
४६ तपकल्याणक पूजा (संस्कृत)	३५३
४७. तपकल्याणक पूजा (हिन्दी)	३५८

द्वादश परिच्छेद

४८ ज्ञान कल्याणक	३६३
(१) आहार क्रिया	३६५
(२) वनस्थापन	३६७
(३) ध्यानस्थमुद्रा एव स्तवन	३६८
(४) तिलकदान विधि	३७०
(५) मत्रन्यास विधि	३७१
(६) अधिवासना	३७१
(७) मुखोद्घाटन	३७४
(८) नयनोन्मीलन	३७६
(९) प्राण प्रतिष्ठा	३७७
(१०) सूरिमंत्र	३७७

(११) केवलज्ञानोत्पत्ति	३७८
(१२) गुणाद्यारोपणम्	३७९
(१३) समवशरण रचना	३८१
४९ ज्ञानकल्याणक पूजा (सस्कृत)	३८५
५० ज्ञानकल्याणक पूजा (हिन्दी)	३९५

त्रयोदश परिच्छेद

५१ निर्वाण कल्याणक	४०३
(१) निर्वाण कल्याणक पर विचार	४०५
(२) निर्वाण कल्याणक	४०७
(३) गुणारोपण	४०९
(४) सिद्धपूजा	४१०
५२ निर्वाण कल्याणक पूजा (सस्कृत)	४१३
५३ निर्वाण कल्याणक पूजा (हिन्दी)	४१८
५४ गजरथ परिक्रमा	४२५
(१) रथ पूजा (चैत्यालय पूजा)	४२७
(२) रथ सचालन, परिक्रमा	४३०
५५ मण्डल विसर्जन	४३१
५६ यज्ञ दीक्षा समापन स्तुति	४३३

चतुर्दश परिच्छेद

५७ बाहुबलि बिम्ब प्रतिष्ठा	४३७
५८ मानस्तम्भ प्रतिष्ठा	४३८
५९ आचार्य बिम्ब प्रतिष्ठा	४४७
६० उपाध्याय बिम्ब प्रतिष्ठा	४५५
६१ साधु बिम्ब प्रतिष्ठा	४५९
६२ चरणपादुका प्रतिष्ठा	४६३
६३ यत्र प्रतिष्ठा	४६४
६४ वेदी प्रतिष्ठा	४६७
(१) वेदी शुद्धि विधान	४७१

(२) वेदी संस्कार	४८०
(३) बिम्ब स्थापन विधि	४८४
६५ कलशारोहण	४९३
(१) कलश शुद्धि विधान	४९६
(२) शिखर शुद्धि विधान	५००

विशिष्ट परिच्छेद

६६ भक्ति सग्रह	५०५
६७ मन्त्राधिकार	५२७
(१) मन्त्र एव मन्त्रशक्ति	५२९
(२) मन्त्र रचना	५३२
(३) जाप एव विधान मन्त्र	५४७
(४) प्रतिष्ठा सम्बन्धी मन्त्र	५५०
६८ यन्त्राधिकार	५५५
(१) यन्त्र एव यन्त्र निर्माण विधि	५५७
(२) यन्त्र फल	५५८
(३) आवश्यक यन्त्र	५६५
(४) चौबीस तीर्थकर यन्त्र	५६७
६९ भगवान् आदिनाथ के पुत्रों के नाम	५८१
७० तीस चौबीसी के तीर्थकरों की नामावलि	५८३
७१ बारह मास की तिथियों में तीर्थकरों के कल्याणक	५९५
७२ चौबीस तीर्थकरों की राशि	५९९
७३ क्या करें यदि .	६०१
७४ संदर्भित ग्रन्थ	६२१
७५. सक्षिप्त शब्द - सवेत्त सूची	६२५

शुभाशुभ

लं

शुभकामनाएं

शुभाशीर्वाद

श्री गुलाब चद्र जी "पुष्प" ने पंचकल्याणकविधि का जो संग्रह किया है, वह बहुत सुन्दर है जो गृहस्थ धर्म के लिये कार्यकारी है। "पुष्प जी" उन्नतिशील, साम्यता, सवृद्धि को प्राप्त होंगे। ग्रंथ सर्व समाज को मान्य होगा।

आचार्य विमल सागर

दिनांक ३१-१-९२

अहार क्षेत्र

पूज्य आचार्य विद्यानन्द जी महाराज के शुभाशीर्वचन

समाज मे बहुत समय से एक सर्वमान्य प्रतिष्ठा पाठ तैयार करने की मांग उठती रही है। इसी मांग के फलस्वरूप जैन समाज के प्रतिष्ठा प्राप्त सहिता सूरि पंडित नाथूलाल जी शास्त्री इन्दौर ने 'प्रतिष्ठा प्रदीप' नामक एक प्रतिष्ठा पाठ संपादित करके प्रकाशित किया है। दूसरा प्रतिष्ठा पाठ प्रतिष्ठाचार्य पंडित गुलाबचन्द जी 'पुष्प' ने तैयार किया है, जो हमारे सामने है। इसे तैयार करने मे ५० पुष्प ने बहुत परिश्रम किया है।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मे अन्य कारणो के साथ जिन महिमा दर्शन भी प्रमुख कारण है, जिन महिमा दर्शन मे जिन बिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, मानस्तम्भ प्रतिष्ठा, जिनालय का निर्माण, मस्तकाभिषेक, रथयात्रा आदि सभी धार्मिक आयोजन सम्मिलित हैं, इन्हें भक्ति भाव पूर्वक देखने, कराने और अनुमोदन करने से भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति बताई है।

पण्डित आशाधर जी ने सागर धर्माभूत मे बताया है कि जो व्यक्ति एक चावल के बराबर भी प्रतिमा बनवाकर प्रतिष्ठित कराता है और एक जौ के बराबर भी मन्दिर बनवाता है, वह नियम से मुक्ति प्राप्त करेगा। मूर्ति और मन्दिर का निर्माण आवश्यकता और उपयोगिता की दृष्टि से ही नहीं किया जाता उनके निर्माण के साथ व्यक्ति की भावना का गहरा सम्बन्ध है। जो व्यक्ति यह विचार कर मूर्ति और मन्दिर का निर्माण या प्रतिष्ठा कराता है कि इससे मेरे न्यायोपार्जित धन का सदुपयोग होगा, मेरे परिवारजनो मे धार्मिक सस्कार बने रहेंगे, अनेक भव्य जीव यहाँ आकर और दर्शन-पूजन कर आत्म - कल्याण कर सकेंगे, उस व्यक्ति के इस धार्मिक वृत्त्य का किसी तर्क से विरोध नहीं किया जा सकता। ऐसे धर्मानुरागी प्रतिष्ठापक की निर्मल भावना के कारण मूर्ति अतिशय सम्पन्न बन जाती है।

प्रतिमा किस प्रकार प्रभावक और अतिशय सम्पन्न बनती है, इसमे प्रतिष्ठापक की निर्मल भावना तो मुख्य कारण है ही, किन्तु अन्य भी अनेक कारण है। जैसे -

- (१) जिस शिला से मूर्ति निर्मित हुई है, वह निर्दोष हो।
- (२) मूर्ति निर्माता शिल्पी निर्व्यसनी हो और मूर्ति के निर्माण-काल मे ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और अभक्ष्य का भक्षण न करता हो।

- (३) प्रतिष्ठाता व्रती हो और मूर्ति या मन्दिर में लगने वाला उसका धन न्यायोपार्जित हो ।
- (४) प्रतिष्ठाचार्य व्रती और निर्लोभी हो ।
- (५) प्रतिष्ठा सम्बन्धी मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण हो तथा सूरिमन्त्र महाव्रती मुनि या आचार्य द्वारा दिया गया हो ।
- (६) मूर्ति की दृष्टि वेदी में विराजमान होने के पश्चात् शुभ फल वाली आय पर पड़ती हो ।
- (७) वेदी के नीचे जमीन में हड्डी आदि अपवित्र वस्तु न हो
- (८) मन्दिर और आसपास का वातावरण धार्मिक हो, कषाययुक्त, हिसायुक्त और विषय वासना युक्त न हो ।

ये सब कारण हो तो मूर्ति सातिशय बन जाती है । वहाँ मनुष्य ही नहीं, देवगण भी दर्शन-पूजन को आते हैं । ऐसे मन्दिर में ऐसी मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और हृदय में अपार शान्ति का अनुभव होता है । प्रस्तुत प्रतिष्ठापाठ आचार्य जयसेन के अनुसार तैयार किया गया है । उसमें जो पाठ दिये गये वे भी जयसेन प्रतिष्ठापाठ से ही लिये गये हैं । इसमें सस्कृत और हिन्दी दोनों ही भाषाओं की पूजा दी गई है । इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो मुहूर्त विचार दिया गया है, वह बहुत उपयोगी है । इसमें आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठा मयूख एवं वसुनन्दि प्रतिष्ठा पाठों से भी सहायता ली गई है ।

इस पाठ में कुछ स्थल विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं । तत्सम्बन्धी सूचनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । उदाहरणार्थ- प्रतिमा के माप के बारे में बताया है कि प्रतिमा विषम माप की बनवानी चाहिये । गृह चैत्यालय में ग्यारह अगुल से अधिक माप वाली प्रतिमा विराजमान नहीं करनी चाहिये । महावीर स्वामी, मल्लिनाथ और नेमिनाथ तीर्थकरों को छोड़कर शेष इक्कीस तीर्थकरों में से किसी तीर्थकर की प्रतिमा विराजमान करनी चाहिये । दीवाल के साथ लगी हुई तथा दीवाल के अन्दर कोई मूर्ति विराजमान नहीं करनी चाहिये । ऐसा जिनबिम्ब सर्वथा अशुभ माना है । प्रतिमा की दृष्टि शिल्पशास्त्र में विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है । यदि दृष्टि शास्त्रानुमोदित है तो प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिष्ठाकारक, उसके परिवार और नगरवासियों के लिये अत्यन्त शुभ एव उन्नतिकारक मानी गई है । यदि दृष्टि अशुभ आय पर पड़ती है तो इन सबके लिये अशुभ फलदायक होती है । इस प्रतिष्ठा पाठ में यंत्रों के चार्ट और शुभाशुभ योगचक्र दिये गये हैं । सम्पूर्ण विधि विधान विस्तारपूर्वक दिये गये हैं । आजकल जैन समाज में सिद्धचक्र विधानों, इन्द्रध्वज विधानों, पचकल्याणक प्रतिष्ठाओं और गजरथ

महोत्सवों के आयोजन बहुलता से हो रहे हैं जैन धर्म के प्रचार के लिये इन आयोजनों का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में जो पात्र बनते हैं— जैसे इन्द्र-इन्द्राणी, तीर्थंकर के माता-पिता, ये सभी एक भवावतारी होते हैं। प्रतिष्ठाओं में इनके लिये बोली बोली जाती है। इस परम्परा को बदलना है यजमान (यज्ञनायक) की योग्यता बताते हुए उसका सबसे प्रथम गुण बताया है— पाक्षिकाचार सम्पन्न, इन्द्र के गुणों में बताया है— वह त्यागी, सम्यग्दृष्टि, जितेन्द्रिय होना चाहिये। इसी प्रकार माता-पिता की स्थापना करते हुए उन्हें सम्यग्दृष्टि, आसन्नभव्य और अर्जितपुण्य जैसे विशेषणों से संबोधित किया गया है। जैन समाज में अज्ञातकाल से यह आदर्श परम्परा चली आ रही है कि तीर्थंकर भगवान की स्थापना किसी जीवित प्राणी में नहीं की जाती, न कोई मनुष्य उनका अभिनय कर सकता है। तब उनके माता-पिता की कल्पना किसी मनुष्य या स्त्री में कैसे की जा सकती है। भगवान तीर्थंकर को गर्भ में धारण करने वाली माता जगजननी कहलाती है। एक सामान्य महिला में उस जगजननी का आरोपण करना अथवा स्थापना उचित नहीं है। इसलिये पेटिका में माता की अतदाकार स्थापना करना समीचीन है।

प्रस्तुत प्रतिष्ठापाठ कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं है। इसमें कई प्राचीन प्रतिष्ठा पाठों से पाठ संकलित किये गये हैं। इसके संकलन में पंडित गुलाबचन्द जी पुष्प ने बहुत परिश्रम किया है। उन्हें मेरा शुभाशीर्वाद।

पुन्यपुन्य भारती
दिल्ली

आचार्यविद्यानन्द
(प्रेषक बलभद्र जैन)

आशीर्वाद

भगवान वीतराग की द्वादशांग वाणी में एक उपासकाध्ययन नामक अंग है, उसमें प्रतिपादित विषय ही प्रतिष्ठा ग्रंथ है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्यों ने अनेक विषय प्रतिष्ठा विधानों के वर्णित किये हैं, जैसे - वसुनन्दी प्रतिष्ठा संग्रह, अकलक प्रतिष्ठापाठ, इन्द्रनन्दी प्रतिष्ठापाठ, जयसेन प्रतिष्ठापाठ, आशाधर प्रतिष्ठा सारोद्धार, नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा तिलक, अय्यपाय प्रतिष्ठा ग्रंथ आदि।

वर्तमान समय में अपनी-अपनी इच्छानुसार जो प्रतिष्ठापाठ जिन प्रतिष्ठाचार्यों को पसन्द आया वो प्रतिष्ठाचार्य उस ग्रंथ से प्रतिष्ठा करवाते हैं, जैसे- दक्षिणात्य प्रतिष्ठाचार्य नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा तिलक से पंचकल्याणक विधि करवाते हैं। उत्तर भारत के कुछ प्रतिष्ठाचार्य तो ब्र. शीतल प्रसाद जी द्वारा संकलित प्रतिष्ठा पाठ से करते हैं तथा कुछ विद्वान जयसेन प्रतिष्ठापाठ से प्रतिष्ठा करवाते हैं। लेकिन जब तक सभी आचार्यों के प्रतिष्ठा पाठ सामने नहीं रखे जाए तब तक विषय एकांगी रहता है कहीं न कहीं कमी अवश्य होगी। सर्वांगी विषय तो तभी होता है जब सभी आचार्यों के विषयानुसार वर्णन किया जाये। सभी आचार्यों के प्रतिष्ठा ग्रंथों से संकलित करके प्रतिष्ठा सबधी संपूर्ण विधि विधान सहित प्रतिष्ठा ग्रंथ पं. गुलाब चन्द्र जी 'पुष्प' टीकमगढ का आपके सामने आ रहा है। इसमें पुष्प जी ने अपने अनुभव का पूर्ण सदुपयोग किया है। प. जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, मेरा प्रथम परिचय मुजफ्फरनगर में हुआ उनसे निकटता हुई। आपके अन्दर गुरुविनय कूट-कूट कर भरी है। आप देव शास्त्र गुरुके सच्चे श्रद्धालु प्रती विद्वान हैं। आपने जो संग्रह किया है आगमानुसार है, यह प्रतिष्ठा ग्रंथ सर्वमान्य होगा। आपको मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद।

श्री वीतरागाय नमः

जैन शासन मे मूर्ति के आलम्बन से मूर्तिमान की पूजा का विधान मिलता है। वीतराग प्रतिमाओं की उपासना करके उपासक निजात्मा को वीतरागता के पथ की ओर ले जाने में सक्षम हो जाता है।

मूर्तियों में वीतरागता के संस्कार उन जिनेन्द्र के संस्कारों को, उन गुणों को आरोपित कर मूर्ति को संस्कारित किया जाता है। जिस विधि से पाषाण को भी भगवान का रूप दिया जाता है वह विधि प्रतिष्ठा (प्राणप्रतिष्ठा) कहलाती है।

पचकल्याणक प्रतिष्ठा की इष्ट विधि का विधान 'प्रतिष्ठापाठ' नाम से अनेकों आचार्यों व पंडितों ने विधिवत लिखा परन्तु आज सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध है वह भी यत्र-तत्र बिखरी हुई नजर आती है। इस कारण प्रतिष्ठाचार्यों को पचकल्याणक विधि यथाविधि कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

पं श्री गुलाबचन्द्र जी 'पुष्प' प्रतिष्ठाचार्य ने इस दुरुह कार्य में सबके लिए उपयोगी कार्य किया है। श्री जयसेनाचार्य, नेमिचन्द्राचार्य, वसुनन्दी आचार्य आदि के प्रतिष्ठा पाठों का संकलन कर 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' को तैयार किया है। आपने यह उपयोगी कार्य करके अनुपलब्ध आगम प्रमाणों को उपलब्ध कराया है। अतः हमारा आपके लिए आशीर्वाद है। आप भी अपने जीवन को तपाग्नि में संस्कारित कर मुक्ति-पथ की ओर अग्रसर होवे।

श्री दि. जैन सिद्धक्षेत्र अहार जी
दि० १.२.१९९२ शनिवार

उपाध्याय भरतसागर

शुभाशीर्वाद

पाषाण को भगवान बनाने की, अपूज्य को पूज्य बनाने की, मूर्ति में मूर्तिमान को स्थापित करने की कला, विद्या और विधि का नाम ही श्रीमज्जिनेन्द्रपंचकल्याणकप्रतिष्ठा है। यह एक संस्कार भी है जिसके द्वारा अचेतन मूर्तियां संस्कारित हो अनेक असंस्कारित चेतनों को भी संस्कारित करती है। जिनके पावन दर्शन मात्र से ही सुख, शान्ति और आनंद की संवेदनाये प्रारंभ हो जाती है। वे सम्यक्त्वोत्पादक भव्य प्रतिमाये अवाक् पारमार्थिक उपदेश भी देती हैं।

तद्विषयक निर्ग्रथ दिगम्बराचार्यों द्वारा प्रणीत अनेक ग्रंथ हैं उनमें से प्रतिष्ठाचार्य पं. श्री गुलाबचन्द्र जी 'पुष्प' ने शताधिक प्रतिष्ठाओं के अनुभव से संपूर्ण विधि विधान सहित सुसज्जित करने का प्रयास किया है।

निष्कषभाव विशालतम दृष्टिक्र सवेत्त है तथा अन्यूनमनतिरिक्तम् भाव आगम निष्ठा और उसकी अखण्डता का प्रतीक है। तदनुसार मेरा उन्हें शुभाशीर्वाद है। वे भविष्य में भी पारमार्थिक कार्य करते हुये अपने पथ को प्रशस्त करते रहें।

ॐ नमः ।

फाल्गुन अष्टमि २५२९

टीकमगढ़

आचार्य विरागसागर

श्री शान्तिनाथाय नमः 'मंगलं बिम्बनिर्मितं'

विचारो मे अनेकान्त, वाणी मे स्याद्वाद, आचार में अहिंसा व्यवहार मे अपरिग्रह के शाश्वत सिद्धांत का अमृत स्नान कराने वाले जैन शासन के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के वीतरागमयी शासन मे विविध जैनाचार्य हुए हैं। हमारे आत्मानुभवी दिगम्बराचार्यों ने भव्य जीवो की आत्मा के चरमोत्कर्ष हेतु विविध धर्मग्रन्थो की रचनायें की। अर्हद्भक्ति हेतु हमारे लब्धप्रतिष्ठित आचार्यों ने जिन बिम्बों एवं जिनायतनों का नव-निर्माण कराकर मिथ्यात्व के गहन अघकार से सम्यक्त्व के प्रकाश में पवित्र आचार-विचारो से परिपूर्ण नैष्ठिक श्रावक धर्म धारण हेतु विविध प्रतिष्ठा-पाठों की रचना की है। आज भारतवर्ष मे जगह-जगह नवीन जिनायतनो का निर्माण हो रहा है। समय-समय पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवो का विशाल आयोजन भी हुआ करता है। पिछले कई वर्षों से एक ऐसे प्रतिष्ठा पाठ की आवश्यकता थी जिसमे प्रतिष्ठा विधि-विधान के साथ ज्योतिष का भी विषय समाहित हो। इस अभाव को दूर करने हेतु श्रीमान् वाणीभूषण, प्रतिष्ठाचार्य गुलाबचन्द्र जी शास्त्री 'पुष्प' जी ने अथक श्रम करके एक नवीन प्रतिष्ठा पाठ का आकर्षक सकलन किया है। हमने उसकी फोटोस्टेट कापी आद्योपांत सूक्ष्म दृष्टि से देखी है। सस्कृत भाषा के साथ-साथ आपने हिन्दी पद्यानुवाद भी इसमे दिया है। जिसका प्रकाशन अतिशीघ्र होने जा रहा है। मैं वाणीभूषण प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान् गुलाबचन्द्र जी 'पुष्प' को अपना पुण्य पीयूषवाणी शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इनकी भावना उत्तरोत्तर जिन शासन की पुण्य प्रभावना मे बनी रहे। पंचम काल में भव्य जीवों की आत्मा के उत्थान हेतु एक मात्र भगवद्भक्ति ही ऐसा सुगम मार्ग है। जिस पर चलकर वे अपनी आत्मा को समीचीन धार्मिक सस्कारो से संस्कारित कर अपनी आत्मा को सिद्ध शिला पर पहुचने की पात्रता बना सकते हैं। प्रतिष्ठा ग्रन्थ के माध्यम से प्रतिष्ठाचार्य गण निरतिचार जिनबिम्बप्रतिष्ठा करायें यही मंगल कामना है।

शुभाशीर्वाद

आनन्द सागर मुनि

शुभकामना

पंडित प्रवर गुलाब चन्द्र जी 'पुष्प' द्वारा संकलित 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' ग्रंथ की विषय सूची देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैसे सारी प्रतिष्ठा विधि हृदयगम कर ली हो। मेरा आगम अभ्यासी प्रतिष्ठाचार्यों से निवेदन है कि 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' के गूढ़ रहस्य को समझकर प्रतिष्ठाविधि करते हुये पण्डित पुष्प जी की महान मेहनत को सफल बनावें।

मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि पंडित जी का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहे यही शुभकामना है।

दिनांक ४.३.९४

निवाई (टाँक) राजस्थान

डॉ. सूरजमल जैन

अखिल भारत वर्षीय दिग. जैन विद्वत्परिषद् ने एक सर्वमान्य प्रतिष्ठा पाठ के प्रकाशन का विचार किया था। तदनुसार समाज के मान्य प्रतिष्ठाचार्य संहितासूरि पं. नाथूलाल जी शास्त्री इन्दौर और वाणीभूषण प्रतिष्ठा दिवाकर पं. गुलाब चन्द्र जी 'पुष्प' ने प्रतिष्ठा पाठ का संकलन किया था। कुछ विचार विषमता के कारण विद्वत्परिषद् इन सकलनो के प्रकाशन की व्यवस्था नहीं कर सकी। इनमे से पं. नाथूलाल जी शास्त्री के द्वारा संकलित प्रतिष्ठा प्रदीप इन्दौर से प्रकाशित हो चुका है और पं. गुलाब चन्द्र जी के द्वारा संकलित 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' मुजफ्फरनगर उ.प्र. से प्रकाशित हो रहा है। आशा है समाज में प्रतिष्ठा जैसे महान पुण्यवर्धक कार्य को सम्पन्न करने वाले प्रतिष्ठाचार्य विद्वान इन प्रकाशनों से लाभान्वित होंगे। समाज में प्रचलित आम्नाओं के अनुसार कुछ क्रियाओं में मतभेद अवश्य है पर उसे संघर्ष का कारण न बनाकर जिन धर्म की प्रभावना का ही अंग बनाया जावे, यह मेरी भावना है।

श्री वर्णी दि. जैन गुरुकुल
जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. पन्नालाल जैन,
साहित्याचार्य (सागर)

अर्पण

परम आदरणीय सहिता सूरि, प्रतिष्ठा दिवाकर प प्रवर गुलाबचन्द्र जी 'पुष्प' द्वारा सकलित 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' आपके हाथो मे है ।

पुराने नये प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य एव गृहस्थो को यह प्रतिष्ठा ग्रथ अत्यधिक उपयोगी होगा । यह ग्रथ मतमतातरो सेरहित है, क्योकि प्रतिष्ठा किसी पथ से सम्बंधित नही होती यह शुद्धाम्नाय की क्रियाओ की निर्देशिका है । इस प्रतिष्ठा ग्रथ के संकलयिता स्वय भारत प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य है, शताधिक प्रतिष्ठाये सम्पन्न करा चुके है । आप देशव्रती, सयमी, मितभाषी व्यक्तित्व के धनी है । मेरे जीवन के लगभग २० वर्ष उनके सान्निध्य मे बीते हैं । प्रवचनकर्ता के रूप में अत्यधिक निकट से उनकी चर्या को भीतर एव बाहर से देखने का अवसर मिला । आप आगम ज्ञाता, अनुशासन प्रिय एव मुनिभक्त है, आपका अधिकांश जीवन आचार्यो/ मुनिराजो के श्रीचरणो में बीता है । अनेक धार्मिक समारोहो मे कई उपाधियो से सम्मानित किये गये है ।

आचार्यो एव मुनिराजो के मंगल आशीर्वाद एव जैन जगत के मान्य विद्वानो मे अपने अभिमतो से इस ग्रथ की गरिमा के साथ-साथ प्रामाणिकता को बढाया है । परमपूज्य राष्ट्रसत विद्यानन्द जी महाराज ने स्वय इस ग्रन्थ को आद्योपान्त देखा और अनेक सुझाव देकर आशीर्वाद दिया है । संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज एवं समस्त सघ का अत्यधिक आशीर्वाद एव मार्ग निर्देशन मिलता रहा है । जहा तक मैंने देखा है इस प्रतिष्ठाग्रथ को आगमानुसार लिखा गया है जिसका प्रमाण सदर्भित ग्रंथ सूची है । प्रत्येक क्रिया का विधिवत् विवेचन है । मत्रो की शुद्धि पर अत्यधिक ध्यान रखा गया है । अनेक सतो के सान्निध्य मे इस ग्रथ से प्रतिष्ठाये कराई गई हैं ।

प्रतिष्ठाविधि को जो भी जानना चाहते है, विधि-विधान के कार्यों में जिनकी रुचि है, ऐसे जिज्ञासुओ को पुष्प जी द्वारा सकलित प्रतिष्ठा रत्नाकर ग्रथ अत्यधिक उपयोगी होगा । मेरी भावना है कि नवोदित विद्वान इस सकलन से लाभ लेकर अपने जीवन मे सफल होंगे ।

अन्त मे मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूँ कि मुझे अपनी भावना एवं विचारो के अर्पण करने का अवसर मिला । यह ग्रथ शताब्दियो तक प्रकाशस्तंभ का कार्य करता रहे इसी भावना के साथ ... ।

किलाअंदर, चौबेजी के मंदिर के पास
विदिशा (म०प्र०)

सागरमल जैन

शुभकामना

पंडित प्रवर गुलाब चन्द्र जी 'पुष्प' द्वारा संकलित 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' ग्रंथ की विषय सूची देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैसे सारी प्रतिष्ठा विधि हृदयगम कर ली हो। मेरा आगम अभ्यासी प्रतिष्ठाचार्यों से निवेदन है कि 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' के गूढ़ रहस्य को समझकर प्रतिष्ठाविधि करते हुये पण्डित पुष्प जी की महान मेहनत को सफल बनावें।

मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि पंडित जी का ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहे यही शुभकामना है।

दिनांक ४.३.९४

निवाई (टोंक) राजस्थान

ब्र. सूरजमल जैन

अखिल भारत वर्षीय दिग जैन विद्वत्परिषद् ने एक सर्वमान्य प्रतिष्ठा पाठ के प्रकाशन का विचार किया था। तदनुसार समाज के मान्य प्रतिष्ठाचार्य सहितासूरि प नाथूलाल जी शास्त्री इन्दौर और वाणीभूषण प्रतिष्ठा दिवाकर प. गुलाब चन्द्र जी 'पुष्प' ने प्रतिष्ठा पाठ का संकलन किया था। कुछ विचार विषमता के कारण विद्वत्परिषद् इन संकलनों के प्रकाशन की व्यवस्था नहीं कर सकी। इनमें से प नाथूलाल जी शास्त्री के द्वारा संकलित प्रतिष्ठा प्रदीप इन्दौर से प्रकाशित हो चुका है और पं गुलाब चन्द्र जी के द्वारा संकलित 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' प्रीत विहार, दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है। आशा है समाज में प्रतिष्ठा जैसे महान पुण्यवर्धक कार्य को सम्पन्न करने वाले प्रतिष्ठाचार्य विद्वान इन प्रकाशनों से लाभान्वित होंगे। समाज में प्रचलित आम्नाओं के अनुसार कुछ क्रियाओं में मतभेद अवश्य है पर उसे संघर्ष का कारण न बनाकर जिन धर्म की प्रभावना का ही अंग बनाया जावे, यह मेरी भावना है।

श्री वर्णी दि. जैन गुरुकुल
जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. पन्नालाल जैन,
साहित्याचार्य (सागर)

मन्दिर निर्माण विधि (१)

शुद्धे प्रदेशे नगरेऽप्यटव्या नदीसमीपे शुचितीर्थभूम्याम् ।
 विस्तीर्णशृंगोन्नतवेक्रुमाला विराजित जैनगृहं प्रशस्तम् ॥
 शुद्धे मुहूर्ते किल वास्तुशान्ति विधाय सीमानमकालदोषम् ।
 खनेत्सुवर्णोद्धृतयत्रपीठ निवेश्य तद्द्वारसमीपवर्ति ॥
 स्थान परीक्षा च दिशा च साधन वस्त्वर्चनं मडललेखनार्चने ।
 ग्रावानिवेशो भुवनस्य लक्षणं शैलानयश्चेति तदष्टधा मतम् ॥
 जलाशयारामसमग्रशोभा वल्मीकजलुप्रविचारवर्ज्या ।
 कीलास्थिदग्धाश्मविवर्जिताभूरत्र प्रशस्या जिनवेश्मयोग्या ॥
 तत्राध्वरं गर्तमधः खनित्वा तद्दोषवर्ज्यं यदि तेन पाशुना ।
 प्रपूरयेन्न्यूनसमाधिकेषु भंगं समं लाभ इति प्रशस्यते ॥
 सीम्नि प्रखाते प्रथम शुभेऽह्नि घृतोद्भव दीपमुपांशुमंत्रैः ।
 संयोज्य ताम्रे कलशे पिधाय न्यसेत् सयंत्रं कनकं तदूर्व्याम् ॥
 व्यपोहन नो लभते प्रदीपस्तथाद्वषदिभिः खनितोर्ध्वकुड्ये ।
 नयेद् व्रतारभनिवेदनादिकर्ता विदध्याज्जनसाक्षियुक्तम् ॥
 तत्स्थानवासान्निखिलान्सुरादीन् सतोष्य पंचेशसुमंडलेन ।
 पूजां विधायेतरदीनजंतून् सन्मानयेत्कारुणिको महात्मा ॥
 चैत्रादिमासे विषुव प्रसाध्य दिग्मूढतापोहनपूर्वमत्र ।
 मुख तु शक्रोत्तरपश्चिमासु कुर्याज्जिनेशालयकस्य मुख्यम् ॥
 तत्क्षेत्रं पंचविशत्यवधिपरिमितं सविभज्यात्र मध्ये ।
 निध्यंशे मध्यकोष्ठे जिनपतिनिलयं पार्श्वयोः सिद्धपाट्यौ ॥
 आचार्यश्चोर्ध्वभागे तदितरगृहयोरगमो धर्मतीर्थ -
 मग्रे साधुर्विधानालययजनपरिष्कारगेहं निवेश्यम् ॥
 पूर्वोत्तर दक्षिणमस्य कार्यं द्वार तथा पूर्वदिशासु नृत्य -
 गीतालयं चोत्तरमर्थशास्त्रसद्वाचनागेहमतः प्रशस्तम् ॥
 पाश्चात्यभागे द्रविणालयादिविद्यालयं दक्षदिशिप्रदक्षिणा ।
 जिनालयादेः परितोऽत्र कार्या प्राचीनयंत्रोपमसंनिवेशतः ॥

होना लिखा गया है, उनको अर्घ प्रदान करना भयकर भूल है।

यद्यपि प्रतिष्ठा पाठों में उनको 'अर्घ्यं गृहाण गृहाण' इन शब्दों के द्वारा जो अर्घ देने की बात लिखी है वह इस अभिप्राय से लिखी है कि जैसे हम लोग पूजा के अंत में जयमाला पढते समय उपस्थित समुदाय को अर्घ देकर पूजा में शामिल होने का उन्हें शुभ अवसर देते हैं इसी प्रकार इन्द्र ने जिन सेवकों को (देवों को) उन कल्याणकों में अपना अपना नियोग (कार्य) करने की आज्ञा दी है वह उन्हें भी भगवान की पूजा में सम्मिलित कर पूजा करने का शुभ अवसर देता है न कि उनकी पूजा करता है।

जिनागम के अनुसार भवनवासी, व्यतर, ज्योतिष देव इन तीनों निकायों में कोई सम्यक् दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता किन्तु उनमें ऐसे समारोहों के प्रसंग पर किसी को सम्यक् दर्शन हो भी सकता है, तथापि इन्द्र जैसी उत्कृष्ट पदवी के धारक सुरेन्द्र के द्वारा अपने उन सेवकों को अर्घ देकर उनको जिनेन्द्र की तरह मंत्र बोलकर बराबरी से अर्घ प्रदान करने की क्रिया जिनागम के सर्वथा विरुद्ध है। सरागी देवता होने से जिनागम में उनकी पूजा स्वयं निषिद्ध है।

यदि जैसे प्रतिष्ठा के इन्द्रादि पात्रों की स्थापना योग्य व्यक्तियों में की जाती है इसी प्रकार इन शासन देवताओं की स्थापना भी योग्य व्यक्तियों में की जाये तो कोई भी सौधर्म इन्द्र बनने वाला व्यक्ति उनको अर्घ-दान कर पूजा नहीं करेगा, उसका स्वयं विवेक जागृत होगा और ये विसंगतियाँ स्वयं दूर हो जावेगी। आशा है प्रतिष्ठाचार्यों का ध्यान इस भूल के सशोधन की ओर जायेगा। इस प्रतिष्ठापाठ में जिनागम के अनुकूल पूजा पाठ का ध्यान रखा गया है इसके लिए प्रतिष्ठाचार्य श्री गुलावचंद जी 'पुष्प' धन्यवाद के पात्र हैं।

एक विषय प्रतिष्ठाचार्यों के लिए और भी विचारणीय है। भगवान के पांच कल्याणक हो जाने पर वह मूर्ति सिद्धपरमेष्ठी की हो जाती है। अरिहत परमेष्ठी के चार ही कल्याण होते हैं पर हम अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा मानकर मंदिरों में स्थापित करते हैं यह परंपरा उत्तर-भारत में चली आ रही है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है दक्षिण भारत के प्रतिष्ठाचार्य केवल चार कल्याणक करते हैं।

बुदेलखण्ड में 'गजरथ' के साथ प्रतिष्ठा होती है और गजरथ केवली भगवान के विहार का प्रतीक है ऐसी स्थिति में यह विचारणीय हो जाता है कि प्रतिमा के पांचों कल्याण हो जाने के बाद विहार की क्रिया कैसे सगत है। यह विषय भी विद्वानों के लिए विचारणीय है।

इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि सभी पक्ष के विद्वान एवं प्रतिष्ठाचार्यों की एक सम्मिलित गोष्ठी हो और उसमें इन विषयों पर आगमानुकूल विचार कर निर्णय लिया जावे ।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि जिस प्रकार न्याय, धर्म, व्याकरण आदि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण होने पर ही विद्वान परीक्षा के अनुसार शास्त्री या आचार्य पद को प्राप्त करता है इसी प्रकार प्रतिष्ठाचार्य परीक्षा का भी परीक्षालयों में कोर्स रखा जाये और परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उन्हें किसी प्रतिष्ठित निपुण प्रतिष्ठाचार्य के पास कार्य करने की पद्धति की ट्रेनिंग लेना भी आवश्यक है माना जाय और ऐसे ही व्यक्तियों को प्रतिष्ठाचार्य माना जाये तथा उनके द्वारा ही प्रतिष्ठा के कार्य सम्पन्न हो तो प्रतिष्ठा में भी एक रूपता आ सकती है और कार्य भी आगमानुकूल सुचारु रूप से सम्पन्न हो सकते हैं ऐसी मेरी विद्वानों से विनय है ।

प्रस्तुत प्रतिष्ठा पाठ मैंने एक बार देखा है और वर्तमान में उसकी सूची मेरे पास उपलब्ध है इसलिए मैं 'पुष्प' जी के इस कार्य की सराहना करता हूँ । उनकी यह कृति उनके कल्याण के लिए हो ।

श्री महावीर उदासीन आश्रम

कुंडलपुर - २ अक्टूबर १९९२

जगन्मोहन लाल शास्त्री

सम्पादकीय

हमें प्रसन्नता है कि जिस कृति की हमारे पाठकगण और प्रबुद्ध विद्वज्जन चिर समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब उनके समक्ष है। वास्तव में किसी विशिष्ट रचना के तैयार करने में उसके लेखक को समय लगता है, यह वे जानते हैं।

आज हमें प्रसन्नता है कि सहितासूरि, प्रतिष्ठाचार्य पण्डित गुलाब चंद्र जी 'पुष्प' टीकमगढ द्वारा, जो सौ से ज्यादा प्रतिष्ठाएं करा चुके हैं और जिन्हें पैतृक-परम्परा से प्रतिष्ठा सम्बंधी अनुभव प्राप्त हैं। उनका अभिनव प्रतिष्ठाग्रथ प्रकाश में आ रहा है, यह भी सरस्वती के भण्डार को समृद्ध करेगा। साथ ही उनके यश को बढ़ायेगा। पुष्प जी ने तेरहवीं शताब्दी के विश्रुत आचार्य जयसेन के सस्कृत 'प्रतिष्ठापाठ' को अपने प्रतिष्ठाग्रथ का आधार माना है। इसमें सदेह नहीं कि आचार्य जयसेन का प्रतिष्ठापाठ शताब्दियों से बहुप्रचलित रहा है। पण्डित आशाधर जी ने अपने जिनयज्ञकल्प का उसे मूलाधार माना है। ब्र. शीतल प्रसाद जी ने उसका अनुसरण किया है और अपना प्रतिष्ठापाठ लिखा है।

पुष्पजी द्वारा कराई गयी कई जिनबिम्ब प्रतिष्ठाओं में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला है। उनके विधि विधानों को देखकर मुझे शास्त्रीय प्रमाण बिना खोजे मिल गये।

प्रस्तुत कृति का नाम 'प्रतिष्ठा-रत्नाकर' है, जो 'यथानाम तथा गुण' को चरितार्थ करता है। इसमें जैन सस्कृति में निर्दिष्ट प्रायः सभी धार्मिक क्रियाओं एवं अनुष्ठानों का संयोजन/ आकलन किया गया है। मंगलाष्टक/मंगलपाठ से लेकर जिनबिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा तक की क्रियाओं का इसमें शास्त्रीय प्रमाणों के साथ विशद विवेचन किया गया है। सुयोग्य विद्वान प्रतिष्ठाचार्य ने प्रतिष्ठा एवं अनुष्ठान सम्बन्धी ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा, जिस पर उन्होंने प्रकाश न डाला हो। बल्कि कई विषय तो ऐसे हैं, जो इस परम्परा में नहीं हैं और अज्ञात चले आ रहे हैं। पर पैतृक परम्परा से वे उन्हें ज्ञात थे। यशस्वी कृतिकार ने उन्हें भी इसमें दिया है। अतएव इसे 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' नाम देना उचित एवं सार्थक है।

मंगलाष्टक का एक विचारणीय पदः

प्रत्येक धार्मिक क्रिया मंगलपाठ पूर्वक की जाती है। इस ग्रन्थ में भी मंगल पाठ के रूप में मंगलाष्टक दिया गया है। यह मंगलाष्टक जैन सस्कृति उत्सवों के आरम्भ में अवश्य पढा जाता है। इसमें सस्कृत-भाषा में निबद्ध नौ (९) पद्य हैं। इसके पॉचवे पद्य में 'गणभृत्' (गणधरो) को 'कुर्वन्तु ते मंगलम्' पद्यान्त पद के द्वारा मंगल-प्रदाता

कहा गया है। इसमें 'गणमृतः' के छह विशेषणों में एक विशेषण 'पंचज्ञानधराः' है, जिसका अर्थ है पाँच ज्ञान के धारक। किन्तु गणधर चार क्षायोपशमिक ज्ञानों के ही धारी होते हैं, पाँच ज्ञान के धारी नहीं, क्योंकि पाँचवें ज्ञान 'केवलज्ञान' है और वह क्षायिक होता है तथा उक्त चार क्षायोपशमिक और यह एक क्षायिक केवलज्ञान एक साथ नहीं होते। फिर मंगलाष्टककार ने गणधरों को पंच-ज्ञानधारक कैसे कहा? भारतीय ज्ञान-पीठ से ई. १९५७ में प्रकाशित और हिन्दी में अनूदित 'ज्ञानपीठपूर्जांजलि' में भी उक्त विशेषण का अर्थ 'पाँच प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न' यही किया गया है। ऐसी स्थिति में मंगलाष्टककार की इस विसंगति अथवा भूल का क्या परिमार्जन हो सकता है?

जहाँ तक हम समझते हैं, मंगलाष्टक के इस पद में पाँच ज्ञान क्रमशः विवक्षित हैं, युगपत् नहीं। आरम्भ में गणधरों के मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ये चार क्षायोपशमिक ज्ञान ही होते हैं। इसके बाद वे सर्वज्ञानी-केवल ज्ञानी होते हैं। आचार्य कुन्द कुन्द की 'योगि-भक्ति' गत निम्न गाथा से यही स्पष्ट जान पड़ता है—

आभिणिबोहि य सुद ओहिणाणि मणणाणि सच्चणाणी य।

वंदे जगम्पदीवे पच्चक्ख परोक्खणाणी य ॥

इस गाथा में पाँच सम्यज्ञानों का उल्लेख हुआ है और उन्हें तत्त्वार्थ सूत्रकार की तरह प्रत्यक्ष तथा परेक्ष ज्ञानों में विभक्त किया है। यहाँ आभिनिबोधिज्ञान मतिज्ञान को कहा गया है। ये पाँचो विशिष्ट ज्ञान योगियों के होते हैं और गणधर अनेक ऋद्धियों तथा अष्टांग महानिमित्तों से युक्त होने से योगी ही हैं। अतः क्रम की अपेक्षा गणधरों को पाँच ज्ञान सम्पन्न कहा जाना असंगत नहीं है और न भूल है। भावीनय की विवक्षा से ऐसा कहा जा सकता है अथवा किसी प्रति में 'चातुर्ज्ञानधराः' पद उपलब्ध हो तो वह अन्वेषणीय है। उस स्थिति में इसी पद के साथ इसे पढा जाना चाहिए। तथा इसे ही शुद्ध पाठ समझना चाहिए।

जिन-विम्ब प्रतिप्य आंर स्थापना - निक्षेप :-

पदार्थों को जानने के लिए जहाँ प्रमाण और नय तथा उनके भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है वहाँ उनका सम्यक् व्यवहार एवं अव्यभिचार के हेतु अर्थात् अमुक को अमुक ही व्यवहृत करने के लिए चार निक्षेपो/किसी में किसी को रखने का कथन किया गया है। जेनागम का बहुश्रुत ग्रन्थ तत्त्वार्थ सूत्र है। उसमें कहा है - 'नामस्थापना द्रव्यभावतरस्तन्यासः' (१) - अर्थात् उन जीवादि एवं सम्यक्दर्शन आदि का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार से न्यास /निक्षेप होता है। तात्पर्य यह है कि उनका इन चार के द्वारा व्यवहार विशेष होता है।

१ संज्ञा (ज्ञाम) के अनुसार गुणरहित वस्तु में जो संज्ञा मात्र परस्पर व्यवहार के लिए रखी जाती है वह नाम निक्षेप है। जैसे किसी का सुन्दर न होते हुए सुन्दर नाम रखना। यह मात्र व्यवहार के लिए है।

२ काष्ठ, पाषाण, मिट्टी, धातु आदि के आकार में अथवा आकार रहित में 'वह यह है' इस प्रकार उसे स्थापित करना स्थापना-निक्षेप है। जैसे पार्श्वनाथ अरिहन्त के आकार की बनायी प्रतिमा में 'वह यह है' इस प्रकार उनकी स्थापना करना।

३ जो गुणों से प्राप्त था अथवा गुणों को प्राप्त करेगा वह द्रव्य निक्षेप है। जैसे कोई पहले राजा था या कोई राजा बनेगा उसे वर्तमान में राजा कहना।

४ जो वर्तमान पर्याययुक्त है उसे भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे राज्य करते हुए पुरुष को राजा कहना।

लोक व्यवहार इन चारों निक्षेपों से होता है। अतएव जैन दर्शन में इन चारों निक्षेपों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृत में स्थापना-निक्षेप से प्रयोजन है। उसी के सम्बन्ध में यहाँ प्रकाश डाला जाता है।

स्थापना के दो भेद हैं - १. सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना का दूसरा नाम तदाकार स्थापना है और असद्भावस्थापना को अतदाकार स्थापना कहा जाता है। प्रतिष्ठाचार्य पीतल, चादी, स्वर्ण आदि मान्य धातुओं एवं पाषाण के तदाकार जिनबिम्ब, जिनमूर्ति, जिनप्रतिमा में शास्त्रोक्त विधि से शुद्धि तथा मंत्रपूर्वक पचकल्याणको के साथ अरिहन्त के ४६ गुणों (३४ अतिशयो, ८ प्रातिहार्यों और ४ अनन्तचतुष्टयों) की स्थापना/ समारोपण करते हैं तभी वह मूर्ति साक्षात् अरिहन्त तीर्थंकर की तरह परमपूज्य, सम्माननीय एवं अर्चायोग्य होती है। यही कारण है कि स्थापना निक्षेप और भाव-निक्षेप में अन्तर नहीं बतलाया है। यहाँ तक कि साक्षात् अरिहन्त की तरह जिनमूर्ति के दर्शन-भक्ति-पूजादि को सम्यक्दर्शन की उत्पत्ति का कारण कहा गया है। इस दृष्टि से जिन-बिम्ब-पचकल्याणक-प्रतिष्ठा और जिन-बिम्ब प्राणप्रतिष्ठा-ये दोनों नाम एकार्थक हैं, क्योंकि मूर्ति में ४६ गुण रूप प्राणों की प्रतिष्ठा-स्थापना की जाती है। हिन्दू देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा में लौकिक कामनाएँ निहित रहती हैं। इसके विपरीत जैन मूर्तियों की प्रतिष्ठा में लोक-मुक्ति और आध्यात्मिक जीवन-निर्माण की भावनाएँ की जाती हैं, जिनमें साक्षात् एवं परम्परया पर निश्रेयस और अपरनिश्रेयस अन्तर्निहित रहते हैं।

कुछ विद्वान^(१) जिन-बिम्ब प्राण-प्रतिष्ठा और जिन-बिम्ब पच कल्याणक-प्रतिष्ठा में दार्शनिक भेद बतलाते हैं किन्तु उक्त प्रतिपादन के प्रकाश में देखेंगे, तो उन्हें वह भेद

(१) 'प्राण-प्रतिष्ठा और बिम्ब-प्रतिष्ठा में दार्शनिक भिन्नता' शीर्षक लेख सागरचंद दिवाकर सागर दि जैन महा समिति पत्रिका, नई दिल्ली, वर्ष ५ अंक १६

दिखाई नहीं देगा । आशा है वे अपने चिन्तन पर गहराई से पुनः विचार करेंगे ।

कृतिकार प्रतिष्ठाचार्य पं. गुलाबचन्द जी 'पुष्प':

इस महत्वपूर्ण कृति के रचयिता आदरणीय 'पुष्प' जी हैं, जो जैन समाज के लब्ध प्रतिष्ठ प्रतिष्ठाचार्य हैं और जिन्होंने शताधिक प्रतिष्ठाएँ कराके विपुल यश प्राप्त किया है । लाखों लोगों की उपस्थिति में उनके द्वारा ये प्रतिष्ठाएँ हुई हैं तथा वाणी भूषण, प्रतिष्ठा रत्ना सहिता सूरि प्रतिष्ठा दिवाकर जैसी उपाधियों और सम्मान प्राप्त किया है । आपका व्यक्तित्व प्रभावक और आकर्षक है । प्रतिष्ठा कराने की आपकी पद्धति अत्यन्त निराली है । सुयोग्य प्रवक्ता होने के साथ-साथ मंच से भाषण देने में भी कुशल है ।

चारित्र तो आपके जीवन का प्रधान अंग है । हम इस कृति के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं ।

१५ जनवरी १९९६
बीना (इटावा)
सागर म०प्र०

पं० (डा०) दरबारी लाल कौठिया
सेवानिवृत्त रीडर
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय - वाराणसी

पंच कल्याण बनाम शिलापुत्र का जन्म

-उपाध्याय गुप्तिसागर मुनि

सहज प्रश्न हैं, पंच कल्याणक क्यों? जब हम समाधान पाने प्रश्न की तह में उतरकर इतिहास का अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि "पंच-कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शान्ति महायज्ञ" विश्व कल्याण एव विश्व शान्ति की दृष्टि से किया जाता था, है क्योंकि प्रतिष्ठा विधान में अनेक विधियाँ एव मंत्र विश्व कल्याण/क्षेम की शुभकामनाओं से भरे हुए हैं। पंच कल्याणक के क्रिया कलाप न केवल शिलापुत्र (वीरसेन स्वामी ने मूर्ति को शिलापुत्र कहा है) को जीवन्त और पूज्य पद प्रदान करते हैं प्रत्युत जैन दर्शन की महती प्रभावना करते हुए सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति, वृद्धि तथा स्थिति का प्रबल सशक्त कारण भी बनते हैं। ये धार्मिक क्रिया-कलाप अनेक जीवों में जहाँ एक ओर धार्मिक सस्कारों का बीजारोपण करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतिष्ठित प्रतिमाओं में अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ भी उद्भूत करते हैं बशर्ते सम्पूर्ण क्रियाएँ क्रिया विधि एव पूर्ण शुद्धता के साथ सम्पन्न होती हुई आडम्बरो से अस्पर्शित हो।

जब तक पूर्ण शुद्धि, सम्पूर्ण विधि-विधान, श्रद्धा, न्यायोपात्त द्रव्यादि, प्रतिष्ठेय मूर्ति की निर्दोषता एव प्रतिष्ठा पात्रों को प्रतिष्ठा विधानानुसार ध्यान नहीं रखा जाता तब तक प्रतिष्ठा अधूरी है, क्योंकि प्रतिष्ठाचार्य का मंत्र, तत्र, विधि, वास्तुविद्या, शकुन निमित्त, ज्योतिष प्रभृति विषयक तलस्पर्शी ज्ञान प्रतिष्ठेय प्रतिमा में चमत्कार उत्पन्न करने की जितनी महत्वपूर्ण अपेक्षा रखता है, उतनी ही प्रतिष्ठा पात्रों की योग्यता भी। वस्तुतः प्रतिष्ठा जैसे गुरुतर कार्य के लिए पल्लवग्राही पांडित्य से काम नहीं चल सकता है।

धातु या पाषाण की मूर्ति में 'जिनेन्द्र' की स्थापना, प्रतिष्ठा बच्चों का खेल नहीं है। प्रतिष्ठा के लिए कुछ ऐसे विशिष्ट तत्व हैं जिन्हें आज अनदेखा किया जा रहा है।

1. सर्वप्रथम कुभ स्थापना, कुभ यात्रा स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा होनी चाहिए। जिनके माता-पिता, सास-श्वसुर जीवित हैं एव जो पुत्रवती भी हो।
2. तीर्थकर मुनि की दीक्षा के दिन यजमान, इन्द्र, इन्द्राणी एव अन्य पुजारी लोगों को उपवास रखना चाहिए। अगले दिन विधिपूर्वक तीर्थकर मुनि के आहार के पश्चात् उन्हें पारणा करना चाहिए।

जैसा कि जयसेन प्रतिष्ठा पाठ में दृष्टव्य है—

तत्रोपवास मघवा तथार्यो यज्वा शची चान्यमहे नियुक्ता ।
विदध्युरुर्ध्वं विधिना हि मध्य दिने जिनाग्रे चरुपूजनानि ॥
तदैव पंचाद्भुतवृष्टिरग्रे बिम्बस्य पुष्पाजलिना समेता ।
योज्वा ध्वनि तूर्य गणैर्विधाय भुजीयुरन्यानपि भोजयित्वा ।

3 तीर्थकर मुनि ऋषभदेव को युवराज श्रेयांस, राजा सोमप्रभ एव रानी लक्ष्मीमती ने केवल तीन अजलि इक्षु रस द्वारा आहार विधि सम्पन्न कराई थी। ऋषभदेव

के अलावा शेष तीर्थकर मुनियो ने केवल क्षीरान्न (खीर) द्वारा ही प्रथम पारणा की थी, किन्तु आज कितनी विडम्बना है कि तीर्थकर मुनि के समक्ष सभी प्रकार के फलादिक का आहार दिया जाता है, जो लौकिक दृष्टि से भी तीर्थ प्रवर्तक के अनुकूल नहीं है।

४ प्रतिष्ठाचार्य को तीर्थकर मुनि की नाभि में तिलक दान कराते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि तिलक दान की केशर आदि सामग्री स्वर्ण सौभाग्यवती शशि या अन्य इन्द्राणी से पिसवाये।

इत्यादि ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान प्रतिष्ठाचार्य को अवश्य रखना चाहिए। जैन समाज में प्रतिष्ठा लब्ध पं गुलाब चन्द पुष्प जी सुलझे एव विवेकी प्रतिष्ठाचार्य हैं। इन्होंने कोई परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कीं, अपितु

आचार्यः पादमाचष्टे पादः शिष्य स्वमेधया।

तद्विज्ञसेवया पाद पादः कालेन पच्यते।।

घवला ग्रन्थ के टीकाकार आचार्य वीरसेन महाराज के इस श्लोकानुसार पुष्प जी ने प्रतिष्ठा का एक पाद अपने पिता (गुरु) श्री मन्नू लाल जी से, प्रतिष्ठा का द्वितीय पाद अपनी बुद्धि से, तृतीय पाद प. पन्नालाल जी सागर, पं नाथू लाल जी शास्त्री संहिता सूरि इन्दौर, पं जगन्मोहन लाल शास्त्री कटनी आदि विद्वानों के सान्निध्य से एवं चतुर्थ पाद का ज्ञान अपनी बढ़ती हुई उम्र के तजुबों से हासिल किया। परिणामस्वरूप आगम ग्रन्थों एवं प्रतिष्ठा ग्रन्थों का विशेष अध्ययन आलोचन तथा परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी गुरुवर के सान्निध्य में अनेकशः प्रतिष्ठा कराकर उनसे प्राप्त निर्देशों/सुझावों के आधार पर 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' को नवनीत के रूप में निकालकर जैन समाज को एक सुन्दर कृति उपलब्धि भेट की है। उनके इस सत्प्रयत्न के लिए मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद।

इस ग्रन्थ के मूल प्रेरणा स्रोत दिगम्बर आकाश में चमकते सूर्य हमारे गुरुवर्य आचार्य प्रवर श्री १०८ विद्यासागर जी महाराज हैं। ग्रन्थ वृहद् काय है। समग्र प्रतिष्ठा विधि विधान को अपने में समेटे हुए है। दिल्ली एवं अतिशय क्षेत्र बहलना, मुजफ्फरनगर में जब-तब पंडित जी एवं पं जय कुमार ने पाण्डुलिपियां दिखाई, चर्चाएं कीं तथा तीन बार उनकी प्रतिष्ठा क्रियाएं भी जीवन्त देखी। इसके प्रकाशन का प्रसंग मेरे सामने आया। प्रीत विहार प्रतिष्ठा पंच कल्याणक समिति एवं सम्पूर्ण दिगम्बर जैन समाज प्रीत विहार प्रतिष्ठा हेतु आग्रह लेकर बार-बार आ रहे थे। मैंने 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' की ओर संकेत किया—सुभाष ! यह प्रकाश में आना चाहिए। पं जी का जीवन भर का परिश्रम है। समाज के अध्यक्ष सुभाष जी मेरा आशय समझ गए और कहा—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है कहते हुए प्रकाशन का कार्यभार ले लिया, एवं मुद्रण में धर्मानुरागी श्याम सुन्दर अग्रवाल (प्रभात प्रकाशन) ने जो तत्परता, श्रद्धा और गुरु भक्ति का परिचय दिया वह प्रशंसनीय है। चि० संजय जैन को आशीर्वाद जिसकी अथक तत्परता ने इसे अत्याल्पावधि में प्रकाश में लाया।

अन्त में इस महान पुण्य को अधीत करने वाले महानुभावों को बहुत बहुत आशीर्वाद।

प्रकाशकीय

धर्म एक तुला है जो हमारे जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र और देश को सन्तुलित बनाए रखती है। धर्म विश्वप्रेम, विश्व शान्ति और परस्पर सहिष्णुता का भावक है।

धर्म एक दीप स्तम्भ है, धर्म की रोशनी में चलने वाला कभी अन्धकार में नहीं भटक सकता क्योंकि धर्म की प्रभा अधर्म के मार्ग पर नहीं पड़ती। वस्तुतः धर्म ही व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। धर्म ही उसकी असली पूजा है। अतः इसी धर्म भावना से प्रेरित होकर प्रीत विहार जैन समाज ने मन्दिर निर्माण का निर्णय लिया। निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ वह अपनी गति से वर्षों चलता रहा पर उस प्रगति पर पग न पहुँचा सका। जितना समय उसमें बीत चुका था। समय ने करवट बदली या कहिए अब उसका भी समय आ गया था।

मुझे यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है जब जैन परम्परा के सूर्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती सुशिष्य परम तपोधन शाकार प्रवर्तक उपाध्याय मुनि श्री गुप्तिसागर जी ने हमें, हमारी समाज को हमारे आग्रह पर 'सर्वतोभद्र विधान' में पधारने की पावन स्वीकृति प्रदान की। 'सर्वतोभद्र विधान' क्या हुआ, सारी दिल्ली एवं आस-पास का परिसर चर्चित हो उठा, 'वाह क्या पूजा हुई।' हम सबको सोते से जगाया गुरुवर ने। गुरुवर्य के इस सहज उपकार के हम ऋणी हैं। जैसे ही गुरुवर्यो के आशीर्वाद से मुझे प्रीत विहार जैन समाज ने 'अध्यक्ष' बनाकर जिनालय की (निर्माण) सेवार्थ भेजा। उस कार्य को मैं उन्हीं सबके मंगल आशीष से एवं अपने साथी भाई श्री पदमचन्द महामंत्री के पूर्ण सहयोग से अत्याल्पावधि में सम्पन्न करा सका। शास्त्रों में वर्णित जिन मन्दिरों का स्वरूप और इस नव निर्मित महावीर जिन मन्दिर के रूप में साम्यता पाकर मन जहाँ बाग-बाग हो उठता है वही ऐसे अपने मन्दिर की भव्यता को देखकर मस्तक गौरव से सहज ही ऊँचा हो जाता है।

हमारा परम सौभाग्य है जो इन विषम परिस्थितियों में, दुष्मा जैसे पचम कालिकाल में भी दिगम्बर वीतराग सन्तों के दर्शन हमें मिल रहे हैं। उपाध्याय मुनि श्री गुप्तिसागर जी का हमारी प्रीत विहार जैन समाज पर बहुत-बहुत आशीर्वाद अनुकम्पा है। धर्मानुरागियों पर वीतरागी सन्तों का झुकाव सहज ही होता है। प्रीत विहार जैन समाज के अनुनय आग्रह पर १ फरवरी ६८ से ७

फरवरी ६८ मे आयोजित आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मे हमे आपके पुनीत सान्निध्य की अनुमति मिल गई। प्रतिष्ठाचार्य का प्रश्न उठा तो गुरुदेव ने 'सर्वतोभद्र विधान' मे ही हमे सुझाया था कि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाचार्य प गुलाबचंद 'पुष्प' टीकमगढ़ वालो से करायेगे। मेरे सान्निध्य मे उन्होने १९६३ मे कृष्णानगर दिल्ली मे प्रतिष्ठा की थी और अभी सोनीपत (हरियाणा) पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हेतु वे मेरी अनुमति ले गए है। प्रतिष्ठा विधि निर्दोष है, सुलझे विचारक है। अस्तु, निर्दोष विधि, मंत्र न्यास, जैसी कियाए ही मूर्ति मे अतिशय पैदा करती है। गुरुदेव की प्रेरणा से हमारी समाज ने प्रतिष्ठाचार्य पुष्प जी को आमंत्रित किया, उनकी सहज स्वीकृति भी हमे मिल गई, हमारी गतिविधिया आगे बढने लगी।

इस वर्ष १९६७ के चातुर्मास हेतु हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री को 'निर्माण विहार' चातुर्मास हेतु हरिद्वार से दिल्ली लाये। चातुर्मास सम्पन्न हुआ, बीच-बीच मे हमे सकेत मिलते रहे। अभी विगत दिनो उपा श्री शास्त्री नगर मे पंच कल्याणक महोत्सव मे अपनी पावन सन्निधि दे रहे थे। हम लोग प्रतिष्ठा हेतु उन्हे आमंत्रित करने गए। तभी प्रतिष्ठा सन्दर्भ मे परम कारुणिक गुरुवर ने सुझाया। सुभाष जी ! प जी ने अनेकश प्रतिष्ठा शास्त्रो का आलोडन करके हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित होकर 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' का सकलन/सृजन किया है। पंडित जी की इच्छा है इसका प्रकाशन हो जाये। वे सकल्पित है प्रतिष्ठा रत्नाकर के प्रकाशन के बाद प्रतिष्ठा कार्य का गुरुतर कार्य अपने प्रिय पुत्र चि ब्र जयकुमार 'निशान्त' को सौंपकर अतिशीघ्र मुक्त हो जायेगे। मेरी इच्छा है प्रीत विहार जैन समाज अपने इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को चिर स्मरणीय रखने के लिए इसके प्रकाशन का 'पुण्य कार्य करे।'

हमारी सकल दिगम्बर जैन समाज एक बार फिर मुनि श्री के सहज कारुणिक उपकार से श्रद्धान्वित हो उठी ऐसे पुण्य कार्य की पवित्र प्रेरणा आदेश पाकर। उन्हीं की सत्प्रेरणा का सुफल है कि श्रद्धेय प 'पुष्प' जी के जीवन वृक्ष का एक और पुष्प 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' का प्रकाशन पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति 'प्रीत विहार दिल्ली के सौजन्य से हो रहा है। गुरुवर्य के चरणो मे नमन सहित मेरा विश्वास है इस 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' का विद्वद्वर्ग मे समादर होगा।

अध्यक्ष

सुभाष जैन (F-8)

प्रीत विहार जैन समाज (पजी) दिल्ली-92

पुष्प जी: एक यशस्वी प्रतिष्ठाचार्य

पं० श्री गुलाबचन्द "पुष्प" इस शताब्दी के दिगम्बर जैन प्रतिष्ठाचार्यों में एक जाना पहिचाना नाम है। प्रायः निराडम्बर, पूर्णतः शास्त्रोक्त और प्रभावनापूर्ण प्रतिष्ठा महोत्सवों के लिये उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। इस संदर्भ में साधु और श्रावक दोनों का विश्वास और सम्मान उन्हें प्राप्त है।

पुष्पजी स्वयं प्रतिष्ठाचार्य भर नहीं हैं। उन्हें एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचार्य का सुपुत्र होने का सौभाग्य, और एक उदीयमान प्रतिष्ठाचार्य का पिता होने का भी गौरव प्राप्त है। पुष्पजी के पिता श्री पं० मन्मूलालजी अपने समय के माने हुए प्रतिष्ठाचार्य थे। वे सदा अपनी निष्ठा और निष्कृता के लिये माने जाते थे। पुष्पजी ने उनसे प्रतिष्ठाचार्य बनने की प्रेरणा भी प्राप्त की और प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। पुष्पजी के बड़े परिवार में उनके चतुर्थ पुत्र श्री जय निशान्त ने, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागरजी के उपदेश-आदेशानुसार, फोटोग्राफी का शौकिया कार्य छोड़कर अपने पिता से इस विद्या की धरोहर सम्भालने का उद्यम किया है। उनकी कार्य-प्रणाली देख कर इस बात का विश्वास होता है कि जय निशान्त प्रतिष्ठाओं के क्षेत्र में अपने पूरे पिता के नाम को, और अपने पिता के यश को वृद्धिगत ही करेंगे।

पुष्पजी को प्रतिष्ठा कार्यों का चालीस साल का विशद अनुभव है। १९५७ की श्री सिद्धक्षेत्र अहार की प्रतिष्ठा से लेकर आज तक एक सौ सोलह पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएँ पुष्पजी के द्वारा सम्पन्न हुई हैं जिनमें छियालीस गजरथ शामिल हैं। अन्य छेठे अनुष्ठान, वेदी प्रतिष्ठाओं, विधान पूजादिकों की तो गणना करना ही सम्भव नहीं है। उनके कार्यों की तालिका अपने आप में एक कीर्तिमान ही होगी।

पंचकल्याणकों की इस तालिका में अनेक नव-निर्मित जिनालयों की भी प्रतिष्ठा का गौरव पुष्पजी को प्राप्त है। द्रोणगिरि का चौबीसी जिनालय, हैदराबाद में केसरबाग का जिनालय तथा मानस्तम्भ, अशोकनगर का त्रिकाल चौबीसी मन्दिर, सिद्धक्षेत्र नैनागिरि का समवशरण मन्दिर, रैनबो विहार, वहलना मुजफ्फरनगर का सत्तावन फुट उत्तुंग मानस्तम्भ और गोसलपुर में सम्मेदगिरि, हस्तिनापुर के समवशरण मन्दिर तथा गाजियाबाद में कविनगर के मन्दिर ऐसे ही धर्मायतन हैं जिनकी प्रतिष्ठा पुष्पजी के नाम पर दर्ज है।

उपलब्धियों के संदर्भ में कुछ महोत्सव तो इतने महत्वपूर्ण रहे हैं जो बीसवीं शताब्दी

के जैन इतिहास में विशेष रूप से रेखांकित होते रहेगे। फिरोजाबाद में स्व० सेठ छदामीलाल के द्वारा प्रतिष्ठित ४४ फुट ऊँची बाहुबली प्रतिमा और भगवान महावीर के प्रथम देशना स्मारक के रूप में राजगिरि का विशाल जिनालय तथा उसकी मनोहर चतुर्मुख जिन बिम्ब और हस्तिनापुर के दो जिनालय तथा रजत और स्वर्ण प्रतिमाएँ आदि कुछ ऐसे ही उल्लेखनीय उत्सव हैं जिन्हें सम्पन्न कराने का गौरव पुष्पजी को प्राप्त है।

अनेक विश्रुत दिगम्बराचार्यों और मुनियों के पावन सान्निध्य में प्रतिष्ठाएँ कराने का अवसर पुष्पजी को प्राप्त हुआ। उनकी शास्त्रोक्त पद्धति और अनुष्ठान-निष्ठा को सभी पूज्य आचार्यों और मुनिराजों की सराहना प्राप्त हुई है। मदनगज किशनगढ़ का गजरथ महोत्सव इस दृष्टि से उल्लेखनीय था। वह महोत्सव पूज्य आचार्य श्री विद्यासागरजी के पावन सान्निध्य में सम्पन्न हुआ और उस अवसर पर पूज्य आचार्यकल्प श्री श्रुतसागरजी तथा अजितसागर जी भी अपने विशाल सघ के साथ वहाँ विराजते थे। आचार्यश्री विद्यासागर जी के सान्निध्य में सम्पन्न नैनागिरि की प्रतिष्ठा इस रूप में भी उल्लेखनीय है कि वहाँ तप कल्याणक के दिन तेईसवे तीर्थकर के समवशरण में तेईस दीक्षाएँ सम्पन्न हुई थीं। इनमें बारह आर्यिका दीक्षाएँ तथा ग्यारह क्षुल्लक दीक्षाएँ थीं। इन्हीं आचार्यश्री के द्वारा नरसिंहपुर के पचकल्याण में सात आर्यिका दीक्षाएँ प्रदान की गईं। वह प्रतिष्ठा भी पुष्पजी के द्वारा ही कराई गई थी।

आचार्यश्री विद्यासागरजी के शिष्य समुदाय में मुनिश्री सुधासागर जी के सान्निध्य में अशोकनगर में सप्त गजरथ सहित शताधिक मूर्तियों की प्रतिष्ठा मुनि श्री गुप्तिसागर जी के सान्निध्य में कृष्णानगर दिल्ली एवं सोनीपत (हरियाणा) तथा मुनि श्री समतासागरजी, प्रमाणसागरजी और क्षमासागरजी के सान्निध्य में कटगी में एवं सूखी सिवनियों भोपाल में पुष्पजी के तत्वावधान में प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ "प्रतिष्ठाचार्य-प्रशिक्षण" शिविर का भी आयोजन किया गया। अतिशय क्षेत्र नवागढ़ के गजरथ के समय मुनिश्री नेमिसागरजी द्वारा भी क्षुल्लक दीक्षा दी गई थी।

इस प्रकार प्रतिष्ठाचार्य श्री गुलाबचन्दजी पुष्प ने विगत चालीस वर्षों में पचकल्याणक जिनबिम्ब प्रतिष्ठा और गजरथ महोत्सवों का विधि-नायक पद ग्रहण करके देव-शास्त्र-गुरु की महिमा की प्रभावना में ऐसा महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो इतिहास में अपनी चमक के साथ सदा रेखांकित रहेगा। उनके द्वारा सयोजित इस "प्रतिष्ठा-रत्नाकर" के प्रकाशन के अवसर पर उन्हें बार-बार बधाई।

शांति सदन
सतना (म०प्र०)

नीरज जैन

अपनी बात

मंगल कार्य गुरुजनो के आशीर्वाद के बिना कभी सम्पन्न नहीं होते कई वर्षों से विचार कर रहा था कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का एक ऐसा ग्रंथ प्रकाशित हो जिसमें आद्योपात्त सभी विषय हो परन्तु समयाभाव में संभव न हो सका। सत शिरोमणि आचार्य गुरुवर १०८ विद्यासागर महाराज के मुक्तागिरि प्रवास जुलाई १९९१ में आयोजित दीक्षासमारोह के समय इस कार्य हेतु संकल्पित हुआ। यह ग्रंथ पूज्य गुरुवर के शुभाशीर्वाद का ही सुफल है।

जन्म से ही धार्मिक संस्कार पूज्या माता श्रीमति हरवाई एव पूज्य पिताश्री मन्त्रू लाल जी प्रतिष्ठाचार्य ककरवाहा से मिले। महावीर दिगम्बर जैन विद्यालय सादूमल में अध्ययन करने के साथ-साथ पिता जी के साथ प्रतिष्ठा कार्यों में भी जाने का योग मिला। मैंने प्रतिष्ठा कार्य वर्ष १९५७ से आरम्भ किया। इसी काल में माँ जिनवाणी के स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान एव १९९ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एव गजरथ महोत्सवों के अनुभव को 'प्रतिष्ठा रत्नाकर' में संयोजित किया है।

'प्रतिष्ठा रत्नाकर' में जिन आचार्यों के प्रतिष्ठा ग्रंथों एवं विद्वानों के ग्रंथों से विषय सामग्री संग्रहित की है, मैं उनके प्रति हार्दिक आभारी एव कृतज्ञ हूँ।

ग्रंथ संपादन जिनके आशीर्वाद बिना संभव नहीं था, वे हैं अध्यात्म सत आचार्य श्री १०८ विद्यासागर जी महाराज एवं राष्ट्रसत आचार्य श्री १०८ विद्यानंद जी महाराज जिनसे समय - समय पर आवश्यक निर्देश, सुझाव, शंकाओं का आगमिक समाधान एवं महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई। इनके साथ-साथ सभी आचार्यों मुनिराजों का मंगल आशीर्वाद एव मार्ग निर्देशन मिला सबके चरणों में हृदय से नमनकर सादर नमोस्तु करता हूँ।

"गुरुबिन ज्ञान नहीं"। गुरु ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारी पतित आत्मा को परमात्मा बनाने का कार्य हो या पाषाण को भगवान बनाने का बिना दिगम्बर मुनिराज के संभव नहीं है। अज्ञानतावश प्राणी निरन्तर शरणहीन होकर भटकता रहता है। प्राणी यह भूल जाता है कि - अनादि काल से विषय वासनाओं से प्रेरित संसार-परिभ्रमण करने वाले प्राणी को यदि कोई शरण है तो वह है 'धर्म', जिससे शान्ति समृद्धि एव शाश्वत निरुपम सुख प्राप्त होता है। धर्म के साधन स्वरूप अरिहंत, सिद्धपरमात्मा एवं जिनमुद्रा धारण करने वाले दिगम्बर मुनिराज हैं। जिनका प्रतिदिन स्मरण किया जाता है -

‘णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं
 णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सब्ब साहूणं ।
 चत्तारि मंगलं, चत्तारि लोगुत्तमा, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि ॥

हमारा कल्याण पथ प्रशस्त करने वाला यह अनादिनिघन पवित्र मंगल मंत्र है । यह सर्वांगीण कल्पमंत्र^१ आसपास के आकाश, वायुमण्डल, माध्यम (इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड) के साथ-साथ शुद्ध उच्चारण करने वाले का आभामण्डल भी आश्चर्यजनक रूप से बदलने की शक्ति रखता है । इसके साथ भावना की गई है सर्वोत्कृष्ट मंगल, लोकोत्तम एव सर्वश्रेष्ठ शरण की ।

चत्तारि^२ प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है चत्ता + अरि अर्थात् नाशकर रहे है, नाशकर दिये है, नाश करेगे + अरि अर्थात् कर्म समूह को । अरिहन्त भगवान नाश कर रहे है, सिद्ध भगवान कर्म का नाश कर चुके है, साधु परमेष्ठी कर्मों का नाश करेगे । हमारे जीवन में प्रतिक्षण अरिहत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म मंगलमय, लोकोत्तम एव शरणभूत है । वर्तमान काल में अरिहत एव सिद्ध परमात्मा यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं है, अतएव उनकी उपासना करने के लिए उनके प्रतिबिम्बों को जिनालय में विराजमान कर अर्चना करके जीवन का उत्थान करते है । सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में जिनबिम्ब को साधन मानते हुये प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक दर्शन, पूजा, उपासना, भक्ति करते है जिससे कल्याणकारी मोक्षमार्ग प्रशस्त होता है ।

जिनबिम्ब की स्थापना करने के पूर्व उनमें पूज्यता लाने के लिये विशेष संस्कारों के लिये पंचकल्याणक विधि एव प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, जिन्हे धार्मिक प्रभावना के साथ सम्पन्न किया जाता है । चतुर्थकाल में तो साक्षात् तीर्थंकरों का जन्म होता था और उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एव निर्वाण पंचकल्याणक महोत्सव स्वर्ग के अनुपम साधनों के साथ इन्द्र एव देवगण आकर स्वयं ही अत्यंत प्रभावना के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सम्पन्न करते थे । किन्तु वर्तमान पंचमकाल के भरत क्षेत्र में साक्षात् तीर्थंकरों का जन्म और देवताओं का आगमन नहीं है अतः श्रद्धा भक्ति से उनके प्रतिबिम्बों की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, विधि विधान प्रतिष्ठाशास्त्रानुसार करके जिनालयों में विराजमान कर आराधना से पुण्यार्जन करते हुये और रत्नत्रय की प्राप्ति कर आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करना हमारा कर्तव्य है ।

पंचकल्याणक विधि का वर्णन वीतराग सर्वज्ञ भगवान के दिव्योपदेश से प्राप्त हुआ, जिसका विस्तार गणधर देव और आचार्यों ने बारह अंगों में विभाजित किया है । बारहवें अंग के पांच भेद हैं, इनमें से पूर्वगत को चौदह भेदों में वर्णित किया है, उनमें से ग्यारहवें पूर्व का नाम कल्याणवाद पूर्व है जिसमें तीर्थंकरों के पांचों कल्याणकों का विस्तार पूर्वक

१. णमोकार मंत्र एक अनुचितन, डा० नेमि चन्द्र जैन

२. देवपूजा प्रवचन- क्षु० सहजानंद जी वर्णी

कथन आया है। इसी के आधार पर आचार्यों ने प्रतिष्ठाग्रथो का सकलन/रचना की है। प्रतिष्ठाशास्त्रानुसार रत्न, स्वर्ण, रजत, धातु एव पाषाण की प्रतिमाओ का निर्माण कराके उनको विधिवत प्रतिष्ठा मंत्रो से सस्कारित करके जिनालयो मे विराजमान करके अर्चन पूजन वदन करते है। (१)

प्रतिष्ठाशास्त्रो मे आचार्यों ने प्रतिष्ठाविधि विधान का वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ किया है, जिसमे प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिष्ठा करने वाले पात्र, सामग्री आदि का वर्णन किया गया है। उनका सम्यक् प्रकार से अध्ययन, मनन, चिन्तन, आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रतिष्ठा पात्र एव विधि विधान की क्रिया होगी प्रतिष्ठा मे उतनी ही विशेषता होगी। (२)

प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण (३)

स्याद्वादधुर्योऽक्षरदोषवेता निरालसो रोगविहीनदेहः,

प्रायः प्रकर्ता दमदानशीलो जितेन्द्रियो देवगुरुप्रमाणः ।

शास्त्रार्थसंपत्तिविदीर्णवादो धर्मोपदेशप्रणयः क्षमावान्,

राजादिमान्यो नययोगभाजी तपोव्रतानुष्ठितपूतदेहः ॥

पूर्व निमित्ताद्यनुमापकोऽर्थ संदेहहारी यजनैकचित्तः,

सद्ब्राह्मणो ब्रह्मविदां पटिष्ठो जिनैकधर्मा गुरुदत्तमंत्रः ।

भुक्त्वा हविष्यान्नमरात्रिभोजी निद्रां विजेतुं विहितोद्यमश्च,

गतरस्पृहो भक्तिपरात्मदुःखप्रहाणये सिद्धि मनुर्विधिज्ञः ।

कुलक्रमा पात सुविद्यया यः प्राप्तोपसर्ग परिहर्तुमीशः

सोऽयं प्रतिष्ठाविधिषु प्रयोक्ता श्लाघ्योऽन्यथा दोषवती प्रतिष्ठा ॥

स्याद्वाद विद्या मे प्रवीण, मंत्रोच्चारण के दोष का ज्ञाता, आलस्य एव रोग रहित, क्रियाओ मे कुशल, कषायो को दमन करने वाला, दानी, शीलवान, इन्द्रियो को वश मे करने वाला, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धावाला, शास्त्रज्ञ, उपदेशकुशल, क्षमावान, राजमान्य, नयो का ज्ञाता, तप व्रतादिक अनुष्ठान से पवित्र शरीर वाला, निमित्तज्ञानी, एक बार भोजन करने वाला, रात्रि भोजन का त्यागी, निद्रा को जीतने वाला, मंत्रशास्त्र का ज्ञाता, कुल क्रम से प्राप्त विद्यावाला, सतोषी, उपसर्ग निवारण करने वाला प्रतिष्ठाचार्य होना चाहिये। अन्यथा प्रतिष्ठा दोषवाली होती है।

प्रतिष्ठाचार्य के दोष (४)

शास्त्रानभिज्ञं कुलवावदूकं लोभानलप्लुष्टमशांतशीलं

परंपराशून्यमपार्थसार्य दूरात्यजंतु प्रणिधाननिष्ठाः।

(१) आ ज से, प्र पा. पृष्ठ १७ श्लोक ६९ (२) वृ वा मा (३) आ. ज से, प्र. पा.

श्लोक ८१ से ८५ (४) आ ज से, प्र पा श्लोक ८६

शास्त्रज्ञान रहित, विक्रथा एवं प्रलाप करने वाला अत्यंत लोभी, अशांत स्वभाववाला, परम्परा हीन, अर्थ को नहीं जानने वाला ऐसा प्रतिष्ठाचार्य नहीं होना चाहिये ।

प्रतिष्ठा कराने वाले के लक्षण (१)

न्यायोपजीवी गुरुभक्तिधारी बुद्ध्यादिहीनो विनयप्रपन्नः,

विप्रस्तथा क्षत्रियवैश्यवर्गो व्रतक्रियावन्दनशीलपात्रः।

श्रद्धालुदातृत्व महेच्छुभावो ज्ञाता श्रुतार्थस्य कषायहीनः,

कलंकपंकोन्मदतापवादवुकर्मदूरोऽर्हदुदारबुद्धिः।

न्याय पूर्वक आजीविका वाला, गुरुभक्त, निन्दा नहीं करने वाला, विनयवान ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्यवर्णी, व्रतक्रिया वन्दना करने वाला, शीलवान, श्रद्धावान, दानी, गुणी, शास्त्र का ज्ञाता, कषायरहित, पाप क्रिया एवं उन्माद रहित, अपवाद, कुकर्म रहित, उदारबुद्धि वाला ऐसा प्रतिष्ठा कराने वाला होना चाहिये ।

निषादनाडिंघममुण्डिवण्डी परीष्टिपाटच्चरदारपण्यं

धूतव्यवस्योपजनस्थसीधुवृषीवलाद्यर्जनमत्रवर्ज्य ।

परोपदानी किल संघपिंजो भूपार्थिनिर्माल्यधनप्रहर्ता

न शस्यते क्वापि महोपयोगं कर्तुं जनस्तद् धृतहेमभोक्ता ।

नीचकर्म करने वाले भीलादि से व्यापार करने वाला, नाडीघम सुनार, कुन्देवों की पूजा करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार द्वारा धन संग्रह करने वाला, जुवारी, व्यसनी रौद्र कर्मवाला, मदिरा पान करने वाला, खेती करने वाला, पराया धन लगाकर अपनी प्रशंसा कराने वाला, संघ का निन्दक, राज्य का धन हरण करने वाला, निर्माल्य धन का उपयोग करने वाला, इत्यादि का द्रव्य प्रतिष्ठाकार्य में नहीं लगाना चाहिये अर्थात् इनका धन लेने योग्य नहीं है ।

इन्द्र के लक्षण (२)

नीच कुल एवं नीच विचार रहित, संपत्तिवान, सुन्दर, भाग्यवान, बलवीर्य गुण सहित, युवावस्था वाला, मनोज्ञ बहुमूल्य आभूषण सहित, शुद्ध विचारवान, दृढचित्तवाला, जिनेन्द्र भक्त, त्रिकाल सामायिक करने वाला, प्रतिष्ठा विधि का ज्ञाता, मंत्रशास्त्र का ज्ञाता, इन्द्रिय विजयवाला, व्रत नियम पालने वाला, रात्रि भोजन का त्यागी, परिवार वाला, विनयवान शान्ति, क्षमा, तप, वैराग्य युक्त समस्त विधि का ज्ञाता, इन्द्र होना चाहिये । अंगहीन, मिथ्यागमन, अमक्ष्य भोजन, झूठ वचन बोलने वाला, विपरीत श्रद्धावाला, इन्द्र नहीं होना चाहिये ।

(१) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ७५-७८ (२) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ८९ से
९३, प. आ. ध., प्र. सा. पृष्ठ १३

इन्द्राणी के लक्षण (१)

सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुन्दर, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित, अच्छे चरित्र वाली उत्तमकुलवाली, व्रत नियम संयम सहित शीलवती, रात्रि भोजन एवं अभक्ष्य त्यागी, उत्तम गुणों को धारण करने वाली, कृतकर्म की ज्ञाता, जिनेन्द्रदेव भक्त, विनयवती इन्द्राणी होना चाहिये ।

छप्पन कुमारी एवं अष्टकुमारी देवियां (२)

सुन्दर, वस्त्राभूषण सहित, अविवाहित, कुलवान, ज्ञानवान, गर्भ जन्म की क्रिया की ज्ञानवाली, सेवा भावी, आज्ञाकारी, सुशील, सुन्दर स्वरूप वाली छप्पन कुमारी एवं अष्टकुमारी देविया होना चाहिये ।

छप्पन कुमारी देवियों की व्यवस्था (३)

बीस भवनवासी जानो, अरु षोडस देवी व्यन्तर जान,
कल्पवासिनी द्वादश देवी, युगल ज्योतिषी देवी मान ।

श्री ह्री घृति कीर्ति सुबुद्धि लक्ष्मी कुलगिर देवी जान,
इह विधि छप्पन सब कुमारिका सेव करे माता की आन ।

भवनवासी देवियों के नाम (२०)

(१) विजया (२) वैजयति (३) अपराजिता (४) जयन्ति (५) नन्दा (६) आनन्दा (७) नन्दावर्धिनी (८) नन्दोत्तरा (९) यशोधरा (१०) सुप्रबुद्धा (११) सुकीर्ति (१२) स्वस्तिका (१३) लक्ष्मीमति (१४) सुप्रणीघा (१५) चित्रा (१६) वसुन्धरा (१७) रुचिकामा (१८) रुचिका (१९) रुचिकोज्ज्वला (२०) रुचिक प्रभा ।

व्यन्तर देवियों के नाम (१६)

(१) इला (२) नवमिका (३) सीता (४) पद्मावती (५) पृथ्वी (६) काचनामा (७) चन्द्रिका (८) सुरा (९) विजया (१०) वैजयति (११) जयति (१२) अपराजिता (१३) सुमंगला (१४) मंगलावती (१५) मंगलसेना (१६) मंगल मालिनी ।

कल्पवासी देवियों के नाम (१२)

(१) श्री (२) ह्री (३) घृति (४) आशा (५) वारुणि (६) पुण्डरीकनी (७) अलवुषा (८) मिश्रकेशी (९) कनक चित्रा (१०) चित्रा (११) त्रिशिरा (१२) सूत्रामणि।

(१) आ. ज. से, प्र पा श्लोक ७१६ (२) वही, श्लोक ७२१ (३) प म ला जैन
प्र. ह. लि. डा.

ज्योतिषी देवियां (२)

(१) शान्ति (२) पुष्टी

कुलाचलवासी देवियों के नाम (६)

(१) श्री (२) ह्री (३) धृति (४) कीर्ति (५) बुद्धि (६) लक्ष्मी

लौकान्तिक देव (१)

ब्रह्मलोक स्वर्ग के अंत में निवास करते हैं यह देवर्षि कहलाते हैं, यह केवल तीर्थकर के वैराग्य की स्तुति करने ही आते हैं, अन्य किसी कल्याणक में नहीं आते हैं। ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं इनकी देवियां नहीं होती, एक भवावतारी होते हैं ऐसा नियम है।

लौकान्तिक देवों के लिये अविवाहित आठ वर्ष से बीस वर्ष तक के बालक ही लेना चाहिये, यदि बालब्रह्मचारी मिले तो सर्वोत्तम है। इन्हें सफेद वस्त्र, मुकुट, माला धारण करना चाहिये।

प्रतिष्ठा विधि में कम से कम पात्र (२)

सूरिमित्र देने वाला (मुनि/आचार्य), इन्द्र, इन्द्राणी, यजमान (प्रतिष्ठापक), यजमान की पत्नी, पूजनकर्ता, सामग्री बनाने वाला, मंत्री, सभासद, पूजा पढ़ने वाला, विधि का जानने वाला, देवियां, लौकान्तिक देव इतने पात्र आवश्यक हैं जो संयमी ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हों। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र आवश्यकतानुसार होने चाहिये। सभी पात्रों की भावना पवित्र एवं उल्लासित होकर व्रत नियम के पालने की होना चाहिये।

प्रतिष्ठा पात्रों में माता-पिता की व्यवस्था

माता-पिता बनाने में प्रतिष्ठाचार्यों के दो मत हैं, कोई माता - पिता बनाते हैं तथा कोई माता पिता नहीं बनाते हैं। श्री जयसेनाचार्य जी ने प्रतिष्ठापाठ में निम्न प्रकार लिखा है -

यदंश्यतीर्थकरबिम्बमुदीर्य संस्था मुख्या तदीयकुलगोत्रजनिप्रवेशात् ।

संवृत्तगोत्रचरणप्रतिपात योगादाशौचमावहतु नोद्यभवप्रशस्तम् ॥ (३)

जिस वंश में तीर्थकर हुये हैं, उस कुल गोत्र एवं वंश को आप (माता-पिता) प्राप्त हों। अर्थात् उनके परिवार में परिवर्तित होने से सूतक पातक आदि अशौच का दोष नहीं लगेगा।

(१) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक ७९९ (२) वही, श्लोक ५२-५३

(३) आ. ज. से प्र. पा. पृष्ठ ६२ श्लोक २५८

मत्र मे भी स्पष्ट लेख है -

“अस्ययजमानस्य इक्षाववादि वंशे श्री ऋषभनाथादि संताने काश्यप गोत्रे परावर्तनं यावदध्वरं भवतु भवतु क्रौं ही हँ नमः ।”

उक्त श्लोक एव मत्र से स्पष्ट है कि माता- पिता (यजमान) बनाकर उनका वंश परिवर्तन किया जाता है अर्थात् माता पिता बनाये जा सकते हैं ।

पाण्डुक शिला पर जन्माभिषेक करके वापिस आकर माता-पिता की गोद मे आदि कुमार को देने को लिखा है ।

‘अत्र मातापित्रोस्कनिवेशरथानीयपूर्वप्रवृत्तमंडपोपरवृत्तवेदिकायांभद्रासनेमूल बिम्बरथापनं विदध्यात् ।’ १

देवियो द्वारा सेवा भेट समर्पण, प्रश्नोत्तर एव स्वप्नदर्शन माता के बिना सम्भव नहीं है, अतएव माता-पिता की कल्पना पात्रो मे भी की जा सकती है । किन्तु गर्भ की क्रिया मंजूषा मे ही करना चाहिए ।

माता-पिता बनने हेतु पात्रता

प्रतिष्ठाचार्य पात्र कल्पना के समय ध्यान रखे जिसमे योग्यता हो वही पात्र माता-पिता बनाये जावे । माता-पिता बनने वालो का परिवार होना चाहिये अर्थात्

(१) जिनके सन्तान न हो वह माता-पिता नहीं बन सकते ।

गोम्मटसार (जीवकाण्ड) मे तीन योनियो का कथन है । (२)

(अ) कूर्मोन्नत योनि - जिससे तीर्थकर चक्रवती बलभद्र आदि महापुरुष पैदा होते हैं ।

(ब) वंशपत्र योनि - जिससे सामान्य मनुष्य पैदा होते हैं ।

(स) शंखावर्त योनि - इस योनि मे गर्भ नहीं रहता ।

अर्थात् तीर्थकर की माता शंखावर्त योनि वाली (नि सतान) नहीं होना चाहिये ।

(२) जिन्होंने माता-पिता बनने के पूर्व अजीवन ब्रह्मचर्य व्रत न लिया हो ।

(३) जिन्होंने परिवार नियोजन नहीं कराया हो ।

वह माता-पिता बन सकते हैं, यह भी आवश्यक है कि वह जाति एव कुल से श्रेष्ठ हो, समाजिक मे अपवाद न हो, एव हीनागी न हो । आचार विचार श्रेष्ठ हों तथा माता-पिता बनने के पश्चात् आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत का नियम पालन करे तथा श्रावकोचित सयम को पालन करे । उनको अधम व्यापार वर्जित है ।

प्रतिष्ठा में उपयोगी सामग्री एवं वस्त्र (१)

प्रतिष्ठा कार्य में शुद्ध धुले हुये, बहुमूल्य वस्त्रों का उपयोग करना चाहिये, जिससे पूजा करने वालों का मन आनंदित हो। मलिन कटे, फटे, छेद सहित जीर्ण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिये। प्रतिष्ठा पात्र, यज्ञवेदी, तोरण स्थान, उपकरण, वस्त्रादि का उपयोग दूसरी बार नहीं करना चाहिये। प्रतिष्ठा की सभी सामग्री नवीन होना चाहिये। प्रतिष्ठा में उपयोग होने वाली सामग्री एवं अन्य सामान के लिये कंजूसी नहीं करना चाहिये। इसमें प्रमाद एवं शिथिलता भी नहीं होना चाहिये।

जिनबिम्ब प्रतिष्ठा की आवश्यकता एवं फल

जो श्रावक माया, मिथ्यात्व, निदान और ख्याति पूजा लाभ रहित पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराके जिन बिम्ब की स्थापना करते हैं वह पुण्य एवं यश की वृद्धि करते हुये मोक्षमार्ग की विशेष प्रभावना करते हैं। जब तक सूर्य चन्द्रमा है तब तक भव्य जीवों के लिये सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बनते हैं, शांति स्वरूप वीतराग जिनबिम्ब के स्मरण एवं दर्शन से अनन्त विघ्नो का नाश होता है, जैसी दीवाल होती है तदनुसार ही चित्र अंकित होता है अर्थात् आत्मपरिणाम निर्मल होते हैं तो नियम से जिनबिम्ब दर्शन से सम्यग्दर्शन होता है।^(२)

जो भव्यआत्मा बदरी बराबर मंदिर और धनिया के बीज बराबर भी जिनबिम्ब स्थापित करते हैं वह अनन्त भवों के पापों को नाश करके सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। सद्गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अपनी न्यायपूर्वक उपार्जित संपत्ति को निम्न विशेष कार्यों में उपयोग करे तो तब ही वह संपत्ति श्रेष्ठ मानी जाती है।^(३) जैसे

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| (१) जिन मंदिर निर्माण | (२) प्रतिष्ठा | (७) जीर्णोद्धार |
| (३) जिन बिम्ब स्थापना | (४) तीर्थ यात्रा | |
| (५) चारोदान | (६) जिनेन्द्र अर्चना | |

जिनबिम्ब (प्रतिमा) निर्माण विधि (४)

श्रावक का कर्तव्य है कि जब मंदिर एवं जिनबिम्ब निर्माण कराके प्रतिष्ठा कराने की भावना उत्पन्न हो तो दिगम्बर साधुओं के पादमूल की वन्दना करके प्रार्थना करे कि
 'भगवन्! न्यायपूर्वक अर्जित संपत्ति को जिनबिम्ब निर्माण में लगाना चाहता हूँ कृपाकर आशीर्वाद और मार्ग निर्देशन दीजिये' ऐसी प्रार्थना सुन मुनिराज कहते हैं कि शुभलग्न,

(१) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक १०२ से १०४

(२) वही, श्लोक १०५ से १०७ (३) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक १४ से १६

(४) प. आ. ध, प्र. सा. अ. एक श्लोक ४९ से ६२

शुभतिथि में जिनेन्द्र देव की पूजा करके शिल्प शास्त्र में प्रवीण मूर्तिकार (शिल्पी) को साथ लेकर किसी पहाड़ में प्रतिमा निर्माण के योग्य शिला को देखो जो कि बहुत मोटी, विशाल, चिकनी, ठन्डी, सुन्दर, मजबूत, अच्छी गंध एवं रंग वाली, ठोस, अधिक चमक वाली, बिन्दु, रेखा, दाग आदि रहित, मधुर ध्वनि सहित होना चाहिये। शिला निर्णय के पश्चात् शुभ दिन में जिनेन्द्र पूजा करके शिल्पी का सम्मान कर मंगल गान करते हुये, शिला की शुद्धि मंत्रों द्वारा कराना। मंत्रोच्चारण करते हुये, शिला को तराश कर, सावधानी से निकालना, उस शिला को गज रथ में रखकर जिनालय में स्थापित करना। फिर शुभलग्न शुभयोग में जिनदेव की पूजा करके अनादि मंत्र से शिला को मंत्रित करके उत्तम औषधियों के क्वाथों से शिला का परीक्षण करना जिससे शिला के अन्दर यदि कोई दोष हो तो ज्ञात हो सके। बिम्ब निर्माण कराने के दिन विनायक-सिद्ध यंत्र की पूजा करके शांति विधान करावे। शिल्पी को सप्त व्यसन का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करावे और स्वतः (मूर्ति निर्माता) इन नियमों का पालन करे।

आकर शुद्धि (शिला परीक्षण)

जिस शिला से प्रतिमा बनानी हो उसकी शुद्धि हेतु तथा शिला के अन्दर के दोष प्रकट करने हेतु निम्न क्वाथों का प्रयोग आवश्यक है।

- (१) सप्तौषधिक्ष्वाथ - अमृतासहदेवी च विष्णुकान्ता शतावरी
 भृंगराजः शमीश्यामा सप्तौषध्यः स्मृता इमा ।
 एताभिर्युक्ततीर्थाम्बुपूर्णशुभ्रमहाघटैः
 मंत्राभिमंत्रितैर्मक्त्या जिनार्चामभिषिचयेत् ॥
- (२) पंच फल क्वाथ - जाती फल लवंग्राम विल्व भल्लात कान्चित् ।
 सर्व तीर्थाम्बुभिः पूर्णैः कुम्भैः स्नपयेज्जिनम् ॥
- (३) छल्लपंचक्वाथ - पलाशोदुम्बराश्वत्थशमी न्यग्रोधकत्वचा ।
 मिश्र तीर्थाम्बुभिः पूर्णैः स्नपयेच्छुभ्रसद्घटैः ॥
- (४) दिव्यौषधि मूलाष्टक क्वाथ - सहदेवी वला सिही शतमूली शतावरी,
 कुमारीचामृताव्याघ्री तासां मूलाष्टकान्चित् ।

सर्वतीर्थाम्बुभिः पूर्णैश्चित्र कुम्भैर्नैवैदृष्टैः,
मंत्रामिर्मन्त्रितैर्जेनं बिम्बं स्नपयेत्सवा ॥

- (५) सर्वौषधि क्वाथ - लवंगैलावचा कुष्ठं कंकोलाजाति पत्रिका,
सिद्धार्थ चन्दनाद्यैश्च गंधद्रव्यै विमिश्रितैः ।
तीर्थाम्बुभिर्मृतैर्कुम्भैः सर्वौषधिसमन्वितैः,
मंत्रामिर्मन्त्रितैर्जेनी प्रतिमामभिषेचयेत् ॥

- (६) सर्वौषधि - केशर अरु कर्पूर जायफल, जावित्री कंकोल प्रयंग,
वच सरसों नैथा हल्दी ले, लोंग पत्र तुलसा के संग ।
मलयागिरि सुरदारु कटाई, अगर तगर वारौ ले आय,
तज पत्रज एला गजकेशर, कूट जटामासी मिलवाय ॥

- (७) अष्टगंध - अगर तगर सित रक्त ले, चन्दन और कपूर,
हरताल हेम हिंगुल मिला, अष्टगंध भरपूर ।

- (८) उबटन - पीत सिद्धार्थ जायफल, हल्दी और कपूर,
तनुल पीस मिलाईये, उबटन से मल दूर ।

- (१) निर्मल कांजी के साथ बेल वृक्ष के फल की छल प्रतिमा पर लगाने से दाग प्रगट हो जाते हैं ।^(१)
(२) पानी के साथ छिला हुआ गरी गोला प्रतिमा पर रगड़ने से रेखाओं की जानकारी हो जाती है ।^(२)

वर्तमान में क्वाथ औषधियां उपलब्ध न होने के कारण सर्वौषधि से शुद्धि कर सकते हैं । पहले प्रतिमा शास्त्रानुसार निर्दोष बनवायी जाती थी, आज तैयार की हुई प्रतिमा ली जाती है अतः निर्दोष प्रतिमा लेना चाहिये तथा परीक्षण करके निर्दोष प्रतिमा की ही प्रतिष्ठा कराना चाहिये ।

(१) ठ फे., वा. सा. प्र. पृष्ठ ८२ (२) पं. न. ला. प्र. ह. लि. डा.

प्रतिमा का माप

'दसताल माण लखण' प्रतिमा दस ताल की होना चाहिये १

'नवताल हवई रूवँ' प्रतिमा नव ताल की होना चाहिये २

'जदोदेव मणुस्स णेरइयाण मुस्सेधो दस णव अट्ठताल पमाणेण भणियो'

देव, मनुष्य और नारकियो का उत्सेध दस, नौ और आठ ताल के प्रमाण से कहा गया है अर्थात् देव दसताल, मनुष्य नौ ताल और नारकी का आठ ताल प्रमाण लिया गया है ।^(३)

'उर्ध्वदिपात्र विधुभागवृत्तौ' कायोत्सर्ग प्रतिमा, द्विप माने ८, अत्र माने ० (शून्य), विधु माने ९ अर्थात् नवताल की प्रतिमा १०८ भाग प्रमाण होनी चाहिये ।^(४)

इस प्रकार देव प्रतिमा निर्माण का ९ ताल प्रमाण तीन ग्रथो मे मिलता है जबकि दस ताल प्रमाण केवल एक ही ग्रथ मे मिलता है अतः प्रतिमा नवताल की होना चाहिये ।

ताल का प्रमाण (५)

तालं मुखं वितस्तिस्यादेकार्थं द्वादशांगुलं ।

तेन "मानेनतद्विम्बं नवधा प्रविकल्पयेत् ॥

ताल, मुख, वितस्ति, बारह अंगुल, यह सब एकार्थ वाचक है। इस माप से जिनबिम्ब को नौ भागों मे कल्पित करना चाहिये । प्रतिमा के अंगुल से १२ अंगुल का एक ताल होता है ।

निजांगुल प्रमाणेन साष्टांगुलशतायुतम् ।^(६)

जिस जिनबिम्ब का माप लेना हो उस प्रतिमा (जिनबिम्ब) के अंगुल से ही १०८ भाग बनाना चाहिये। यहां अंगुल का तात्पर्य भाग से जानना चाहिये। इसका विशेष वर्णन आचार्य जयसेन वृत्त प्रतिष्ठा पाठ मे है ।

कायोत्सर्ग प्रतिमा ^(७)	९ ताल माप	१० ताल माप
ललाट	४ अंगुल	४ अंगुल
नासिका	४ अंगुल	५ अंगुल
मुख	४ अंगुल	४ ५ अंगुल
ग्रीवा (गला)	४ अंगुल	४ अंगुल

(१) आ. जे चं सि च, त्रिलोकसार गाथा ९८६ (२) ठ. फे., वा. सा. बिम्ब परीक्षा प्रकरण गाथा ५ (३) आ. पु. द. भू., षट्खण्डागम ध पु ४ पृष्ठ ४० (४) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक १५३ (५) आ. व. नं., प्रतिष्ठा सार सग्रह (६) वही (७) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक १५३ से १५५

ग्रीवा से हृदय तक	१२ अंगुल	१३.५ अंगुल
हृदय से नाभि तक	१२ अंगुल	१३.५ अंगुल
नाभि से गुह्यस्थान (लिंग)	१२ अंगुल	१३.५ अंगुल
गुह्य स्थान से घुटना के ऊपर	२४ अंगुल	२७ अंगुल
घुटना	४ अंगुल	४ अंगुल
घुटना के नीचे से गांठ तक	२४ अंगुल	२७ अंगुल
गांठ से पैर के तले तक	४ अंगुल	४ अंगुल
	१०८	१२०

दोनों पैरों के बीच अन्तर ४ अंगुल होता है एवं हाथ लम्बायमान होते हैं ।

पद्मासन प्रतिमा (१)

वास्तुसार ग्रंथ के अनुसार पद्मासन प्रतिमा ५६ अंगुल मानी है जबकि प्रतिष्ठासारसंग्रह के अनुसार ५४ अंगुल मानी है । 'प्रतिमा का समचतुरस्र होना अति आवश्यक है' इसका माप इस प्रकार है ।

१. दाहिने घुटने से बाये घुटने तक
२. दाहिने घुटने से बाये कंधे तक
३. बाये घुटने से दाहिने कंधे तक
४. नीचे से मस्तक तक (पादपीठ आसन से केशान्त तक)

यह चारों भाग बराबर बराबर होना चाहिये, इसमें यदि थोड़ा भी अन्तर हो तो उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिये। दोनों हाथों की अंगुलियों से पेड़ू में ४ अंगुल का अन्तर होना, कोहनी के पास उदर से दो भाग अन्तर होना नाभि से लिंग अष्टभाग नीचे बनाना और पाँच भाग लम्बा होना, दोनों पाँव से नीचे आसन के ऊपर अभिषेक के जल का निकास बनाना,

पद्मासन प्रतिमा का नाप (२)

ललाट	४ अंगुल	ग्रीवा से हृदय तक	१२ अंगुल
नासिका	४ अंगुल	हृदय से नाभि तक	१२ अंगुल
मुख	४ अंगुल	नाभि से गुह्य स्थान	१२ अंगुल
ग्रीवा	४ अंगुल	घुटना	४ अंगुल
	१६ अंगुल		४० अंगुल

इस प्रकार ५६ अंगुल की पद्मासन प्रतिमा का प्रमाण दिया गया है ।

(१) आ ज से, प्र. पा. श्लोक १७८-१७९

(२) वही, पृष्ठ ४३ एव ठ. फे., वा सा. प्र पृष्ठ ८६ गा. ५

प्रतिमा स्वरूप

१. जिसके अगोपोंग सुन्दर, कांति लावण्य सहित, कायोत्सर्ग एवं पद्मासन दिगम्बर, अन्य नाना प्रकार के आसनो से रहित, वृद्ध - बालावस्था रहित, शांतस्वरूप, श्री वत्स लक्षण सहित, नख केश रहित, समचतुरस्र सस्थान सहित, वैराग्य युक्त, और तप की मुद्रा सहित हो वह जिनबिम्ब पूजा करने योग्य होती है । (१)

२ अष्टप्रातिहार्यों से युक्त, सपूर्ण अवयवो से सुन्दर, जिनकी आकृति वैराग्य पूर्ण, तप अवस्था वाली, अरिहत भगवान की प्रतिमा है तथा उपरोक्त लक्षणो सहित हो किन्तु अष्टप्रातिहार्य रहित हो वह प्रतिमा सिद्ध परमात्मा की है । (२)

३ जो शांत, प्रसन्न, मध्यस्थ, नासाग्रस्थित - अविकारी दृष्टि सहित, जिसके अग वीतरागता सहित हो, अनुपम वर्णवाली, शुभलक्षण सहित हो, शैद्रादि बारह दोषरहित, अष्ट प्रातिहार्ययुक्त प्रतिमा विराजमान करे ।

प्रतिमा के दोष

नात्यन्तोन्मीलारस्तद्वा न विस्फारितमीलिता ।

तिर्यगूर्ध्वमधोदृष्टि वर्जयित्वा प्रयत्नतः । (३)

१. शैद्र २. कृशांग ३ सक्षिप्तांग ४. चपटीनासिका ५. विरूपक नेत्र ६ हीनमुख ७. बड़ा उदर ८ महाहृदय ९ महाअंस १०. महाकटि (कमर) ११ महापाद १२ हीन जंघा (शुष्क जंघा) यह बारह दोष है इनसे रहित बिम्ब ही प्रतिष्ठा योग्य मानी है ।

प्रतिमा के अंग न्यूनाधिक होने पर उनका निम्न प्रभाव पड़ता है । (४)

टेड़ी नाक -	दुख कारक	छोटे अवयव	क्षयकारक
विकृत नेत्र -	नेत्र नाशक	छोटा मुख	भोग नाशक
हीन कटि -	आचार्य नाशक	हीन जघा	पुत्र मित्र नाशक
हीन आसन	ऋद्धिनाशक	हीन हस्त-चरण	धन क्षय
उर्ध्व मुख -	धन नाशक	टेड़ी गर्दन	स्वदेश नाशक
अधोमुख -	चित्ताकारक	अन्याय धन से निर्मित	दुष्काल कारक
विषमासन	व्याधिकारक	शैद्र रूप	प्रतिमा निर्माता विनाशक
न्यूनाधिक अंग -	कष्ट कारक		

(१) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक १५१ - १५२ (२) आ. ब. नं. प्र. पा

(३) प. आ. ध, प्र. सा पृष्ठ ७ (४) ठ. फे., वा सा प्र. पृष्ठ १०१

अधिक अग	शिल्पीनाश	दुर्बल अग	घन नाशक
कृशोदर	दुर्भिक्षकारक	तिरछी दृष्टि	अपूज्यनीय
गाढ दृष्टि	अशुभकारक	अधोदृष्टि	विघ्नकारक

इन दोषों से रहित प्रतिमा (जिनबिम्ब) ही जिनालय में विराजमान करना चाहिये । दोषपूर्ण प्रतिमा पूजक के नाश का कारण होती है अतः प्रतिमा निर्माण या प्रतिमा लेते समय इनका ध्यान रखना अत्यावश्यक है ।

अशुभ रेखायें (१)

हृदय, मस्तक, कपाल, दोनो स्कन्ध, दोनो कान, मुख, पेट, पृष्ठ भाग (पीठ), दोनो हाथ, दोनो पाव इत्यादि प्रतिमा के किसी अंग पर या सब अंगों पर नीले काले आदि रंग की रेखाये या विद्ध गूढ नेत्र, जर्जर शरीर, लम्बोदर, प्रभारहित होठ हो तो उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिये ।

उपरोक्त अंगों के अलावा अन्य किसी अंग पर यदि शुभरेखाये (उसी वर्ण की) हो तो वह प्रतिमा प्रतिष्ठा योग्य होती है किन्तु नियम तो यही है कि बिम्ब निर्दोष, स्वच्छ, चिकनी, उड़ी और अपने वर्ण की रेखा वाली होवे तो प्रतिष्ठा की जा सकती है ।

मृत्तिका (मिट्टी), काष्ठ (लकड़ी) और चित्राम (भित्ति चित्र) आदि का बिम्ब पूजा योग्य नहीं है ।

न मृत्तिकाकाष्ठविलेपनादिजातं जिनेन्द्रैः प्रतिपूज्यमुत्तमं (२)

अन्य प्रकार बिम्बों का निर्माण एवं फल

१ एक ही पटिया (पत्थर) पर चौबीसी जिनबिम्ब, पद्मबालयति बिम्ब, शांति नाथ, कुशुनाथ, अरनाथ बिम्ब, सप्त ऋषीश्वर बिम्ब भी बनाये जा सकते हैं। स्वर्ण, रत्न, मणि, रजत और स्फटिक, निर्दोष पाषाण एवं धातु से बनाये गये कायोत्सर्ग (युगलकर लम्बायमान, चार अंगुल अन्तर से स्थापित चरण ध्यानारूढ मुनिजन को आनन्दकारक) बिम्ब और पद्मासन (शान्त मुद्रा, नासाग्रदृष्टि मानोन्मानकरि प्रशस्त, ध्यानस्थमुद्रा, वामहाथ पर दाहिना हाथ रखा हो ऐसा) बिम्ब स्थापित करना ।^(३)

२ सफेद, लाल, हरे, नीले, पीले पाषाण पर बनाये गये बड़े या छोटे स्थिर बिम्ब स्थापना प्रशस्त है किन्तु स्थोत्सव, विमानोत्सव आदि में धातु के ही बिम्ब स्थापित करना चाहिये, पाषाण का बिम्ब स्थापित नहीं करना चाहिये ।^(४)

(१) ठ फे., वा सा प्र पृष्ठ ८४ (२) आ ज से., प्र. पा श्लोक १८३

(३) वही, श्लोक ७० (४) वही, श्लोक ७१

३. प्रतिमा का निर्माण सम माप में नहीं करना चाहिये, विषम माप की प्रतिमा शुभ मानी गई है।^(१)

एक अंगुल प्रतिमा	अतिश्रेष्ठ	सात अंगुल प्रतिमा	गौवृद्धि कारक
दो अंगुल प्रतिमा	धननाश	आठ अंगुल प्रतिमा	हानिकारक
तीन अंगुल प्रतिमा	सिद्धि दायक	नौ अंगुल प्रतिमा	पुत्र वृद्धिकारक
चार अंगुल प्रतिमा	दुःखकारक	दस अंगुल प्रतिमा	धन नाशक
पांच अंगुल प्रतिमा	धनधान्य यश वृद्धि	ग्यारह अंगुल प्रतिमा	कार्यसिद्धिकारक
छ. अंगुल प्रतिमा	उद्वेग कारक		

गृह चैत्यालय में बिम्ब स्थापन (२)

जो चैत्यालय गृह निवास में ही हो उनमें ग्यारह ११ अंगुल (९ इंच) से बड़ा जिनबिम्ब विराजमान नहीं करना चाहिये।

पांच ब्रह्मचारी तीर्थकर हैं, उनकी प्रतिमा गृह चैत्यालय में विराजमान नहीं करना चाहिये। किन्तु वास्तुसार ग्रंथ में श्री मल्लिनाथ, श्री नेमिनाथ एवं श्री महावीर स्वामी इन तीन तीर्थकरों की प्रतिमाये गृह चैत्यालय में विराजमान नहीं करना चाहिये ऐसा आया है, क्योंकि यह वैराग्य सूचक है। यह विचारणीय है कि बालयति वासुपूज्य एवं पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के विराजमान करने का निषेध क्यों नहीं किया।^(३)

चैत्यालय एवं बिम्ब स्थापन कब से ?

भगवान ऋषभदेव को जब केवलज्ञान हुआ उस समय समवसरण में कोई गणधर नहीं थे।^(४) भरत चक्रवर्ती की प्रार्थना से भगवान की दिव्यध्वनि खिरी जिसमें तत्त्वों के स्वरूप के साथ श्रावक धर्म का दिव्योपदेश मिला। श्रावकों का प्रथम कर्तव्य है जिनेन्द्र देव की पूजा^(५) (अर्हणा, अर्चा, यजन, यज्ञ, इज्या, सर्पया, सेवा, मह, वृत्तु, कल्प, उपासना आदि सब पर्यायवाची हैं) करे। पूजा के ४ (चार) भेदों का स्वरूप कहा है।^(६)

(१) नित्यार्चना (२) चतुर्मुख (३) कल्पवृक्ष (द्रुम) (४) आष्टाह्निक

१ अपने घर से सामग्री (जलगधादि) लेकर शुभोपयोग से की गई पूजा नित्यार्चना कही जाती है।

(१) आ उ खा श्रावका. १०१ से १०३ (२) ठ. फे, वा सा प्र गाथा ४३ (३) वही, पृष्ठ १०० (४) आ ज से, प्र पा श्लोक १७-१८ आ जि से, आ पु, पर्व २४ श्लोक ७९ (५) आ ज से, प्र पा श्लोक ६० (६) वही, श्लोक ५६ से ५९

२. चारों दिशाओं में जिन बिम्ब स्थापित कर शत इन्द्रों द्वारा प्रचुर पुण्य को देने वाली पूजा चतुर्मुख पूजा कहलाती है ।

३. दुखी, दरिद्री मनुष्यों की इच्छानुसार दान देकर बहुमूल्य सामग्री द्वारा जिनेन्द्र भगवान की पूजा जो चक्रवर्ती द्वारा की जाती है कल्पद्रुम पूजा कहलाती है ।

४. इन्द्र ध्वज, सिद्धचक्र, त्रैलोक्य तिलक विधान आदि पूजा जो धन का लोभ त्याग कर प्रभावनापूर्वक की जाती है आप्टाह्निक पूजा कहलाती है । भगवान आदिनाथ का दिव्य उपदेश सुनकर भरतचक्रवर्ती ने अतुल सम्पत्ति से ७२ जिनालयों का निर्माण कराया, उनमें भूत, वर्तमान एवं भविष्यकाल संबंधी जिनबिम्बों की स्थापना की ।^(१)

जिनबिम्बों के अभिषेक - पूजा की परम्परा अनादि - निघन है । पॉर्वों मेरु उससे संबन्धित वृक्षादि एवं नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिनालयों में अकृत्रिम जिनबिम्ब हैं । जिनका अभिषेक पूजन इन्द्र एवं देवगण करते हैं, यहाँ तक कि पर्व के दिनों में चतुर्निकाय के देव चौबीसों घंटे अभिषेक पूजा करते हैं ^(२)

यह भी विचारणीय है कि साक्षात् तीर्थकर भगवान का समवशरण विराजमान होने पर एवं विदेह क्षेत्र में विद्यमान बीस तीर्थकरों के दर्शन करते हुये भी इन्द्र एवं देव सपरिवार जाकर अकृत्रिम जिनालयों में दर्शन, अभिषेक, पूजन करते हैं ।

भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्वाण पश्चात् ५० लाख करोड़ सागर एवं १२ लाख पूर्व बीतने पर भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ। उनके ही काल में द्वितीय चक्रवर्ती सगर ने जिनालयों का निर्माण कराके जिनबिम्बों को स्थापित किया ।^(३)

इस प्रकार तृतीय काल से जिनालयों और जिनबिम्बों की स्थापना हुई, इससे पता चलता है कि यह परम्परा बहुत ही प्राचीन है। वर्तमान इतिहास के अनुसार द्वितीय शताब्दि में सम्राट् खारबेल के शिलालेख से ज्ञात होता है कि सम्राट के द्वारा भगवान ऋषभनाथ की प्रतिमा विराजमान की गई। उस प्रतिमा को मगध का राजा नन्द कलिंग विजय के बाद पटना ले गया था, किन्तु खारबेल मगध पर चढ़ाई करके भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा वापिस लाये थे। आजकल वह मूर्ति जैनों का प्राचीन इतिहास बता रही है। यह प्रतिमा मौर्यकालीन पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है । ^(४)

वर्तमान में मूर्तियों की आवश्यकता ^(५)

जिस प्रकार दीवार पर बने चित्रों से अथवा काष्ठ या पाषाण से निर्मित मूर्तियों को देखकर राग-विराग रूप परिणाम होते हैं उसी प्रकार स्थापना निक्षेप द्वारा स्थापित वीतराग भगवान की मूर्ति से साक्षात् तीर्थकर भगवान का स्मरण हो जाता है और परिणाम निर्मल होते ही सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाती है ।

(१) आ. ज. से. प्र. पा. श्लोक १७ (२) आ. जे. च. सि. त्रि. सा., गाथा ९७३ से ९७६ (३) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक १८ (४) भारतीय मूर्तिकला के विकास में जैनों का योगदान (५) आ. ज. से., प्र. पा., श्लोक ६७ एवं ६८

प्रतिष्ठा का लक्षण (१)

प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, स्थापन, तत्प्रतिक्रिया, इत्यादि प्रतिष्ठा के पर्यायवाची हैं। पंचकल्याणक के मंत्रों से गुणों की स्थापना सर्वज्ञपने की स्थापना, क्रिया अनुष्ठान निक्षेपादि से स्थापना द्वारा जिनबिम्ब में पूज्यता आती है और स्तुति आदि से पुण्यार्जन होता है। यह बिम्ब प्रतिष्ठा का प्रभाव है। मंत्रों द्वारा किये गये सस्कार, अकन्यास, मन्त्रन्यास गुणों की स्थापना आदि प्रतिष्ठा के समय पाषाण या धातु की मूर्तियों में जो सस्कारों का प्रभाव किया जाता है वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा है।

अतएव प्रतिष्ठा के समय मंत्राराधन, भक्तियों एवं क्रियाओं को विधिवत् करना चाहिये, मात्र पुष्प क्षेपण करना उचित नहीं क्योंकि आचार्य जयसेन स्वामी ने स्पष्ट निर्देशित किया है कि 'अधिवासना, नेत्रोन्मीलन, तिलकदान, अंकन्यास, सूरिमंत्र, प्राण प्रतिष्ठा यह क्रियाये प्रत्येक मूर्ति में होना चाहिये।^(२)

अन्य विधि पुण्यबध कराने वाली है वह विधिनायक प्रतिमा में करते हुये विशेष भक्ति पूर्वक करना चाहिये इस प्रकार पंचकल्याणक विधि स्वभाव सिद्ध है। प्रतिष्ठाचार्य का कर्तव्य है कि प्रमादरहित सावधानी के साथ प्रत्येक क्रिया करे तब ही प्रतिष्ठा उत्तम एवं फल दायक होती है।

सामग्री वर्णन (३)

जिनेन्द्र अर्चना के लिये अष्ट प्रकार की सामग्री का वर्णन प्रतिष्ठापाठ, धवलापुस्तक (८) एवं श्रावकाचार आदि ग्रंथों में विस्तृत रूप से किया गया है। वर्तमान में कोई मात्र भावपूजा को प्रधानता देते हैं उन्हें दीप, धूप आदि से पूजा करना उचित नहीं लगता किन्तु आचार्यों ने गृहस्थ श्रावक को अष्ट द्रव्य से पूजा करने का ही विधान बतलाया है। अतः अष्टद्रव्य से ही पूजा करे।

गृहस्थ को अष्ट द्रव्य से भाव सहित पूजा करने का विधान है सामग्री लाने एवं बनाने में विवेक भी आवश्यक है। आगम में प्रमाद को पाप और अहितकर माना है फिर वह प्रमाद चाहे बाहर का हो या अतरंग का। अतएव किसी भी कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिये। शुद्ध, प्रासुक निर्दोष सामग्री से बुद्धि पूर्वक जिनेन्द्र पूजा करना श्रावक का प्रथम कर्तव्य है।

(१) जल- गंगादि शुद्ध तीर्थ से उत्पन्न, सूतीवस्त्र से छना हुआ, प्रासुक (अग्नि से गर्म किया) होना चाहिये।

(१) आ. ज. से, प्र. पा, श्लोक ६४ एवं ६६

(२) वही, श्लोक ३४९ (३) वही, श्लोक ९४ से १०१

(२) चन्दन- केशर, कर्पूर, मलयागिरि चन्दन, प्रासुक जल से बना हुआ हो तथा बहुत ही सुगंध युक्त हो ।

(३) अक्षत- उज्ज्वल, अखण्ड उत्तम चावलो को तीन बार प्रासुक- जल से धोकर उपयोग करना चाहिये ।

(४) पुष्प - ग्रंथो मे तीन प्रकार के पुष्पों की चर्चा की गई है ।

१. प्रासुक, निर्जीव सुगंधित पुष्प ।

२. चांदी एवं स्वर्ण से बनवाये गये पुष्प ।

३. केशर से चावलो को रंगकर बनाये गये पुष्प ।

(५) नैवेद्य - शर्करा एवं घृत से बनाये गये मोदक आदि, किन्तु इनके लिये विशेष सावधानी का भी वर्णन है । प्रतिदिन मर्यादित (दिन मे ही) बनाये नैवेद्य हो । वर्तमान में गोला की चिटक का उपयोग शुद्ध है ।

(६) दीप - घृत जो (स्वयं शुद्धि पूर्वक बनाया गया) या रत्नों का दीप जिनेन्द्र पूजा में प्रयोग करना ।

(७) धूप - अगस्तगर, मलयागिरि आदि शुद्ध पदार्थों से सुगंधित धूप बनाकर अग्नि मे क्षेपण कर पूजा करे । ध्यान रखे कि धूप बाजार की बनी हुई न हो । मर्यादित शुद्ध पदार्थों से बनवाकर उपयोग करे अथवा मलयागिरी चंदन को रेती से बुरादा बनाकर उपयोग करना चाहिये ।

(८) फल - सुन्दर, मनोहर, प्रासुक, अचित्त फलो से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करना ।

सामग्री में प्रासुकता एवं उत्कृष्ट निर्दोषता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है । सदोष सामग्री का उपयोग पूजा मे नहीं करना चाहिये। मूर्खपना, कृपणता, योगरहित (मन, वचन एवं काय द्वारा प्रमाद) सामग्री जिनेन्द्र पूजा मे योग्य नहीं मानी है ।^(१) अतः जिनबिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में या नित्यमह पूजा में सामग्री शुद्ध एवं आगमानुकूल होना चाहिये । पूजा विधि में मनमानी करने की आज्ञा आगम मे नहीं है ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव शुद्धि

(१) द्रव्य- सचित्त अचित्त के भेद से दो प्रकार के द्रव्य माने हैं । सचित्त द्रव्य प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठाचार्य इन्द्रादि पात्र यह सब संयमी आगमानुसार चर्चा करने वाले होना चाहिये।

अचित्त द्रव्य, प्रतिमा, वेदी, मण्डप, पूजा के वर्तन, सामग्री आदि समस्त साधन, वस्त्रादिक शुद्ध, नवीन, उत्तम होना चाहिये ।

(२) क्षेत्र - पवित्र, मनोज्ञ, निर्जीव, उपद्रव रहित, तीर्थभूमि के निकट निर्दोष, ईतिभीति, अग्निभय रहित, श्मशान भूमि न हो, नदी, तालाब, बगीचा, निकट हो आर्य पुरुषों से युक्त हो, अनार्यों का निवास न हो ऐसा उत्तम स्थान होना चाहिये।

(३) काल - वर्षाकाल न हो, राजा मंत्री आदि का मरण न हुआ हो, रोग, महामारी, शत्रु आदि की पीड़ा न हो, भूकंप, दिशादाह, स्वचक्र, परचक्र, चोर डाकू आदि का भय न हो, सर्वोपद्रव रहित, निर्दोष काल होना चाहिये।

(४) भाव - समस्त सध मे प्रसन्नता हो, धर्म वृद्धि हो, उत्सव मे प्रसन्न चित्त, आनन्द उल्लास हो, भव्य जीवों का उपयोग निर्मल हो, साधु सन्त विद्वानों के समागम से परिणाम निर्मल हो, धार्मिक अनुष्ठान करने का उत्साह हो इस प्रकार भाव पवित्र होना चाहिये।

प्रतिष्ठा पात्रों की शुद्धि एवं मंत्राराधन विधि

प्रतिष्ठा पात्रों की शुद्धि सकलीकरण और अग्न्यास क्रिया से मंत्रों द्वारा की जाती है। सकलीकरण के दो भेद हैं। (१)

(१) निश्चय (अंतरंग) सकलीकरण (२) बाह्य सकलीकरण

अन्तरंग सकलीकरण मन, वचन एवं काय की निर्मलता के साथ क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायों की मन्दता हो जाना। इसमें अन्दर के विकारों का अभाव जितने अंश में होता है वही यथार्थ सकलीकरण माना जाता है।

बाह्य सकलीकरण में मंत्रित जल से शरीर शुद्धि करना। इस विधि में मन वचन काय एवं कषायों की मन्दता करने के लिये नियम व्रतादिक धारण करना अनिवार्य है।

(१) सप्त व्यसन का त्याग (२) अष्टमूलगुणों का पालन (३) रात्रिभोजन त्याग (४) अभक्ष्य भक्षण त्याग (५) नशीले पदार्थों का त्याग (६) ब्रह्मचर्य का पालन (७) भूशयन (८) त्रिकाल सामायिक (९) विषय कषाय की मन्दता (१०) एकाशन (११) व्यग्रता, चित्त की चंचलता एवं आलस्य का त्याग (१२) ताम्बूल (पान) तम्बाखू, गुटका, पान मसाला आदि का त्याग इनके साथ जिनेन्द्र पूजा एवं स्वाध्याय करना आवश्यक है।

कार्य की निर्विघ्नता के लिये लघुकार्यों में कम से कम ११ ग्यारह हजार मध्यम ५१ इक्यावन हजार एवं बिम्ब प्रतिष्ठा आदि में सवा लाख, शान्ति मंत्रों का जाप किया जाना आवश्यक है।

कार्य के समापन में दशांश मंत्रों द्वारा आहुतियां (हवन) करना आवश्यक है। वर्तमान में हवन कार्य आगमानुसार नहीं हो रहा है जो गलत है। (२)

(१) आ. ज. से, प्र पा श्लोक ३६९ (२) वही, श्लोक ४२१

वर्तमान में बिना अग्नि के पुष्पो से हवन करने की पद्धति आरम्भ हुई है जिसका किसी आगम ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि घूप के प्रयोग का उल्लेख आचार्य कुन्दकुन्द ने चैत्यभक्ति में, धवलापुस्तक (८) पृष्ठ ९२ एव जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण में संस्कारों का वर्णन करते हुये, सस्कार विधि और हवन करने का विधान विस्तृत रूप में किया है। (देखें घूप एव हवन आगम की दृष्टि में)

प्रतिष्ठाकार्यों में भक्तियों, यत्र एव मंत्राराधन, प्रतिष्ठा कार्य में संलग्न प्रत्येक पात्र की मन, वचन, काय की शुद्धि के साथ श्रद्धा एव समर्पण की भावना परम आवश्यक है। प्रतिष्ठा में सूरिमंत्र, प्राण-प्रतिष्ठा के द्वारा पूज्यता स्थापित की जाती है। भक्तियों एवं मंत्र सस्कार गुरु (मुनिराज) आचार्य के द्वारा ही किये जाना चाहिए।

बिना गुरु के मंत्र शक्तिहीन हो जाते हैं।

मंत्र का निर्दोष उच्चारण, भावों की विशुद्धता एवं महाव्रती की संयम साधना से जब प्रतिमा सस्कारित होती है तभी करोड़ों श्रद्धालुओं का मस्तक स्वयमेव झुक जाता है। अर्चना वन्दना के स्वर गुजायमान होते हैं। ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमाये धर्मायतनों में स्थापित करके भक्त धन्य होते हैं और संयम पूर्वक अपना जीवनधन्य करते हैं। प्रत्येक क्रिया में भक्तियों, यत्र, मण्डल एव मंत्राराधन (१०८ बार), आगमानुसार करना चाहिये (१)

प्रतिष्ठाचार्य का कर्तव्य है कि वह सभी कार्य/ क्रियाये समय पर करावे तभी पूर्ण विधिविधान संभव है। कल्याणको के साथ-साथ सभी कार्यों में आवश्यक मंत्र यंत्र मण्डल एव भक्तियों का वर्णन इस प्रतिष्ठा ग्रंथ में क्रिया के पूर्व में दिया गया है।

प्रत्येक कल्याणक की क्रिया प्रतिष्ठाग्रथों में वर्णित समय पर करना चाहिये। दीक्षा कल्याणक मध्यान्होपरात (चाहे ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु) मुनिराज के सान्निध्य में ही किया जाना चाहिये। रागी गृहस्थ (प्रतिष्ठाचार्य) वीतरागी प्रतिमा की क्रियाओं को नहीं करे। दीक्षा क्रिया अकन्यास संस्कारारोपण सभी क्रियाये दिगम्बर मुनिराज के द्वारा कराना चाहिये। ऐसी मेरी भावना है। अकन्यास एवं सस्कार विधि आचार्य जयसेन स्वामी ने तपकल्याणक के दिन ही करने को लिखा है, किन्तु अन्य प्रतिष्ठा ग्रथों में यह क्रियाये ज्ञान कल्याणक के दिन तिलक दान के समय करने का वर्णन है। प्रतिष्ठा सारोद्धार, प्रतिष्ठा तिलक (कोल्हापुर) में पहले सस्कार विधि बाद में अकन्यास विधि दी है। प्रतिष्ठा विधि दर्पण में तपकल्याणक के दिन संस्कार विधि तथा ज्ञान कल्याणक में अकन्यास क्रिया का विधान है। आज वर्तमान में मुनिदीक्षा के साथ में ही सस्कार विधि की जाती है। विद्वान्/प्रतिष्ठाचार्य यथार्थ निर्णय करें।

(१) आ. ज. से, प्र. पा. पृष्ठ १२० से १३८

ज्ञानकल्याणक के दिन यज्ञ वेदी पर केवल प्रतिष्ठा कार्य मे सलग्न पात्र पूर्ण शुद्धि सहित उपस्थित हो अन्य सभी का प्रवेश वर्जित करे पवित्रता पूर्ण, शात वातावरण बनाये जिससे सभी का चित्त एकाग्र हो सके । सभी इन्द्र इन्द्राणिया णमोकार महामन्त्र की जाप निरन्तर करते रहे जब तक कि कार्य पूर्ण नही होता है ।

ज्ञान कल्याणक का कार्य शीघ्र आरम्भ करना चाहिये चूकि प्राणप्रतिष्ठा सूरि मन्त्र पंचकल्याणक मे अति महत्वपूर्ण क्रिया है । इस दिन की क्रियाये समस्त प्रतिमाओ पर होना आवश्यक है सभी मन्त्रों की आराधना १०८ बार शुद्ध उच्चारण के साथ अलग-अलग करना चाहिये । भक्तियों एव विशेष मन्त्रों का जाप मुनिराज से भी करा सकते है ।

आचार्य जयसेन वृत्त प्रतिष्ठा पाठ मे तिलकदान विधि मे शचि (इन्द्राणी) मंगल भावना के साथ इस महत्वपूर्ण कार्य को सपादित करने के लिये प्रतिष्ठाचार्य का तिलक करके सम्मानित करती है कि यह मंगल कार्य आप निर्विघ्न सम्पन्न करावे । (१)

परन्तु आज प्रतिष्ठाचार्यों ने इस मंगल क्रिया को अर्थोपार्जन का साधन बना लिया है, जो उचित नही है ।

मुखोद्घाटन क्रिया के समय यवमाला और सप्तधान्य को प्रतिमा के सामने रखने को लिखा है मुख पर बाधने को नही । श्लोक ८४७ मे यथाख्यात् चारित्र प्राप्त जिनेन्द्र की पूजा की और ८४८ वे श्लोक मे मोहनीय, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी और अन्तराय कर्म के अभाव करने वाले जिनेन्द्र को अर्घ चढाया गया है । इस प्रकार बारहवे गुणस्थान मे स्थापित बिम्ब की कल्पना की गई तब उस प्रतिमा के मुख पर कपड़ा बाधा जाना कैसे संभव है । प्रतिष्ठा पाठ मे प्रतिमा के सामने परदा लगाने को लिखा कि 'प्रतिमा इतनी तेज स्वरूप हो गई है कि साधारण व्यक्ति उसे देख नही सकता' अतएव परदा करे 'मुखाग्रमहवस्त्रमुपाकरोमि' पश्चात् मन्त्र द्वारा परदा खोलने को भी लिखा 'इति मंत्रेण मुखादग्रे वस्त्रयवनिकां दूरमुत्सारयेत्' इतना स्पष्ट वर्णन होने पर भी आज प्रतिष्ठाचार्य मनमानी कर रहे है ।

आचार्य जयसेन स्वामी ने इसका विशेष स्पष्टीकरण पृष्ठ २८० पर किया है ।

'इति मुखाग्रे वस्त्रयवनिकां दत्त्वा यवमालावलयं जिनपादाग्रतः स्थापयेत्'

सामान्यतः भी मूल पाठ मे 'वस्त्र यवनिकां दत्त्वा' का तात्पर्य वस्त्र का परदा करना (देना) है, तब यह क्रिया आगम विरुद्ध क्यों? जब एक दिगम्बर मुनिराज के शरीर पर वस्त्र बाधने से उनका दिगम्बरत्व खण्डित होता है तब बारहवे गुणस्थान मे स्थापित

बिम्ब पर वस्त्र बाधना कहां तक सगत है ? आशा है प्रतिष्ठाचार्य इस विषय पर गभीरता पूर्वक विचार कर क्रिया में सुधार करेंगे ।

सूरि मंत्र मुनिराज के द्वारा ही दिलाना चाहिये । प्रतिष्ठाचार्य को सूरि मंत्र देना भै उचित नहीं मानता । रागी गृहरथ वीतरागी प्रतिमा को सूरिमंत्र नहीं दे सकता तथापि कोई - कोई प्रतिष्ठाचार्य लंगोटी लगाकर (नग्न होकर) सूरि मंत्र देते हैं किन्तु वस्त्र धारी निर्ग्रथ बिम्ब को सूरि मंत्र दे कदापि उचित नहीं। कोई - कोई प्रतिष्ठाचार्य वस्त्र उतारकर सूरि मंत्र देते हैं वह ध्यान करे कि दिगम्बर मुद्रा धारण करने के पश्चात् वस्त्र धारण नहीं करना चाहिये जैसे ब्रह्मगुलाल मुनिराज । स्वयं विचार करें क्या इस प्रकार दिये गये सूरिमंत्र और प्राण प्रतिष्ठा से जिनबिम्ब प्रतिष्ठा निर्दोष नहीं हो सकती है ?

गुरु आज्ञाउपलंभन विधि के अनुसार आचार्य/मुनिराज से आशीर्वाद प्राप्त करके यज्ञ दीक्षा संस्कार ग्रहण करके ही प्रतिष्ठाकार्य उनके निर्देशानुसार संपादित करना चाहिये ।^(१) बृहत्संहिता में श्री वराहमिहिर ने पृष्ठ ४०२ में प्रतिमा प्रतिष्ठापन के अधिकारी शीर्षक में स्पष्ट लिखा है कि "जिन की प्रतिष्ठा दिगम्बर क्षपण करें" ।

अतः सूरिमंत्र के लिये मुनिराज का होना अनिवार्य है। बिना मुनिराज के प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिये ऐसा मेरा विचार है ।

आचार्य श्री जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ एवं पण्डित आशाधर जी ने प्रतिष्ठा सारोद्धार में अर्हन्त बिम्ब की प्रतिष्ठा की पूर्ण विधि दी है । सिद्ध परमेष्ठी (निर्वाण कल्याणक) की प्रतिष्ठा में अष्ट गुणारोपण निर्वाण भक्ति सिद्ध परमेष्ठी के गुणों की पूजा का विधान दिया है अन्य क्रियाये नहीं दी हैं ।

अन्य सब प्रतिष्ठा ग्रंथों में निर्वाण कल्याणक की क्रिया विस्तार से दी गई है, जिनालय में अरिहन्त बिम्ब की स्थापना होती है अतएव चार कल्याणकों की विधि विस्तार पूर्वक दी है निर्वाण कल्याणक सिद्ध परमेष्ठी का होता है यह विषय विचारणीय है ।

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में यंत्रों की महत्वपूर्ण उपयोगिता है । प्रतिष्ठा कार्य में उपयोग होने वाले प्रत्येक यंत्र का अपना महत्व एवं प्रभाव है, तीर्थकरो के पूर्ण जीवन वृत्त को ५ दिनों में इन्हीं यंत्रों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है । विनायक यंत्र पंचपरमेष्ठी एवं मंगल उत्तमशरण की साक्षी, सुरेन्द्र यंत्र इन्द्रों की उपस्थिति, वर्धमान यंत्र उत्तरोत्तर शरीर, आयु की वृद्धि, इसी प्रकार अन्य यंत्र ध्यान की वृद्धि गुणस्थानों का आरोहण दर्शाते हैं । परन्तु निर्दोष प्रतिष्ठा के लिये यंत्रों की शुद्धि एवं प्रतिष्ठा अनिवार्य है ।

श्रीचन्दनादिवेद्यां तु पट्टादौ सम्यगुद्धृतम्
सिद्धचक्रादि संपूज्य तत्पत्रं पुष्पमण्डपे ।

मंगल द्रव्य सर्वौषधन्मिश्र तीर्थवारिणि
निशामुषितमानीयं निवेश्य स्नपनमण्डपे ॥^(१)

आगमानुसार यत्रो की शुद्धि एव प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा ही करना चाहिये । मात्र हवन कुण्ड मे रखने से यत्र शुद्ध नहीं होते है ।

जिस प्रकार प्रतिमा को सस्कारित किया जाता है, उसी प्रकार यत्रो को भी संस्कारित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है क्योंकि जिन बीजाक्षरो द्वारा प्रतिमा मे सस्कार किये जाते है उन्ही बीजाक्षरो को यंत्र पर अकित किया जाता है। सिद्ध चक्र यत्र पूजा मे उस पर अकित बीजाक्षरो की ही पूजा की जाती है । ऋषिमण्डल विधान मे शब्द ब्रह्म और परमब्रह्म दो प्रकार के ब्रह्मो का वर्णन आया है शब्द ब्रह्म जिनवाणी यंत्र आदि है तथा परमब्रह्म प्रतिमाए है ।

जिस प्रकार प्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य है उसी प्रकार प्रतिष्ठित यत्र भी उतने ही पूज्य है। अतः यत्रो की भी वही विनय पूजन - प्रक्षाल करना अनिवार्य है। यदि यत्रो को गृहनिवास मे स्थापित करे तो वहां भी उनकी शुद्धि, विनय आवश्यक है , प्रतिष्ठित यत्रो की अविनय से दोष लगता है अतः इसका विशेष ध्यान रखे ।

हवन के द्वारा शुद्ध किये तावीज, अगूठी, कड़ा एव अन्य सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखे कि उनको अशुद्ध स्थान (शौच आदि स्थानो पर) पर न ले जावे अशुद्ध अवस्था मे धारण न करे अन्यथा उनका विपरीत एव प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ।

धार्मिक अनुष्ठानो को व्यवसाय का साधन नहीं बनाना चाहिये। प्रतिष्ठाचार्य एव श्रावको को भी चाहिये कि विधि विधान की क्रियाये आगमानुसार की जा रही है या नहीं इसका ध्यान रखे तभी क्रियाये सही हो सकेगी ।

यंत्रो की प्रतिष्ठा के समान ही जिनवाणी की स्थापना जिनालय मे की जाती है, मन्त्राराधन के उपयोग मे आने वाली माला (जाप) की भी शुद्धि मन्त्र द्वारा करना चाहिये ।

चतुर्विधिमहासंघं संतप्याहारभेषजैः

योग्योपकरणं दत्त्वा यष्टा संपूजयेत्स्वयम् ।

प्रतिष्ठाचार्यमानस्य तस्यात्मानं समर्थं च,

वस्त्रैराभरणाद्यैश्च संपूज्य क्षमयेत्ततः ।

(१) प आ. ध , प्र सा अ. ६ श्लोक ५६-५७

संमान्य सूत्रधारादीन् स्वर्णवस्त्रान्नभूषणैः
गांधर्वनर्तकादीश्च यथार्हं तत्समर्पयेत् ॥^(१)

प्रतिष्ठाकारक का कर्तव्य है कि चतुर्विधसघ का, प्रतिष्ठाचार्य का, प्रतिष्ठा सहायक का, गधर्वादि का वस्त्राभूषण आदि से यथायोग्य सम्मान करे। प्रतिष्ठाचार्य को भी निर्लोभी होना चाहिये। विधि विधान कराने की राशि तय नही करना चाहिये, श्रावक जैसा सम्मान करे सहजता से संतोष पूर्वक स्वीकार करना चाहिये।

इस कृति के संकलन मे मुख्य आधार आचार्य जयसेन^(२) कृत "प्रतिष्ठापाठ" है। आचार्यश्री ने मुहूर्त, मंदिर निर्माण, प्रतिमा माप एवं निर्माण से लेकर प्रतिष्ठा पात्रो की योग्यता, भक्तियों, मंत्राराधन, यंत्र निर्माण विधि एव फल आदि विषयो की विवेचना सुन्दर ढंग से की है।

प्रतिष्ठापाठ के अतिरिक्त क्रियाओ के विशद् विवेचन हेतु अन्य प्रतिष्ठा ग्रंथ जैसे प्रतिष्ठा सारोद्धार, प्रतिष्ठा तिलक, प्रतिष्ठा दर्पण के साथ साथ आगमग्रंथ, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष ग्रंथो सहित लगभग ९५ ग्रंथो का आलोडन करके प्रमाण पूर्ति करने का प्रयास किया है। मेरा विश्वास है कि यह ग्रंथ प्रतिष्ठा विधि विधान के सम्पन्न कराने मे अत्यंत सहयोगी होगा।

मुझे प्रतिष्ठा सबधी जितना ज्ञान श्रद्धेय गुरुजनो, विद्वानो एवं जिनवाणी के स्वाध्याय से मिला है इस ग्रंथ मे देने का प्रयास किया है। किसी भी विधि विधान को आगम के विपरीत नही लिखा है फिर भी मेरी अल्पज्ञता से कही कोई भूल हो गई हो तो विद्वज्जन उसको सुधारकर मुझे सूचित करे। अनुपलब्ध विषयो को भी आगम द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है इसमे जो भी शंका समाधान हो आचार्य तथा मुनिराज एव विद्वज्जन मुझे सवेक्त करके उपकृत करेगे।

मेरा आशय किसी को भी ठेस पहुचाने का नही है तथापि यदि किसी को कोई संक्लेश हो कृपया क्षमा करे। मेरी यही भावना है कि विधि विधान आगमानुसार होना चाहिये हमारे सहयोगी विद्वानो से भी अनुरोध है वह इस ओर ध्यान देवे तथा नवीन प्रतिष्ठाचार्यो को सवेक्त है कि वह जो भी क्रिया करावे आगम ग्रंथो मे देख लें, विवेक पूर्वक कार्य सम्पन्न करावे, आगम के साथ छल न करे श्रावको की भावना के अनुरूप अपनी पूर्ण निष्ठा, शक्ति से विशुद्धि पूर्वक विधि विधान सम्पन्न करावे।

(१) प, आ ध., प्र सा. ५ पृष्ठ १२३ (२) आ. ज. से प्र. पा पृष्ठ ३०८ श्लोक ९२३

‘प्रतिष्ठा रत्नाकर’ के प्रकाशन की प्रेस कापी-तैयार करने का कार्य हमारे प्रिय स्नेही प० नन्हे भाई जी शास्त्री सागर ने अथक परिश्रम करके किया। ग्रंथ प्रकाशन में मूर्धन्य विद्वान् श्रद्धेय प० जगन्मोहन लाल जी सिद्धातशास्त्री कटनी एव डा० प० श्री पन्ना लाल जी साहित्याचार्य सागर से विशेष सुझाव एव विषय संयोजन हेतु निर्देश मिले तथा लिपि सशोधन (प्रूफरीडिंग) का कार्य वरिष्ठ विद्वान् प० बाबूलाल जी फाल्गुल वाराणसी, प० मूल चन्द्र जी शास्त्री टीकमगढ़, प० दया चन्द्र जी शास्त्री अजयगढ़ एव डा० जय कुमार जी मुजफ्फरनगर ने अत्यधिक परिश्रम के साथ किया, ग्रंथ संपादन का दुरुह कार्य प० डॉ० दरबारी लाल जी कोठिया बीना ने स्वीकार करके मेरा गौरव बढ़ाने के साथ ग्रंथ के संयोजन/परिमार्जन में अथक परिश्रम करके जटिल विषयों का सरलीकरण कर नवीन विद्वानों पर उपकार किया है। आप सभी के सक्रिय सहयोग से ही मैं इस कार्य को निष्पादित कर सका हूँ। मैं सभी का हार्दिक आभारी एव कृतज्ञ हूँ।

प्रतिष्ठा रत्नाकर की सामग्री संयोजन का कार्य परम पूज्य आचार्य श्री १०८ विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से प्रतिष्ठा क्षेत्र में आये चि० ब्र० जय कुमार निशात एम०एस-सी० ने दिन-रात परिश्रम करके निष्ठा एव श्रद्धा के साथ करते हुये प्रतिष्ठा कार्य भार को भी सभाला है। इस ग्रंथ के सकलन में अरिहत साहित्य सदन परिवार मुजफ्फरनगर के लाला श्री श्रीचन्द्र जी एव परिवार का सक्रिय सहयोग मिला तथा मुद्रण में मे० माईक्रोजोन देहरादून भारतीय ख्याति प्राप्त रगकर्मी पी डी रुद्र कुमार झा (छिन्दवाडा) ने अपने चित्रों द्वारा ग्रन्थ की सुन्दरता में अपना सहयोग दिया है, साथ ही मुझे जिन महानुभावों का सहयोग प्रत्यक्ष/परोक्ष में मिला है उन सभी के प्रति मैं आभारी हूँ।

उपकृत हूँ परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि शिष्य परम्परा के पंचम मुनि श्री उपाध्याय गुप्तिसागर जी महाराज का। जिनके शुभाशीर्वाद एव सत्प्रेरणा से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। प्रकाशन कार्य प्रीति विहार जैन समाज दिल्ली के सौजन्य से हुआ। उपाध्याय श्री के चरणों में नमन करते हुए समाज के प्रति आभार एव साधुवाद ज्ञापित करते हुए कामना करता हूँ कि सभी की रुचि इसी प्रकार जिनवाणी के प्रचार-प्रसार एव धार्मिक कार्यों में निरन्तर बनी रहे।

मैं अपने परमपूज्य पिता श्री प० मन्नूलाल जी प्रतिष्ठाचार्य का ऋणी हूँ जिनके प्रसाद से इस कार्य की शिक्षा मुझे मिली जिससे मैं इस योग्य बन सका।

विनम्र भाव सहित ।

पुष्प भवन, टीकमगढ़ (म०प्र०)

पं० गुलाब चन्द्र पुष्प ‘प्रतिष्ठाचार्य’

फोन : ०७६८३-३३१३८

कब, कहां, कैसे ...?

समाज के विस्तार एव विकास के साथ-साथ जिन मदिरो का निर्माण एव पंचकल्याणक जिनबिम्ब प्रतिष्ठार्ये भी उसी अनुपात मे हो रही है। मूलत प्रतिष्ठा का विधिविधान संस्कृत भाषा मे हे। जो कि प्रतिष्ठापात्रो की समझ से परे है। अत पूरे आयोजन की शुद्धि / क्रिया/ सफलता प्रतिष्ठाचार्य पर निर्भर रहती है, जब भी 'जिनवाणी' को आधार मानकर सभी कार्य पूर्णविशुद्धि एव विधिविधान पूर्वक किये है, तब वह निर्विघ्न सम्पन्न हुये है, लेकिन जब जब 'जनवाणी' को आधार बनाकर प्रतिष्ठाकार्य सम्पन्न हुये है, कोई न कोई व्यवधान अवश्य उपस्थित हुआ है।

अतः सभी प्रतिष्ठाचार्यों से अनुरोध है कि न आगम को तोडे और न अपनी ओर से जोड़ें जैसा आगम मे विधिविधान दिया है तदनुसार ही कार्य सम्पादित करें।

चतुर्थ काल मे सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रवृत्ति का बध करने वाले तीर्थकरो केपाचो कल्याणको का उत्सव स्वय सौधर्म इन्द्र समस्त देवो सहित आकर विशेष प्रभावना और भक्ति पूर्वक करता था। अवसर्पिणी के इस पचम काल मे न तीर्थकर होने का नियम है और ना ही वैमानिक देवो का आगमन है, इसी कारण स्थापना निक्षेपानुसार धातु / पाषाण की प्रतिमाओ मे तीर्थकरो की स्थापना करते है, इस भव्य आयोजन मे मनुष्यो में ही इन्द्र की कल्पना कर प्रभावक एव भक्तिपूर्वक पचकल्याणक समारोह का आयोजन करते है।

पंचकल्याणको का वर्णन केवली भगवान की दिव्यध्वनि के अनुसार जिनागम के बारहवे दृष्टिवाद अग के अन्तर्गत किया गया है, इसके पाच भेद है-

(१) परिकर्म (२) सूत्र (३) प्रथमानुयोग (४) पूर्वगत (५) चूलिका

इनका जो चौथा पूर्वगत भेद है, उसके चौदह भेद बताये है, उसका जो ग्यारहवा भेद कल्याणवाद नाम का पूर्व हे उसकी पद सख्या छब्बीस करोड है। उसमें तीर्थकरो के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एव निर्वाण कल्याणक का सम्पूर्ण वर्णन है, उसी का आधार लेकर पूर्वाचार्यों ने पचकल्याणक क्रिया सम्बन्धी प्रतिष्ठाशास्त्रो की रचना की है, वर्तमान मे उन्ही प्रतिष्ठाग्रथो के आधार से समस्त क्रियाये सम्पन्न कराई जाती है, मुख्य ग्रथ निम्न है।

(१) श्रीमद् जयसेनाचार्य कृत प्रतिष्ठापाठ (सस्कृत)

(२) श्रीमद् वसुनन्दी आचार्य कृत प्रतिष्ठासार सग्रह (सस्कृत)

- (३) श्री नेमिचन्द्रदेव कृत प्रतिष्ठा तिलक (सस्कृत)
- (४) श्री प० प्रवर आशाधरजी कृत प्रतिष्ठासारोद्धार (सस्कृत)
- (५) श्री प० शिवजीराम पाठक रांची द्वारा सकलित प्रतिष्ठाचन्द्रिका, (सस्कृत)
- (६) श्री ब्र० शीतल प्रसाद जी द्वारा सकलित प्रतिष्ठासार सग्रह (सस्कृत, हिन्दी)

पूर्व मे प्रतिष्ठाकार्य सस्कृत पूजा पद्धति से निष्पादित होते थे परन्तु वर्तमान मे वैज्ञानिक साधनो एव आधुनिकता के कारण प्रतिष्ठा कार्य ब्र० शीतल प्रसाद जी के द्वारा हिन्दी पद्य मे अनुवादित 'प्रतिष्ठासार सग्रह' से कराया जाता है। शैली एवं संगीत सुरुचिपूर्ण और भक्तिमय हो यह आवश्यक है, पर संगीत और मंचीय प्रदर्शन की बहुलता में भक्ति छूट जाये या आगम में वर्णित कल्याणक की मूल क्रियाओं (मंत्राराधन, भक्तियां आदि) को संक्षिप्त या अधूरा किया जावे ठीक नहीं है।

आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा सुविधानुसार होने लगी है, प्रतिष्ठाकारक जहा जैसा भी कराना चाहते है, प्रतिष्ठाचार्य कराने को तैयार हो जाते हैं। प्रतिष्ठा ग्रंथो का ध्यान न रखकर मनमाने समय पर कल्याणक किये जाते है। जबकि आचार्य जयसेन स्वामी ने विशेष रूप से दिशा एव समय का ज्ञान कराया है, किन्तु आज प्रतिष्ठा धार्मिक अनुष्ठान न होकर प्रदर्शन मात्र रह गई है। जो प्रतिष्ठाचार्य जितना प्रदर्शन करा सकता है समाज उतनी ही प्रसन्न होती है, और प्रतिष्ठा को अच्छा मान लेती है। किन्तु ध्यान रखना आवश्यक है कि -

'अर्थहीनाऽथ कर्तारं मंत्रहीना तु ऋत्विजम् ।
श्रियं लक्षणहीना तु न प्रतिष्ठा समो रिपुः ॥^(१)

द्रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमान का, मंत्रहीन प्रतिष्ठा आचार्य का, लक्षणहीन प्रतिष्ठा लक्ष्मी का विनाश करती है ।^(१)

इस प्रकार विधिहीन प्रतिष्ठा विनाश करने वाली है।

धार्मिक अनुष्ठान केलिये बनाई गई यज्ञवेदी भी राजनैतिक मंच बन गई है, जिस पर सास्कृतिक कार्यक्रम, राजनेताओ का स्वागत समारोह एव अन्य सभी कार्य कराये जाते है, जो यज्ञवेदी की गरिमा/पवित्रता को नष्ट करते है। प्रतिष्ठाचार्य एवं प्रतिष्ठाकारक का कर्तव्य है कि वह मर्यादा एव प्रतिष्ठा शास्त्रो का ध्यान रखते हुये सास्कृतिक मंच का अलग निर्माण कराये।

वर्तमान मे प्रतिमाओ मे अतिशय या चमत्कार नहीं पाते है, यह प्रतिमा की नहीं वरन् हमारी श्रद्धा, भावना और शुद्धता की कमी है, आज आगम को किनारे करके मनमाने

(१) वृहद वास्तुनाला, पृष्ठ १७८ श्लोक ३५

समय और मनमानी क्रियायें करके प्रतिष्ठाये सम्पन्न की जा रही है, पात्रो की योग्यता, अर्थ की विशुद्धि (न्यायपूर्वक पैदा किया गया धन) प्रतिष्ठाचार्य का ज्ञान/चरित्र, आचार्य/ मुनि का सान्निध्य, मंत्राराधन, भक्तिया एव कल्याणक क्रिया का काल, दिशा आदि किसी को भी महत्व नहीं दिया जाता, फिर आगम विरुद्ध क्रियाओ द्वारा प्रतिमा में अतिशय कैसे आ सकते है। यहा आशय आलोचना का नहीं किन्तु आगम को तोड़ने/ छोड़ने को इंगित करने का है, आगमानुकूल कहा/ कब/ कैसे करना चाहिये निम्नानुसार है :-

मण्डप

मण्डप की लम्बाई, चौड़ाई से डेढ़ गुनी होना चाहिये मण्डप का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा मे होना चाहिये।

यज्ञवेदी

वेदी चतुर्विधा तत्र चतुरस्रा च पद्मनी ।
श्रीधरी सर्वतोभद्रा दीक्षा स्यात् स्थापनादिषु ॥
चतुरस्रा चतुःकोणा वेदी सौख्यफलप्रदा।
केचिन्वैत्यप्रतिष्ठायां पद्मनी पद्मसंनिभा ॥^(१)

वेदी चार प्रकार की होती है,

- (१) चौकोर वेदी - प्रतिष्ठा कार्य मे (गर्भकल्याणक मे)
- (२) पद्मनी वेदी (कमलाकार) - समवशरण, ज्ञानकल्याणक मे
- (३) श्रीधरी (अर्धचन्द्राकार) वेदी - जन्म कल्याणक मे
- (४) सर्वतोभद्र (अष्टकोणी) वेदी - दीक्षा कल्याणक मे

सामान्यतः वेदी चौकोर ही बनाना चाहिये,^(२) यदि पात्रो की संख्या अधिक होती है तो वेदी की लम्बाई चौड़ाई से डेढ़ गुनी बनाना चाहिये, वेदी पर केवल प्रतिष्ठा क्रिया, पूजा, जप और होम ही होना चाहिये अन्य कार्य नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु अलग से मंच बनाना चाहिये, जिससे अनुष्ठान मे कोई बाधा न आवे और यज्ञ वेदी की पवित्रता बनी रहे।

अथोत्तररमै वृत्ति कर्मणे वृत्ती वेदी द्वितीयां विनिवर्त्य पावनी ।
यागीय मंत्राणि तथोत्तरं पृथक् कर्मरंभतां यजनक्रियोचितं ॥^(३)

इस यज्ञ मे दो वेदी सम्मत है एक यागमण्डल की १२x१२ की मुख्य वेदी और उत्तर

(१) श्री जयसेनाचार्य प्रतिष्ठापाठ, - श्लोक ११८, ११९

(२) वही, पृष्ठ ५५ (३) वही, श्लोक ३४१

कर्म, जपस्थान, मंत्राराधन शान्ति हवन आदि कार्यों के लिये दूसरी वेदी होना चाहिये ।

इस प्रकार यागमण्डल वेदी के पास जो मुख्य वेदी है उसी पर समस्त प्रतिष्ठा क्रियाये सम्पन्न कराई जावेगी अतः शुद्धता/ पवित्रता परम आवश्यक है,

मंत्राराधन

नांदी यस्मिन् दिने क्लृप्ता तदादि प्रत्यहं मनु ।
अनादि सिद्धं जपतां सिद्धिर्लक्ष्मीश्च वर्धते ॥ (१)

नान्दी विधान (पात्र प्रतिष्ठा) के दिन से मंत्रों का प्रतिदिन जाप करना चाहिये।

स्थिर एवं चल प्रतिमा की प्रतिष्ठा का स्थान

स्थिरांस्थाने निवेश्यार्चा चलां वा यागमण्डले ।
प्रतिष्ठाचार्ययष्टारौ स्थापयेतां यथाविधि ॥ (२)

विशाल स्थिर प्रतिमा को अपने पूजन स्थान (जिनालय में) छोटी चल प्रतिमा को यागमण्डल में रखकर इन्द्र और यजमान विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करे ।

प्रतिष्ठा हेतु अयोग्य प्रतिमा

नार्चाश्रितानिष्टरूपां व्यंगितां प्राक् प्रतिष्ठिताम् ।
पुनर्घटितसंदिग्धां जर्जरां वाप्रतिष्ठयेत् ॥ (३)

ऐसी प्रतिमा प्रतिष्ठायोग्य नहीं है जो पहले की प्रतिष्ठित हो जिनलिग के सिवाय दूसरा आकार हो, अन्यमूर्ति के आकार को मिटाकर मूर्ति बनाई गई हो, अथवा आकार में सदेह हो, अत्यंत जीर्ण हो गई हो तो प्रतिष्ठा नहीं करना ।

गर्भगृह

दक्षिणदिशि जिनवेद्या राजगृहं प्रसृतचत्वरकीर्णम् ।
दशपंचकत्रिकधरणीभागमनेका द्वासयुतम्॥
कुर्यादन्तः पुरकृतसुषममधोमुवि च सर्वतोमद्रम्॥
पाषाणकाष्ठशिविरे रचितं दृढबंधनाकीर्णम्॥
चलत्पताकं घृततोरणाकं संगीतवादित्रगणेन रुद्धम् ।
स्वर्गात्समानीतमिव प्रक्लृप्तं तदूर्ध्वभागेऽडितमातृगेहम्॥
स्वप्नावली षोडशचित्रवल्ली संदर्भमांगल्यनियावमासि।
अनेकनारीकलगीतरम्य मन्तःपुरं संविदधीत यज्वा ॥ (४)

(१) श्री जयसेनाचार्य, प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक ३८० (२) प आशाधरकृत, प्रतिष्ठा सारोद्धार, श्लोक ८२ (३) (अ) वही, श्लोक ८३ (व) श्री गोम्मट प्रश्नोत्तर चिंतामणि, पृष्ठ ९०८
(४) श्री जयसेनाचार्य कृत, प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक ३६० से ३६३ तक

राजगृह (माता) का सर्वतोभद्र महल सुन्दर शोभायुक्त वेदी की दक्षिण दिशा मे दशखण्ड, पाचखण्ड, तीनखण्ड एव अनेक अटारियो युक्त हो । यह सर्वतोभद्र भवन पाषाण, काष्ठ वस्त्र के दृढ बधन द्वारा रचित ध्वजातोरण से युक्त सगीत वादित्र आदि सामूहिक व्यवस्थाओ से पूर्ण एव सौभाग्यशाली स्त्रियो के मगलगीतो से गुजायमान हो । (अत.पुर की रचना स्वर्ग की विभूति से की जाती है)

हवन कुण्ड

होमार्थकुण्डानि पुरोत्तररयाः क्रियात्रवोत्कृष्ट तथा च पंचा

मध्याद्विधेर्वा त्रयमेव तत्र वृत्तं त्रिकोणं चतुरस्रमेव ॥

तन्मेखलानां त्रयमत्रकुण्ड प्रशस्तमार्यैः पृथुनोन्नतत्वे ।

वाणानुयोगाग्निमितं वितरस्ति प्रमावगाहायति रूढपक्षात् ॥ (१)

वेदी की उत्तर दिशा मे नव पाच या तीन हवन कुण्ड बनाना चाहिये । जिनका आकार गोल, तिकोन एव चौकोर हो, कुण्ड निर्माण की दो विधिया है ।

(१) चौकोर कुण्ड बीच मे त्रिकोण कुण्ड ऊपर तथा गोल कुण्ड नीचे (२)

(२) चौकोर कुण्ड बीच मे त्रिकोण कुण्ड नीचे तथा गोल कुण्ड ऊपर(३)

प्रथम कुण्ड रचना अनेक आचार्यों से प्रमाणित है । कुण्ड तीन कटनी वाले जिनके भीतरी भाग १५"-१५" गहरे, लम्बे, चौड़े व वृत्त वाले बनाना चाहिये ।

दशांश होम विधान

जिस मंत्र का जाप किया गया हो उसकी दशाश आहूतिया विश्वशाति महायज्ञ मे होना आवश्यक है ।

सहस्रमस्टोत्रमत्र मुख्योजपस्तदाराधकृत्वा दशांशः।

होमो विधेयः पुनरिष्टकाले मंत्रेणकार्यो विधिरर्प्यमानः॥^(४)

मंगलध्वजारोहण

अष्टाविशतिस्तरस्मात् एकविंशे चतुर्दशे ।

नवमे सप्तमे चैव दिने पूर्वं ध्वजोत्सवे ॥

ध्वजोत्सव पचकल्याणक क्रिया आरम्भ करने के २८ दिन, २१ दिन, १४ दिन, ९दिन, ७ दिन पूर्व करना चाहिये । ध्वजा का ध्वजदण्ड पाण्डाल की ऊंचाई से कम

(१) आ ज से, प्र पा श्लोक ३७१-३७२ (२) श्री ने चं, प्र ति. पृष्ठ १७६,

आ ज से, प्र पा पृष्ठ १०८, प शि र पा प्र च पृष्ठ ७७ (३) श्री ने. च,

प्र. ति. (को) पृष्ठ ७९ (४) आ ज से, प्र पा. श्लोक ४२१

से कम दो गुना होना चाहिये। ध्वजोत्सव यज्ञ वेदी के सामने तीन कटनी का चबूतरा बनाकर करना चाहिये।

पाण्डुक शिला

जन्माभिषेक हेतु पाण्डुक शिला उत्तर दिशा में ही बनाना चाहिये।
आचार्यशक्रस्थितिरस्य पृष्ठे स्नानासनादीनि तदन्तिके च।
तथोत्तरस्यां जन्मोत्सवादि दीक्षावनं ज्ञानविभूतिसद्म ॥ (१)

उत्तर दिशा में निर्मित पाण्डुक शिला निम्नानुसार बनाना चाहिये।
तदंगणे नाटकसत्रसज्जोपककार्यमारादिदशिचोत्तरस्यां।
सुदर्शनो मेरुरुदीर्णशालो वनैश्चतुर्भिः परतोविभातु ॥
सप्तच्छदाशोकरसालचंपा महीरुहानेकवृत्तोपशोभः।
पांशुश्चतुर्भिः क्षणकोपरिष्ठात् भागैः सुवर्णाचित विग्रहोद्धः॥
पांडुशिलामासनसंनिविष्टां संस्थाप्य सोपान चतुष्पथाढ्याम्।
तत्रैव कार्पोजलधिः शरांकः क्षराब्धिनामा शुचितोयपूर्णः ॥(२)

सुदर्शन मेरु पर पाण्डुकशिला भद्रशालादिचारो वन वृक्षों पुष्पो से शोभायमान हो एव जन्माभिषेक क्षीरसागर के पवित्र जल से किया जाना चाहिये।

वर्तमान में प्रतिष्ठाचार्यों की शिथिलता से देखा जाता है, कि लोग पेंट शर्ट पहिनकर भी बिम्ब को बालक मानकर उनका जन्माभिषेक करते हैं, जो कि आगमानुकूल नहीं है। अभिषेक के लिये प्रासुक जल का ही प्रयोग करें।

दीक्षावन

दीक्षावन वेदी के पूर्व दिशा में बनाना चाहिये।
तत्रैव पूर्वत्र दिशासुदीक्षावनः विशालांगणकल्पशाखम्।
दीक्षातरुस्तत्र शिलाप्रदेशः संस्कारवाटीवृत्तगूढमध्या ॥ (३)

आहार गृह

यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा में आहार गृह बनाना जिसमे विधिनायक जिनबिम्ब (जो मुनिमुद्रा मे हैं) का प्रथम आहार कराया जाय।

समवशरण - समवशरण वेदी से पूर्व दिशा मे बनाना चाहिये। (४)

(१) श्री जयसेनाचार्य, प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक २१८

(२) वही, श्लोक ३६४, ३६५, ३६६ (३) वही, श्लोक ३६७, २१८

(४) वही, पृष्ठ ५३

कल्याणक की क्रियाओं का काल विचार

गर्भ कल्याणक

इत्यायुपाक्लृप्तकुमारिकाणां सार्थेन पूज्या जननी जिनेशः।
मासान्नवाथोपनिनाय यद्वा यामान् दिनानि व्यतिसंक्रमेण ॥ (१)

श्री जिनेश (तीर्थकर) की माता का उत्कृष्ट नव महीना, नव दिन या नव प्रहर पर्यंत यथायोग्य गर्भवास होना चाहिये ।

तां मूलप्रतियातनां सुरपतिर्गघात्तवर्षप्रमां ।
मंजूषानिहितां विधाय विनयान्मातुः प्रसूतिस्थले ॥
आनीयापि निघापयेत् शुचितरैर्वस्त्रै रहस्येरज-
न्यर्धे चाल्पतनौ तु तत्र वसनाच्छन्नां क्रियान्मंत्रवित् ॥ (२)

गर्भ कल्याणक की क्रियाये अर्धरात्रि के पश्चात् करके मजूषा को शुद्धवस्त्र से आच्छादित करे, तत्पश्चात् सभी अन्य प्रतिष्ठा हेतु आई प्रतिमाओ पर भी गर्भकल्याणक की क्रिया करके पृथक् पृथक् वस्त्र से आच्छादित करना चाहिये

जन्मकल्याणक

शुभे विलग्नेसुनावांशके वा जिनेन्द्रजन्म प्रवभूवयद्वत् ।
मंजूषिकांतर्गतमाशुविम्बे निः कश्येदार्यवरः कराभ्यां ॥ (३)

ब्रह्ममुहूर्त (प्रात काल रात्रिका चौथा पहर), शुभलग्न, शुभनवाशक मे दक्षिण दिशा मे बनाये गये राजमहल के सर्वतोभद्र भवन मे जन्म की क्रिया कराना और पाण्डुकशिला पर जन्माभिषेक की क्रिया करना।

दीक्षाकल्याणक

वादित्रगंधर्वजयेतिशब्दैः स्तब्धीवृत्ताशानिचये मुहूर्ते ।
शुभे दिनार्धोत्तरभाजि जिष्णोर्नैर्ग्रथ्यकालः शुभदो विधेयः ॥ (४)

दिनार्ध के ऊपरभाग (अपराह्न) मे निर्ग्रथ दीक्षा काल शुभ है ।

ज्ञानकल्याणक

ज्ञानकल्याणक क्रियाये मध्याह्न काल से आरम्भ करनी चाहिये। यह मुख्य क्रिया है, अत पूर्ण शुद्धि पूर्वक मंत्राराधन भक्तिया आदि क्रियाये आचार्य/ मुनि के सान्निध्य मे करनी चाहिये ।

(१) आ ज से प्र पा श्लोक ७५३ (२) वही, श्लोक ७२९

(३) वही, श्लोक ७५८ (४) वही, श्लोक ८३३

प्राणप्रतिष्ठाप्यधिवासना च संस्कारनेत्रोच्छ्रितिसूरिमंत्राः।

मूलं जिनत्वाधिगमे क्रियाऽन्या भक्तिप्रधाना सुवृत्तोद्भवाय॥ (१)

प्राण प्रतिष्ठा, अधिवासना, नेत्रोन्मीलन, सूरिमंत्र यह विधि सर्वज्ञत्व प्राप्ति मे मुख्य है, अन्य विधि पुण्यबंध करने वाली भक्ति विशेष है। अतः यह क्रियाये सभी बिम्बों में करना अनिवार्य है।

निर्वाण कल्याणक

सूर्योदय के समय शुभलग्न मे यह क्रिया करना चाहिये।

गजरथ

निर्वाण कल्याणक के पश्चात रथयात्रा अभिषेक, पूजन उत्सवपूर्वक करना चाहिये,

रथयात्रां पुरा कृत्वाऽभिषेकमहनीयतां।

संपाद्य संघसद्भक्तिं कुर्वीत याजकोत्तमः ॥ (२)

गजरथ का आयोजन प्रशिक्षित हाथियो (हथिनी नही) के द्वारा ही कराना चाहिये, नये हाथी का निषेध करे।

गजरथ समयानुसार शुभ लग्न में आरम्भ करे। किसी भी प्रकार का विलम्ब न करे। विशेष जानकारी आरम्भ मे दी गई है उसी के अनुसार व्यवस्थायें करे।

(१) आ. ज. से, प्र. पाठ श्लोक ३४९ (२) वही, श्लोक ९१४

जिन वच में शंका न धार ..।

१. अभिषेक क्या और क्यों ?
२. जिनेन्द्र पूजा एवं पूजा के अंग ।
३. धूप एवं हवन आगम की दृष्टि में ।

ब्र० जयकुमार 'निशांत', एम. एस-सी.

कृपया सुधी विद्वान अपने अभिमत/ सुझाव इन सदस्यों में अवश्य भेजें ।
जिनका उपयोग आगामी प्रकाशन में किया जा सके ।

अभिषेक क्या और क्यों ?

वर्तमान में भौतिक व्यस्तताओ के कारण हमारे जीवन मे धार्मिक कार्यों मे अत्यधिक शिथिलता आ गयी है, यहा तक कि प्रमादवश अभिषेक एव प्रक्षाल के साथ अष्टद्रव्य से पूजन को सावध्य मानकर उससे भी बचना चाहते है। जिसका मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता (जिनवाणी से अरुचि) जबकि मुख्य आगम ग्रथो में आचार्यों ने गृहस्थ के कर्तव्यो का स्पष्ट उल्लेख किया है।

‘दाणं पूजा सीलमुववासो चेदि चउव्विहो सावयधम्मो (१)

दाणं पूजा मुखं सावयधम्मेण सावया तेण विणा । (२)

दान, पूजा, शील, उपवास चारो श्रावक के धर्म है।

स्नपनं पूजनं स्तोत्रं जपो ध्यानं श्रुतस्तवः,

षोढा क्रियोदिता सद्भिर्देवसेवासु गेहिनाम्^(३)

अभिषेक, पूजन, स्तोत्र, जाप, ध्यान एव श्रुत भक्ति, ये छह सद्क्रियाये गृहस्थ को जिनेन्द्र पूजन मे अवश्य करना चाहिये।

गृहस्थावरथायां दान पूजादिकं त्यजन्ति तपोधनावस्थायां-

-षडावश्यकदिकं त्यक्त्वो भयग्रष्टाः सन्तः तिष्ठन्ति तदा दूषणमेव^(४)

जो गृहस्थ अवस्था मे दान पूजादि शुभ क्रियाओ को छोड़ देते है और मुनिपद में छह आवश्यक कर्मो को छोड़ देते है, वे न तो श्रावक है और न ही यति है, वे निन्दा के योग्य ही है।

अभिषेक पूजा का ही अंग है - बिना अभिषेक किये भगवान की पूजन होती ही नहीं है। फिर भी यदि प्रमाद/समयाभाव से हम पूजा कर लेते है, तो गलत है।

अहिसेय वंदणा सिद्धचेदिय पंचगुरु सतिमत्तीहि (५)

अभिषेकमहं नित्यसुरनाथाः सुरैः समम् ।

द्वि द्विप्रहरपर्यन्तमेकैकदिशि शान्तये^(६)

अपने दुष्कर्मो की शान्ति के लिये देवगण अभिषेक करके भगवान की पूजा, वंदना दो-दो पहर तक करते है।

स्नपनार्चा स्तुतिजपान् साप्यार्थप्रतिमार्पिते ।

युज्यायथाऽम्नायमाद्यद्धृते संकल्पितेऽर्हति^(७)

(१) आचार्य गुणधराचार्य-कपाय पाहुडं (जयधवला) पुस्तक एक पृष्ठ ९१ सूत्र ८२ (२) आचार्य कुन्दकुन्द - रयणसार - ९० (३) आचार्य सोमदेव, यश स्थितलकचम्पू - ४७ (४) आचार्य योगीन्द्रदेव - परमात्मप्रकाश. अध्याय २ पृष्ठ १७७ (५) आचार्य देवसेन, भावसग्रह, पृष्ठ १०९ (६) आचार्य नरेन्द्रसेन, सिद्धान्त सग्रह (७) वृहत्सामायिक पाठ (५,६ एव ७ आत्मशुद्धिप्रकाश से संकलित)

जिनबिम्ब स्नपन (अभिषेक) करके ही अर्चना, स्तुति, जाप आदि करने से संकल्प पूर्वक भक्ति करना चाहिये ।

अट्ठसहस्सेहिं तहा खीरोवहिसलिलपुण्णकलसेहिं ।
ण्हावंति पहिट्ठमणा परमाए भत्तिराएण ॥^(१)

क्षीरसागर के जल से पूर्ण भरे १००८ कलशों से भक्तिभाव (राग) सहित जिनेन्द्र प्रतिमा का अभिषेक करते हैं ।

प्रस्तावना पुराकर्म स्थापना सन्निधापनम् ।
पूजा पूजाफलं चेति षडविधं देवसेवनम् ॥ ^(२)

- (१) पूजा के समय जिनाभिषेक की तैयारी 'प्रस्तावना' है ।
- (२) जलाभिषेक के लिये कलशस्थापन 'पुराकर्म' है ।
- (३) जिनबिम्ब स्थापना 'स्थापना' है ।
- (४) इन्द्र बनकर साक्षात् जिनेन्द्रदेव का अभिषेक कर रहा हूँ, इस कल्पना के साथ प्रतिमा की निकटता प्राप्त करना 'सन्निधापन' है ।
- (५) जलाभिषेक, अष्टद्रव्य से पूजा, स्तुति, भक्ति करना 'पूजा' है ।
- (६) पूजा के पश्चात् आपके चरणों में ही मेरा हृदय लगा रहे, जबतक कि मुक्तिपद प्राप्त न हो, ऐसा भाव 'पूजाफल' है ।

जिनाभिषेक क्या है ?

अभिषेकः- अभिः मुख्यरूपेण सिंचयति इति अभिषेकः ।

पूरी प्रतिमा जल से सिंचित हो इस प्रकार प्रासुक जल की धारा भगवान के ऊपर करना । जिनदेव की निकटता प्राप्त करना एवं साक्षात् अर्हन्त भगवान के स्पर्शन का भाव करना । स्व का आत्ममल प्रक्षालन भक्तिरूपी जल से करना ।

जिनाभिषेक (जलाभिषेक) को जन्माभिषेक बताकर/ मानकर इसे पूजा विधि से अलग किया जाना तथा गधोदक को वंदनीय नहीं मानना भ्रामक प्रचार है । यह जानना अनिवार्य है कि हम अभिषेक किसका एवं क्यों करते हैं, इसका कारण व महत्त्व क्या है ?

अभिषेक को परम्परागत मानकर रूढि के अनुसार करते आये है, कहीं-कहीं अभिषेक के समय-

(१) जवूदीव पण्णत्ति संगहो, श्लोक ११३ (२) आचार्य सोमदेव उपासकाध्ययन (यश स्तिलक चम्पू) (श्रावकाचार संग्रह भाग एक से संकलित)

वदन उदर अवगाह कलसगत जानिये,
एक चार वसु योजन मान प्रमानिये ।

सहस्र अठोत्तर कलशा प्रभु के सिर ढरै,
पुनिश्रृंगार प्रमुख आचार सबै करै ॥ (१)

पाठ पढा जाता है, जबकि यह जन्मकल्याणक का पाठ है। अतः इस पाठ को जिनाभिषेक के समय नहीं पढना चाहिये और -

सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश,
गये गिरिराजा, जा पाण्डुक शिला विराजा ।

यह आरती भी नहीं पढनी चाहिये। क्योंकि यह जन्माभिषेक नहीं है, यह चतुर्थाभिषेक या प्रतिमाभिषेक है। आचार्यों ने चार प्रकार के अभिषेक का वर्णन किया है -

१. जन्माभिषेक:- जिसे सौधर्मइन्द्र तीर्थकर बालक को पाण्डुक शिला पर ले जाकर करता है।
२. राज्याभिषेक:- जिसे तीर्थकर कुमार को राज्यतिलक के समय किया जाता है।
३. दीक्षाभिषेक:- यह तीर्थकर के वैराग्य होने पर दीक्षा लेने के पूर्व किया जाता है।
४. चतुर्थाभिषेक या जिनाभिषेक:- इसे जिनबिब प्रतिष्ठा- केवलज्ञान कल्याणक के पश्चात् किया जाता है अर्थात् अर्हन्त भगवान का अभिषेक ही पूजा के समय किया जाता है।

स्थिरार्हत्प्रतिमायां च चतुर्थस्नपनाहनि,
सिद्धभक्तिश्च चारित्रभक्तिरालोचनायुता (२)

स्यात्सिद्धशांतिभक्तिः स्थिरचल जिनबिंबयोः प्रतिष्ठायां,
अभिषेकखंदना चलतुर्य स्नानेऽस्तु पाक्षिकी त्वपरे । (३)

इस प्रकार आचार्यों ने चतुर्थाभिषेक को ही प्रतिमाभिषेक कहा है।

प्रतिमाभिषेक कब से ?

तीर्थकरो के पंचकल्याणक एव अकृत्रिम चैत्यालय अनादिनिघन है। चतुरनिकाय के देव अष्टाष्टिनिक पर्व मे नन्दीश्वर द्वीप में जाकर चारो दिशाओ के अकृत्रिम चैत्यालयो मे क्रमश दो-दो पहर करके चौबीसो घटे भगवान का अभिषेक एव पूजन करते हैं।^(७)

(१) स्याद्वाद पूजाजलि - पृष्ठ २३३ (२) आचार्यवर्य सकलकीर्ति, मूलाचार प्रदीप, श्लोक ८८९
(३) श्री पूज्यपाद स्वामी, दशभवत्यादि सग्रह, पृष्ठ ६४ (४) आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, त्रिलोकसार, गाथा ९७३ से ९७७ तथा जवूदीव सग्रहो (पंचम उद्देशो) - गाथा ११३

इस प्रकार अभिषेक की परम्परा अनादि निधन है। एक बात और विचारणीय है। सौधर्मइंद्र और देवगण आज भी विदेहक्षेत्र में विद्यमान विंशति तीर्थकरों के कल्याणक एवं साक्षात् दर्शन, पूजन का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी अकृत्रिम चैत्यालय के विम्बो का भक्तिपूर्वक अभिषेक, प्रक्षाल करने जाते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं।^(१) इससे सिद्ध होता है कि जिनाभिषेक से पुण्यार्जन होता है। एव पूजा के साथ अभिषेक अनिवार्य है।

कही-कही यह भी समाधान दिया जाता है कि प्रतिमा की स्वच्छता केलिये अभिषेक किया जाता है। यदि यह कारण होता तो नदीश्वर द्वीप एवं स्वर्गों के अकृत्रिम जिनालयों में जहाँ घूल कण मात्र भी नहीं है, देवगण अभिषेक क्यों करते हैं ?

आहरणगिहम्मि तओ सोलसहा भूसणं च गहिऊण

पूजोवयरणसहिओ गंतूण जिणालए सहसा ॥^(२)

धम्मं परंसिदूण णहादूण दहे भिसेयलंकारं ।

लद्धाजिणाभिसेयं पूजं कुव्वंति सिद्ध्ठी ॥^(३)

देवगण उपपाद शैय्या से उठते ही तुरन्त अवधिज्ञान से पूर्वजन्म को जानकर धर्म की प्रशंसा करते हुये सर्वप्रथम सरोवर में स्नान करके अलकारों से सुसज्जित हो जिनेन्द्रदेव का अभिषेक एव पूजन करते हैं।

जिनाभिषेक सावद्य किन्तु अतिशय पुण्यकारी:-

यह सही है कि जिनाभिषेक एव पूजा के लिये अष्टद्रव्य प्रक्षालन में आरंभ से सावद्य (पाप) होता है। परन्तु इसके निमित्त से भावों की विशुद्धि एव भगवत् भक्ति से अनन्तगुणा पुण्यास्रव सवर एव कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे आरंभ का दोष अत्यधिक न्यून हो जाता है।

पुण्णरासि णवणाइयइं पाउलहुवि किउ तेण ।

विसकणियइं वहु उवहिजल णउ दूसिज्जइ जेण ॥^(४)

पूज्यं जिनं त्वाऽर्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषायनालं कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिवाम्बुराशौ ॥ (५)

अभिषेक एव पूजन में इतना कम सावद्य (पाप) होता है कि अर्जित पुण्य राशि के सामने यह सावद्य अकिंचित्कर है अर्थात् दोषजनक नहीं है। जो श्रावक जिनाभिषेक एव अष्टद्रव्य से पूजन का निषेध या विरोध करते हैं वह घोर पाप का बन्ध करके अपनी दुर्लभ पर्यायव्यर्थ कर रहे हैं।

(१) श्री पूज्यपाद स्वामी - दशभवत्यादि सग्रह, नदीश्वरभक्ति, श्लोक - १५-१६ (२) आचार्य वसुगुप्ती श्रावकगचार, श्लोक ५०२ (३) श्री नेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती, त्रिलोकसार, ५५२
(४) आचार्य देवसेन, सावद्यधम्मदोहा २०७ (५) आचार्य समन्तभद्र, वासुपूज्यस्तवण, श्लोक ५८

सारंभं णवणाइयहं जे सावज्ज भणंति ।

दंसणु तेहि विणासियउ इत्थु ण कायउ भंति ॥^(१)

पूजाभिषेकेप्रतिमासु प्राप्ते जिनालये कर्मणि देवकार्ये ।

सावद्यरूपं तु वदन्ति येऽपि जनाश्च ते दर्शनघातकाःस्युः ॥ (२)

जो, अभिषेक जिनालय एव प्रतिमा निर्माण आदि के समारम्भो को सावद्य दोषपूर्ण कहते हैं, उन्होंने सम्यग्दर्शन का नाश कर दिया, इसमें कोई भ्रांति नहीं है ।

गृहस्थजीवन आर्तरौद्रध्यान प्रधान एव विषय-कषाय से युक्त है, जहाँ वह निरन्तर पापाचरण करता है, बिना अवलम्बन सामायिक आदि में श्रावक का परिणाम स्थिर नहीं होता है । अतः वह विविध प्रकार के अवलम्बन लेकर भगवान की भक्ति करता है, जिससे वह पापाचरण से बच सके । यदि धर्म के लिये किये गये कार्यों में हिंसा (पाप) मानेगे तो यह युक्तिपूर्ण नहीं होगा । यह जैन सिद्धांत के भी विरुद्ध भी है क्योंकि-
१ क्षायिकसम्यग्दृष्टि सौधर्मइन्द्रअथाह जलराशि से जन्माभिषेक करता है,^(३) देवगण समवसरण में पुष्पवृष्टि एव चवर ढोरते है ।

२ तीर्थ वदना एव साधु दर्शन को राजा, महाराजा समस्त सेना एव प्रजाजन सहित जाते है ।

३. साधु की समाधि होने पर उनका सस्कार एव दीक्षा होने पर उत्सव भोज आदि करते है ।

उक्त कार्यों में अत्यधिक हिंसा होती है अर्थात् महापाप होना चाहिये, परन्तु सिद्धांत कहता है यह कार्य पुण्योपार्जन के लिये किये जाते है, हिंसा की भावना से नहीं, अतः पाप की न्यूनता एव पुण्य की अधिकता से उक्त कार्य दोषपूर्ण नहीं है । आगमानुसार गृहस्थ मात्र सकल्पी हिंसा का त्यागी होता है शेष का नहीं होता ।

जिनाभिषेक विधि:-

दैनिकचर्या से निवृत्त होकर शुद्ध छने जल से स्नान करके शुद्ध धोती, दुपट्टा (जिसका उपयोग केवल पूजन में ही होता हो, गृहस्थी के कार्यों में नहीं, अन्यथा मंदिर जी का ही धोती दुपट्टा पहने) पहिनकर अष्टद्रव्य लेकर जिनालय जावे । दर्शन करके जिनाभिषेक की तैयारी करे, जिसमें कुएँ के छने जल को प्रासुक करना, द्रव्य तैयार करना आदि व्यवस्थित करना ।

(१) आचार्य देवसेन, सावयधम्म दोहा, श्लोक २०४ (२) श्री जिनदेव भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन श्लोक ३५७ (३) इद्र १००८ कलशो से अभिषेक करता है जिसका प्रत्येक कलश ८ मील के मुँह वाला ३२ मील चौड़ा एव ६४ मील गहरा होता है ।

तत्पश्चात् विनयपूर्वक सिर ढककर, चन्दन लगाकर, पुष्प क्षेपण करके अभिषेक का संकल्प कर भावो को निर्मल करे कि मैं साक्षात् अर्हन्त भगवान का अभिषेक पूजन कर रहा हूँ ।

आचार्यों का कथन है कि-

विन्यस्यैदंयुगीनेषु प्रतिमासु जिनानिव ।
 भक्त्यापूर्वमुनीनर्चेत्कुतः श्रेयोऽतिचर्चिनाम् ॥^(१)
 संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्यचूडामणिः ।
 तद्वाचः परमासतेऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्द्योतिकाः ॥
 सदरत्नत्रयधारिणो यतिवरास्तेसां समालम्बनं ।
 तत्पूजा जिनवाचिपूजनमतः साक्षाज्जिनः पूजितः ॥^(२)

इस काल में भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में साक्षात् केवली नहीं है किन्तु उनकी दिव्य-देशना से प्राप्त वचन विद्यमान है। उन्ही वचनो का आश्रय लेने वाले रत्नत्रय से विभूषित मुनिराज है। जिनको चतुर्थकाल के मुनिराज के समान ही मानकर पूजा करना चाहिये। उसी प्रकार जिनप्रतिमा की पूजा साक्षात् केवली भगवान मानकर करना चाहिये।

अभिषेक के समय सस्कृत पाठ (आचार्य माघनंदीकृत) पढना चाहिये या हरजसराय जी कृत हिंदी अभिषेक पाठ पढ सकते हैं ।

जय जय भगवन्ते सदा मंगल मूल महान ।
 वीतराग सर्वज्ञ प्रभु नमो जोरि युगपान ॥

हिन्दी जलाभिषेक पाठ पढते हुए उल्लसित मन से दोनो हाथों में कलश लेकर जिनबिम्ब के ऊपर धारा करें एवं भाव करे कि -

तुमतो सहज पवित्र यही निश्चय भयो,
 तुम पवित्रता ह्येत नही मज्जनठयो ।
 मैं मलीन रागादिक मलतें ह्वै रह्यो ।
 महामलिन तन में वसुविधि वश दुख सह्यो ॥ (३)
 पापाचरण तज न्हवन करता चित्त में ऐसे धरूं।
 साक्षात् श्री अरिहंत का मानो न्हवन परसन करूं॥^(४)
 पावन मेरे नयन भये तुम दरसतें,
 पावन पाणि भये तुम चरननि परसतें ॥^(५)

(१) प आशाधर, सागारधर्माभूत, श्लोक - ६४ (२) आचार्य पद्मनन्दि, पद्मनदिपचविशति-श्लोक - ६८ एवं प. सदासुरप्रदास जी, रत्नकरण्ड श्रावकाचार टीका, श्लोक ११९ पृष्ठ २२६ (३, ४, ५) स्याद्वाद पूजांजलि जलाभिषेक पाठ पद ६, ७, ८ ।

ऐसे निर्मल भाव करके धारा समाप्त करे, पश्चात् अर्घ चढाकर स्वच्छवस्त्र से मार्जन करके प्रतिमा के ऊपर से जल इस प्रकार साफ करे कि एक भी बूंद शेष न रहे। फिर वापिस वेदी पर श्री जी को विराजमान करके विनय पूर्वक गंधोदक लेवे।

गंधोदक वंदनीय क्यों ?

निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापनाशनम् ।

जिन गंधोदकं वंदे अष्ट कर्मविनाशनम् ॥

जिनबिम्ब प्रतिष्ठा की विधि मे पचकल्याणक के माध्यम से तपकल्याणक एव ज्ञानकल्याणक मे सस्कार एव अकन्यास विधि मे प्रतिमा के ऊपर बीजाक्षरो का आरोपण एव मत्रन्यास विधि मे प्रतिमा के ऊपर मत्रो का आरोपण दिगम्बर मुनिराज के माध्यम से किया जाता है। फिर उस प्रतिमा मे प्राणप्रतिष्ठा एव सूरिमत्र के सस्कार करके उसे पूज्य बनाया जाता है।

जलाभिषेक की धारा से जो जल प्रतिमा पर गिरता है, उन मत्रो एव अभिषेक के समय उच्चारित मत्रो की शक्ति (ऊर्जा) का प्रभाव जल मे आ जाता है जिससे वह वन्दनीय एवं चमत्कारिक हो जाता है। अतः गंधोदक लेने से पूर्व जल से हाथ धोकर विनयपूर्वक गंधोदक की वदना करके केवल मस्तक पर धारण कर पुनः हाथ धोना चाहिये। अशुद्ध हाथ या रुमाल आदि में गंधोदक नही लेना चाहिये।

नत्वापरीत्य निज नेत्र ललाटयोश्च,

व्यात्युक्षणेन हरतादघ संचयं मे ।

शुद्धोदकं जिनपते तव पादयोगाद्,

भूयाद्भवात्पहरं धृतमादरेण ॥

जिनाभिषेक एक वैज्ञानिक दृष्टि :-

जिनाभिषेक वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो चुका है। प्रत्येक धातु की अलग-अलग चालकता होती है। अतः जब धातु की प्रतिमा पर प्रासुक जल की धारा करते है तो धातु के सम्पर्क से जल का आयनीकरण होता है जिसके फलस्वरूप निकलने वाले ऋण आयनो को शरीर ग्रहण करता है जो कि शरीर मे स्थित स्वास्थ्य रक्षक हीमोग्लोबिन मे वृद्धि करते हैं।

साथ ही यह भी सिद्ध हो चुका है कि मंत्रों के उच्चारण से ध्वनि तरंगों की शक्ति से जल की गुणवत्ता बढ़ जाती है उसमें विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसका चमत्कारी प्रभाव होता है।

उर्जा विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि जिस भावना से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं वहा का वायुमण्डल हमारे आभामण्डल से निकली किरणों से उसी प्रकार का हो जाता है कि वहां उपस्थित प्राणियों को उसी अनुसार प्रभावित भी करता है। अर्थात् शुभ भावों से किये धार्मिक कार्यों का परिणाम भी शुभ होता है, जो हमारी अन्तर्मन की दशा को बदलता है।

पाषाण की प्रतिमा पर प्रतिदिन प्रासुक जल की धारा नहीं करना चाहिये उससे पत्थर में प्रसरण एवं संकुचन होने से क्षरण होने लगता है। जिससे प्रतिमा की आयु एवं मनोज्ञता कम हो जाती है प्रतिदिन विवेकपूर्वक प्रक्षाल करना चाहिये। पाषाण प्रतिमा का रगड़कर प्रक्षाल करने से प्रतिमा की सुन्दरता कम हो जाती है।

अभिषेक का फल :-

जिनेन्द्र भगवान के साक्षात् स्पर्शन उनकी निकटता के भावों से हमारे परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि अशुभ कर्मों के संवर के साथ-साथ अनंतगुणों कर्मों का क्षय भी क्षणांश में हो जाता है। यही क्षण हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान कर हमारे उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं।

अभिषेकं जिनेन्द्राणां विधाय क्षीरधारया ।

विमाने क्षीरधवले नराणां जायते द्युतिः ॥^(१)

जो मनुष्य जिनेन्द्रदेव का अभिषेक क्षीरसागर के जल से करते हैं, वे स्वर्ग विमान में उत्पन्न होते हैं।

जिनांगं स्वच्छनीरेण क्षालयन्ति स्वभावतः,

येऽति पापमलं तेषां क्षयं गच्छति धर्मतः ॥^(२)

जो मनुष्य उत्तम भाव से स्वच्छ जल द्वारा भगवान का अंग प्रक्षालन (अभिषेक) करते हैं वह धर्म के प्रभाव से स्वभावतः समस्त पापों को नष्ट करते हैं।

स्नपनं यो जिनेन्द्रस्य कुरुते भावपूर्वकं ।

स प्राप्नोति परं सौख्यं सिद्धिनारी निवेत्तनम् ॥ (३)

(१) आचार्य रविपेण, पद्मपुराण (सरकृत) श्लोक ३२/१६६ (२) आचार्य सकलकीर्ति, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार श्लोक १९६ (३) श्री अश्वदेव व्रतोद्योतन श्रावकाचार, श्लोक १९८ (१) (२) उपासकाध्ययन १०/१३

जो भाव पूर्वक जिनेन्द्र देव का अभिषेक करते हैं वे सिद्धिनारी (मोक्ष) के परम सुख को प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार हम अभिषेक को पूजा से भिन्न करके पूजा के फल से वंचित हो रहे हैं।

जिस प्रकार अंगहीन सम्यग्दर्शन संसार की सतति को नहीं मिटाता, अक्षरहीन मंत्र विष की वेदना दूर नहीं करता उसी प्रकार अंगहीन पूजा का भी हमें फल प्राप्त नहीं होता।^(१)

अतः पूजा के सभी अंगों यानि अभिषेक, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन एवं विसर्जन को भाव सहित उल्लासपूर्वक करना अनिवार्य है। जब मुनिराज के नवधाभक्ति पूर्वक पङ्गाहन में एक भक्ति भी कम होने पर उनका पङ्गाहन नहीं होता है, तब अंगहीन पूजा से हमें जिनेन्द्रदेव का सान्निध्य या पूजा का फल कैसे प्राप्त हो सकता है यह स्वयं विचारणीय है? अतः जिनवाणी पर प्रगाढ श्रद्धा रखते हुये पूरी क्रियाये करके ही भक्ति करना चाहिये। संक्षिप्त मार्ग (short cut) से हम लक्ष्य को न प्राप्त करके भटक जावेगे अर्थात् उससे हमारा संसार परिभ्रमण नहीं मिटेगा, जबकि पूजा, परम्परा से मोक्ष का कारण है।

(१) आचार्य समतभद्र, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, श्लोक १/२१

जिनेन्द्र पूजा एवं पूजा के अंग

प्रत्येक पुरुष/श्रावक के चार पुरुषार्थ हैं- धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष । धर्म जीवन की आधार शिला एवं मोक्ष लक्ष्य है । इनके माध्यम/प्राप्ति के भाव से ही अर्थ और काम करना अनिवार्य है । परन्तु आज वर्तमान में हमने अर्थ और काम को प्रमुखता देकर धर्म को गौण कर दिया है । यही कारण है कि लौकिक कार्यों के प्रति अधिक सचेत/चितित रहते हैं, धार्मिक कार्यों के लिये नहीं । यहाँ लौकिक कार्यों में व्यस्तता होने पर हम धार्मिक क्रियाओं में कटौती करने में हिचकिचाते नहीं हैं । हम लौकिक कार्य, चाहे वह मकान-निर्माण, व्यापारिक या पारिवारिक कार्य क्यों न हो, बिना परामर्श/ प्रशिक्षण के नहीं करते, परन्तु धार्मिक कार्य बिना आगम प्रमाण, परम्परागत रुढियों के आधार से करते चले आ रहे हैं । व्यापार का हिसाब दैनिक, मासिक, वार्षिक करते ही है, परन्तु धार्मिक हिसाब करने का खतरा मोल नहीं लेते । धर्म की जो लकीर ५० वर्ष पूर्व देखा-देखी से खींची थी वह छोटी हो सकती है पर उसमें वृद्धि कदापि नहीं, आखिर क्यों ? क्या धर्म इतना निरर्थक/ बेमानी/ अनावश्यक है ? हमारी दिनचर्या में उसका कोई स्थान नहीं ? उसके प्रति इतने लापरवाह क्यों ? एक तो हम चौबीस घंटे पापाचरण में सलग्न रहते हैं, आर्तरौद्र परिणामों से काषायिक प्रवृत्ति में सलग्न रहते हैं । इस बीच कुछ क्षण जिनेन्द्रदेव के समक्ष निर्मल भाव से स्वयं की ओर दृष्टिपात करने का, आर्तरौद्र परिणाम शिथिल करने का, अशुभ के परिहार एवं शुभ में आने का सौभाग्य मिलता है, परन्तु हम प्रमादवश उसे भी गवा देते हैं ।

दिन-रात की आपाधापी, आजीविका के लिये किये गये आरंभ के सावद्य (पाप) को भूलकर जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक एवं पूजन हेतु अष्ट-द्रव्य में होने वाले आरंभ को सावद्य कहकर, जहाँ कुछ लोग स्वयं भक्ति से वंचित होते हैं वही अन्य के श्रद्धान को भी शकित करने से नहीं चूकते । जबकि आगम (जिन वाणी) में आचार्यों का स्पष्ट कथन है कि गृहस्थ सकल्पी हिंसा का त्यागी होता है । परन्तु आरभी, उद्योगी एवं विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ की भूमिका ही ऐसी है ।^(१)

यह भी ध्यान रखे श्रावक-श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियाशील, अर्थात् देवशास्त्रगुरु में सच्ची श्रद्धा, प्रत्येक कार्य विवेक से करना, प्रमाद नहीं करना एवं क्रिया कर्म करना श्रावक का लक्षण है । आचार्यों ने गृहस्थों को उल्लेखित किया है-

(१)(अ) आचार्य समतभाद्र, वारूपुण्यरत्न, श्लोक ५८ (ब) आचार्य देवसेन, सावयधम्म दोहा, श्लोक २०४ (स) श्री जिनेन्द्र भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन, श्लोक ३५७

दाणं पूजा सीलमुववासो चेदि चउव्विहो सावय धम्मो । (१)

दाणं पूजा मुक्खं सावयधम्मेण सावया तेण विणा ॥ (२)

देवपूजा गुरुपारिस्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः

दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने । (३)

दान और पूजा के बिना श्रावक धर्म नहीं हो सकता । जिनदर्शन पूजा हमारी दिनचर्या का मंगलाचरण है, पूजा आत्म शुद्धि का हेतु है, पूजा अधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है, यहा तक कि पूजा अतहीन प्रकिया है जो मुक्ति तक चलती है अर्थात् परम्परा से मोक्ष का कारण है । (४)

पूजा क्या है ?

पूजनं इति पूजा ।

पूजा शब्द 'पूज्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है अर्चन करना । (५)

पू = पवित्र होना, पवित्र करना ।

पूज्य के माध्यम से पूजक को पवित्र/पावन करना, प्रक्षालित करना ।

पू = मांजना, साफ करना ।

पूज्य के माध्यम से स्वयं के विकारी परिणामो, भावो को निर्मल करना जिनेन्द्रवाणी द्वारा कर्ममल को निष्कासित करना, परिमार्जित करना अर्थात् विकारो को हटाना ।

पू = फटकारना ।

त्याग और सयम के सूत्र द्वारा व्यर्थ-पदार्थो को फटकारना एव सारतत्त्व को साफ करके ग्रहण करना । (६)

पूजा के कई पर्यायवाची है जिनका अलग-अलग स्थानो पर प्रयोग करते है ।

यागो यज्ञः कृत्तुः पूजा सपर्येज्याध्वरो मखः ।

मह इत्यपि पर्यायवचनान्यर्चनाविधेः । (७)

पूजार्हणार्चा यजनं च यज्ञ इज्या सपर्या परिसेवनं च ।

महः क्रतुःकल्प उपासनेति प्रभृत्युपाख्या जिनपूजनस्य । ६०। (८)

याग, यज्ञ, कृत्तु, पूजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, मख, मह, सेवा, कल्प, उपासना आदि । पाप क्रियाओ का त्याग करके, परिग्रह को निषिद्ध करके, विकल्प रहित निर्मल भावो से पूज्य की आराधना मे मन, वचन और काय पूर्वक समर्पित होना पूजा है । अर्थात् अनीचा (निष्काम) भक्ति यथार्थ पूजा है ।

(१) आचार्य गुणधर, कषाय पाहुण (जयधवला) पुस्तक प्रथम पृष्ठ ९१, सूत्र ८२ (२) आचार्य कुन्दकुन्द, रयणसार ९० गाथा १० (३) (१) आचार्य पद्मनदि पचविशतिका ६/७ (२) आचार्य योगीन्द्रदेव, परमार्थ प्रकाश (४) आचार्य बुद्धबुद्ध पचारितकाय । (५) राजेन्द्र अभिधान कोश - भाग ४ पृष्ठ १०७३ (६) डा० नेमिचन्द्र जैन, सम्पादक तीर्थकर पूजा विशेषांक । (७) आचार्य गुणभद्र उत्तरपुराण, सर्ग ६७/१९३ (८) आचार्य जयसेन, प्रतिष्ठापाठ, पृष्ठ १४

जिनदर्शन में व्यक्ति की पूजा नहीं बल्कि व्यक्तित्व अर्थात् गुणों की पूजा का विधान है ।

‘पूज्यानां गुणेषु अनुरागः भक्तिः’

‘तुम गुण चितत निज पर विवेक - प्रगटे, विघटे आपद अनेक’

शक्ति के अनुसार सकल्प पूर्वक जिनपूजा की मुख्यता होती है, बिना संकल्प किया गया कार्य फलीभूत नहीं होता ।

यथाशक्ति यजेताहर्द्वैवं नित्यमहादिभिः ।

संकल्पतोऽपि तं यष्टा भेकवत्स्वर्गहीयते ॥^(१)

आचार्य पुष्पदत्त कृत षट्खण्डागम पुस्तक ८ की टीका में आचार्य वीरसेन स्वामी ने निम्नानुसार विशेष व्याख्या की है ।

चरुबलिपुष्प-फल-गन्ध-धूप-दीवादीहि सगभक्ति पगासो अच्चवणा णाम ।

एदाहि सह अइदधय-कप्परु क्ख-महामह-सव्वदोभद्दादिमहिमा विहाणं पूजा णाम ।

तुहुं णिट्ठवियट्ठकम्मो केवलणाणेण दिट्ठसव्वट्ठा धम्ममुहसिट्ठगोट्ठीए

पुट्ठाभयदाणो सिट्ठपरिवालओ दुट्ठणिग्गहकरो देव ति पससा वंदणा णाम ।

पचहि मुट्ठोहि जिणिदचरणेसु णिवदणं णमसणं ॥^(२)

अर्चना - चरु, बली, पुष्प, फल, गन्ध, धूप, दीप आदि से अपनी भक्ति प्रकाशित करना अर्चना है ।

पूजा - अष्टद्रव्य के साथ इन्द्रध्वज, कल्पद्रुम, महामह और सर्वतोभद्र इत्यादि महिमा विधान को पूजा कहते हैं ।

वंदना - अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले, केवलज्ञान से समस्त पदार्थों को देखने वाले, घर्मोन्मुख शिष्टों की गोष्ठी में अभयदान देने वाले शिष्ट परिपालक और दुष्ट निग्रह करी देव है, ऐसी प्रशंसा वंदना है ।

नमस्कार - पांच मुष्टियों अर्थात् अंगों द्वारा भूमि को स्पर्श करते हुये जिनेन्द्र देव के चरणों में नमन को नमस्कार कहते हैं ।

पूजा के भेद (१) पूजा के मुख्यत दो भेद हैं -

‘पूजा द्वि प्रकारा द्रव्यपूजा-भावपूजा चेति ।^(३)

वचोविग्रहसंकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते ।

तत्र मानससंकोचो भाव पूजा पुरातनैः ॥^(४)

(१) पं. आशाधर, सागारधर्मामृत, श्लोक २/२४ (२) आचार्य पुष्पदत्त, षट् खण्डागम, पुस्तक ८ पृष्ठ ९२ (३) आचार्य शिवक्रेटी, भगवती आराधना । (४) आचार्य अमितगति - अमितगतिश्रावणचर, श्लोक १२/१२

वचन और शरीर का सकोच अर्थात् क्रियाओ का निरोध करना द्रव्य पूजा है और मन का सकोच अर्थात् समस्त विकल्पो का त्यागकर जिन भक्ति मे लगना भाव पूजा है ।

अन्य आचार्यों के अनुसार अष्ट द्रव्य से जिनभक्ति करना द्रव्य पूजा है तथा मन की चचलता/प्रवृत्ति को रोककर गुणानुवाद करना भाव पूजा है ।

(२) विधिविधान पूर्वक विभिन्न अवसरो पर विशेष भक्ति करने के उद्देश्य को लेकर चार भेद किये है ।

प्रोक्ता पूजार्हतामिज्या सा चतुर्धा सदार्चनम् ।

चतुर्मुख महकल्पद्रुमाश्चाष्टाह्निकोऽपि च ॥^(१)

सदार्चन (नित्यमह), चतुर्मुख (सर्वतोभद्र), कल्पद्रुम एव आष्टाह्निक यह चार भेद है ।

इन्द्रध्वज पूजा के रूप मे इसका पाचवा भेद किया है ^(२)

(३) भक्ति का माध्यम लेकर निक्षेप के आधार पर पूजा के छ भेद है ।

णामट्टवणा दव्वे खिते काले वियाणा भावे य ।

छन्विह पूया भणिया समासओ जिणवरिदेहि ॥^(३)

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, एव भाव । विस्तार न हो इस कारण इसका विस्तृत विवेचन नहीं दिया है ।

पूजा के अंग- किन्ही-किन्ही आचार्यों ने अभिषेक को अनिवार्य मानकर पूजा के छ अंग माने है ^(४) एव किन्ही-किन्ही आचार्यों ने अभिषेक को पृथक् मानकर पांच अंग माने है ।

आह्वाननं स्थापनं च सन्निधिकरणं तथा ।

पूजा विसर्जनं चेति उपचारास्तु पंचधा ॥ ^(५)

अभिषेक, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन एव विसर्जन ।

आचार्यों ने इस प्रकार पूजा के पाच अथवा छ अंग बताये है । प्रत्येक अंग की विशेष विधि प्रभाव एव फल है । यह भी निश्चित है अगहीन पूजा फलीभूत नहीं होती, फिर भी कुछ लोग आचार्यों के कथन को गौण करके मनमाने ढंग से पूजा कार्य संपन्न करने का कर्तव्य पूरा करते (निपटाते) है । यहाँ तक कि एक अंग अभिषेक ही क्या, उसके साथ - साथ आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण और विसर्जन को

(१) आचार्य जिनसेन, महापुराण, ३८/२६ (२) प आशाधर सागारधर्मामृत, अध्याय प्रथम, श्लोक १८ (३) आचार्य वसुन्दि, वसुन्दिश्रावकाचार, गाथा ३८१ (४) (१) आचार्य देवसेन, भावसग्रह, पृष्ठ १०९ (२) आचार्य नरेन्द्रसेन, सिद्धान्त सग्रह (३) आचार्य सोमसेन, यश रित्तलक चम्पू (५) (१) आचार्य अकलक देव, भट्ट टाकलक सहिता (२) आचार्य उमास्वामी, उमास्वामी श्रावकाचार, श्लोक १४७-४८

भी अनावश्यक मानकर केवल पूजन करके अपने दायित्व की इति श्री कर लेते है। यह मनमानी है। जिनवाणी पर अश्रद्धा आखिर क्यों ? जरा विचार करे ?

क्या अधूरी नवधा भक्ति से मुनिराज का पड़गाहन (आहार) संभव है ?

क्या अगहीन सम्यग्दर्शन ससार परिभ्रमण मिटा सकता है ?

क्या अक्षरहीन मंत्र विषवेदना दूर कर सकता है ?

नही। फिर अगहीन (लगड़ी) पूजा से हमें लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी ?

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि,

नूनं नचेतसिमया विधृतोऽसि भक्त्या ।

जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुःखपात्रं,

यस्मात्क्रिया प्रति फलन्ति न भाव शून्याः ॥ (१)

रूढि परम्परा एव जिनवाणी के स्वाध्याय के अभाव में हम क्रियायें तो करते हैं पर हमारे पास उसका कारण (उद्देश्य) नहीं है। बिना कारण हमारी पूजा भावहीन/थोथी होती है जबकि पूजा/क्रिया के भाव ही उसके प्राण हैं और हमारे हाथ में केवल निष्प्राण क्रिया शेष है इसलिये कारण न खोजकर हमने इसे नकार दिया है।

अभिषेक - अभिषेक का विस्तृत विवरण अभिषेक क्या और क्यों? शीर्षक में दिया जा चुका है शेष अगो पर हम विचार करें।

आह्वानन, स्थापन एवं सन्निधिकरण- वीतरागी अर्हन्त प्रभू की पूजा करने के लिये सभी सकल्प, विकल्प एवं रागद्वेष, मोह आदि विकारी परिणामों को मन से हटाकर कषायों की मन्दता करे। मन वचन एव काय से पूजा करने का संकल्प करके स्थिर (पैरो के बीच चार अंगुल का अंतर रखकर) खड़े हो जायें। फिर सिर ढककर विनय मुद्रा से हाथ जोड़कर आह्वानन, स्थापन एवं सन्निधिकरण की क्रिया करे।

भक्ति प्रार्थना है, भक्ति मस्तिष्क से नहीं हृदय से होती है। सिद्धान्त अलग है भक्ति अलग है। जब भक्त भगवान की भक्ति में एकाग्र, तल्लीन, तन्मय होता है तो बीच के सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं, केवल भक्त और भगवान होते हैं कोई औपचारिकता नहीं होती, सारा कार्य श्रद्धापूर्वक निर्मल भावना से ही होता है।

पूजा में आह्वानन, स्थापन सन्निधिकरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण विधि है उसे किसी विकल्प में न ले कर आगमानुसार करे, जिससे उसका यथार्थ लाभ प्राप्त हो सके।

आह्वानन का अर्थ है भाव सहित उल्लासपूर्वक त्रिलोकीनाथ को आमंत्रित

(अवतरित) करने का विनय भाव । स्थापन है सजग/सतर्क होकर भगवान से ठहरने आग्रह भाव एव सन्निधिकरण है भगवान को हृदय कमल पर विराजमान होने का अनुरोध/श्रद्धापूर्वक साक्षात् जिनेन्द्र भगवान से निकटता प्राप्त करना,^(१) उनके चरणों में स्वयं को बिना शर्त निष्काम भाव से समर्पित/विसर्जित कर देना, भगवान से सीधा साक्षात्कार करना ।

परन्तु यह महत्त्वपूर्ण क्रिया परम्परागत रूप से अनेक प्रकार से करते आये हैं । प्रत्येक क्रिया आह्वानन, स्थापन एव सन्निधिकरण में क्रमशः तीन-तीन पुष्प चढ़ाने का प्रयास करते करते यह महत्त्वपूर्ण क्रिया पूर्ण करते हैं और अखण्ड पीले चावल सम्हारने- चढ़ाने में ही भगवान के आह्वानन, स्थापन एव सन्निधिकरण का भाव चूक जाता है, उनसे निकटता प्राप्त करने का अवसर हाथ से निकल जाता है हम उनके प्रति समर्पित होने का भाव जागृत ही नहीं कर पाते हैं और क्रिया पूर्ण हो जाती है ।

आगम और प्राचीन पूजा पाठ में पुष्पो द्वारा प्रत्येक क्रिया करने का उल्लेख नहीं है । प्राचीन सस्कृत विधानों में भी आह्वानन, स्थापन एव सन्निधिकरण तीनों क्रियाओं के पश्चात् पुष्प क्षेपण करना लिखा है । पुष्पो में भगवान की स्थापना करने का निषेध अवश्य मिलता है ।

हुंडावसर्पिणीए विड्या ठवणा ण होदि कायव्वा
लोए कुलिंगमइमोहिए जदो होइ संदेहो ।^(२)

हुण्डावसर्पिणी काल में दूसरी असद्भाव स्थापना पूजा नहीं करना चाहिये । क्योंकि कुलिंग मतियों से मोहित इस लोक में सदेह हो सकता है ।

रत्नकरण्ड श्रावकाचार में प० सदासुखदास जी ने पृष्ठ २३३-३५ श्लोक टीका ११९ में प्रतिमा के सामने पुष्पो में अतदाकार की स्थापना का निषेध किया है । यदि यही पुष्प पूज्य हो तो धातु पाषाण की प्रतिमा क्यों विराजमान की है, साथ ही अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान प्रतिमा की पूज्यता में भी सदेह हो जावेगा । साथ ही कहा कि भावना से आह्वानन आदि करके 'संकल्प के पुष्प' क्षेपण करना चाहिये ।

जिन प्रतिमा के सामने भी आह्वानन, स्थापन, एव सन्निधिकरण करना आवश्यक है ।

संवौषडाह्यनिवेश्यताभ्यां सान्निध्यमनीय वषड्पदेन ।

श्री पंचमेरुरथजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ।

आहूय संवौषडिति प्रणीत्य ताभ्यां प्रतिष्ठाप्य मुनिष्ठतार्थान् ।

वषड्पदेनैव च सन्निधाय नन्दीश्वरह्रीपजिनान्समर्चै ॥^(३)

(१)(अ) प आशाधर, सागारधर्मामृत, श्लोक २/६४ (ब) आचार्य पद्मनादि, पद्मनादिपचविशति, श्लोक १/६८ (स) रत्नकरण्डश्रावकाचार, प. सदासुखदास टीका, पृष्ठ २२६ (श्लोक ११९)

(२) आचार्य वसुनदी, वसुनदी-श्रावकाचार, श्लोक ३८५ (३) क्षु जिनेन्द्र वर्णी जैनेन्द्र सिद्धांत कोष, भाग ३, पृष्ठ ७६

'संवौषट्' पद के द्वारा बुलाकर, 'ठः ठः' पद के द्वारा ठहराकर तथा 'वषट्' पद के द्वारा अपने निकट करके पांचों मेरु पर्वत पर अस्सी चैत्यालय की समस्त प्रतिमाओं की पूजा करता हूँ। तथा नंदीश्वरद्वीप के जिनेन्द्रों की पूजा करता हूँ।

आह्वानन, स्थापन एवं सन्निधिकरण मन, वचन एवं काय से मंत्र, मुद्रा एवं क्रिया द्वारा करना चाहिये। बीजकोष में बीजाक्षरों की शक्ति एवं उपयोग में स्पष्ट कथन है कि संवौषट् - आमंत्रण/आह्वानन में, 'ठः ठः' रोकने/स्तंभन में एवं 'वषट्' निकटता/वशीकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं।^(१)

मुद्रोद्धार शास्त्र के अनुसार आह्वानन, स्थापन एवं सन्निधिकरण की अलग-अलग मुद्रायें हैं जिनके माध्यम से यह क्रिया करना चाहिये।

हस्ताभ्यामंजलिं कृत्वाऽनामिकामूलपर्वणि ।
अंगुष्ठौ नाक्षिपेत्सेयं मुद्रा त्वावाहिनी मता ॥
अधोमुखी चेयं चेत्स्यात् स्थापिनी मुद्रिका मता ।
उच्छ्रितांगुष्ठयुष्टयोरस्क संयोगात्सन्निधापिनी ॥ (२)

(१) आह्वानन मुद्रा या आकर्षिणी मुद्रा- दोनों हाथों को खोलकर एक साथ मिलाकर फैलाना फिर दोनों अंगूठे दोनों अनामिकाओं के मूलस्थान में रखना, इससे जो आकृति बनती है यह 'आह्वानन मुद्रा' कहलाती है।

(२) स्थापनी मुद्रा - उसी आकर्षिणी मुद्रा सहित दोनों हाथों को उल्टा रखने से 'स्थापनी मुद्रा' होती है। अर्थात् आकर्षिणी मुद्रा में जो दोनो हथेली ऊर्ध्वमुख थी, वे ही अंगूठे को जहाँ के तहाँ रखकर अधोमुख कर देने से जो आकृति होती है, उसे 'स्थापिनी मुद्रा' कहते हैं।

(३) सन्निधिकरण मुद्रा - दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर मिलाने से और दोनों अंगूठे हृदय की ओर रखने से सन्निधिकरण मुद्रा होती है। सन्निधिकरण करते समय सन्निधिकरण मुद्रा से हृदय स्पर्श और नमस्कार करना चाहिये। इस प्रकार मंत्र एवं मुद्रा द्वारा विशुद्ध भाव पूर्वक जिनेन्द्र देव की निकटता/सान्निध्य प्राप्ति की मंगल भावना से भरकर आह्वानन, स्थापन, एवं सन्निधिकरण की क्रिया भावपूर्वक करें तत्पश्चात् पुष्पों को ठोना पर क्षेपण करते हुए पूजा का संकल्प करें।

आचार्य उमास्वामी के अनुसार- "क्षेत्रात्क्षेत्रांतरं द्रव्यं स्थापना सा निगद्यते" (३)
अर्थात् किसी द्रव्य को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थापित करना स्थापना है। पूजा के समय भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया जाता है यही उनका क्षेत्रांतर

(१) मंगलमंत्रणमोकार एक अनुचितन, डॉ. नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य पृष्ठ ८२ एवं उमास्वामी श्रावकाचार, आचार्य उमास्वामी, पृष्ठ ५८। (२) मुनि श्री आदिसागर महाराज द्वारा संकलित, श्रावक का नित्य क्रियाकलाप, पृष्ठ १७४-७५। (३) उमास्वामी श्रावकाचार, आचार्य उमास्वामी, पृष्ठ ५९।

स्थापन है ।

क्रिया विधि - दर्शन मुद्रा पूर्वक सजग/सतर्क खड़े होकर, जिन प्रतिमा की ओर दृष्टि करके उनकी साक्षात् निकटता का भाव करके सभी परिग्रह/विकल्पों से स्वयं को अलग करते हुये विनयपूर्वक हाथ जोड़ें (दोनों हथेली मुकुल अवस्था में हृदय के समीप करें) पूजा में मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है तभी मन, वचन एवं काय पूर्वक पूजा सम्पन्न होगी ।

आह्वानन, स्थापन, एवं सन्निधिकरण करने के पूर्व मंत्र पढ़ने तक हाथ जोड़ें, तत्पश्चात् मुद्रा बनाते हुये क्रिया का भाव करें । अर्थात् क्रमशः प्रत्येक क्रिया पूर्ण करने के पश्चात् पुनः हाथ जोड़ कर अगली क्रिया, मंत्र पढ़ते हुये प्रारम्भ करें ।

आह्वानन - ओं ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह (संबोधन)

अत्र अवतर अवतर संबोधत् (आकर्षण मंत्र)

आह्वाननम् (आह्वानन मुद्रा)

उल्लासित होकर भगवान को आमंत्रित करने का भाव (क्रिया)

स्थापन - ओं ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह (संबोधन)

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः (स्तंभन मंत्र)

स्थापनम् (स्थापनी मुद्रा)

भावों में भगवान को रोक्ने का भाव (क्रिया)

सन्निधिकरण - ओं ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह (क्रिया)

अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् (वशीकरण मंत्र)

सन्निधिकरणम् (सन्निधिकरण मुद्रा)

भाव पूर्वक भगवान को हृदय कमल पर विराजमान करना (क्रिया)

इसके बाद पूजा करने का संकल्प इस भावना के साथ करें कि हे भगवन ! जो विशुद्धि, कषायों की मंदता एवं परिणामों की निर्मलता आपके सान्निध्य में हुई है, वह मेरे जीवन में बनी रहे । तत्पश्चात् ठोने पर 'संकल्प पुष्प' क्षेपण करें ।

यहां किसी प्रकार की गिनती के व्यवधान में नहीं उलझना, क्योंकि हम भगवान की पूजा का संकल्प करके संकल्प पुष्प ठोने पर क्षेपण कर रहे हैं, भगवान को नहीं । ठोने पर संकल्प पुष्प क्षेपण क्यों ?

वर्तमान में कुछ पुजारियों ने पूजा के समय ठोना रखना बंद कर दिया है क्योंकि

वह आह्वानन, स्थापन, सन्निधीकरण एव विसर्जन नहीं करते हैं अतः उन्हें ठोने की आवश्यकता नहीं जबकि यह आगम विरुद्ध है। पूज्य वसुनन्दि आचार्य ने श्रावकाचार में ठोने की आवश्यकता का वर्णन किया है।

पुबुतवेइमज्जे लिहेज्ज चुण्णेण पंचवण्णेण,
पिह्कण्णियं पइट्ठाकलावविहिणा सुकंदुत्थं ॥४०५॥
संगावलिं च मज्झे ठविज्ज सियवत्थपरिवुडं पीठं,
उचिदेसु तह पइट्ठोवयरण दब्बं च ठाणेसु ॥४०६॥

प्रतिष्ठा मण्डल में पंचवर्ण वाले चूर्ण के द्वारा माड़ना बनाकर इसके ऊपर उचित स्थान पर ठोना स्थापित करना।

आगमग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि अकृत्रिम चैत्यालयों में प्रत्येक चैत्यालय में १०८ पद्मासन रत्नमयी जिन-प्रतिमा अलग-अलग गर्भगृह में विराजमान हैं, साथ ही प्रत्येक प्रतिमा के साथ अष्टप्रातिहार्य, अष्टमंगल द्रव्य, ३२ चंवर धारी नागकुमार युगल, पार्श्व में यक्ष एवं देवियों विद्यमान है।

भिंंगारकलसदप्पण वीयणधयचामरादवत्तमहा ।
सुवइट्ठ मंगलाणि य अट्ठ हियसयाणि पत्तेयं ॥
भृंगारकलशदर्पणवीजन ध्वजचामरातपत्रमथ ।
सुप्रतिष्ठं मंगलानि च अष्टाधिकशतानि प्रत्येकम् ।^(१)
भृंगाराब्दकलशाद्युपकरणैरष्टशतकपरिसंख्यानैः ।
प्रत्येकं चित्रगुणैः कृतझणझणनिनदविततघंटाजालैः ।^(२)

इसी के अनुसार जब भी नवीन वेदी में जिनबिम्ब स्थापित करते हैं तो उनकी वेदी पर अष्ट प्रातिहार्य एवं अष्ट मंगल द्रव्य स्थापित किये जाते हैं एवं अष्टप्रातिहार्य तथा अष्टमंगल द्रव्य युक्त जिनेन्द्र भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं ।^(३) पूजा में धूप की आवश्यकता का भगवान के समवसरण का वर्णन करते हुये पूज्य यतिवृषभाचार्य तिलोय-पण्णती में कहते हैं कि पूजा की द्रव्य के साथ ही धूप घट एवं मंगल द्रव्य गवकुटी में स्थित रहते है।

धूवघडा णवणिहिणो अच्चणदब्बाइं मंगलाणिं पि ।
चेट्ठंति विदियपीठे को सक्कइ ताण वण्णेदुं ॥^(४)

समवसरण की गंवकुटी की द्वितीय पीठ पर जो धूपघट, नवनिधियां, पूजनद्रव्य, मंगलद्रव्य स्थित रहते हैं, उनका वर्णन करने के लिये कौन समर्थ है ?

(१) आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती, त्रिलोक सार, गाथा ९८९ (२) आचार्य पूज्यपाद, नंदीश्वर भक्ति, श्लोक २४ (३) पं. मन्मूलाल जी प्रतिष्ठाचार्य की हस्तलिखित डायरी से। (४) यतिवृषभाचार्य, तिल्लोय-पण्णती, गाथा ८८१

पूजन मे अष्ट द्रव्यो के साथ ठोने का होना स्वय सिद्ध है। साथ ही विचार करे यदि सकल्प के पुष्प द्रव्य चढाने की थाली मे क्षेपण करेगे तो हमारा सकल्प निर्माल्य हो जावेगा अर्थात् खण्डित हो जावेगा। इसलिये पूजन की समाप्ति पर पूजन क्रिया का विसर्जन, (समापन) पुष्पो के द्वारा ठोने पर ही किया जाता है।

पूजन - जिनेन्द्रभगवान के अनंत गुणो का स्मरण करके (गुणानुवाद) अष्टद्रव्य, (जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल एव अर्घ) को क्रमशः ससार परिभ्रमण कराने वाले जन्मजरा मरण की वेदना, ससार का आताप, क्षत अवस्था, कामवासना, क्षुधा की पीडा, मोह का अधकार, अष्टकर्मो के दुखो को नष्ट करने एव अभीष्टफल (मुक्ति) के अमूल्य पद का लक्ष्य करके सकल्प पूर्वक जिनेन्द्र चरणो मे समर्पित करना।

‘आठों दुखदानी, आठ निशानी, तुमढिंग आनी, निवारन हो (१)

मत्र का भाव - ओ ह्री श्री. . निर्वपामीति स्वाहा।

पूरी पूजा के मत्रो में यह बीजाक्षर ही क्यो लिये गये है ?

इस पर कभी विचार न करके, हम मात्र द्रव्य चढाते आये है, चढा रहे है। जबकि ये बीजाक्षर हमारी भावना/उद्देश्य को प्रकट करते है।

‘ओं पंच परमेष्ठी वाचक, ‘ह्री’ चौबीस तीर्थकर वाचक, ‘श्री’ लक्ष्मी अनंत चतुष्टय वाचक।

निर्वपामीति - सपूर्ण रूप से समर्पित करना अर्थात् मन, वचन, काय से अष्टद्रव्य चढाना/ समर्पित करना।

अपने दुष्कर्मो का (जिनसे ससार बढता है) समूल क्षय (नष्ट) करने के लिए मन, वचन, कायपूर्वक (सपूर्ण रूप से) अष्टद्रव्य समर्पित करना।

शब्द व्युत्पत्ति - निर्वपामीति = नि + वप् + आमि + इति

नि. = नि.शेष, सपूर्ण रूप से कि शेष न रहे (समाप्त हो जाने तक)

वप् = बोना, विस्तीर्ण करना, समर्पित करना।

आमि = मै (वर्तमान काल उत्तम पुरुष का एक वचन)।

इति = क्रिया की पूर्णता।

स्वाहा - पापनाशक, मगलकारक, आत्मा की आंतरिक शांति उद्घाटित करने वाला।

इन बीजाक्षरो के माध्यम से अष्टद्रव्य चढाते समय यह भाव होता है कि मै पंचपरमेष्ठी, चौबीस तीर्थकरो को साक्षी मानकर (उनका अवलम्बन लेकर) अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए, ससार परिभ्रमण कराने वाले दुष्कर्मो को नष्ट करने

(१) कविवर दानतराय कृत, देव पूजा।

के लिए मैं द्रव्य समर्पित करता हूँ। वह कर्म मेरे जीवन में शेष ही न रहें, समूल नष्ट करने की मांगलिक आत्मशक्ति मेरे अन्दर उद्घाटित हो जावे। इस भाव से मैं यह द्रव्य सम्पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ।

इसका अभिप्राय है कि हम सकल्प करे कि अपने जीवन से अशुभकर्मों को नष्ट कर देंगे, इनको बढाने वाले वृत्त्य नहीं करेंगे, पुनः नहीं बोयेंगे जिससे यह वेदनायें मेरे जीवन में बार-बार न आवे और पूर्ण आत्मशान्ति प्राप्त करूँ क्योंकि पूजा परंपरा से मोक्ष का कारण है।

उद्देश्य - दुःखखओ कम्मखओ बोहिलाहो,
सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।^(१)

मैं वंदू जिनदेव को कर अति निर्मल भाव ।

कर्म बंध के छेदने और न कोई उपाव ॥

इन्द्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान ।

अपनो विरद निहारिके कीजे आप समान ॥ ^(२)

‘वन्दे तद्गुणलक्ष्ये’ ^(३)

इस प्रकार जिनेन्द्र गुणों की प्राप्ति ही पूजा का उद्देश्य है।

विसर्जन - विश्व शांति की मंगल कामना के साथ शांति पाठ पढकर, पूजा में होने वाली अशुद्धियों ज्ञाताज्ञात त्रुटियों की क्षमायाचना पूर्वक पूजा कार्य की समाप्ति करना विसर्जन है। विसर्जन का तात्पर्य पूजा संकल्प के विसर्जन से है न कि देवताओं के विसर्जन से, विसर्जन पाठ में पढा जाने वाला अंतिम पद -

आये जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ।

वे अब जावहूँ कृपाकर अपने अपने थान ॥

पूजा विसर्जन से सम्बन्ध नहीं रखता है। यह पद प्रतिष्ठाग्रंथों से लिया गया है। प्रतिष्ठाकार्य के निर्विघ्न सपन्नता हेतु प्रारम्भ में चतुर्निकाय के देवों को आमंत्रित किया जाता है, जिन्हे प्रतिष्ठा कार्य की समाप्ति पर ससम्मान यथास्थान वापिस करने के उद्देश्य से पढा जाता है। ^(४)

सर्वे ये ऽपि समाहूता जिनयज्ञमहोत्सवे

तान्सर्वान् संविसृज्येत भक्तिनम्रशिराः पुनः । ^(५)

अतः पूजन के समय देव या जिनेन्द्र देव का विसर्जन नहीं है। पूजा में होने वाली त्रुटि/कमी के प्रति क्षमायाचना का भाव करके पूजा सकल्प पूर्ण हो गया है, अतः

(१) आचार्य बुद्ध बुद्ध- दशभक्त्यादि, सग्रह (२) प. नाथुराम, विनय पाठ (३) आचार्य उमास्वामी, तत्त्वार्थसूत्र मंगलाचरण (४) श्री नेमिचन्द्र देव, प्रतिष्ठा तिलक, पृष्ठ ६०३ (५) आचार्य जयसेन, प्रतिष्ठा पाठ श्लोक ९१६

पूजा समाप्ति पर पूजन कार्य का विसर्जन (समापन) भी पुष्पो के द्वारा ठोने पर किया जाता है ।

चौबीसों जिनराजपद पूजे भक्ति प्रमाण ।

पूजा विसर्जन में करूँ सदा करो कल्याण । (१)

सकल्प के पुष्पो का भी ठोने पर जल डालकर निर्माल्य की थाली में क्षेपण कर दें । अग्नि में नहीं जलाना चाहिये ।

पूजा का फल - आचार्य कुन्द कुन्द महाराज ने पूजादि कार्यों को व्रतसहित करने को पुण्य कहा है तथा मोह-क्षोभ-रहित आत्मा के परिणामो को धर्म कहा है ।

पूयादिसु वयसहियं पुण्यं हि जिणेहि सासणे भणियं ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो (२)

इस प्रकार पुण्य से शुभ परिणाम होते हैं जिन्हे आचार्य ने धर्म (पुण्य) कहा है जो परम्परा से मोक्ष का कारण है ।

‘पूयाफलेण तिलोयसुरपूजो हवेइ सुद्धमणो ’

शुद्ध मन से की गई पूजा त्रिलोक पूज्य पद को देती है ।

आचार्य अमितगति के अनुसार:-

पवित्रं यन्निरांतकं सिद्धानां पदमव्ययम् ।

दुष्प्राप्यं विदुषामर्थ्यं प्राप्यते तज्जिनार्चकैः ॥ (३)

जिनपूजा के परिणाम के निमित्त से परम्परा से रत्नत्रय प्राप्तकर नियम से मोक्ष प्राप्त होता है ।

आचार्य समंतभद्र के अनुसार :-

देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणम् ।

कामदुहिकामदाहिनि परिचिनुयादादृतो नित्यम् ॥ (४)

सर्व दुखों की नाशक, इच्छित फल को देने वाली और मानसिक विकारों को जलाने वाली देवाधिदेव वीतरागप्रभु के चरणों की पूजा नित्य आदरपूर्वक करना चाहिये ।

एक पुष्प दल से पूजा का भाव रखने वाला मेढक स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है । तब जो अष्ट-द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं, उनके पुण्य का कथन नहीं किया जा सकता ।

(१) प मङ्गलाल जैन, हस्तलिखित डायरी (२) आचार्य कुन्दकुन्द, भावपाहुड़ - गाथा ८१ (३) आचार्य अमितगति, अमितगति- श्रावकाचार, श्लोक १२/३९ (४) आचार्य समंतभद्र, रत्नकरण्ड-श्रावकाचार, श्लोक ११९

आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि मे कहते है 'पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्' (१)

जो आत्मा को पवित्र करे या जिस से आत्मा पवित्र होता है, वही पुण्य है ।

ऐसे निघत्ति एव निकाचित रूप मिथ्यात्वादि कर्मों का जिनका अन्यकारणों से संक्रमण, उदीरणा नहीं होती का क्षय जिनेन्द्र देव के दर्शन मात्र से हो जाता है एव उनके नाम मात्र की कथा से अनेक जन्मों के सचित पापों का नाश होता है, तब जिनेन्द्र भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करने पर मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होगी । नियम से होगी ही ।^(२)

जिन दर्शन/पूजा का फल तभी प्राप्त होगा जब यह परिणाम मंदिर तक ही नहीं कितु घर, आगन, मकान, दुकान एव प्रत्येक कार्य क्षेत्र तक पहुंचकर हमारी दिनचर्या को पवित्र करे, तब ही यह क्रिया सम्यक्त्ववर्धिनी होगी । अन्यथा मात्र प्रदर्शन ही रहेगा ।



(१) आचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ६/३

(२) आचार्य पुष्पदत्त, पट्टखण्डागम-टीकाकार आचार्य वीरसेन स्वामी, धवला पुस्तक ६, पृष्ठ ४२
आचार्य पद्मनदि, पद्मनदिपचविशति, १०/४२, आचार्य कुन्दकुन्द, मूलाचार ७/६, आचार्य गुणधर,
कसायपाहड जयधवला प्रथम टीका, वीरसेन स्वामी पृष्ठ ८ ।

धूप एवं हवन आगम की दृष्टि में

किसी भी धार्मिक कार्य को निर्विघ्न सम्पन्न करने के लिये जप^(१) अनुष्ठान करना अनिवार्य है जिसमें विशेष मंत्र^(२) की जाप सकल्प पूर्वक की जाती है। कार्य की समाप्ति पर किये गये जप सकल्प की दशाश आहुति से हवन करना आवश्यक है।

आचार्य जयसेन वृत्त प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट उल्लेख है कि कम से कम एक हजार आठ जप अवश्य करे पश्चात् उसका दशाश होम करे।

सहस्रमष्टोत्तर मन्त्रमुख्यो जपस्तदाराधकृत्ता दशांशः।

होमो विधेयः पुनरिष्टकाले मंत्रेण कार्यो विधि रर्यमाना।।^(३)

श्री नेमिचन्द्र वृत्त प्रतिष्ठातिलक के पृष्ठ १३२ पर होम विधि का वर्णन है।

प्रतिष्ठा सारोद्धार के प्रथम अध्याय श्लोक १४० के अनुसार -

दातृसंघनृपादीनां शान्त्यै रनात्वा समाहिताः

शान्तिमंत्रैर्जपं होमं कुर्यारिन्द्रा दिने-दिने।

अर्थात् वे इन्द्र, प्रतीन्द्र, दाता, श्रावकसघ राजा आदि की शान्ति के लिये प्रतिदिन स्नान करके शांति मंत्रों से जाप और होम अवश्य करे।

इस प्रकार प्रतिष्ठा ग्रंथों में हवन करने का विधान आया है।

हवन किस विधि से एवं किस सामग्री से किया जावे इसमें मत-मतान्तर है परन्तु हवन करना अनिवार्य है इससे सभी सहमत हैं।

वर्तमान में धूप द्वारा अग्नि से हवन का विरोध तीव्रता से होने लगा है जबकि इसके विरुद्ध निषेधात्मक आगम प्रमाण एक भी नहीं है। यहां तक कि पुष्पों द्वारा बिना अग्नि के आहुतिया करने के नये (विकृत) मार्ग का सृजन हो गया है जबकि किसी भी ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

हवन हेतु आचार्यों ने समिधा के रूप में विशिष्ट वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग लिखा है वर्तमान में शुद्ध समिधा उपलब्ध न होने के कारण एवं लकड़ी में होने वाले जीवों की विराधना से बचने के लिये कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि हवन की क्रिया में श्रावकों को विवेक रखना आवश्यक है। हवन हेतु अधिक अग्नि प्रज्वलित न करे तथा कम मात्रा में धूप की आहुति विधि पूर्वक करे। (मध्यमा एव अनामिका पर धूप लेकर अगूठे से होम करे)।

(१) जकारो जन्म विच्छेद पकार पाप नाशन, तरमाज्जप इति प्रोक्त जन्मपाप विनाशकम्।

(२) मकार च मन- प्रोक्त त्रकार त्राण मुच्यते, मनस्त्राणत्व योगेन मन्त्र इत्यभिधीयते।

(३) आचार्य जयसेन, प्रतिष्ठा पाठ, १३८ श्लोक ४२१।

धूप के लिये चदन चूरा या तत्काल निर्मित धूप का प्रयोग करें, धूप में बूरा एवं धान्य सामग्री मिश्रित नहीं करना चाहिए। बाजारकी अमर्यादित धूप का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान समतभद्र स्वामी ने स्वयम्भू स्तोत्र में १००८ भगवान वासुपूज्य की स्तुति में लिखा है-

‘सावद्यलेशो बहुपुण्य राशौ’

अर्थात् श्रावक की प्रत्येक क्रिया में सावद्य योग कम हो तथा पुण्यार्जन अधिक हो यह विवेक रखे।

पूजा एवं हवन में अग्नि में धूप क्षेपण के कई प्रमाण आगम ग्रंथों में दिये गये हैं जो निम्न हैं-

१ आचार्य गुणधर स्वामीकृत कषाय पाहुड (जयधवला) पुस्तक एक पृष्ठ ९१ में लिखा है ‘दीप जलाये एवं अग्नि में धूप क्षेपण बिना पूजा नहीं होती है।

‘धूवदहणादिवावारेहि जीव वहाविणाभावीहि विणा पूजकरणाणुवक्तीदो च’

२ आचार्य पुष्पदत्त स्वामीकृत धवला पुस्तक ८ (षट्खण्डागम) में अष्टद्रव्य में दीप एवं धूप का स्पष्ट कथन है।

३ आचार्य कुन्द कुन्द भगवन् ने चैत्य भक्ति में वर्णन किया है कि देवगण अकृत्रिम चैत्यालय में दिव्य (स्वर्ग की प्रत्येक सामग्री चाहे वस्त्र, आभूषण, पुष्प या अष्टद्रव्य सभी दिव्य होती है। तात्पर्य स्वर्ग की प्रत्येक सामग्री दिव्य होती है पर स्वर्ग के आधार पर वह सामान्यतः उपलब्ध होने वाली सामग्री ही है। हम उसे दिव्य कहते हैं।) सामग्री से भगवान की पूजा करते हैं।

**‘दिव्येण गंधेण, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण धूवेण,
दिव्येण चुण्णेण, दिव्येण वासेण, दिव्येण ण्हाणेण।’**

४ श्री यतिवृषभाचार्य ने तिलोय पण्णत्ति भाग २ में गाथा ७४५, ७४९ एवं ७६८ में समवसरण के गोपुर नाट्यशाला में धूपघटों का वर्णन किया है।

५. आचार्य पुष्पदत्त स्वामीकृत धवला पुस्तक ९ पृष्ठ २२० पर आचार्य वीरसेन स्वामी ने टीका में जलते हुये सुगंधित धूप वाले दो-दो धूपघटों का वर्णन किया है।

६ आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण में सर्ग २२/१५७ में लिखा है कि इन धूपघटों से इतना धूम उठता है कि स्वर्ग से आने वाले देव इससे बादलों की आशका करने लगते हैं।

७. समवसरण मे केवली भगवान की पूजा की सामग्री मे दीप एवं धूप का वर्णन आदिपुराण के सर्ग २२/१९६ एवं २३/१०६ मे है ।
८. आदिपुराण के सर्ग २३/११३ मे सौधर्म इन्द्राणी (शची) भगवान की पूजा जलते हुये दीपकों एव धूप से करती है- स्पष्ट उल्लिखित है -

ददौ धूपमिद्धं च पीयूष पिण्डं महारथाल संस्थं ज्वलदीपदीपम् ।

९. आदिपुराण के सर्ग २३/१९ एवं २० एव तिलोय पण्णत्ति भाग २/८९६ के अनुसार समवसरण की गधकुटी का नामकरण उसके चारों ओर से मालाओं एवं धूप की सुगंध से ही हुआ है । जिसकी सुगंध से आकर्षित होकर भौरै गुंजायमान होते है ।
१०. आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती त्रिलोकसार की गाथा ९९० से ९९३ एव यतिवृषभाचार्य तिलोय पण्णत्ति की गाथा १८८४ एव १८८८ मे कहते है कि अकृत्रिम चैत्यालयो के महाद्वार के पास २४ हजार धूपघट एवं मुख्य मण्डप मे १६ हजार धूपघट विद्यमान होते हैं जिनसे लगातार सुगंधित धूम उठता रहता है ।
११. श्री यतिवृषभाचार्य तिलोय पण्णत्ति की गाथा २१६३ में कथन करते है-

**चउतोरण वेदिजुदा रयणमया विविह दिव्वधूपघडा,
पजलंतरयणदीवा ते सब्बे धयवदाइण्णा ।**

रत्नमय प्रासाद चार तोरण वेदी सहित विविध प्रकार के दिव्य धूपघट से युक्त जलते हुए रत्न दीपो से प्रकाशमान एव ध्वजपताकाओ से व्याप्त हैं ।

१२. आचार्य पूज्यपादस्वामी शान्ति भक्ति मे हवन से शान्ति प्राप्त होने का कथन करते है -

**क्रुद्धाशीर्विषदष्ट दुर्जय विषज्वालावली विक्रमो ।
विद्याभेषज मंत्रतोय हवनैर्याति प्रशान्तिं यथा ॥**

अन्य उद्धरण लेख विस्तृत न हो इस कारण उल्लेखित नही किये है ।

अपने साक्ष्य हेतु विद्वान हवन को वैदिक परम्परा से लिया गया मानते है जबकि आचार्य जिनसेन ने इसे द्वादशाग जिनवाणी के सातवें अग उपासकाध्ययन के ज्ञान से हवनविधि लिखने का उल्लेख किया है, उपरोक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि मूल आगम ग्रंथो मे धूप, अग्नि एव हवन का स्पष्ट उल्लेख है । यह सर्वविदित एवं शाश्वत सत्य है कि तीर्थकरो के कल्याणक एवं अकृत्रिम चैत्यालय अनादि निघन

है तब उनसे संबंधित धूप अग्नि एवं धूपघट की परम्परा भी अनादि निधन ही है, नई नहीं है ।

फिर मेरी समझ में नहीं आया कि जिनवाणी पर श्रद्धा रखने वाले श्रावक को जिनवाणी के प्रति शंका किस आधार पर एव क्यों हुई ? विद्वानों से भी नम्र निवेदन है कि धूप, अग्नि एव दीप का निषेध करके अन्य श्रावको को भ्रमित न करे । गृहस्थ मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है किंतु आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा का त्याग उसके नहीं है । अतः मंदिर बनवाना, धार्मिक आयोजन करना, पूजा आदि में होने वाले आरंभ से बचाव करना संभव नहीं है अतः प्रत्येक कार्य विवेकपूर्वक करना चाहिए ।

हवन का उद्देश्य:-

सकल्प किये धार्मिक कार्य के समापन के पश्चात् सात प्रकार के मंत्रों के द्वारा आहुतिया एव दशांश आहुतिया दी जाती है । जिनका उद्देश्य है सप्त परम पदों की प्राप्ति की भावना -

सज्जातिः सद्गृहित्वं च पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता,
साम्राज्यं परमार्हन्त्यं परनिर्वाणमित्यपि। (१)

हवन मंत्र^(२)

- (१) पीठिका मंत्र (३३) जिस प्रकार मकान निर्माण के लिये नींव का मजबूत होना आवश्यक है, इन मंत्रों का आराधन अपने परिणामों की विशुद्धि एवं स्थिरता के लिये अनिवार्य है । यह मंगल कार्य की आधारशिला है ।
- (२) जाति मंत्र (८) इन मंत्रों में कामना की गई है कि कल्याण करने वाले सद् विचार ही उत्पन्न हो ।
- (३) निस्तारक मंत्र (११) इन मंत्रों में कामना की गई है कि जो सद् विचार उत्पन्न हों, वह क्षणिक न हो, वह उच्च एवं कल्याणकारी विचार आत्मा में अधिक समय तक स्थिर रहे ।
- (४) ऋषि मंत्र (१५) इन मंत्रों में कामना है कि श्रावक व्रत पालन करते हुए समाधि मरण पूर्वक मरण करते हुये मुनिव्रत धारण कर सद्गति प्राप्त करे ।
- (५) सुरेन्द्र मंत्र (१३) इन मंत्रों में कामना की गई है कि मुनिव्रत धारण करके समाधि मरण पूर्वक मरण के पश्चात् सौधर्मेन्द्र पद की प्राप्ति हो जिससे निरन्तर भगवान की भक्ति करता रहूँ ।

(१) आचार्य जिन्नसेन, महापुराण, सर्ग ३८ श्लोक ६७

(२) वही, सर्ग ३८ श्लोक ७४

- (६) परमराज मंत्र (९) इन मंत्रों में कामना की गई कि सौधर्म स्वर्ग से चयकर ऐसे धार्मिक राज परिवार में जन्म हो जहाँ धर्माराधन करते हुये सकल समय धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो ।
- (७) परमेष्ठी मंत्र (२३) इन मंत्रों में कामना की गई है कि हे भगवन् । सकल समय धारण करके मैं पंच परमेष्ठियों का परम स्थान प्राप्त करके सिद्ध शिला को प्राप्त करूँ ।

ऐसी कामना से हवन का कार्य करते हुये आत्मोत्थान की भावना बनाये, क्योंकि क्रिया कर्म सब व्यवहार है और व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति हो ऐसी कल्याणकारी भावना जीवन में आवे तो आत्मोत्थान का लक्ष्य पूर्ण करे ।

हवन- एक वैज्ञानिक दृष्टि -

हवन में धूप का प्रयोग वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी सिद्ध होता है । हमारा मुख्य लक्ष्य सिद्ध शिला की प्राप्ति का है अर्थात् औदारिक शरीर से परमौदारिक एवं सूक्ष्म आत्मतत्त्व की प्राप्ति करना । आत्मा पर लिप्त रागद्वेष विषयविकार रूपी कर्मों का प्रक्षालन या कर्म दहन कर कर्ममल दूर करना ।

धूप में प्रयुक्त सुगंधित सामग्री स्थूल रूप में सीमित क्षेत्र को अपनी परिमल से प्रभावित करती है जबकि अग्नि का सान्निध्य पाकर वह स्थूल से सूक्ष्मता को प्राप्त कर अपने चारों ओर के वातावरण को सुगंधित करके कण-कण में व्याप्त हो जाती है । जहाँ तक उसका प्रभाव होता है वायु मण्डल स्वच्छ, पवित्र एवं कीटाणु रहित हो जाता है तथा विचारों को एकाग्र करने एवं विशुद्ध करने में अत्यंत सहयोगी होती है ।

हवन सामग्री में सुगंधित द्रव्य जैसे जावित्री, पाचो चन्दन, नागर मौथा, छबीला, कपूर, शुद्ध घी आदि वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है । जिनमें अधिक मात्रा में एल्काइड्स, एमाइन्स, पिकोनिनिलिक एवं साइक्लिक, टरपिनाइड्स रसायन पदार्थ पाये जाते हैं । हवन सामग्री के जलने से सुगंधित द्रव्य से निकले तैलीय पदार्थ की वाष्प जिसमें मुख्यतः एथिलीन आक्साइड, प्रापिलीन आक्साइड, फार्मल्लिहाइड, फिनायल, एसिटिलीन, बीटा प्रापियो लेक्टोन पाये जाते हैं, जो वायुमण्डल में प्रदूषण फैलाने वाली गैरों एवं अशुभ वर्गणाओं को नष्ट करके वायुमण्डल को विकार रहित करते हैं ।

हवन कुण्ड में अग्नि प्रज्वलित करते ही यज्ञ स्थल की वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे चारों ओर की वायु रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु आती है। हवन पदार्थ की वाष्प उस वायु में उपस्थित जहरीली गैसों को नष्ट करके वातावरण स्वच्छ करती है। इनमें मुख्यतः सल्फर डाई आक्साइड (जिससे कैंसर होता है) नाइट्रस आक्साइड, क्लोरीन, कार्बन मोनो आक्साइड आदि के प्रभाव को कम करने की अद्भुत क्षमता यज्ञ के धुये में होती है।

डॉक्टरों ने परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया है कि यज्ञ से उत्पन्न गैसों में चैचक, रक्तविकार, आंत्ररोग, निमोनिया, हैजा, तपैदिक आदि रोगों के कीटाणुओं को दूर करके पर्यावरण को कीटाणुरहित (स्ट्रलाइज्ड) करने की विशेष क्षमता है।

यज्ञ में मंत्रों के शुद्ध एव सस्वर सामूहिक उच्चारण से मंत्रों के बीजाक्षर एवं हवनकर्ता की श्रद्धा एव भावना से आत्मिक शक्ति का विशेष उद्घाटन होता है। जिससे सम्पूर्ण पर्यावरण के साथ-साथ जीवों की भावना भी प्रभावित होती है।

उसी प्रकार हम अपने स्थूल भावों को भक्ति एव ध्यानाग्नि में जलाकर परिमार्जित करके निर्मलता को प्राप्त करने का भाव जागृत करते हैं। सकल्पित कार्य करके भगवान के चरण सान्निध्य में हवनाग्नि में धूप क्षेपण करके उत्कृष्ट सप्त पदों की सीढिया चढ़ने की भावना भाते हैं, कि हे भगवन्! जैसे इस धूप ने स्वयं को जलाकर वायुमण्डल को सुगन्धित स्वच्छ, पवित्र करते हुये सूक्ष्मता को प्राप्त किया है। मैं भी अपने विकारों (मान, अहकार, रागद्वेष, कषाय आदि) को नष्ट करके प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुये औदारिक से सूक्ष्मता की ओर आरोहण करते-करते आत्म तत्त्व को प्राप्त कर सकूँ।

हवन विधि:-

नवमी शताब्दी में आचार्य जयसेन ने आदिपुराण (महापुराण) में हवन की विधि विधान का विस्तृत उल्लेख किया है।

अंगानां सप्तमा दंगाद् दुस्तरार्णवादपि,
श्लोकैरष्टाभिरुन्नेप्ये प्राप्तं ज्ञानलवं मया । (१)

जो सप्ताह से भी दुस्तर है ऐसे बारह अंगों में सातवें अंग (उपासकाध्ययनांग) से जो कुछ मुझे ज्ञान का अंश प्राप्त हुआ है उसे मैं नीचे लिखे आठ श्लोकों में प्रगट करता हूँ। इन आठ श्लोकों में ५३ क्रियाओं का वर्णन किया है। इस पर्व में इन क्रियाओं के तीन भेद किये हैं।

(१) आचार्य जिनसेन, महापुराण, सर्ग ३८ श्लोक ५४

१. गर्भान्वय क्रिया ।
२. दीक्षान्वय क्रिया ।
३. कर्मन्वय क्रिया ।

श्लोक ५० में आचार्य महाराज ने तीसरे चरण में लिखा 'सदृष्टिभिरनुष्ठेया । सम्यग्दृष्टि पुरुषों को इन क्रियाओं का पालन अवश्य करना चाहिये ।

इन क्रियाओं के विशद विवेचन में हवन का विधान श्लोक ७० से ७३ तक किया गया है ।

हवन केलिये तीन कुण्ड^(१) बनाकर तीनों अग्नियों को स्थापित करना चाहिये ^(२)

- (१) गार्हपत्य अग्नि:- अर्हन्त (तीर्थकर) भगवान के निर्वाण के बाद उनके शरीरावशेष का संस्कार इसी अग्नि से किया जाता है ।
- (२) आहवेनीय अग्नि:- गणधर देवों के निर्वाण के बाद उनके शरीरावशेष का संस्कार इसी अग्नि से किया जाता है ।
- (३) दक्षिणाग्नि:- सामान्य केवलियों के निर्वाण के बाद उनके शरीरावशेष का संस्कार इसी अग्नि से किया जाता है ।

इस प्रकार विशिष्ट पुरुषों का सान्निध्य पाकर यह अग्नियां परम पवित्र एवं पूजनीय हो गई है अतः इन्हीं अग्नियों को मंत्र द्वारा अलग-अलग कुण्डों में स्थापित किया जाता है सामान्य अग्नि को नहीं । पीठकादि मंत्रों द्वारा तीनों अग्नियों में धूप की आहुति करने का विशद विवरण श्लोक १ से ७७ तक किया गया है । इन मंत्रों में पुण्य पुरुषों को नमस्कार करते हुये उनके जैसा बनने की कामना के साथ स्वाहा बोलकर आहुति करते हैं ।

जपकाले नमः शब्दो मंत्रस्यान्ते प्रयोजयेत् ।

होम काले पुनः स्वाहा मंत्रस्यायं सदाक्रमः॥

स्वाहा शब्द की व्याख्या निम्नानुसार है:-

'स्वाहा शान्तिकं मोहकं वा^(३) स्वाहा शब्द, पापनाशक, मंगलकारक तथा आत्मा की आंतरिक शांति को उद्बुद्ध करने वाला है ।

स्वाहा^(४) - स्वाहाकारान्ता तद्रहितमंत्रस्य-

जिसके अन्त में स्वाहाकार है, वह विद्या है । मंत्र स्वाहाकार से रहित होता है ।

(१) आचार्य जयसेन, प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक ३५१-३५२ (२) आचार्य जिनसेन, महापुराण, सर्ग ४० श्लोक ८३, ८४, ८९ (३) मंगल मंत्र णमोकार एक अनुचितन, पृष्ठ ८२ एवं ८६ (४) जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, क्षु. जैनेन्द्रवर्णी, भाग ४ पृष्ठ ५२९

मंत्रशास्त्रानुसार स्वाहा शब्द की विशेषता -

- स् - कर्मों का कर्ता, सब मंत्रों से पूजित, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आवरण का विनाशक, आत्मा सूचक व दर्शक ।
- व- विष को निर्विष करने वाला, कर्मों को शांत करने वाला, विघ्नों का विनाशक एवं निरोधक (स्तंभक) एव सिद्धि का सूचक ।
- ह- शान्ति, पुष्टि एवं मांगलिक कार्यों का उत्पादक साधनासिद्धि सहायक, कर्मनाशक व देवताओं का आकर्षक ।

इस प्रकार प्रत्येक मंत्र का प्रभाव अलग-अलग होता है । जाप मंत्र का संकल्प करके स्वाहा बोलकर वाछित कामना फलीभूत करने का भाव जागृत करके घूप की आहुति देने से नियम से कर्मों का क्षय होता है, विघ्नों का नाश होता है तथा सिद्धि की प्राप्ति होती है ।

एक विशेष बात और चल पडी है कि हवन घर में होना चाहिये जिनालय में नहीं क्योंकि यह धर्म क्रिया नहीं है । किन्तु आचार्य जिनसेन ने कथन किया है -

तत्रार्चनाविधौ चक्रत्रयं छत्रत्रयान्वितम्
जिनार्चामभितः स्थाप्यं समं पुण्याग्निभिस्त्रिभिः ।
त्रयोऽग्नयो ऽर्हद्गणमृच्छेः केवलनिर्वृत्तौ,
ये हुतास्ते प्रणेतव्याः सिद्धार्चा वेद्युपाश्रयाः।^(१)

अरिहंत देव की पूजा के द्वारा मंत्रपूर्वक जो संस्कार किया जाता है उसे आधान क्रिया कहते हैं इस आधान क्रिया में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की दाहिनी ओर तीन चक्र बांयी ओर तीन छत्र और सामने तीन पवित्र अग्नि स्थापित करते हैं । अरिहंत पूजा करने के पश्चात् मंत्रपूर्वक तीनों अग्नियो में आहुति करना चाहिये । अर्थात् जिनालय में हवन कार्य किया जाना चाहिये ।

इस हवन विधि का आचार्य जिनसेन के उत्तरवर्ती किसी भी आचार्य ने विरोध नहीं किया अर्थात् सभी आचार्य उनसे सहमत थे ।

परन्तु आज हम अपनी कल्पना से अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये इसका विरोध करें उचित नहीं हैं । विद्वत्जन इस प्रकरण पर गंभीरता पूर्वक विचार कर निर्णय करें एवं हवन कार्य को पवित्रभावना एवं विवेकपूर्वक करावें ।

(१) आचार्य जिनसेन, महापुराण, सर्ग ३८ श्लोक ७१-७२

पण्डाल निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश

१. मुख्य वेदी चौकोर, पक्की, ठोस होना चाहिये या पात्रो (इन्द्रो)की सख्या के अनुसार बनाई जावे। वेदी की लम्बाई चौड़ाई से १ ५ गुना होना चाहिये उसकी ऊंचाई २ ५ से ३ फुट तक होगी। चारो ओर परिक्रमा करने के लिए स्थान रहेगा।
२. सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मंच अलग बनेगा। वेदी पर किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे।
३. प्रतिमा विराजमान करने हेतु वेदी निर्माण प्रतिमा (प्रतिष्ठा हेतु)की सभावित सख्या के अनुसार बनेगी, मुख्य वेदी के पिछले हिस्से में दो फुट जगह परिक्रमा को छोड़कर तीन कटनी बनेगी, सबसे नीचे की कटनी २ फुट ऊंची १ फुट चौड़ी, दूसरी कटनी १ फुट ऊंची १ फुट चौड़ी, तीसरी कटनी १ फुट ऊंची एव २ फुट चौड़ी बनेगी, इस पर बीच में सिंहासन विमान रखने हेतु १ फुट ऊंचा ३ फुट लम्बा चबूतरा बनेगा जिसपर पूर्व प्रतिष्ठित मूलनायक प्रतिमा विराजमान होगी।
४. प्रतिमा वेदी की निचली कटनी से २ फुट स्थान छोड़कर यागमण्डल की वेदी पक्की डेढ़ फुट ऊंची एव १२ X १२ फुट लम्बी चौड़ी बनेगी।
५. यागमण्डल वेदी तक आधार ठोस (पक्का) बनेगा।
६. प्रतिमावेदी और यागमण्डल वेदी की बायी ओर तीन हवन कुण्ड तीन कटनी वाले बनाये जावेगे। कुण्डो के भीतरी भाग की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई १५" इंच होगी। चौकोर कुण्ड बीच में त्रिकोण कुण्ड ऊपर एव गोल कुण्ड नीचे नक्शे के अनुसार बनेगा।
७. मण्डप के सामने मंगलध्वज का चबूतरा गोल तीन कटनी (१ फुट ऊंची एव चौड़ी) वाला बनेगा बीच में पाइप लगाने का स्थान रहेगा। ध्वज दण्ड की ऊंचाई पाण्डाल से कम से कम १ ५ गुनी अधिकतम दो गुनी होना चाहिये।
८. यज्ञ वेदी के दाहिनी ओर माता का महल एव गर्भगृह १० X ६ फुट का बनेगा।
९. पाण्डुकशिला मुख्य वेदी से उत्तर दिशा में तीन कटनी की कलात्मक चित्रकारी सहित १२ से १५ फुट ऊंची बनाना चाहिये।
१०. मुख्य वेदी के पीछे टीन के कमरे नक्शे के अनुसार बनेगे जिनमें जपगृह, स्टोर, सामग्री बनाने का स्थान, वस्त्र बदलने का स्थान आदि बनेगे।
११. प्रतिष्ठाचार्य, पुजारी एव सगीत वालो का निवास मुख्य पाण्डाल के निकट ही रखा जाना चाहिये।

- १२ लिस्ट के अनुसार सामग्री पुजारी को दिखाकर, स्टोर प्रबंधक को सौंपने की व्यवस्था की जावे ।
- १३ वेदी के उपर तिरपाल लगाकर उसे जल अवरोधक (वाटरप्रूफ) बनायें ।
१४. पण्डाल के चारो ओर केवल ३ द्वार रखें जिससे श्रावकों को पण्डाल में जूते चप्पल लाने से रोका जा सके ।

स्वयं सेवकों की व्यवस्था

१. वेदी की शुद्धि एवं अनुशासन बनाये रखने हेतु १० स्वयंसेवक अन्य शहर के स्थायी रूप से वेदी पर नियुक्त किये जावें उन्हें अन्य कार्य न दिया जावे ।
२. 'वाद्यघोष' की, ध्वजारोहण, जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक एवं निर्वाण कल्याणक के दिन विशेष आवश्यकता पत्रिका में दर्शाये समयानुसार होगी ।
३. जन्मकल्याणक - प्रातः जुलूस, रात्रि पालना हेतु, तपकल्याणक की प्रातः, आहारचर्या के समय, निर्वाण कल्याणक की प्रातः हवन के समय एवं मुनि सघ की चर्या हेतु वरिष्ठ स्वयं सेवक अनिवार्य हैं ।
४. गरजथ हेतु स्वयंसेवको की व्यवस्था पुलिस के सहयोग से, पुलिस और स्वयंसेवक प्रभारी के अनुसार रहेगी ।
५. महिला स्वयंसेवक कमसे कम रखे जावे ।
६. जुलूस एवं गजरथ हेतु पायलट हरे एवं लाल ध्वज सहित होना चाहिये, जिन्हें मार्ग की एवं जुलूस व्यवस्था की पूर्ण जानकारी हो ।

गजरथ व्यवस्था हेतु निर्देश

१. गजरथ परिक्रमा के दिन पण्डाल मे पहुंचने के लिये दो द्वार रखे जावें, बाकी मार्ग वेरीकेट द्वारा पूर्णतः निषेधित किये जावे ।
२. पण्डाल में केवल महिलायें ही रहेगी अतः ठीक ग्यारह बजे से वेरीकेट पर पुलिस एवं वरिष्ठ स्वयं सेवक नियुक्त किये जावें ।
३. मुख्य द्वार १२.३० बजे बंद किया जावे शेष द्वार एक बजे तक खुला रहेगा यह सूचना माइक द्वारा पूर्व में प्रसारित की जावे ।
४. महिलाये एवं आमत्रित अतिथि एक बजे के पूर्व ही प्रवेश पा सकेंगे । इसके पश्चात् नहीं । यह सूचना माइक द्वारा एक दिन पूर्व प्रसारित की जावे ।
५. मुख्य पात्र एवं आमत्रित अतिथियों को पूर्व में ही प्रवेश पास दिये जावें बिना पास किसी पुरुष वर्ग को प्रवेश नही दिया जावे चाहे वह कोई भी पदाधिकारी क्यों न हो ।

६. आमत्रित अतिथियों को बैठने की व्यवस्था अलग से की जावे तथा प्रवेश पास में स्थान की जानकारी अंकित की जावे ।
७. पण्डाल के चारों ओर स्पीकर यूनिट की व्यवस्था की जावे ।
८. दोपहर एक बजे रथ में हाथी बंधकर तैयार होना चाहिये ।
९. रथ के ऊपरी भाग में केवल इन्द्र ही बैठेंगे इन्द्राणी या अन्य महिला पात्र नहीं ।
१०. रथ में प्रतिष्ठा पात्रों की संख्या अधिकतम ५० होगी इससे अधिक पात्र रथ में न बिठाये जावे ।
११. रथ में बैठने वाले इन्द्र इन्द्राणिया 'णमोकार मंत्र' का आराधन करे ।
१२. रथ के आगे एक अन्य हाथी पर मंगल ध्वजा होना अनिवार्य है ।
१३. रथ एवं हाथियों के पास बैण्ड या अन्य स्वयं सेवक नहीं होना चाहिये ।
१४. रथ का संचालन पण्डाल के प्रमुख द्वार से होगा तथा प्रत्येक परिक्रमा के पश्चात् प्रमुख द्वार पर रथ रोककर अर्घ चढाकर पुन रथ आगे बढ़ाये ।
१५. रथ में मुख्य पात्र ही सातों फेरियों में बिठाना चाहिये, समिति की व्यवस्थानुसार रथ में प्रतिष्ठा पात्र बिठाने का कार्य पास द्वारा सुनियोजित करे, उन्हें फेरी के अनुसार पहले से ही एकत्रित करलें एवं जिम्मेवारी व अनुशासन पूर्वक कार्य सम्पन्न करें ।
१६. परिक्रमा में मुनिसंघ के साथ दिव्यघोष (बैण्ड) वाले स्वयंसेवक एवं इन्द्र इन्द्राणिया ही रहेंगे । अन्य स्वयंसेवक या पदाधिकारी नहीं ।
१७. रथ की सात परिक्रमा ही होगी कम या अधिक नहीं ।
१८. मुख्य पण्डाल के पीछे एवं पण्डाल के बाहर चारों ओर पेयजल की व्यवस्था की जावे ।
१९. यदि दर्शक अनुशासित न हो तो पूर्ण व्यवस्था पुलिस को सौंपी जावे ।
२०. पूरी रूपरेखा स्वयंसेवक प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा बनाई जावे ।
२१. हाथी की लीड (मल) उताने हेतु दो कर्मचारी नियुक्त किये जावे ।
२२. पायलट स्वयंसेवकों के पास लाल एवं हरे ध्वज होंगे ।
२३. रथ परिक्रमा का रोड पक्का होना चाहिये, जिससे रथ चलने में सुविधा होगी ।
२४. एक दिन पूर्व रथ को चलाकर देखले उसमें व्यक्तियों को भी बिठायें (यह कार्य रात्रि के समय ट्रेक्टर द्वारा सम्पन्न करे ।)
२५. हाथियों का श्रृंगार एवं झूल आदि की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जावे ।
२६. रोड पर रथ संचालन हेतु चूने की लाइन डालकर स्वयंसेवकों एवं इन्द्राणियों को उसके अनुसार चलने हेतु निर्देशित करे ।

प्रतिष्ठा संबंधी (५० पात्रों हेतु) आवश्यक सामग्री

१५१ श्रीफल (सूखे)	२	मूंगामाला	५०	दुपट्टा
६०१ गोला	५	जवमाला	५०	बनियान
३०० कि.ग्रा चावल	१०	कि.ग्रा. रंगोली (५ रंग की)	५०	अंडरवियर (लंगोट)
२० कि.ग्रा वादाम			२०	गमछ
२ कि.ग्रा सुपारी	५	कि.ग्रा छुहारा	५०	रूमाल
३ कि.ग्रा. लवंग	३	कि.ग्रा. किशमिश	२००	हार
१ कि.ग्रा. इलायची	२	कि.ग्रा काजू	२००	मुकुट
२ कि.ग्रा चिरौजी	१	कि.ग्रा मखाने	२००	माला
५० ग्राम केशर	१००	ग्राम जायफल	२०	गुलदस्ता
५० ग्राम चादी के फूल	२५०	ग्राम मैनफल	५००	ग्राम रेशमधागा
२ चदन मूठा	१००	ग्राम जावित्री	१५	हार सफेद
२५ पचरत्न पुड़िया	५००	ग्राम सप्तधान्य	१५	मुकुट सफेद
२५ चादी स्वास्तिक	१००	ग्राम भोजपत्र	१०	ग्राम पारद
२ चादी स्वास्तिक बड़े	५००	ग्राम पिसी हल्दी	नगदी	रूपया एव चवत्री
१०० यज्ञोपवीत	२५०	ग्राम सर्वोषधि	(७ नग चांदी)	
१ कि.ग्रा पाचोचन्दन	१००	ग्राम अष्टगंध	२५०	ग्राम लोहे की कील
१ कि.ग्रा मागलीक	१००	ग्राम उवटन	(छोटी बड़ी)	
गाठ (हल्दी)	५०	पूजाबर्तन सेट	१०	तांबे की शलाका ४"
३ कि.ग्रा कपूर	१५१	घट यात्रा कलश	१	तसला चादी
१० कि.ग्रा धूप	५	मंगल कलश बड़े	१	फावडा चांदी
२ कि.ग्रा. मौली		चित्रकारी सहित	१	गेंती चांदी
१ कि.ग्रा पीली सरसो	६	मंगल कलश छोटे	१	कन्नी चांदी
१ कि.ग्रा काले उड़द	५	ताम्रकलश (छोटे)	५	शिलाए
२० कि.ग्रा शुद्ध घी	५	ताम्र कटोरी (छोटी)	(स्वर्ण, रजत, कांस्य,	
५ कि.ग्रा. रुई (धुनी)	५०	तरतरी बड़ी	पत्थर, मारवल प्रत्येक),	
१० पैकेट माचिस	४	गुण्डी	१	भद्रासन (चंदन)
१०० आसनी	२	स्टील टंकी	१	षट्कोण शिला
२५ बड़ी आसनी	४	बाल्टी	१	चौकोन शिला
१०० जप माला	५०	धोती	१	गोल शिला

१	अर्धचन्द्रकार शिला	१	शांति यत्र	१	पालकी (चादी)
१	टाकरी	१	जलमण्डल यत्र	२	चांदी छडी
१	हथौड़ी	१	सर्वसम्पत्तिकर यत्र	१	पालना (चादी)
१	हीराकनी	१	निर्वाण यत्र	१	शख, घटा, झालर,
१	पिच्छी	१	गणधर वलय यत्र		तुरही (प्रत्येक १)
१	कमण्डलु	१	चौसठ ऋद्धि यत्र	१	मजूषा काच ,
१	सिल-लोडा	१	नयनोन्मीलन यत्र		१' x १' x १'
४	सिंगडी	१	बोधि समाधि यंत्र	१	केश मजूषा चादी
४	पखा (बास)	१	सुरेन्द्र यत्र	१	अजन डिब्बी चादी
१	गैस भट्टी	१	वर्धमान यत्र	२	कटोरी चादी
५	चिमटा	१	मोक्षमार्ग यत्र	२	स्वर्णशलाका
	कोयला	१	पूजा यत्र	२०	मी० पीला कपडा
५	परात बडी	१	श्रुतरक्ख यत्र	१०	मी० लालतूस
५	टेकनी	१	वृहत्सिद्ध चक्र यत्र	३०	मी० खादी सफेद
२५	कुण्ड	१	आकाशमण्डल यत्र	२०	मी० मलमल
१५०	बडे दीपक (मलिया)		अचल यत्र (प्रतिमानुसार)	५	मी० साटन
१००	छोटे दीपक		कागजदस्ता, कार्बन, पेन,	१	चदोवा १२' x १२'
३	दीपक जाली सहित		पेन्सिल, सेपटी/आलपिन,	३	चदोवा ४' x ४'
४	कलश (मिट्टी)		धागा मोटा एव पतला	५	अछर (वेस्टन)
	चित्रकारी सहित	१	सुई पुड़िया	१	मगलध्वज त्रिकोण
३	प्रतिमामूलनायक	१	कैची, बैज		४ ५' x ९'
	(प्रतिष्ठित)	१	इचीटेप	१२	मण्डपध्वज २' x ३'
१	प्रतिमा विधिनायक	१	परकार	८	यागमण्डल ध्वज
४	मानरस्तभ		(दो नौक वाली)		(१' x १ ५' चौकोर)
१	भामण्डल	१	पाण्डुक शिला	२०	जुलूसध्वज २' x ३'
१	धर्मचक्र		(अभिषेक हेतु)	२०	पचरगीध्वज २' x ३'
३	विमान	१	अष्टमंगल द्रव्य सेट	४	सफेदध्वज १' x २'
२	विनायक यत्र	१	अष्ट प्रातिहार्य सेट	५	कल्याणको केबेनर
२	मातृका यत्र	१०	छत्र		बेनर -
१	नवदेव यत्र	१५	चवर		नगर, बाजार, एव
१	सिद्ध यंत्र	५	सिहासन		द्वार हेतु

१	श्रृंगारदान (पूरे समान सहित)	स्वप्नरील, त्रिपाल, विछयत, लकड़ी के पाटे	स्वयंसेविका प्रबंधक (स्टोर)
१	तेल शीशी	२० तखत	प्रबन्धक (मुनिसंघ)
१	दर्पण बड़ा	२५ चौका	निर्माण कार्य
४	झारी	५० चौकी	यज्ञवेदी
२	पखा सजावट वाले	१० बैच	सांस्कृतिक मंच
२	तलवार (नाटक)	३० टेबिल (पूजा हेतु)	पण्डाल
५००	ग्राम गोटा, रिविन ३-४ रंग	५० कुर्सी	मण्डप
१	प्लास्टिक गुड्डा (बड़ा)	माता का पलग एव बिस्तर शामयाना/कनात, चांदनी रस्सा/रस्सी/सुतली	गर्भगृह/राजमहल मंगल ध्वजा वेदी पाण्डुकशिला
५	फुटबाल प्लास्टिक	प्रकाश	दीक्षावन
१	सीटी	प्रचार व्यवस्था	समवशरण रचना
१	रस्सी सजी हुई	स्पीकर माइक	कैलाशपर्वत, गमले
५०	बच्चों के बड़े खिलौनें	संगीत पार्टी	झाकियां
५	कि ग्रा रत्नवृष्टि हेतु सितारे मोती	बैण्ड पार्टी शहनाई	जपशाला
२००	ग्राम चमकी	हेलीकाप्टर	सामग्रीशाला
५	पैकेट काच कटिंग	घोडा, ऊट	भोजन शाला
२	बन्दनवार सुनहरे कागज सजावट का सामान खाली डिब्बा, दान पेटी, दान थैला	हाथी हौदा सहित पानी टेकर हाथ ठेला मजदूर	सामग्री घोने का स्थान घोती बदलनें का स्थान विद्वान आवास
२	लोहे के सदूक	सफाई कर्मचारी	धूप की सामग्री
२	लकड़ी पेटी बड़ी, तराजू, बाट, स्लेट, पेसिल, गेहूँ, उड़द, हल ।	५०० ईट मिट्टी पुजारी	मलयागिरि, अगर तगर, चन्दन, नागर, मोथा, उसीर, छबीला, वायतूमरी, पांडरी, पत्रज, सुगन्धवाला
	साबुत गन्ना	जपवाले	सप्तधान्य
	डोरी, ध्वजदड	परिचारक	मूग, जवा, उड़द, गेहूँ, ज्वार, चावल, चना
५०	ध्वजा हेतु पाईप	प्रबंधक (विद्वान) पुलिस स्वयं सेवक	

गजरथ हेतु सामग्री	उवटन	सर्वोषधि
१ रथ	पीला सरसो, जायफल,	केशर, कपूर, जायफल,
५० ग्राम सिंदूर	हल्दी, अक्षत, कपूर	जावित्री, कक्कोल, प्रियगु,
५० ग्राम . गुग्गुलु	अष्टगंध	वच, सरसों, मोथा, हल्दी,
२०० ग्राम तिल का तेल	अगर, तगर, मलयागिरि,	लौंग, तुलसीपत्र,
५० ग्राम लोवान	स्तचदन, कपूर, हरताल,	मलयागिरि, देवदारु,
१ ग्राम (मोदक)शुद्ध बांस बल्ली गन्ना, गुड़	हिगुल ।	कटाई, अगरचंदन, तगर चदन, सुगंधवाला, तज, पत्रज, बड़ी इलायची, नागकेशर, कूठ, जटमासी

वस्त्राभरण

- १ भगवान के आभरण- मुकुट, हार, कण्ठी, बाजूबध, करधन, कुण्डल, यज्ञोपवीत सभी सोने के ।
 - २ भगवान के वस्त्र - कुर्त्ता, साफा, पेचा (सभी तीन रंग के लाल, नीला, पीला) गद्दा, रजाई, तकिया लोड़ (२)
 - ३ इन्द्र, कुम्भेर, आदि को पूजा के वस्त्र - सूती धोती, दुपट्टा बनियान सभी केशरिया
 - ४ इन्द्रसभा, राजदरबार के वस्त्र- चूडीदार पायजामा, लम्बा सुन्दर कोट, पगड़ी, मुकुट, हार माला अलगा सभी अच्छे रंग मे ।
 - ५ इन्द्राणी के पूजा के वस्त्र- सूती साडी, ब्लाउज, पेटीकोट चादरा सभी केशरिया
 - ६ राजदरबार एव इन्द्रसभा- बढ़िया साड़ी, आभूषण, हार मुकुट
 - ७ अष्टकुमारी- नीली साड़ी २, लालसाड़ी २, हरीसाड़ी २, केशरिया साड़ी २
 - ८ छप्पन कुमारियां - लंहगा चुनरी या साड़ी अच्छे रंग के
 - ९ नीलांजना २ सेट, गहरे नीले वस्त्र साड़ी ब्लाउज आदि
 - १० लौकतिक देव - सफेद धोती, दुपट्टा बनियान सफेद हार एवं मुकुट
 - ११ प्रतिष्ठाचार्य- धोती दुपट्टा बनियान, अडरवियर, कुर्त्ता, तौलिया रुमाल सब सफेद
 - १२ पुजारी - धोती, दुपट्टा, बनियान
 - १३ गर्भ गृह के वस्त्र- बढ़िया दरी, गद्दा, रजाई, कालीन, बेडसीट एवं पलंग
 - १४ इन्द्र सभा, राजसभा- रेशमीपर्दा ३, राजगद्दी २, बढ़िया कुर्सी ५०, कालीन आदि पूर्ण सज्जासहित
 - १५ भरत बाहुबलि, महामण्डलेश्वर ४ मण्डलेश्वर ४ एव ३२ मुकुटबद्ध राजाओ के वस्त्र सुन्दरतम साधन एव सुविधानुसार
- नोट : पूजा के सभी वस्त्र नये (उपयोग मे लाये हुए नहीं) होना अनिवार्य है ।**

ओं ह्रीं अनंतानंतपरमसिद्धेभ्यो नमः

मंगलाष्टक पाठ

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा ।
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ॥
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका ।
पञ्चैते परमेष्ठिन प्रतिदिन कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ १ ॥

श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र - मुकुटप्रद्योतरत्नप्रभा -
भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनाम्भोधीन्दव स्थायिनः ।^१
ये सर्वे जिन-सिद्ध-सूर्यनुगतास्ते पाठका साधव,
स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ २ ॥

सम्यग्दर्शन - बोध - वृत्तममल रत्नत्रयं पावन,
मुक्तिश्री-नगराधिनाथ - जिनपत्युक्तोऽपवर्गप्रद ।
धर्म सूक्तिसुधा च चैत्यमखिल चैत्यालय श्र्यालय,
प्रोक्त च त्रिविध चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ३ ॥

नाभेयादि - जिना प्रशस्तवदना^(२) ख्याताश्चतुर्विंशति
श्रीमन्तो भरतेश्वर-प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ।
ये विष्णु - प्रतिविष्णु - लागलधरा सप्तोत्तराविंशति-
स्त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ४ ॥

ये सर्वौषधिर्द्धय सुतपसो वृद्धिगताः पञ्च ये,
ये चाष्टागमहानिमित्त^(३) कुशलाश्चाष्टौ वियच्चारिणः ।
पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिर्द्धीश्वरा,
सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ५ ॥

पाठान्तर (१) धाववरथायिन. (२) जिनाधिपारिभुवन
(३) कुशलायेऽष्टाविधाश्चारणा

ज्योतिर्व्यतरभावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिताः,
जम्बूशाल्मलिवैत्यशाखिषु तथा वक्षारं-रूप्याद्रिषु ।
इष्याकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे,
शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहाः कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ६ ॥

कैलासो वृषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरी,
चम्पावा वसुपूज्यसज्जिनपतेः सम्मेदशैलोऽर्हताम् ।
शेषाणामपि चोर्जयन्तशिरवरीनेमीश्वरस्यार्हतो,
निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ७ ॥

सर्पो हारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते,
सम्पद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः ।
देवायान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहे,
धर्मादेव नभोऽपि वर्षतितरां कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ८ ॥

यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो,
यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाक् ।
यः कैवल्यपुर-प्रवेशमहिमा सम्पादितः स्वर्गिभिः,
कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मंगलम् ॥ ९ ॥

इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसंपत्करम्
कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणांमुखात् ।
ये श्रुण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता,
लक्ष्मीराघ्नियते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥ १० ॥

मंगलपञ्चक

गुणरत्नभूषा विगतदूषाः सौम्यभावनिशाकराः
सद्बोधभानुविभाविभासितदिक्चया विदुषा वराः ।
निःसीमसौख्यसमूहमण्डितयोगखण्डितरतिवराः
कुर्वन्तु मंगलमत्र ते अर्हन्तजिनपरमेश्वरा ॥१॥

सद्ध्यानतीक्ष्णवृत्माणघाराः निहतकर्मकदम्बका
देवेन्द्रवृन्दनरेन्द्रवद्याः प्राप्तसुखनिकुम्बका ।
योगीन्द्रयोगनिरूपणीयाः प्राप्तबोधकलापकाः
कुर्वन्तु मंगलमत्र ते सिद्धाः सदासुखदायकाः ॥२॥

आचारपञ्चकचरणचारणचञ्चव समताधरा
नानातपोभरहेतिहापितकर्मकाः सुखिताकराः ।
गुप्तित्रयीपरिशीलनादिविभूषिता वदता वराः
कुर्वन्तु मंगलमत्र ते श्रीसूरयोऽर्जितशम्भराः ॥३॥

द्रव्यार्थभेदविभिन्नश्रुतभरपूर्णतत्त्वनिभालिनी
दुर्योगयोगनिरोधदक्षाः सकलवरगुणजालिनः
कर्तव्यदेशनतत्परा विज्ञानगौरवशालिनः
कुर्वन्तु मंगलमत्र ते गुरुदेवदीधितिमालिनः ॥४॥

संयमसमित्यावश्यकपरिहाणिगुप्तिविभूषिता
पञ्चाक्षदान्तिसमुद्यताः समतासुधापरिभूषिताः
भूपृष्ठविष्टरशायिनो विविधर्द्धिवृन्दविभूषिताः
कुर्वन्तु मंगलमत्र ते मुनयः सदा शमभूषिताः ॥५॥

स्वस्ति मंगलपाठ

श्रीपंचकल्याणमहार्हणार्हा वागात्मभाग्यातिशयैरुपेताः ।
 तीर्थकराः केवलिनश्च शेषाः स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ॥१॥
 ते शुद्धमूलोत्तरसद्गुणानामाधारभावादनगारसज्ञाः ।
 निर्ग्रथवर्या निरवद्यचर्या स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ॥२॥
 ये चाणिमाद्यष्टसुविक्रियाद्यास्तथाऽक्षयावासमहानसाश्च ।
 राजर्षयस्ते सुरराजपूज्याः स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ॥३॥
 ये कोष्ठबुध्यादिचतुर्विधर्द्धीरवापुरामर्शमुखौषधर्द्धीः ।
 ब्रह्मर्षयो ब्रह्मणि तत्परास्ते स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ॥४॥
 जलादिनानाविधचारणा ये ये चारणाग्यावरचारणाश्च ।
 देवर्षयस्ते नतदेववृन्दाः स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ॥५॥
 सालोकलोकोज्ज्वलनैकतान प्राप्ता परं ज्योतिरनतबोधं ।
 सर्वर्षिवद्याः परमर्षयस्ते स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ॥६॥
 श्रेणीद्वयारोहणसावधानाः कर्मोपशान्तिक्षपणप्रवीणाः ।
 ये ते समस्ताः यतयो महान्तः स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ॥७॥
 समग्रमध्यक्षमिताक्षदेशप्रत्यक्षमत्यक्षसुखानुरक्ताः ।
 मुनीश्वरास्ते जगदेकमान्याः स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ॥८॥
 उग्रं च दीप्तं च तपोभित्तमहच्च घोरं च तरां चरन्तः ।
 तपोधना निर्वृत्तिसाधनोक्ताः स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ॥९॥
 मनो वच कायबलप्रकृष्टाः स्पष्टीकृताष्टांगमहानिमिताः ।
 क्षीरामृतास्त्राविमुखा मुनीन्द्राः स्वस्तिक्रियां नो भृशमावहन्तु ॥१०॥
 प्रत्येकबुद्धप्रमुखा मुनीन्द्राः शेषाश्च ये ये विविधर्द्धियुक्ताः ।
 सर्वेऽपि ते सर्वजनीनयुक्ताः स्वस्तिक्रिया नो भृशमावहन्तु ॥११॥
 शापानुग्रहशक्तताद्यतिशयै रुच्चावचैरचिता ।
 ये सर्वे परमर्षयो भगवतां तेषा गुणस्तोत्रतः ।
 एतत्स्वस्त्ययनादपैति सकलः सक्लेशभावः शुभो ।
 भावस्यात्सुकृतां च तच्छुभविधेरादाविद श्रेयसे ॥१२॥

स्वस्ति मंगल पाठ वेदी प्रतिष्ठा मे भी पढे ।

शान्त्यष्टक पाठ (हिन्दी)

दोहा

वन्दो श्री अरहत को वन्दो सिद्ध महान ।
आचारज उवझाय मुनि वन्दो करके ध्यान ॥१॥

पद्धडी

जय वीतराग सर्वज्ञदेव, तुम ही अघहर्ता पूज्यदेव ।
तुम ही मंगलकर्ता सुदेव, तुम ही शरणा सुख हेतु देव ॥२॥

तुम अक्ष जीत तुम काम जीत, तुम राग जीत तुम द्वेष जीत ।
तुम मान जीत तुम लोभ जीत, तुम मोह जीत तुम करम जीत ॥३॥

तुम जगतध्येय तुम सत्य ध्यान, तुम ही गुण निर्मल के निधान ।
तुम समदर्शी समता अधीश, भवि भक्ति करे निजनाय शीश ॥४॥

तुम ही जगपावन हो उदार, तुम ही दाता निज ज्ञान धार ।
तुम ही भव भ्रमण विनाशकार, तुम ही भवदधि से पारकार ॥५॥

तुम नहि प्रसन्न तुम नहि उदास, तो भी भक्तन की पूर्ण आश ।
यह महिमा कैसे कही जाय, तुम ध्यान गम्य योगी सहाय ॥६॥

वन्दें तुम पद हम बार बार, यह कार्य होय निर्विघ्न पार ।
यह बिम्ब-प्रतिष्ठा अति महान, उमगे हम तुम्हरी शरण आन ॥७॥

यह कार्य होय सुख शांतिकार, होवे मंगल दिन दिन अपार ।
राजा परजा सब सुखी होय, जिन घरमतनों उद्योत होय ॥८॥

हम ज्ञानहीन विधितें अजान, तुव भक्ति करे हिय गुण पिछन ।
जो भूले चूके क्षम्यनाथ, विनती करते हम जोड़ हाथ ॥९॥

गृहस्थ के कर्तव्यों में जिनबिम्ब प्रतिष्ठा का महत्व^(१)

काले गृहस्था विकला गृहादिकार्येष्वनुष्ठानमुपाचरन्ति,
 अल्पावबोधद्रविणप्रभावान्न धर्मकार्ये बहुधा यतन्ते ।
 प्राप्यापि केचिद्विभवं तदीयसंरक्षणोपार्जनदत्तचित्ताः,
 स्वायुः समाप्तिं किल तैलभावाभावाद्यथादीपगणा लभन्ते ॥
 ये नश्वरं वैभवमाकलय्य क्षेत्रेषु सप्तस्वतिवापयन्ति,
 तैर्लब्धमीशत्वफलं मनुष्यभवस्य सारं सुगृहीतुकामैः ।
 येनार्थसंपत्तिमता जिनेन्द्रबिम्बं प्रतिष्ठापितमात्मकृत्तैः,
 तेनाधिकल्पं यशसापि पुण्यप्रभूतिना व्याप्तमशेषविश्वम् ॥
 बदरीफलमात्रबिंबतो हृदये पूर्वमनाप्तमाप्यते,
 भवकोटिसमुत्थमेनसां निचयं स्फोट दमेयदर्शनम् ।
 तीर्थादौ भरतेश्वरेण भगवत्सन्देशनालब्धितो,
 गार्हस्थ्ये रसखंडमंडलघनैरष्टापदे निर्मितः ॥
 चैत्यानां निवहस्तु तत्र जिनराड्बिंबानि संस्थापिता,
 न्येवं भूतभविष्यदैहिककलां पूज्येश्वराणां पृथक् ।
 तीर्थेऽजितेशः सगरादिभिस्तथा कृत्वा प्रतिष्ठा जिनसद्मनां शुभा,
 अनादिसंतानभवा स्वरूपसत्प्रतिक्रियालम्भनभावतः स्मृता ॥
 साक्षाच्चिदानंदघनाभिरामे या देवबुद्धिः किल तत्स्वरूपं,
 दृष्ट्वा तदीयस्मरणं न किं स्यादेवं तयोर्वै चिदचित्प्रभेदः ।
 धन्याः पूर्वजनुः प्रवाहमहितोत्साहा धराभूषणा -
 मानौनत्यदयादमादिगुणिनः पुण्यानुबन्धोदयाः ॥
 भोक्तागरः कमलाचलार्थवनिताभोगस्य मत्पुत्रताः,
 शक्तास्ते हि जिनेन्द्रबिंब भवनानुष्ठापने नेतरे ।
 युतिरयुतिरिति स्याद्धिप्रकारोपदेशाद्,
 विकल-सकल धर्माध्यासतो मोक्षमार्गे ॥
 तदिह मुनिवराणां वीतरागत्वभाव -
 स्तदितरभविकानां दत्तिरिज्या प्रधाना ।
 अतो महाभाग्यवतां धनसार्थक्यहेतवे ।
 नान्योपायो गृहस्थानां चैत्यचैत्यालयाद्विना ॥
 ॥ इति जिनबिंबचैत्यालयप्रतिष्ठामहत्त्वम् ॥

प्रतिष्ठा में आवश्यक पात्र (१)

आचार्यो मघवा कर्ता तत्पत्नी पूजकस्तथा,
पञ्चैते यज्ञनेतारो मुख्या व्रतसमन्विता ।
सामग्री सम्पत्तिकरा मन्त्रिणोऽध्यापका बुधा,
श्री ह्यादिकन्यका लौकातिककल्पा अपि स्मृता ॥

प्रतिष्ठालक्षण (२)

प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा च स्थापनं तत्प्रतिक्रिया ।
तत्समानात्मबुद्धित्वात्तदभेद स्तवादिषु ॥
यत्रारोपात् पञ्चकल्याणमत्रैः सर्वज्ञत्वस्थापन तद्विधानैः ।
तत्कर्मानुष्ठापने स्थापनोक्तनिक्षेपेण प्राप्यते तत्तथैव ॥
नामक्षेपात्स्थापनागप्रधानात् भावारोपाद् भव्यवृन्दैकमान्यात् ।
पूजास्तोत्र सत्त्वबुद्ध्या कृत्वा वै पुण्यं सूते किं न नानाप्रकारम् ॥
सदृष्ट्वा प्रतिमानमात्मविलसद्भावेषु सकल्पना ।
निर्बाधेति गुणैः सुशीलगणने चित्रामकामृत्स्त्रिया ॥
संगं चित्तविमर्षणान्नियमतो ज्ञात्वा तु सत्यज्यते ।
सुज्ञानैस्तदनेकनीतिनिपुणैः सस्थापना श्लाघ्यते ॥
नो चेदत्र कलौ चराचरगुरुर्नो वा मनः पर्यय -
ज्ञानी वावधिलोचनो मुनिवरस्तत्सस्मृते कारणम् ॥
तत्तर्हि स्मरणस्वभावशुचिताध्यानस्तुते सभवात् ।
सम्यग्दर्शनहेतुरेव गदिता सस्थापनाधीश्वरी ॥

प्रतिष्ठा कारक के लक्षण (३)

आत्मसपत्तिद्रव्येण व्यय कृत्वा महोत्सुक ।
यः करोति प्रतिष्ठा च स प्रतिष्ठापको मतः ॥
निषादनाडिघममुडिचिडीपरीष्टिपाटच्चरदारपण्यम् ।
द्यूतव्यवस्योपजनस्थसीधुकृषीबलाद्यर्जनमत्र वर्ज्यम् ॥
परोपदानी किल सघपिजो भूपार्थिनिर्माल्यधनप्रहर्ता ।
न शस्यते क्वापि महोपयोग कर्तुं जनस्तद् धृतहेमभोक्ता ॥

(१) आ. ज. से, प्र. प्रा. श्लोक ५२ (२) वही, श्लोक ६४ से ६८

(३) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक ७४ से ७९

न्यायोपजीवी गुरुभक्तिधारी कुत्सादिहीनो विनयप्रपन्नः ।
 विप्रस्तथाक्षत्रिय वैश्यवर्गो व्रतक्रियावंदनशीलपात्रः ॥
 श्रद्धालुदातृत्वमहेच्छुभावो ज्ञाता श्रुतार्थस्य कषायहीनः ।
 कलंकपंकोन्मदतापवाद कुकर्मदूरोऽर्हदुदारबुद्धिः ॥
 यज्त्वा तु याजको यष्टा पूजको यजमानभाक् ।
 षट्कर्मा यागकृत् संघीत्यादिनाम्ना प्रयुज्यते ॥

प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण (१)

अनूचानः श्रोत्रियश्च प्रतिष्ठाचार्य आश्रयः ।
 समावृत्तः प्राङ्विवाकः समाचार्यादिनामयुक् ॥
 स्याद्वादधुर्योऽक्षरदोषवेत्ता निरालसो रोगविहीनदेहः ।
 प्रायः प्रकर्ता दमदानशीलो जितेन्द्रियो देवगुरुप्रमाणः ॥
 शास्त्रार्थसंपत्तिविदीर्णवादो धर्मोपदेशप्रणयः क्षमावान् ।
 राजादिमान्यो नययोगभाजी तपोव्रतानुष्ठितपूतदेहः ॥
 पूर्वं निमित्ताद्यनुमापकोऽर्थसंदेहहारी यजनैकचित्तः ।
 सद्ब्राह्मणो ब्रह्मविदां पटिष्ठो जिनैकधर्मा गुरुदत्तमंत्रः ॥
 भुक्त्वा हविष्यान्नमरात्रिभोजी निद्रां विजेतुं विहितोद्यमश्च ।
 गतस्पृहो भक्तिपरात्मदुःखप्रहाणये सिद्धमनुर्विधिज्ञः ॥
 कुलक्रमाप्तसुविद्यया यः प्राप्तोपसर्ग परिहर्तुमीशः ।
 सोऽयं प्रतिष्ठाविधिषु प्रयोक्ता श्लाघ्योऽन्यथा दोषवती प्रतिष्ठा ॥
 शास्त्रानभिज्ञं कुलवावदूकं लोभानलप्लुष्टमशांतशीलम् ।
 परंपराशून्यमपार्थसार्य दूरात्यजंतु प्रणिधाननिष्ठाः ॥
 प्रयोक्तृवाक्यं न हि मन्यमानो लोभादिसंचारकृत्तापमानः ।
 प्राप्नोत्यनर्थं गुरुवाग्विरुद्ध इहान्यतः श्वभ्रमदभ्रदुःखम् ॥

सामग्री व्यवस्था (२)

पूजा के लिए जल, चंदनादि अष्ट द्रव्य निर्मल एवं प्रासुक लेना चाहिए । स्थल, वेदी, मण्डप, पात्र एवं यस्त्र आदि नवीन हों ।

वासांसि शुद्धानि सितानि धौतान्युद्भूतमात्राणि दशायुतानि ।
 संधारयेत्पूजनकृत् प्रसन्नं चेतो यतः स्याद्बहुमूल्यकानि ॥

पात्राणि वेदीस्थलतोरणानि सर्वाण्यनेकान्युपकारणानि ।
 नव्यानि चित्ताक्षिहराणि यज्ञे जीर्णत्वदुष्टत्वविधाच्युतानि ॥
 सामग्रीयोजने शाठ्य कार्पण्य योगवचनम् ।
 न कदाचिन्मनस्वीति कुर्यात्स्वहितकामुक ॥

प्रतिष्ठाफल (१)

संबंधो ह्यभिधेयसधिविषयाशक्यत्वकृत्यात्मता -
 माचार्या प्रथमं विचार्य करणे ग्रन्थस्य तत्रोद्यमम् ॥
 कुर्वतीह ममापि तन्मुनिवरानूनानुक पालनात् ।
 सिद्ध तत्फलवर्णना खलु फलोद्देशे तथाऽऽवश्यकी ॥
 ये कुर्वन्ति जिनेन्द्रबिबमनघ सत्पचकल्याणका -
 रोपात्सुस्थितमत्र पुण्ययशसा वृद्धि सुमार्गावनम् ॥
 तेषां मार्गविवृद्धिकारकतया पुण्यानुबधोदयात् ।
 यावच्चन्द्रदिवाकरं दृशिवृक्ता सद्दृष्टिलाभ परम् ॥
 भ्रश्यत्पातककर्ममर्मनिगलात् स्वानदथुप्रीणन -
 मतातीतगुणार्णव मनसिजोद्रेकव्यतीतरस्पृहम् ॥
 शात बिबमपेक्षित स्मृतमपि प्रत्यूहनिर्णाशन ।
 मान्य तत्सति चित्रमाश्रय इव स्यात्तत्प्रतिष्ठापने ॥
 कल्याणपंचकविधि स्वयमात्मसत्त्वकर्तव्यता नियतकर्मवशाज्जनेन ।
 तेनेह जन्मसफलत्वमित प्रकर्षादुद्भूतिशक्रपदवी नियत गृहीता ॥
 द्रव्यं वपु स्थिरतर नहि जातु कस्य राज्य मनोज्ञसुरचक्रिनरेद्रतादि ।
 तस्मादखड्गभवकोटि समुद्धरैक स्थाप्य जिनेन्द्रभवनप्रतिमानमुच्चै ॥
 कल्पे सुराणा भवनेऽसुराणां ज्योति कृता व्यतरसन्निकाये ।
 असंख्यपुण्योदयसेतुहेतु जिनेन्द्रबिब यदनादिकालम् ॥
 भाव्यभावकसबधो विषया पुण्यहेतव ।
 स्वर्गमोक्षसुख तत्र फल शक्यप्रतिक्रियम् ॥
 समस्तकार्ये प्रथम विचार्यानुष्ठानमेव विदधातु कर्ता ।
 यश प्रवृत्ति सुवृत्तोपपत्तिरनर्गलास्यात्कृतिकर्मकर्तु ॥


(१) आ न से, प्र प्रा श्लोक १०४ से ११२

मन्दिर निर्माण विधि (१)

शुद्धे प्रदेशे नगरेऽप्यटव्या नदीसमीपे शुचितीर्थभूम्याम् ।
 विस्तीर्णश्रृगोन्नतकेतुमाला विराजित जैनगृह प्रशस्तम् ॥
 शुद्धे मुहूर्ते किल वास्तुशान्ति विधाय सीमानमकालदोषम् ।
 खनेत्सुवर्णोद्घृतयत्रपीठ निवेश्य तद्द्वारसमीपवर्ति ॥
 स्थान परीक्षा च दिशा च साधन वस्त्वर्चनं मडललेखनार्चने ।
 ग्रावानिवेशो भुवनस्य लक्षण शैलानयश्चेति तदष्टधा मतम् ॥
 जलाशयारामसमग्रशोभा वल्मीकजतुप्रविचारवर्ज्या ।
 कीलास्थिदग्धाश्मविवर्जिताभूरत्र प्रशस्या जिनवेश्मयोग्या ॥
 तत्राध्वर गर्तमध खनित्वा तद्दोषवर्ज्य यदि तेन पांशुना ।
 प्रपूरयेन्न्यूनसमाधिकेषु भग सम लाभ इति प्रशस्यते ॥
 सीम्नि प्रखाते प्रथम शुभेऽहनि घृतोद्भव दीपमुपांशुमंत्रैः ।
 सयोज्य ताम्रे कलशे पिधाय न्यसेत् सयत्रं कनक तदूर्व्याम् ॥
 व्यपोहन नो लभते प्रदीपस्तथाद्वषद्भि खनितोर्ध्वकुड्ये ।
 नयेद् ब्रतारभनिवेदनादिकर्ता विदध्याज्जनसाक्षियुक्तम् ॥
 तत्स्थानवासान्निखिलान्सुरादीन् सतोष्य पवेशसुमडलेन ।
 पूजां विधायेतरदीनजतून् सन्मानयेत्कारुणिको महात्मा ॥
 चैत्रादिमासे विषुव प्रसाध्य दिग्मूढतापोहनपूर्वमत्र ।
 मुख तु शक्रोत्तरपश्चिमासु कुर्याज्जिनेशालयकस्य मुख्यम् ॥
 तत्क्षेत्र पचविशत्यवधिपरिमित सविभज्यात्र मध्ये ।
 निध्यंशे मध्यकोष्ठे जिनपतिनिलय पार्श्वयो सिद्धपाठ्यौ ॥
 आचार्यश्चोर्ध्वभागे तदितरगृहयोरगमो धर्मतीर्थ -
 मग्रे साधुर्विधानालयजनपरिष्कारगेहं निवेश्यम् ॥
 पूर्वोत्तरं दक्षिणमस्य कार्य द्वार तथा पूर्वदिशासु नृत्य -
 गीतालय चोत्तरमर्थशास्त्रसद्वाचनागेहमतः प्रशस्तम् ॥
 पाश्चात्यभागे द्रविणालयादिविद्यालयं दक्षदिशिप्रदक्षिणा ।
 जिनालयादे परितोऽत्र कार्या प्राचीनयत्रोपमसंनिवेशतः ॥

त्रिद्वार हृदये जिनेन्द्रनिलये चाष्टोत्तर सच्छत ।
 बिबाना विनिवेशन तदभित प्रादक्षणीयक्रम ॥
 अग्रे प्रेक्षणगेहमास्थितिगृह माहेन्द्रनामादिक ।
 स्वच्छा पुष्करणीत्यकृत्रिमजिनेशावासरूपाकृति ॥
 पूर्वोत्तरं चोत्तरदिग्मुख वा पार्श्वे सभाया श्रुतसंनिवेश ।
 मध्ये चतुष्कं सुविधानकारि तत्पूर्वमग्रे जिनसस्थिति स्यात् ॥
 पृथक् कपाटादिघृतावकाशावेदी त्रिश्रृगा त्रिककटिनीका ।
 ऊर्ध्व महद्वृत्तशिरस्कदेशे, छत्रोपम केतुसुकिकिणीकम् ॥
 तदूर्ध्वदेशे शिखराकृतिस्थे जिनेन्द्रबिबादिलसत्सुशोभ ।
 प्रदक्षिणा तत्परितो विधेया यथा सुशोभ गृहकल्पनादि ॥
 द्वित्रिक्षण वाऽपि चतुक्षणादिश्रृगोन्नत केतुपरीतभाल ।
 वास्तुत्पथ कर्तुरनर्थयोगस्तस्माद्विधेय किल वास्तुपूर्व ॥

मंदिर का नक्शा



भूमि परीक्षा .

जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण करना हो, वहाँ दूब आदि उगती हो, उसमें नीचे मुर्दा हड्डी आदि अपवित्र वस्तुएं न हों, जहाँ आसपास विघ्नकारक, मांसाहारी, मद्यपायी, निघ्न मनुष्यो का निवास न हो, जहाँ विशेष कोलाहल न हो, धर्म साधन में विघ्न न आवें ऐसे ही शुद्ध स्थान में, नगर में, वन में, पवित्र नदी के समीप में या तीर्थ - भूमि में, विस्तारयुक्त जिन भवन बनाना चाहिए । जो शिखरयुक्त हो, कलश, ध्वजा सहित हो, ऐसा जिन मंदिर आगम में शुभ माना है ।

- (१) जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण करना हो वहाँ एक हाथ लम्बा-चौड़ा एवं गहरा गड्ढा मध्यभाग में खुदवाना चाहिए । उसमें से निकली मिट्टी को उसमें ही भरना । यदि मिट्टी बच जाय तो वह भूमि उत्तम जानना, मिट्टी बराबर रहे तो मध्यम और यदि गड्ढा खाली रहे तो जघन्य जानना यह अशुभ है ।
- (२) एक हाथ गहरे, लम्बे, चौड़े उस गड्ढे में पानी भर दें फिर सौ कदम चलकर गड्ढा देखना यदि एक अंगुल पानी कम हुआ हो तो उत्तम, यदि दो अंगुल पानी कम हो गया तो मध्यम, और तीन अंगुल पानी कम हो गया हो तो जघन्य जानना यह अशुभ है । वह भूमि मंदिर निर्माण योग्य नहीं है ।
- (३) मंदिर - निर्माण स्थल पर कनात या चटाइयों द्वारा घेरा लगाकर हवा को रोक लें, अथवा फूस की आठ हाथ लम्बी चौड़ी और पाँच हाथ ऊंची झोपड़ी बनवा लेना चाहिए एवं रक्षा मंत्र पढकर चारो दिशाओं में चार कच्चे घड़े रखें तथा उन पर चार दीपक घी भरकर रखे । दीपकों में पूर्व दिशा में सफेद, दक्षिण में लाल, पश्चिम में पीली, उत्तर में काली बत्ती डालकर जला दें । वहाँ दो पुरुष अनादि सिद्ध मंत्र (णमोकार मंत्र) का जाप करते हुए रात्रि जागरण करें । दीपक पर विशेष ध्यान रखे । यदि पहले सफेद या पीली बत्ती वाला दीपक बुझ जाय तो मंदिर अल्पकाल रहेगा । यदि पहले लाल व काली बत्ती वाला दीपक बुझ जाय तो शुभ है । इस प्रकार भूमि - परीक्षा करके मंदिर निर्माण योग्य स्थान का विचार करना ।

मंदिर - निर्माण मुहूर्त (१)

कालनागमावर्ज्यमानयेत् भूपसीमघरपार्श्वकान्मुदा ।

ज्योतिरर्थपरिपूर्णकारुषैः संनियोज्य खनिमुत्तमां क्रियात् ॥

मीनमेषवृषराश्यवस्थिते ग्रीष्मभासिशिवदिग्यमाननम् ।

युग्मकेशरिक्लीरगेऽनिले कन्यकालितुलगेऽश्रये भवेत् ॥

(१) आ. ज. से, प्र. पा. पृष्ठ ३७ श्लोक १४२ से १४८

कार्मुके च मकरे घटे रवावग्निदिश्युपगतं विदुर्बुधाः ।
 निश्चयेन तदपारस्य पृष्ठतः संखनेत्रयविशारदो जनः ॥
 अधोमुखैर्भेविर्दधीत खातं शिलारस्तथैवोर्ध्वमुखैश्च पट्टम् ।
 तिर्यग्मुखैर्द्वारकपाटदानं गृहप्रवेशो मृदुभिर्ध्रुवर्क्षैः ॥
 मार्गादिषु विचैत्रेषु मासेषूत्तरसंक्रमे ।
 व्यतीपातादियोगेन शुभेऽह्नि प्रारभेत तत् ॥
 पुष्योत्तरान्त्रयमृगश्रवणाश्विनीषु चित्राकया हि वसुपाशिविशाखिकासु ।
 आर्द्रापुनर्वसुकरेष्वपि भेषु शस्तं जीवज्ञशुक्रदिवसेषु जिनेषु सद्म ॥
 जीवेन चंद्रहरिसर्पजलध्रुवाणि पुष्यं प्रशस्तमथ तक्षवसुद्विनाथाः ।
 इन्द्रार्द्रिका शतपदाश्च सुभार्गवेन वाहोत्तराकरकदाश्च बुधेन योगात् ॥

राहु विचार^(१)

मीन, मेष, वृष का सूर्य हो तो राहुमुख ईशान कोण में होता है
 मिथुन, कर्क, सिंह का सूर्य हो तो राहुमुखवायव्य कोण में होता है
 कन्या, तुला, वृश्चिक का सूर्य हो तो राहुमुख नैऋत्य कोण में होता है
 धनु, मकर, कुम्भ का सूर्य हो तो राहुमुख आग्नेय कोण में होता है

अतः क्रिया में प्रवीण पुरुष राहुमुख को छोड़ पृष्ठ भाग अर्थात् पीछेभाग में नीव का खनन करे । भूमि को सुप्त नक्षत्रों में न खोदे ।

नक्षत्र विचार^(२)

- (१) बुधवार को मूल, अश्लेषा, विशाखा, मंगलवार को तीनों पूर्वा, मघा, भरणी यह अधोमुखसंज्ञक नक्षत्र है, इनमें नीव का खनन करना ।
 (२) रविवार को आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, तीनों उत्तरा, रोहणी यह उर्ध्वमुखसंज्ञक नक्षत्र है इनमें शिलारस्थापन करना छूट नहीं डालना ।
 (३) अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अश्विनी ये तिर्यग्मुखसंज्ञक नक्षत्र हैं इनमें द्वार के कपाट लगाना श्रेष्ठ है ।
 (४) रविवार को तीनों उत्तरा, रोहणी, ये ध्रुवसंज्ञक^३ नक्षत्र हैं इनमें गृहप्रवेश करना जिन बिम्ब स्थापन करना श्रेष्ठ है अभिषेक, शांतिधारा, वृक्षारोपण, आदि नगर भ्रमण धर्म क्रियाये स्थिर कार्य करे ।
 (५) मार्गादिषु विचैत्रेषु मासेषूत्तरसंक्रमे व्यतीपातादियोगेन शुभेऽह्नि प्रारभेत् तत् ।^(४)

(१) आचार्य जयसेन प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक १४३/१४४ (२) आचार्य जयसेन प्रतिष्ठा पाठ, श्लोक १४५ (३) वराहमिहिर बृहत्संहिता पृष्ठ ५७२ श्लोक ६ (४) आ. ज. से, प्र. पा श्लोक १४६

शुक्रवार को मृगसिर, रेवती, अनुराधा ये मृदुसंज्ञक नक्षत्र है इनमें गृहप्रवेश, बिम्ब स्थापन, यात्रा, गायन आदि करना श्रेष्ठ है। चैत्र बिना मार्गशीर्ष, आदि महीना, उत्तरायण सूर्य मे व्यतीपातादि योग रहित शुभ दिन में जिनालय प्रारंभ करें।
(६) पुष्य, तीनो उत्तरा, मृगसिर, श्रवण, अश्विनी, चित्रा, पुनर्वसु, विशाखा, आर्द्रा, हस्त इनमे गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार मे जिनमदिर प्रारंभ करना योग्य है।

गुरुवार मे मृगसिर, अनुराधा, अश्लेषा, पूर्वाषाढ ये ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र प्रशस्त है। और पुष्य भी प्रशस्त है। चित्रा, धनिष्ठा, विशाखा, अश्विनी, आर्द्रा, शतभिषा ये शुक्रवार मे श्रेष्ठ हैं। अश्विनी, उत्तरा, हस्त, रोहणी बुधवार मे श्रेष्ठ है।

लग्नशुद्धिविचार (१)

मीनस्थे तनुगे क्वावपि चतुर्थे कर्कगे गीष्पतौ
रुद्रस्थे तुलगे शनावथ बलाधिव्ये सुतारायुजि ।
लग्नायां वरगेषु शुक्रतपनज्ञेष्टामरे केंद्रगे ।
षष्ठेऽर्के विदि सप्तमोऽग्निषु शनौ शस्तो जिनेन्द्रालयः ॥

मीन लग्न मे शुक्र हो अथवा चौथ हो, कर्क का बृहस्पति हो, और ग्यारहवे तुला का शनि हो, अधिक बलशाली और सुदर तारा का योग हो और लग्न, और ग्यारहवें और दशमे शुक्र, सूर्य, बृहस्पति हो अथवा केन्द्र मे बृहस्पति हो और छठे सूर्य हो व सात मे बुध हो, त्रिकोण मे शनि हो तो इनमे से एक भी योग होने पर जिनेन्द्रालय प्रशस्त कहा गया है।

द्वारचक्र विचार^(२)

सूर्याधिष्ठितमात् चतुर्भिरुपरिस्थैरष्टाभिः कोणगै -
स्तरमादग्रिमभाष्टभिस्तत इतैर्भैर्वन्धिसंख्यैरलम् ॥
देहल्यामथ तत्पुरःस्थितचतुर्भिःकृत्ते चक्रके -
लक्ष्मीप्राप्तिरमानवं सुखकरं मृत्युः शिवं च क्रमात् ॥

सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनना और फल इस प्रकार जानना ४ नक्षत्र ऊपर लक्ष्मी प्राप्ति, ८ नक्षत्र कोण शून्य (उजाड़), ८ नक्षत्र पार्श्व सुखकारी, ३ नक्षत्र देहली मृत्युकारक ४ नक्षत्र चक्र कल्याणकारक इस प्रकार द्वारचक्र देखकर मदिर निर्माण कार्य प्रारंभ करना।

(१) आ ज से, प्र पा श्लोक १४९ (२) वही, श्लोक १५०

भूमिशुद्धि
शिलान्यास

भूमि शुद्धि - शिलान्यास

- मंत्र - (१) शान्ति मंत्र/वृहच्छांति मंत्र
(२) भूमि जागरण मंत्र
- मंडल - (१) १७ वलय
(२) गणधरवलय
(३) नवदेव
(इनमे कोई एक)
- यंत्र - (१) विनायक यंत्र
(२) नवदेव यंत्र
(३) मातृका (अचल) यंत्र
- भक्तियां - (१) सिद्ध भक्ति
(२) श्रुत भक्ति
(३) तीर्थकर भक्ति
(४) शान्ति भक्ति
- सामग्री - (१) पूजन सामग्री
(२) जप एवं हवन सामग्री
(३) मंगल ध्वज
(४) पारद
(५) ताम्र सिक्का
(६) सभी शिलार्ये
(७) ताम्र कलश
(८) मजदूर कारीगर
(९) समस्त नये औजार

भूमि शुद्धि विधि^(१) (सामग्री सूची के अनुसार)

जहां मंदिर, यज्ञवेदिका का निर्माण कराना हो, वहां छोटा मण्डप (शामयाना) लगाकर टेबल पर विनायक सिद्धयत्र - मंगलकलश की स्थापना करना चाहिए प्रथम मंगलाष्टक पाठ प्रारंभ करना पश्चात् दिग्बधन कार्य पुष्प (पीले चावल) और पीले सरसो से करे ।

- (१) ओं ह्रां णमो अरिहंताणं ह्रां पूर्वदिशातःसमागत विघ्नान् निवारय - २ मां रक्ष रक्ष स्वाहा (मुठ्ठी बधे हाथ द्वारा पूर्व दिशा मे पुष्प फेके)
- (२) ओं ह्रीं णमो सिद्धाणं ह्रीं दक्षिणदिशातःसमागत - विघ्नान् निवारय -२ मां रक्ष रक्ष स्वाहा (दक्षिण दिशा मे पुष्प फेके)
- (३) ओं हूं णमो आइरियाणं हूं पश्चिम दिशातःसमागत - विघ्नान् निवारय -२ मां रक्ष रक्ष स्वाहा (पश्चिम दिशा मे पुष्प फेके)
- (४) ओं ह्रौं णमो उवज्झायाणं ह्रौं उत्तरदिशातःसमागत - विघ्नान् निवारय -२ मां रक्ष रक्ष स्वाहा (उत्तर दिशा मे पुष्प फेके)
- (५) ओ ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं ह्रः सर्वदिशातःसमागत - विघ्नान् निवारय - २ मां रक्ष रक्ष स्वाहा (सभी दिशाओ मे पुष्प फेके)

रक्षामंत्र

ओं हूं क्षूं फट् किरिटिं किरिटिं घातय घातय पर - विघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरूकुरूपर - मुद्रान् छिद छिद परमंत्रान् भिन्द भिन्द क्षां क्षः वाः वाः हूं फट् स्वाहा । (इस मंत्र से अपने ऊपर पुष्प क्षेपण करे)

शांतिमंत्र

ओं नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय, दिव्य तेजोमूर्तये नमः श्रीशांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय, सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय, सर्वपरकृच्छ्रोपद्रव, विनाशनाय, सर्वक्षामडामरविघ्नविनाशनाय, ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा सर्व शांतिं कुरूकुरू स्वाहा (सब दिशाओ मे पुष्प फेके)

शुद्धि विधि (सामान्य सकलीकरण)

अमृत स्नान

शोधये सर्वपात्राणि पूजार्थानपि वारिभि ।

समाहितो यथाम्नाय करोमि सकलीक्रियाम् ॥

ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा पवित्रतरजलेन पात्रशुद्धिं करौमि ।

रक्षासूत्र मंत्र

ओ नमोऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष ह्रूं फट् स्वाहा ।

(दाहिनी कलाई मे रक्षासूत्र/पचवर्णी धागा बाधना)

यज्ञोपवीत मंत्र

ओ नमः परम शान्ताय शान्तिकराय पवित्रीकरणायाहं रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं
दधामि मम गात्रं पवित्रं भवतु अर्ह नमः स्वाहा । (यज्ञोपवीत धारण करे)

तिलक मंत्र

ओ ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा नमः मम सर्वांगशुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा । (तिलक
लगावे)

विनायक यंत्र अभिषेक

टेबिल पर चौका रखकर थाली मे श्री लेखन करे ।

ओं ह्रीं श्रीं श्रीं लेखनं करोमि

अर्हं मंत्र नमस्कृत्य रत्नत्रयतपोनिधिम् ।

सिद्धियत्र स्थापयामि सर्वोपद्रवशान्तये ॥

ओ ह्रीं स्नपन पीठे विनायक सिद्ध यंत्रं स्थापयामि ।

ओ ह्रीं चतुष्कोणेषु स्वस्तये चतुष्कलश स्थापनं करोमि ।

स्नात्वा शुभावरधरा वृत्तयत्नयोगात् यत्र निवेश्य शुचिपीठवरेऽभिषिचेत् ।

ओ भूर्भुव स्वरिहमगलयत्रमेतत् विघ्नौघ वारकमह परिषिचयामि ।

ओ ह्रीं विघ्नौघ वारकं यंत्रं वयं परिषिचयामः (उदक चंदन तंदुलअर्घ चढ़ावे)

शान्तिधारा

ओं नमः सिद्धेभ्यः । श्री वीतरागायनमः ।

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं ।

चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं - साहू मंगलं, केवल्लिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता-लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्लिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धेसरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवल्लिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि । ओं ह्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो सर्व शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु।

ओं नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृच्छ्रोपद्रव नाशनाय ओं ह्रां ह्री हूं ह्रौ ह्रः अ सि आ उ सा सर्व शान्तिं कुरु कुरु ।

ओं हूं क्षूं फट् किरिटिं किरिटि घातय घातय, परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय, सहस्र - खण्डान् कुरु कुरु पर मुद्रां छिद छिद, परमन्त्रान् भिन्द-भिन्द, क्षां क्षः वाः वाः हूं फट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।

ओं ह्री श्रीं क्ली अर्हं अ सि आ उ सा अनाहतविद्यायै णमो अरिहंताणं ह्रौ सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरु।

तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मी पुरराज्यगेह पदभ्रष्टोपद्रवदारिद्रयोद्भवोपद्रव स्वचक्र पर- चक्रोद्भवोपद्रव प्रचण्ड पवनानलजलोद्भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूतपिशाचकृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रवाणां विनाशनं भवतु ।

संपूर्ण कल्याण मंगलरूप मोक्षपुरुषार्थश्च भवतु । लोक कल्याणं भवतु ।

उदकचन्दन तदुल अर्घ चढाकर यत्र का प्रक्षाल करकेसिहासन मे विराजमान करके विनयपाठ पूजापीठिका पूर्वक विनायक यत्र की पूजा करे ।

विनायक यंत्र पूजा (सस्कृत)

परमेष्ठिन् जगत्त्राणकरणे मगलोत्तम ।

इत शरण तिष्ठ त्व सन्निधौ भव पावन ॥

ओ ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूताः अत्र अवतर अवतर संवीषट्
आह्वाननम् । अत्र तिष्ठ - तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् । अत्र मम सन्निहितो भव भव
वषट् सन्निधिकरणं (पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्) ॥

पकेरुहायातपरागपुञ्जै सौगन्ध्यवद्भि सलिलै पवित्रै ।

अर्हत्पदाभासितमगलादीन् प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥

ओं ह्रीं अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

काश्मीरकर्पूरकृत्तद्रवेण ससारतापापहृतौ युतेन ।

अर्हत्पदाभासितमगलादीन् प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥

ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

शाल्यक्षतैरक्षतमूर्तिमद्भिर्बजादिवासेन सुगन्धवद्भिः ।

अर्हत्पदाभासितमगलादीन् प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥

ओ ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूत जिनेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

कदम्बजात्यादिभवै सुरद्रुमैर्जातैर्मनोजातविपाशदक्षै ।

अर्हत्पदाभासितमगलादीन् प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥

ओ ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

पीयूषपिण्डैश्च शशाककान्तिर्स्पर्धाभिविष्टैर्नयनप्रियैश्च ।

अर्हत्पदाभासितमगलादीन् प्रत्यूहनाशार्थमहं यजामि ॥

ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरण भूत जिनेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

ध्वस्तान्धकारप्रसरै सुदीपैर्घृतोद्भवै रत्नविनिर्मितैर्वा ।

अर्हत्पदाभासितमगलादीन् प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥

ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वकीयधूमेन नभोऽवकाशसव्याप्नुवद्भिश्च सुगन्धधूपै ।

अर्हत्पदाभासितमगलादीन् प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥

ओ ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

नारगपूगादिफलैरनर्घ्यैर्हन्मानसादिप्रियतर्पकैश्च ।

अर्हत्पदाभासितमगलादीन् प्रत्यूहनाशार्थमह यजामि ॥

ओं ह्री अर्हं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूत जिनेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

अच्छ्रम्भ शुचिचदनाक्षतसुमैर्नैवेद्यकैश्चास्रभि ।
दीपैर्धूपफलोत्तमै समुदितैरेभि सुपात्रस्थितै ॥

अर्हत्सिद्धसुसूरिपाठकमुनीन् लोकोत्तमान् मगलान् ।
प्रत्यूहौघनिवृत्तये शुभकृत्त सेवे शरण्यानहम् ॥

ओं ह्री अर्हं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरण भूतजिनेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रत्येक अर्घ

कल्याणपञ्चककृत्तोदयमाप्तमीशमर्हन्तमच्युतचतुष्टयभासुरागम् ।
स्याद्वादवागमृतसिन्धुशशाककोटिर्मर्चे जलादिभिरनन्तगुणालय तम् ॥१॥

ओं ह्री अनन्तचतुष्टयादि लक्ष्मीविभ्रतेऽर्हत्परमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कर्माष्टकेष्मचयमुत्पथमाशु हुत्वा सद्ध्यानवह्निविसरे स्वयमात्मवन्तम् ।
निश्रेयसामृतसरस्यथ सन्निनाय त सिद्धमुच्चपदद परिपूजयामि ॥२॥

ओं ह्री अष्टकर्मकाष्ठभस्मीकुर्वते सिद्धपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वाचारपञ्चकमपि स्वयमाचरन्त ह्याचारयन्ति भविकान्निजशुद्धभाज ।
तानर्चयामि विविधै सलिलादिभिश्च प्रत्यूहनाशनविधौ निपुणान् पवित्रै ॥३॥

ओं ह्री पञ्चाचारपरायणायाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अंगांगबाह्यपरिपाठनलालसानामष्टागज्ञानपरिशीलनभावितानाम् ।
पादारविन्दयुगल खलु पाठकानाम् शुद्धैर्जलादिवसुभि परिपूजयामि ॥४॥

ओं ह्री श्री द्वादशांगपठनपाठनोद्यताय उपाध्याय परमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

आराधनासुखविलासमहेश्वराणाम् सद्धर्मलक्षणमयात्मविकस्वराणाम् ।
स्तोतुगुणान्गिरिवनादिनिवासभाजाम् एषोऽर्घतश्चरणपीठभुव यजामि ॥५॥

ओं ह्री त्रयोदशप्रकारचारित्राराधकसाधुपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हन्मगलमर्चामि जगन्मगलदायकम् ।
प्रारब्धकर्मविघ्नौघप्रलयाय पयोमुखै ^(१) ॥६॥

ओं ह्री श्री अर्हन्मंगलायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

चिदानन्दलसद्धीचीमालीढगुणशालिकम् ।
सिद्धमगलमर्चेऽह सलिलादिभिरुज्ज्वलै ॥७॥

ओं ह्री श्री सिद्धमंगलायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

बुद्धिक्रियारसतपोविक्रियौषधिमुख्यका ।

ऋद्धयो य न मोहन्ति साधुमगलमर्चये ॥८॥

ओं ही श्री साधु मंगलायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

लोकालोकस्वस्त्रज्ञप्रज्ञप्त धर्म मगलम् ।

अर्चे वादित्रनिर्घोषगीतनृत्यै वनादिभि ॥९॥

ओं ही श्रीकेवलप्रज्ञप्तधर्म मंगलायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा

लोकोत्तमोऽर्हन् जगता भवबाधाविनाशक ।

अर्च्यतेऽर्घ्येण स मया कुक्कर्मगणहानये ॥१०॥

ओं ही श्री अर्ह लोकोत्तमायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

विश्वाग्रशिखरस्थायी सिद्धो लोकोत्तमो मया ।

मह्यते महसानदचिदानदसुमेदुर ॥११॥

ओं ही श्री सिद्धलोकोत्तमायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

रागद्वेषपरित्यागी साम्यभावावबोधक

साधुलोकोत्तमोऽर्घ्येण पूज्यते सलिलादिभि ॥१२॥

ओं ही श्री साधुलोकोत्तमायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

उत्तमक्षमया भास्वान् सद्धर्मो विष्टपोत्तम ।

अनतसुखसस्थानं यज्यतेऽम्भ सुमादिभिः ॥१३॥

ओं हीं केवलप्रज्ञप्तधर्मलोकोत्तमायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हस्त्वमेव शरण नान्यथा शरण मम ।

तत्त्वा भावविशुद्ध्यर्थमर्हयामि जलादिभि ॥१४॥

ओ ही श्री सिद्ध शरणायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

ब्रजामि सिद्धशरण परावर्तनपञ्चकम् ।

भित्वा स्वसुखसन्दोहसम्पन्नमिति पूजये ॥१५॥

ओं ही श्री सिद्ध शरणायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

आश्रये साधुशरण सिद्धान्तप्रतिपादनै ।

न्यक्वृत्ताज्ञानतिमिरगिति शुद्ध्या यजामि तम् ॥१६॥

ओ ही श्री साधुशरणायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

धर्म एव सदा बन्धु स एव शरण मम ।

इह वाऽन्यत्र संसारे इति त पूजयेऽधुना ॥१७॥

ओं ह्री श्री केत्रलिप्रज्ञप्तधर्मशरणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ससारदुःखहनने निपुण जनाना नाद्यन्तचक्रमिति सप्तदशप्रमाण ।

सपूजये विविधभक्तिभरावनम्र शान्तिप्रद भुवनमुख्यपदार्थसार्थं ॥

ओं ह्री अर्हदादिसप्तदशमंत्रेभ्यो समुदायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

विघ्नप्रणाशनविधौ सुरमर्त्यनाथा अग्रेसर जिन वदन्ति भवन्तमिष्टम् ।

आनाद्यनंतयुगवर्तिनमत्र कार्ये विघ्नौघवारणकृत्तेऽहमपि स्मरामि ॥१॥

गणाना मुनीनामधीशत्वतस्ते गणेशाख्यया ये भवन्त स्तुवन्ति ।

सदाविघ्न सदोहशान्तिर्जनाना करे सलुठत्यायतक्षेमकानाम् ॥२॥

कले प्रभावात्कलुषाशयेषु जनेषु मिथ्यामदवासितेषु ।

प्रवर्तितो यो गणराजनाम्ना कथ्य स कुर्याद्भववार्धिशोषम् ॥३॥

यो दृक्स्सुधा तोषितभव्यजीवो यो ज्ञानपीयूषपयोधितुल्य ।

यो वृत्तद्वरीकृत्तपापपुञ्ज स एव मान्यो गणराजनाम्ना ॥४॥

यतस्त्वमेवासि विनायको मे दृष्टेष्टयोगान्नविरुद्धवाच ।

त्वन्नाममात्रेण पराभवन्ति विघ्नारयस्तर्हि किमत्र चित्रम् ॥५॥

घत्ता (मालनीछन्द)

जय जय जिनराज त्वद्गुणान् को व्यनक्ति यदि सुरगुरुरिन्द्र कोटिवर्षप्रमाणम् ।

वदितुमभिलषेद्वा पारमाज्जोति नो चेत् कथित इह मुनष्य स्वल्पबुद्ध्या समेत ॥६॥

ओं ह्री श्री अर्हदादि सप्तदशमंत्रेभ्यो जयमालार्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रिय बुद्धिर्मनाकुल्य धर्मप्रीति विवर्धनम् ।

जिनधर्मे स्थितिर्भूय श्रेयासि ते दिशत्वरम् ॥

इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलि क्षिपेत् ।

विनायक सिद्ध यंत्र पूजा (१)

अरिघात शुद्धातम प्रगट किया अरहंत परम पद पाया है,
अविनाशी शाश्वत सुखसागर, निजघाम चिदानंद पाया है ।
आचार्योपाध्याय साधु महा, मंगल लोकोत्तम शरण कहे,
प्रभु आप विराजो मन अदर, आतम दर्शन अरुबोध लहे ।

ओं ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूत जिनाः अत्र अवतरं संवौषट्
आह्वाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्
सन्निधिकरणम् ।

अष्टक चाल छंद

भव भव की प्यास बुझाने, लाया जल चरण चढानें ।
मंगलोत्तम शरण सहार्ई, नमु पंच परम सुखदाई ।

ओं ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

भव की आताप मिटाने, चन्दन सम शीतल पाने ।
मंगलोत्तम शरणसहार्ई, नमु पंच परम सुखदाई ॥

ओं ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूत जिनेन्द्रेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति
स्वाहा ।

अक्षय पद शाश्वत पानें, चरणो मे लाया चढानें ।
मंगलोत्तम शरण सहार्ई, नमु पंच परम सुखदाई ।

ओं ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूत जिनेन्द्रभ्यो अक्षतं निर्वपामीति
स्वाहा ।

मन्मथ की पीड़ा हरनें, शुद्धातम अनुभव करनें ।
मंगलोत्तमशरण सहार्ई, नमु पंच परम सुखदाई ॥

ओं ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यः पुष्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

भव भव दुठ क्षुधा मिटाऊ, तब आतम अमृत पाऊं ।
मंगलोत्तमशरण सहार्ई, नमु पंच परम सुखदाई ॥

ओं ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मिथ्यातम सकल हटाऊ, निज आतम ज्योति जलाऊ ।
 मंगलोत्तमशरण सहाई, नमु पच परम सुखदाई ॥
 ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 कर्मों की धूप जलाऊ, शुद्धात्म दशा प्रगटाऊ ।
 मंगलोत्तमशरण सहाई - नमु पच परम सुखदाई ॥
 ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 फल लाया चरण चढ़ाने - आतम अनुभव फल पाने ।
 मंगलोत्तमशरण सहाई, नमु पच परम सुखदाई ॥
 ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जल फल शुचि द्रव्य मिलाये - पूजत आतम सुख पाये ।
 मंगलोत्तमशरण सहाई, नमु पच परम सुखदाई ॥
 ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्घावली (चाल छंद)

जिन घाती कर्मनशाया - अरिहत परम पद पाया ।
 मै पूजो मन वच काया, जिन पद पा आतम ध्याया ॥
 ओं ह्री अर्ह अर्हत्परमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जिन अष्ट कर्म विनशाये, समकित स्वातम गुण पाये ।
 ऐसे प्रभु सिद्ध कहाये, हम चरणन शीश नमाये ॥
 ओं ह्री अर्ह सिद्धपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 शुभ पचाचार सम्हाला, छत्तीस मूल गुण पाला ।
 दीक्षा शिक्षा हितकारी, आचारज है सुखकारी ॥
 ओं ह्री अर्ह आचार्यपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 एकादश अग सुहाये, चौदह पूरब श्रुत पाये ।
 शिष्यो को बोध दिलाये, पाठक पूजो शिरनाये ॥
 ओं ह्री अर्ह उपाध्यायपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अष्टाविशति गुणधारी, गुरुसाधत आतम न्यारी ।
 अरि मित्र समान विचारे, समता सागर सुख धारे ॥
 ओं ह्री अर्ह साधुपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

- दोहा - मगलीक अरहत है, नमत पाप गल जाय ।
आतम मगलरूप है, पूजत सब सुख पाय ॥
- ओं ह्री अर्ह अर्हत्मंगलाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा
सिद्ध चक्र मगल महा, सर्वविघन नशि जाय ।
पूजत पद निज पाइये, मगलमय सुखदाय ॥
- ओं ह्री अर्ह सिद्धमंगलाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा
समता धर सयम धरे, साधत आतम काज ।
राग द्वेष मदलेश नहि, मगलमय मुनिराज ॥
- ओ ह्री अर्ह साधुमंगलाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा
मगलमय जिनधर्म है, भवदुख नाशन हार ।
धारत भविजन भाव सो, स्वर्ग मोक्ष सुख द्वार ॥
- ओं ह्री अर्ह केवलिप्रज्ञप्तधर्ममंगलाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
- त्रोटक - लोकोत्तम श्री अरहत महा, जिनका सर्वोदय तीर्थ कहा ।
दर्शनपूजन से पाप कटे, ससार विषम भव बध कटे ॥
- ओ ह्री अर्ह अर्हल्लोकोत्तमेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
कर्मोदय जब जिय का आता, तब भवसागर मे भटकाता ।
आतम सबल पा कर्म नशा, शुद्धातम वन शिवलोक बसा ॥
- ओं ह्री अर्ह सिद्धलोकोत्तमाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
सयम धर चलते शिवमग मे, तीरथ चलते फिरते जग मे ।
जग मे है उत्तम साधु महा, पूजन करते धन भाग्य यहा ॥
- ओ ह्री अर्ह साधुलोकोत्तमाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
रत्नत्रय उत्तम धर्म कहा, भवदुख मिटे शिवपाय महा ।
भव सागर से भवितारत है, निज श्रद्धा से जब धारत है ॥
- ओं ह्री अर्ह केवलिप्रज्ञप्तधर्मलोकोत्तमाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
- चाल - अरहत शरण जिन लीना, तिन जनम मरण भय छीना ।
इन्द्रादिक नित गुण गाते, हम चरणन शीश नवाते ॥
ओ ह्री अर्ह अर्हत्शरणाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
है करम जगत दुखदाई, भव भव मे भ्रमण कराई ।
तिन नाश सिद्ध पद पाया, पूजन हित शरण मे आया ॥
- ओं ह्री अर्ह सिद्धशरणाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

जिन मुद्रा आतमधारी, मद राग द्वेष परिहारी ।
 निज आतम अनुभव पाया, नमू साधु शरण मे आया ॥
 ओ ह्री अर्ह साधुशरणाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
 जिनधर्मशरण सुखकारी, पाते निज अनुभव धारी ।
 मिथ्यामद मोह मिटाते, अक्षय अनत सुख पाते ॥
 ओं ह्री अर्ह केवलिप्रज्ञप्तधर्मशरणाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
 कृत कृत्य विमल वैरागी, निज आतम सत्ताधारी ।
 मंगलोत्तम शरण महाना, पूजो पद श्री भगवाना ॥
 ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यः पूर्णार्घम् निर्वपामीति
 स्वाहा ।

जयमाल

दोहा- जय मगल उत्तम शरण, पच परम गुरुजान ।
 गाऊ नित गुणमालिका, होय करम की हान ॥१॥
 पद्धड़ी - जय वीतराग सर्वज्ञदेव, तुम घाते घातिक कर्मभेव ।
 सदनत चतुष्टय राजमान, नव केवललब्धि विराजमान ॥२॥
 भये अजर अमर हे मुक्तिवत, चारो अघातिया कर्म हन्त ।
 हो नित्य निरजन निर्विकार, चैतन्य सुधारस भोगसार ॥३॥
 रत्नत्रय मडित गुण अनत, छतीस मूलगुण शोभवत ।
 जय पचाचार आचरण धीर, दीक्षाशिक्षाहित गुण गभीर ॥४॥
 एकादशाग चौदह सुपूर्व, धारे जिन पच्चिसगुण अपूर्व ।
 जय पाठक मुनि करुणा निधान, देते शिक्षा शिवपथ महान ॥५॥
 जय बीस आठ गुण धरत आप, शमदम विराग सह मुक्ति धाय ।
 बाह्याभ्यन्तर परिग्रह नशाय, निज आतम साधत मुक्ति पाय ॥६॥
 जय मगल उत्तम शरणरूप, त्रैकालिक सुख पावत अनूप ।
 हम शरण गही मन वचन काय, परमेष्ठीपद लहि मुक्ति पाय ॥७॥

दोहा- विघ्न विनाशक मत्र शुभ, महिमामयी अनूप ।

पूजत मगल होत नित, मिले 'पुष्प' निज रूप ॥८॥

ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा मंगलोत्तमशरणभूतजिनेन्द्रेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा - आतम का अनुभव मिले, बाढे धरम प्रभाव ।

रत्नत्रय निधि मिलत है, भक्ति भावना भाव ॥९॥

(इत्याशीर्वादः पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्)

नवदेव अर्घ

अर्हत्सिद्धाचार्य गुरु साधु जिनागम धर्म ।

चैत्य चैत्यगृह देवनव, यजत होय शिवशर्म ॥

ओं ह्रीं अर्ह अर्हदादिनवदेवेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

यागमण्डल अर्घ (१)

सर्वानेतान्तत्वचन्द्रप्रमाणान् जापध्यानस्तोत्रमंत्रैरुदर्य ।

द्रव्यक्षेत्रस्फूर्तिसज्जावकाशं नत्वार्घेण प्रांशुना संस्मरामि ॥१॥

दोहा - पंच परम गुरुसार हैं, मंगल उत्तम जान ।

शरणा राखन को बली, पूजूं कर उर ध्यान ॥

ओं ह्रीं प्रथमवलयोन्मुद्रित अर्हत्परमेष्ठिप्रभृतिधर्मशरणांत सप्तदशजिनाधीश
यज्ञदेवताभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

पूर्व विसर्पिण्यथकालमध्ये संजातकल्याणपरंपराणाम् ।

सस्मृत्यसार्थ प्रगुणं जिनानां यज्ञे समाहूय यजे समस्तान् ॥

दोहा- भूत भरत चौबीस जिन, गुण सुमरुं हरबार ।

मंगलकारी लोक में, सुखशान्ति दातार ॥२॥

ओं ह्रीं अस्मिन् वेदिकाशिलान्यासे (बिम्बप्रतिष्ठामहोत्सवे)^(२) यागमंडलेश्वर
द्वितीयवलयोन्मुद्रितनिर्वाणाद्यनंत वीर्यान्त भूतजिनेन्द्रेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

अत्राहूतसुपर्वपर्वनिकरे बिम्बप्रतिष्ठोत्सवे

सं पूज्याश्चतुरुत्तरा जिनवरा विशप्रमासंप्रति ।

संजाग्रत्समयादयैकसुवृत्तानुद्धार्य मोक्षंगता -

स्तेऽत्रागत्य समस्तमध्वरवृत्तं ग्रहणं तु पूजाविधिम् ।

दोहा - वर्तमान चौबीस जिन, उद्धारक भविजीव ।

बिम्ब प्रतिष्ठाकारने, यजूं परम सुखनीव ॥३॥

ओं ह्रीं अस्मिन् वेदिकाशिलान्यासे मखमुख्यार्चिततृतीयवलयोन्मुद्रितवर्तमानचतुर्विंशति-
जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

काले भाविनि ये सुतीर्थधरणात् पूर्व प्ररूप्यागमे

विख्याता निजकर्मसंततिमपावृत्त्यस्फुरच्छक्तयः ।

तानत्र प्रतिकृत्यपावृतमखे सपूजिता भक्तिः
प्राप्ताशेषगुणस्तदीप्सितपदावाप्त्यै तु सतु श्रिये ॥

दोहा - तीर्थराज चौबीस जिन, भावी भव हरतार
बिम्ब प्रतिष्ठा कार्य मे, पूजू विघ्न निवार ॥४॥

ओं ह्रीं वेदिका शिलान्यासे मुख्यपूजार्हचतुर्थवलयोन्मुद्रितानागतचतुर्विंशतिमहापद्माद्यनंत
वीर्यान्तेभ्यो जिनेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

एव पचमकोष्ठपूजितजिनाः सर्वे विदेहोद्भवा -
नित्य ये स्थितिमादधु प्रतिपतत्तन्नाममत्रोत्तमा ।
कस्मिंश्चित्समयेऽभ्रषड् विधुमित पूर्णं जिनाना मत ।
ते कुर्वन्तु शिवात्मलाभमनिश पूर्णार्घसमानिता ॥

दोहा - राजत बीस विदेह जिन, कवहि साठशत होय ।
पूजतवदित जास को, विघ्न सकल क्षय होय ॥५॥

ओं ह्रीं वेदिकाशिलान्यासे मुख्यपूजार्हपंचमवलयोन्मुद्रितविदेहक्षेत्रेसुषष्टि-
सहितैकशतजिनेशसंयुक्तनित्यविहरमानविंशतिजिनेन्द्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

गुणोद्देशादेशा प्रणिधिवशतोऽनत गुणिना -
कृता ह्याचार्याणामपचितिरिय भाव बहुला
समस्तान् सरमृत्य श्रमणमुकुटानर्घमलघु-
प्रपूर्त्त संदृब्ध मम मखविधि पूरयतु वै ।

दोहा - गुण अनत धारी गुरु, शिवमगचालनहार ।
सकलसघ रक्षा करे, यज्ञविघ्नहरतार ॥६॥

ओं ह्रीं अस्मिन् वेदिकाशिलान्यासे पूजार्हमुख्यषष्टवलयोन्मुद्रित आचार्य
परमेष्ठिभ्यस्तद्गुणेभ्यश्च अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

इत्थ श्रीश्रुतदेवता जिनवराभोध्युद्गतामृद्धिभृ-
न्मुख्यैर्ग्रथनिबधनाक्षरकृतामालोकयन्ती त्रयम् ।
लोकाना तदवाप्तिपाठनधियोपाध्यायशुद्धात्मन
कृत्वारार्धनसद्विधि घृतमहार्घणार्चये भक्तिः ।

दोहा - अग एकादश पूर्वदश, चार सु ज्ञायक साध ।
जजू गुरुके चरण दो, यजन सु अव्याबाध ॥७॥

ओं ह्री अस्मिन् वेदिकाशिलान्यासे सद्विधाने मुख्यपूजार्हसप्तमवलयोन्मुद्रित-
द्वादशांगश्रुतदेवताभ्यस्तदाराधकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्यश्च अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अष्टाविशति सद्गुणगृथितसद्वत्तत्रयाभूषण
शीलेशित्वतनुत्ररक्षितवपु कामेषुभिर्नाहतम् ।

अर्हत्यादि पदस्य बीजमनघ येषा पर पावन ।
साधूनासमुदायमुत्तमकुलालकारमाशाश्महे ॥

दोहा- अठविशत गुणधरयती, शील कवच सरदार ।
रत्नत्रय भूषण धरे, टारे कर्म पहार ॥८॥

ओं ह्री अस्मिन् वेदिकाशिलान्यासे मुख्यपूजार्हअष्टमवलयोन्मुद्रितसाधु
परमेष्ठिभ्यस्तन्मूलगुणग्रामेभ्यश्च अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

इत्थसत्तपसप्रभावजनिता सिद्धयर्द्धिसप्तयो-
येषा ज्ञानसुधाप्रलीढहृदया ससारहेतुच्युता ।

रोहिण्यादिविधाविदोदितचमत्कारेषु स नि स्पृहा
नो वाधति कदापि तत्कृत्विधि तानाश्रये सन्मुनीन् ।

दोहा - अड़तालीस हजार अरु, उन्निस लक्ष प्रमाण ।
तीर्थकर चौबीस यती, सघ जजू घर ध्यान ॥९॥

ओं ह्री अस्मिन् वेदिकाशिलान्यासे मुख्यपूजार्हनवमवलयोन्मुद्रितसकलऋद्धिसम्पन्न-
सर्वभुनिभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा- अर्हत्सिद्धाचार्यगुरु, साधुजिनागम धर्म ।
चैत्यचैत्यगृहदेवनव, यजमण्डल करि शर्म ॥१०॥

ओं ह्री यागमण्डलदेवताभ्यः पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शिलान्यास क्रिया

कार्य की निर्विघ्नता हेतु शांतिमंत्र का ११ हजार और भूमि जागृत करने हेतु भूमिजागरण मंत्र का ११ हजार जाप आवश्यक है ।

शान्ति मंत्र

ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा नमः सर्वशान्ति कुरुकुरु स्वाहा ।

वृहच्छान्ति मंत्र

ओं ह्रां ह्री हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा सर्वविघ्न विनाशनं सर्वशान्तिं च कुरु कुरु स्वाहा ।

भूमिजागरण मंत्र

ओं ह्रां ह्री हूं ह्रौं ह्रः जिनगर्भगृहक्षेत्रे धरित्री जागृतावरथायां कुरुकुरु स्वाहा ।

मातृका मंत्र

ओं नमोऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह ह्री क्ली क्रौ स्वाहा ।

तत्पश्चात् भक्तियां पढकर कार्य आरभ करे ।

यस्यार्थ क्रियते कर्म सः प्रीतो नित्य मस्तु मे ।

शान्तिक पौष्टिक चैव सर्वकार्येषु सिद्धिद ॥

घटाटकार वीणा कणित मुरज धा धां क्रियाकाहलाच्छे-
च्छंकारोदार भेरी पटह धल धलंकार समूत घोषे ।

आक्रम्पाशेषकाष्ठा तट मथ झटति प्रोच्चटत्युद्भटेऽभ्र
शिष्टाभिष्टार्हदिष्टप्रमुख इह लताताजलि प्रोत्क्षिपाम् ।

नद्यावर्त स्वस्तिकपर प्रशस्ति पत्र (शिलालेख) जिस पर सवत, माह, दिन, मंदिर निर्माता का नाम, प्रतिष्ठाचार्य का नाम अंकित हो, यदि वेदी का शिलान्यास हो तो जो कार्य करा रहा हो उसका नाम लिखाया जावे । नीव खनन या शिलान्यास के पूर्व काम में आने वाली कुदाली, फावड़ा आदि की मंत्र द्वारा शुद्धि करना चाहिये ।

ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः पञ्च परमेष्ठिभ्यः क्षीं भूः अमृत जलेन खंत्रीशुद्धिं करोमि ।
(कुदाली, फावड़ा आदि पर जल डालकर शुद्धि करें)

ओं क्षरां क्षरी क्षरूं क्षरौ क्षरः खंत्रीचन्दनलेपनं करोमि।(कुदाली, फावड़ा पर चन्दन लगावे)

ओ ह्री श्रीं क्षीं भू रक्ष रक्ष फट् स्वाहा । (कुदाली, फावड़ा पर मंगल सूत्र बांधे)

पश्चात् कारीगर मजदूर को वस्त्र भेट देकर प्रसन्न करे और कार्य आरम्भ करावे ।
स्वर्ण, रजत, ताम्र, पत्थर, मिट्टी आदि की शिलाये तैयार करावे ।

ओं ह्री परमव्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति, जीव जीव, नन्द नन्द, वर्धस्व वर्धस्व,
विजयस्व-विजयस्व, अनुसाधि अनुसाधि, पुनीहि पुनीहि, पुण्याहं पुण्याहं, मांगल्यं
मांगल्यं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् । (भूमि पर पुष्प क्षेपण करे)

यज्ञस्थल पर कार्य करने के लिए भूमिरक्षकदेवो से क्षमायाचना एव कार्य हेतु स्वीकृति-

अहो धरायामिह ये सुराश्च क्षमन्तु यज्ञाधिकृति ददन्तु ।

प्रीति पुराणा बहुवासयोगात् क्षितावतोऽस्मद्विनिवेदन व ॥^(१)

अस्मिन् यज्ञस्थाने स्थित भो देवगणाः आज्ञाप्रदानं कुर्युः

(पुष्प क्षेपण कर स्थान हेतु आज्ञा मागे एव श्रीफल भेट कर आमंत्रित करें)

विहारकाले जगदीश्वराणामवाप्तसेवार्थकृतावदान ।

हुत्वार्चितो वायुकुमारदेव त्व वायुना शोधय यागभूमि ।^(१)

भो वायुकुमारसर्वविघ्नविनाशनाय महीपूतां कुरुकुरुहूं फट् स्वाहा ।

(स्वच्छ वस्त्र से स्थल मार्जन करे)

विहारकाले जगदीश्वराणामवाप्त सेवार्थकृतावदान ।

हुत्वार्चितो मेघकुमारदेव त्व वारिणा शोधय यागभूमि ॥^(२)

भो मेघकुमार सर्वविघ्न विनाशनाय धरां प्रक्षालय २ अं हं सं वं ठं झं यः क्षः फट्
स्वाहा (भूमि पर जल सिंचन करे)

गर्भान्वयादौ महितद्विजेन्द्रैर्निर्वाणपूजासु कृतावदान ।

हुत्वार्चितो वह्निक्ुमारदेव त्व ज्वालया शोधय यागभूमि^(३)

भो अग्निक्ुमारदेवसर्वविघ्नविनाशनाय भूमिं ज्वालया २ अं हं सं वं ठं झं यः क्षः फट्
स्वाहा

(कपूर जलाकर भूमि पर डाले)

वास्तुविधानभेद (४)

१ स्थान परीक्षा २ दिग्साधन ३ वास्तुशुद्धि ४ मडलशुद्धि ५ मडलशांति ६ शिलास्थापन
७ गृहलक्षण ८ शिलानयन ये आठ प्रकार वास्तुकर्म है ।

वास्तुविधान आवश्यक क्यों ? (वास्तु विधान से लाभ)

पृथ्वीविकरात्सलिलप्रवेशात्अग्निर्विदाहात्पवनप्रकोपात् ।

चौरप्रयोगादपि वास्तुदेव चैत्यालय रक्षतु सर्वकालम् ॥

वास्तु विधान

- १ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए
सव्वसाहूणं, हौ सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ।
(प्रत्येक मंत्र के बाद भूमि पर पुष्प क्षेपण करना)
- २ ओं ह्रीं अक्षीणमहानसर्द्धिभ्यो नमः स्वाहा ।
- ३ ओं ह्रीं अक्षीण महालयर्द्धिभ्यो नमः स्वाहा ।
- ४ ओं ह्रीं दशदिशातः आगतविघ्नान् निवारय २ सर्वं रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ।
- ५ ओं ह्रीं दुर्मुहूर्त दुःशकुनादिकृतोपद्रवशान्तिं कुरुकुरु स्वाहा ।
- ६ ओं ह्रीं परवृत्तमंत्रतंत्रडाकिनीशाकिनी भूतपिशाचादि कृतोपद्रव शान्तिं कुरुकुरु
स्वाहा ।
- ७ ओं ह्रीं वास्तुदेवेभ्यः स्वाहा ।
- ८ ओं ह्रीं सर्वविघ्नोपशान्तिं कुरुत कुरुत स्वाहा ।
- ९ ओं ह्रीं सर्वाधिव्याधिशान्तिं कुरुत कुरुत स्वाहा ।
- १० ओं ह्रीं सर्वत्र क्षेमं आरोग्यतां विस्तारय विस्तारय सर्वं पुष्टिं हृष्टिं प्रसन्न चित्तं
कुरुकुरु स्वाहा ।
११. ओं ह्रीं यजमानादीनां सर्वसंघस्य शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं ऋद्धिं वृद्धिं समृद्धिं
अक्षीणर्द्धिपुत्र पौत्रादिवृद्धिं आयुर्वृद्धिं धनधान्यसमृद्धिं धर्मवृद्धिं कुरुत कुरुत
स्वाहा ।
- १२ ओं क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षैं क्षों क्षौ क्षं क्षः णमोऽर्हते सर्वं रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ।
- १३ ओं भूर्भुवः स्वः नमः स्वाहा ।
- १४ ओं ह्रीं क्रौं आं अनुत्पन्नानां द्रव्याणामुत्पादकाय उत्पन्नानां द्रव्याणां वृद्धिकराय
चिंतामणिपार्श्वनाथाय वसुदाय नमः स्वाहा ।

पाच मारवल की शिलाओं पर "हां ही हूं हौं हः" इन बीजाक्षरों को लिखकर मंगलसूत से वेष्टित करें। फिर क्रमशः पाचो शिलाओं को थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें रखकर निम्न मंत्र १०८ बार पढ़कर पुष्प क्षेपण कर मंत्रित करें।

- (१) हां वाली शिला को "ओं हां अर्हद्म्यः नमः"
- (२) ही वाली शिला को "ओं ही सिद्धेभ्यः नमः"
- (३) हूं वाली शिला को "ओं हूं सूरिभ्यः नमः"
- (४) हौं वाली शिलाको "ओं हौं पाठकेभ्यः नमः"
- (५) हः वाली शिलाको "ओं हः सर्वसाधुभ्यः नमः"

प्रासादमण्डन शास्त्र में शिला के दो रूप किए हैं १ कूर्म शिला २ खुरशिला। कूर्मशिला चादी या स्वर्ण की बर्नवाये और प्रशस्ति-शिला पर प्रथम अचलयंत्र की स्थापना करे। और यंत्र पर बीच में कूर्म शिला रखे

(२) खुरा शिलायें - नौ प्रकार की हैं - (१) नन्दा, (२) भद्रा, (३) जया, (४) रिक्ता, (५) अजिता, (६) अपराजिता (७) शुक्ला, (८) सौभाग्यवती, (९) धरणी ये शिलाएं कूर्मशिला से दिशा विदिशाओं में स्थापित करना चाहिए। शिलान्यास का कार्य ईशान विदिशा से प्रारंभ करना लिखा है - आठ खुरशिलाये ईशान से आठों दिशा में नवमी कूर्म शिला के नीचे रखें। शिलान्यास कार्य यजमान द्वारा निम्नप्रकार कराये। स्थान शुद्धि करके नद्यावर्त स्वास्तिक बनाकर कार्य प्रारंभ करें। सिद्ध भक्ति पढ़कर अष्टद्रव्य से शुद्धि करें

- | | |
|---|---------------------------------|
| ओं ही नीरजसे नमः (जल छोड़े) | ओं ही शीलगंधाय नमः (चंदन) |
| ओं ही अक्षताय नमः (अक्षतं) | ओं ही विमलाय नमः (पुष्प) |
| ओं ही परमसिद्धाय नमः (नैवेद्यं) | ओं ही ज्ञानोद्योतनाय नमः (दीपं) |
| ओं ही श्रुतधूपाय नमः (धूप) | ओं ही अभीष्टफलदाय नमः (फलं) |
| ओं ही वसुकर्मरहिताय सिद्ध परमेष्ठिने नमः (अर्घ) | |

इस प्रकार शुद्धि करके शिला स्थापन करने की विधि करें

सिद्धार्थ (पीले सरसों) स्थापन मंत्र (१)

अथ सिद्धार्थसत्पुजान् क्षिपेदिष्टार्थसिद्धये ।

आग्नेयादिषु कोणेषु वेदिकायां विदद्महे ॥

ओं आग्नेयकोणे सिद्धार्थान् स्थापयेत् ।

वाणेश्चतुर्भिर्निशितैर्जयाय सिद्धार्थपुञ्जैश्चनिजेष्ट सिद्ध्यै ।
संतानवृद्ध्यै च यवारकैः श्रीवेद्याश्च कोणान्परिभूषयामि ॥

ओं ह्री वेदी कोणेषु सिद्धार्थान्स्थापनं करोमि
(वेदी की आठो दिशाओ मे पीले सरसो क्षेपण करना)

वाणस्थापनमंत्र

अतितीक्ष्णचतुर्वाणान् भव्यानां जयलब्धये
आग्नेयादिषु कोणेषु वेदिकाया विदद्महे ।

ओं वेदीकोणेषु वाणस्थापनं करोमि (वेदी की आठों दिशाओं मे तांबे की ५ इची कीले लगाये तथा मगलसूत्र (मौली) से तीन घेरा लगा दे ।)

मातृका (अचल) यंत्रस्थापन

मध्ये वेदिसकर्णिकं दलचतुष्कोणाष्टसख्यैर्दलैः
युक्तं द्वित्रिचतुर्हताष्टदलवत्पद्मं वृहत्तद्बहिः ।
सद्वाः कोणकपचमंडलवृतं संलिख्य तत्रार्चितान्
मत्रागान्नव देवतान्चृतसुरानर्घ्येन संभावयेत् ॥

ओं ह्री मातृकायंत्रस्थापनं करोमि च अर्घ्यं समर्पयामि
(प्रशस्ति शिला पर यत्र स्थापित कर नवदेव अर्घ्य चढ़ावे)

शिला स्थापन

शिलां विशाला लवणेन विद्धां सूत्रेण वद्धा समृदं सलोष्ठाम् ।
भागौघपुष्ट्यै दुरितौघपिष्ट्यै वेद्याः अधस्ताद्विनिवेशयामि ॥

ओं सर्वजनानंदकारिणि सौभाग्यवति तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ।

प्रशस्ति शिला पर बीच मे शिला रखें पश्चात् आठो दिशाओ मे आठ, और बीच मे नवमी शिला रखे । समस्त स्वर्ण, रजत, ताम्र मारवल की शिलाये स्थापित करें)

कलश स्थापन

तीर्थाम्बुपूर्णशरणोत्तममगलार्थसकल्पनादिसमलवृत्तशुभ्रवुंभान् ।
वेद्यष्टदिक्षु विनिवेश्य सपचवर्णसूत्रेण तास्त्रिगुणमेव वृणोमि सिद्ध्यै ॥

ओं ह्री कलश स्थापनं करोमि ।

एक बीच में और चार चारों दिशाओं में रखे (कलशों को जल से शुद्ध करके उन पर केशर से स्वस्तिक बनाये मंगलसूत्र बाधे पंचरत्न, हल्दी की गांठे, सुपारी, मारुद, पीलासरसो चादी का स्वस्तिक कलश में डालना चाहिए। यदि कलश बड़े हों तो दीपक अंदर रखे, यदि छोटे कलश हो तो ऊपर रखें।)

दीपक स्थापन

दीव्यत्प्रदीपकलिकोज्ज्वलवर्णपूरेनीरांजनार्थमुदितैर्वरभाजनस्थै ।
नीराजयामि भगवज्जिनयज्ञवेदीमोजो गुणस्य यजतामभिवर्धनाय
ओं ह्री दीपकस्थापनं करोमि

(दीपक स्थापन करे) पश्चात् आनादि मंत्र पढकर गर्त को पूरा करा दे और शान्तिहवन, पुण्याहवाचन, शान्त्यष्टक, शान्तिभक्ति, पाठ पढकर विसर्जन करना चाहिए।
(इतिभूमिशुद्धि शिलान्यास विधि)

प्रतिमा निर्माण विधि

प्रतिमा लक्षण (१)

स्वर्णरत्नमणिरौप्यनिर्मितं स्फाटिकामलशिलाभवं तथा ।

उत्थितांबुजमहासनागित जैनबिम्बमिह शस्यते बुधै ॥

शान्तनासाग्रदृष्टिं विमलगुणगणैर्भ्राजमानं प्रशस्त -

मानोन्मान च वामे विधृतवरकर नाम पद्मासनस्थम् ॥

व्युत्सर्गालबिपाणिरथलनिहितपदाभोजमानम्रक्त्रु ।

ध्यानारूढ विदैन्यं भजत मुनिजनानदक जैनबिबम् ॥

उत्कीर्णस्फटिकाशिलारुणहरित्पीताश्मभित्तावपि ।

रथूल ह्रस्वमवेल्लित स्थिरतर शस्त प्रतिष्ठाविधौ ॥

प्रत्यग्र चलनक्षम दृढवपु सधि तथा धातुज ।

योग्यनित्यमहोत्सवेषु शिविकासत्स्यदनारोहणे ॥

एककुड्ये चतुर्विंशसमुदायोऽपि पचशः ।

त्रयं सप्त जिनेन्द्राणां बिबसंस्थोपलाल्यते ॥

प्लुष्ट तथा वेधितगूढनेत्ररेखागुलिक्लिष्टहतप्रभ च ।

वर्ज्यप्रतिष्ठासु पुराणगात्र लबोदराद्यष्टकदोषयुक्तम् ॥

प्रतिमा नवताल की होनी चाहिए - ऐसा कथन प्रतिष्ठाशास्त्र, षट्खण्डागम पुस्तक ४ पृ० ४० मे है। नारकी ८ ताल, मनुष्य ९ ताल और देव १० ताल प्रमाण शरीर वाले होते हैं।

ताल मुख वितस्तिस्यादेकार्थं द्वादशागुलम्^(२)

तेन मानेन तद्विम्बं नवधापरिकल्पयेत् ॥

खड्गासन प्रतिमा का लक्षण (३)

आजानुलम्बबाहु श्रीवत्साक प्रशान्तमूर्तिश्च ।

दिग्वासास्तरुणो रूपवाश्च कार्योऽर्हता देव ॥

प्रतिमा माप (४)

सस्थानसुन्दरमनोहररूपमूर्ध्वप्रालंबित ह्यवसन कमलासन च ।

नान्यासनेन परिकल्पितमीशबिबमर्हाविधौ प्रथितमार्यमतिप्रपन्नै ॥

(१) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक ६९ से ७३ (२) ताल - प्रतिमा के अगुल से १२ अगुल का एक ताल होता है। वसुन्दिश्रावकाचार पृष्ठ १४७ (३) व. मि, वृ. स. पृष्ठ ३९४ श्लोक ४५

बृद्धत्वबाल्यरहितागमुपेतशांति श्रीवृक्षभूषिहृदयनखकेशहीनं ।
सद्भ्रातृचित्रदृषदा समसूत्रभाग वैराग्यभूषितगुण तपसिप्रसक्तं ॥

ऊर्ध्वं द्विपात्रविधुभागकृत्तौ स्वकीयमानेन तत्र मुखमडलमक्षिसोमं ।
ग्रीवाहृदौ च चतुरक्षिमितौ हृदानुप्रेक्षाप्रम जठरमत्र तु नाभिमूलात् ॥

तावत्प्रमैव मदनादि तदादि ... (भातु) जानुद्वयं करमितं च ततोऽपि गुल्फं ।
तस्माच्च पादतलमत्र हि गुल्फदेशात् पिडिदृढा तु पदयो शुभलक्षणांका ॥

वेदागुलं भालनसोर्मुखस्य मान तु घोणा चतुरंगुला च ।
मूर्धानमीषन्नतमत्र कार्यमर्धेदुबिबं पृथुभालदेशम् ॥

भ्रुवोरतर युग्मभागप्रमाण तथा नेत्रयो श्वेतिमा तत्प्रमाण ।
सुतारास्थितिश्चैकभागे त्रिभागा नसोर्मूलभागेऽक्षिणी युग्मभागे ॥

भ्रूलते वेदभागायते मध्यत स्थौल्ययुक्तेऽन्तिमे सत्कृशे धानुषे ।
नेत्रयो पक्ष्मणी (यावता) त्र्यगुलं दृष्टितः कूलतुल्येनदीनामिवोपर्यधः ॥

ओष्ठद्वय चागुलमुच्छ्रित स्यान्मध्ये तथा विस्तृतमत्र तुर्या ।
भागास्तु किचिन्मिलित द्विपार्श्वे किचित्प्रकाशेऽतरु दीर्यमानं ॥

एकागुला सूक्कणिकार्धपृथ्वीनेत्रागुल स्याच्चिवुक विशाल ।
मूलाद्धनोरतरमस्य तज्ज्ञैर्वेदागुलं द्वयगुलविस्तरं स्यात् ॥

कर्णौ च षड्भागयुतौ प्रलंबौ वेदांगुलव्यासयुतौ तदंतः ।
छिद्रे तु नाली यवनालिकाभा त्वर्धागुल चांतरमुच्यतेऽथ ॥

श्रोत्रस्य नेत्रस्य च वेदमतरमष्टादशाशा द्वयकर्णभित्तेः ।
पाश्चात्यभागे तु चतुर्दशांशा शल्याक्षिभागा परिधिस्तुकस्य ॥

तथोर्ध्वभागे रविभागमात्रा त्र्यशागुला पंच च कूर्परस्य ।
तत्षोडशाशाः परिधेस्तु तस्य तत्रापि हानिर्मणिबंधमात्रा ॥

पचागुलं वा त्रिकभागकोन मध्यं प्रवाहोर्विततेस्तु तस्य ।
विशालता स्याद्युगचंद्रभागा स्वयं वृषस्वंमिवाप्तशोभ ॥

तुर्यागुला स्यान्मणिबंधकोर्वी वैशालमस्यास्तु चतुर्दशांश ।
मध्यागुलेर्द्वादशकातर च मध्यागुलि पंचमिता करस्य ॥

अनामिका मध्यसुपर्वणाद्धा प्रदेशनी स्वायततुल्यभागा ।
कनीयसी पर्वलघुस्तथाऽत्र पंचांगुलं मूलमघो विशालं ॥

अर्धागुलामध्यमतो विधेया हीना सुतर्जन्यपि योग्यदेशा ।

अगुष्ठयुग्मं चतुरंगुलं स्यादेकागुल विस्तृतमत्र साधि ॥

द्विपर्वणागुष्ठ धृतिस्तथासा त्रिपर्वणा पुष्टि युता नखाना ।

पर्वार्धमानेन तल करस्य सप्ताशकं पंच सुविस्तृत च ॥

दृढं च बाहुद्वयमुन्नतांश निः संधिहस्तिप्रकराकृतिः स्यात् ।

लंबौ तथा जानुगतौ सुवीरताख्यापकौ शोभनलक्ष्मभाजौ ॥

न चातिनिम्नौ मृदुलौ समौ च निश्छिद्रकौ मांसलरक्तवर्णौ ।

उरो वितस्तिद्वयविस्तृतं स्य च्छ्रीवत्ससभासि सुचूचुक च ॥

सषट्कपंचाशसमागुल तु पुष्टोरसः स्यात्परिणाहदेशः ।

स्तनांतरं तालवितानभाजियुग्मातरं स्यात्स्तनचूचुकवै ॥

तस्याधरस्तात्तु वितस्तिमात्रं नाभिर्यमावर्त्तमनोहरा च ।

मुखागुलं रंध्रमथो तदीयं तस्याप्यधोऽष्टागुलमतरं स्यात् ॥

मेढ्रस्य गुप्ताग्रिमभागकस्य कटिर्विशालाष्टदशागुला स्यात् ।

हस्तद्वय तत्परिधिः प्रशस्य स्फिक्स्यान्मद्भागुल्यवधिस्त्रिपर्णा ॥

सद्वयंगुल लिगवितानमस्य मूले च मध्येऽगुलमेकमेव ।

व्यासाच्च नाहस्त्रिगुणस्तथामूत्वक् (?) प्रायसापौत्रकृतिर्विधेया ॥

कुक्कुंदरौ वाऽपि नितबदेशौ समासलग्रथिकया वितानौ

स्वंधस्य पायो रसबहिनसख्य स्यादन्तर पृष्ठविभागदेशे ।

वितस्तियुग्मायतमूरु युग्मं विस्तीर्णतैकादशभिः प्रनुन्ना ।

मूले च मध्ये नवकागुल स्यात्त्रिः स्यात्तयो सत्परिधिप्रतानं ॥

जंघाद्वय वृत्तमथो द्वितालं षडंगुला तत्पिटिका सुमध्या ।

सपादतुर्याशकगुल्फदेश पादौ चतुश्चद्रकलावदातौ ॥

सुगूढ गुल्फौ शुभचिह्नलक्ष्यौ सदंगुलीयोगविधानदृश्यौ ।

निम्नोन्नतं तत्र तलं प्रदिष्टं सत्र्यंगुलागुष्ठविभासमानं ॥

ऋज्वायतस्यत्वितिमार्ग एष पर्यकसंस्थस्य विशेष उक्त

उत्सेधमूर्ध्वात्परिणाहकार्ध तावत्सुपर्यकमवस्थितं स्यात् ॥

सुबाहुयुग्मांतरिते प्रदेशे तुर्यागुल चांतरमाहुरन्ध्रे ।

प्रकोष्ठकात्कूर्परमूलवद्ध सद्वयंगुल सन्निपुणौर्विधेयं ॥

नासाग्रदत्तेक्षणमुग्रतादिदोषैरपेत जिनबिमर्हम् ।

अंगाधिके हीनतनौ प्रकर्तुर्नाशाय स्यादत एव यत्न ॥

विस्तारतोऽस्य प्रथुत समीहा चेच्छ्रवकाचारत ऊहनीय ।

न मृत्तिकाकाष्ठविलेपनादिजात जिनेन्द्रै प्रतिपूज्यमुक्त ॥

अर्थ : कायोत्सर्ग प्रतिमा एक सौ आठ भाग प्रमाण है वह इस प्रकार है मुखमंडल गोलाकार बारह भाग प्रमाण, ग्रीवा चार भाग, ग्रीवा से हृदय बारह भाग, हृदय से नाभि तक बारह भाग, नाभि से लिंग तक मूलभागपर्यंत बारह भाग, लिंग से गोड़ा (जाघ) तक चौबीस भाग जानु (घुटना) चार भाग, जानु से गुल्फ तक चौबीस भाग, गुल्फ से पादतल तक चार भाग, प्रमाण प्रतिमा शुभ लक्षण से युक्त होती है ।

एक सौ आठ भागो का विशेष विवरण

मस्तक के केशो से लेकर ठोड़ी तक १२ भाग प्रमाण ऊंचा और इतना ही चौड़ा मुख करे । ऊंचाई के तीन भाग करें । उनमें से १ भाग अर्थात् ४ भाग प्रमाण ललाट, दूसरे भाग में ४ भाग प्रमाण नासिका, तीसरे भाग में ४ भाग प्रमाण मुख और ठोड़ी करे ।

ललाट ८ भाग प्रमाण चौड़ा, ४ भाग प्रमाण ऊंचा करे । अष्टमी के चन्द्रमा समान ललाट करना । ललाट के ऊपर उष्णीश चोटी तक ५ भाग प्रमाण केश करे । उसके ऊपर दो भाग प्रमाण किंचित् ऊंची गोल चोटी करे । चोटी से ग्रीवा के पिछले भाग तक ५ भाग प्रमाण केश करे । इस प्रकार ललाट से चोटी तक १२ भाग रखे । पीछे केश से चोटी तक १२ भाग प्रमाण रखे । मस्तक के उभय पार्श्वों में ४-४ भाग प्रमाण चौड़े (धनुष के आकार मध्य में मोटे दोनों ओर अग्रभाग में कृश) शख नाम के दो हाड़ करे । ललाट के ४ भाग प्रमाण नीचे ४॥ भाग प्रमाण लम्बे दोनों भवारे करे । आदि में १॥ भाग प्रमाण चौड़ा १/४ (पाव भाग) प्रमाण चौड़ा अन्त में करे । ३ भाग प्रमाण लम्बी नेत्रों की सफेदी कमल पुष्पदल के समान करे । सफेदी के मध्य में १ भाग प्रमाण श्याम तारा करे । तारा के मध्य १/३ भाग प्रमाण गोल छोटी श्याम तारिका करे । भ्रुकुटी के मध्य से लेकर नीचे की ओर वाफुणी (विरौनी) तक ३ भाग प्रमाण आंखों की चौड़ाई करे । नासिका के मूल में २ भाग प्रमाण दोनों नेत्रों का अंतराल करे । ऊपर नीचे के दोनों ओर २-२ भाग प्रमाण लम्बे और १-१ भाग प्रमाण ऊंचे (मोटे) करें । ४ भाग प्रमाण मुख फाड़ करे । मुख के मध्य में २ भाग प्रमाण ओठों को खुला करे और १-१ भाग प्रमाण दोनों बगले मिली हुई करे । नासिका के नीचे और ऊपर के ओठ के मध्य में १/२ भाग प्रमाण लम्बी १/३ भाग प्रमाण चौड़ी नाली करे । १ भाग प्रमाण लम्बी, १/२ भाग प्रमाण मोटी सृक्किणी (ओंठ की वाम-दक्षिण बगले) करे । २ भाग प्रमाण चौड़ी, २ भाग प्रमाण लम्बी ठोड़ी करे । २ भाग प्रमाण मोटा

हनू (गाल के ऊपर के समीप का हाड़) करे । हनू के मूल से चिबुक (गालो के नीचे कानो के पास तक का हाड़) का अतराल ८ भाग प्रमाण करे । ४ भाग प्रमाण लम्बे २ भाग प्रमाण चौड़े कान करे । ४ भाग प्रमाण पास (कान के मध्यवर्ती कडीनस के आगे परनाली रूप खाल) लबी करे । पास के ऊपर की वर्तिका (गोट) १/४ भाग प्रमाण करे । १/२ भाग प्रमाण कर्ण का छिद्र मध्य मे यव नालिका के समान करे । ४॥ भाग प्रमाण नेत्र और कान का अन्तराल करे । दोनो कानो का अतराल आगे १८ भाग प्रमाण पीछे १४ भाग प्रमाण हो । इस प्रकार कर्णों के समीप मस्तक की परिधि ३२ प्रमाण और ऊपर के मस्तक की परिधि १२ भाग होना चाहिए । हाथ, कोहनी का विस्तार १६/३ भाग प्रमाण और उसकी परिधि १६ भाग प्रमाण करे । कोहनी से पौचा तक चूड़ा उतार से बाहु करे । भुजा का मध्यभाग १३/३ भाग प्रमाण और उसकी परिधि १४ भाग प्रमाण करे । पौचे का विस्तार ४ भाग प्रमाण और उसकी परिधि १२ भाग प्रमाण करे । पौचे से मध्यमागुलि पर्यन्त १२ भाग प्रमाण करे । मध्यमागुलि ५ भाग प्रमाण और मध्यामागुलि से अर्ध अर्ध पर्वहीन तर्जनी और अनामिका करे । अनामिकागुलि से १ पर्वहीन कनिष्ठकागुलि करे । पौचें से लेकर कनिष्ठिका के ५ भाग प्रमाण अन्तराल करे । तर्जनी तथा मध्यमा के प्रमाण से कनिष्ठिका की मोटाई अर्धभाग कम करे अगुष्ठ मे दो पर्व करे । अगुष्ठ की परिधि ४ भाग प्रमाण करे । शेष चारो अगुलियों मे ३-३ पर्व करे । अर्ध पर्व समान पौचो ही अगुलियो मे नख करे । हथेली ७ भाग प्रमाण लम्बी और ५ भाग प्रमाण चौड़ी करें । हथेली की मध्य परिधि १२ भाग प्रमाण करें । अगुष्ठ मूल और तर्जनी के मूल का अन्तराल २ भाग प्रमाण करे । भुजा गोल सधि जोड़ से मिली गोड़ा तक लम्बी करें । अगुलियो को मिलाप युक्त स्निग्ध ललित, उपचय सयुक्त शख, चक्र, सूर्य, कमलादि उत्तम चिन्हो से युक्त करे । वक्षस्थल २४ भाग चौड़ा करे । पीठ सहित वक्षस्थल की परिधि ५६ भाग प्रमाण हो वक्षस्थल के मध्य मे श्रीवत्स का चिन्ह हो । मय भुजा के वक्षस्थल ३६ भाग प्रमाण करे । दोनो स्तनो का मध्य अतराल १२ भाग प्रमाण हो । स्तनो की चूचिया २ भाग प्रमाण वृत्तकार हो, चूचियो के मध्य में १/४ भाग प्रमाण वीटलिया हो । वक्षस्थल से नाभि तक १२ भाग प्रमाण अतराल होना चाहिए ।

उदर एवं नाभि -

वक्षस्थल से नीचे और नाभि से ऊपरी भाग को उदर करते है । नाभि का मुख १ भाग प्रमाण चौड़ा हो नाभि दक्षिणावर्त रूप मे गोल मनोहर शख के मध्य भाग समान करे ।

पेडू -

नाभि के मध्य से लेकर लिंग के मूल तक ८ भाग प्रमाण में पेडू करें। उसमें आठ रेखाएं करें। १८ भाग प्रमाण चौड़ी कटि उसकी परिधि ४८ भाग प्रमाण हो। तिकूणा (वैटक का हाड़) ८ भाग प्रमाण विस्तीर्ण हो। दोनों कूल्हे ६ भाग प्रमाण गोल हो स्कंध के सूत से गुदा पर्यन्त ३६ भाग लंबा और आधा भाग मोटा रीढ़ का हाड़ हो।

लिंग -

४ भाग प्रमाण लम्बा मूल में दो भाग प्रमाण मोटा मध्य में १ भाग मोटा अन्त में १/४ भाग लिंग हो। सर्वत्र अपनी मोटाई के प्रमाण से तिगुनी परिधि हो।

पोते -

दोनों पोतों को आम की गुठली के समान चढ़ाव उतार रूप में ५-५ भाग लम्बे ४ भाग चौड़े पुष्ट रूप में बनावें।

जांघ -

दोनों जांघों को २४-२४ भाग प्रमाण पुष्ट बनावें दोनों जांघे मूल में ११-११ भाग मध्य में ९-९ भाग अंत में ७-७ भाग चौड़ी रखे। इनकी परिधि सर्वत्र अपनी अपनी मोटाई से तिगुनी होना चाहिए।

घुटना -

जांघों से नीचे और पीड़ियों से ऊपर मध्य में ६ भाग चौड़े ४ भाग लम्बे दोनों घुटने रखें।

पीड़ी -

घुटनों से नीचे टिकून्या तक लम्बी २४-२४ भाग प्रमाण दोनों पीड़ियां बनावें। दोनों पीड़ियां मूल में ७-७ भाग मध्य में ६-६ भाग अंत में टिकून्या के पास १३/३, १३/३ चौड़ी रखे। परिधि सर्वत्र तिगुनी हो।

टिकून्या -

दोनों पगों की चारों टिकून्यों को १-१ भाग प्रमाण करें परिधि तिगुनी हो।

चरण -

दोनों पगों के चरण तलों को १४-१४ भाग प्रमाण लम्बे करें। टिकून्यों से अंगुष्ठ के अग्र भाग तक १२ भाग प्रमाण लम्बाई हो। टिकून्यों के पीछे एड़ी को २ भाग रखें।

एड़ी नीचे २ भाग बगल में कुछ कम मध्य में ऊंची गोल हो परिधि ६ भाग प्रमाण हो । अंगुष्ठ ३ भाग लम्बा मध्य में २ भाग तथा आदि अन्त में कुछ कम चौड़ा हो । प्रदेशिनी ३ भाग लम्बी हो । मध्यमा प्रदेशिनी से एक भाग का सोलहवा भाग कम करे अर्थात् ३३/१६ भाग लम्बी हो मध्यमा से अनामिका कुछ और कम एक भाग का आठवां भाग छोटी अर्थात् १७/८ भाग लम्बी हो । अनामिका से कनिष्ठिका को कुछ और कम अर्थात् ११/४ भाग लम्बी हो ।

चारों ही अंगुलिया १-१ भाग प्रमाण मोटी और तिगुनी परिधि की हो अगूठों में दो दो पर्व और चारों अंगुलियों में ३-३ पर्व करे । अंगुष्ठ का नख १ भाग, प्रदेशिनी का नख १/२ भाग और शेष अंगुलियों के नख अनुक्रम से कुछ-कुछ कम रखें । पादतली को एड़ी के पास ४-४ भाग मध्य में ५-५ भाग अंत में ६-६ भाग प्रमाण चौड़ी बनावे । चरण युगल एक समान पुष्ट बनावे । शंख, चक्र, अकुश, कमल, यव, छत्र आदि शुभ चिन्हों से सयुक्त चरण बनावें । इस प्रकार कायोत्सर्ग प्रतिमा बनाना चाहिए ।

अंग चिन्हों का माप

ललाट	४ अंगुल	गुह्यस्थान से जानु (घुटना)	२४ अंगुल
नासिका	४ अंगुल	घुटना	४ अंगुल
मुख	४ अंगुल	घुटना से पैरों की गुल्फ	२४ अंगुल
गर्दन	४ अंगुल	(गांठ)	
गला से हृदय	१२ अंगुल		
हृदय से नाभि	१२ अंगुल	गांठ से पैर तक	४ अंगुल
नाभि से गुह्य स्थान	१२ अंगुल		
योग	५२ अंगुल	योग	५६ अंगुल

इस प्रकार कायोत्सर्ग प्रतिमा एक सौ आठ (१०८) अंगुलप्रमाण मानी गई है ।

पद्मासन प्रतिमा का स्वरूप^(१)

बैठी हुई प्रतिमा की दाहिनी जांघ एवं पिण्डी के ऊपर बाया हाथ और बाया चरण रखना और बायी जांघ और पिण्डी के ऊपर दाहिना चरण और दाहिना हाथ रखना चाहिये । इस आसन को पद्मासन कहते हैं ।

पद्मासन प्रतिमा का माप ललाट से गुह्यस्थान तक ५२ अंगुल कायोत्सर्ग प्रतिमा के अनुसार ही होता है एवं घुटना ४ अंगुल कुल ५६ अंगुल नाप माना गया है

किन्ही आचार्यों ने इसे कायोत्सर्ग प्रतिमा का आधा ५४ अगुल भी माना है ।

दाहिने घुटने से वाम कक्षा तक, वाम घुटने से दाहिने कक्षा तक, पलौटी ऊपर केश तक, पलौटी के एक घुटने से दूसरे घुटने तक यह चारो भाग समान भाग हो इसको समचतुष्क संस्थान कहते हैं ।

प्रक्षालन का जल निकलने का स्थान चरण चौकी के ऊपर रखे नाभि से लिंग ८ भाग नीचे होना तभी पानी का निकास लिंग के नीचे से होगा । तब प्रतिमा शुद्ध बनेगी । दोनो हाथो की अगुलियो और पेडू मे ४ भाग अतराल रखे, उदर से स्कंध पर्यन्त क्रम से हानि रूप २ भाग प्रमाण अन्तर रखे । इस प्रकार प्रतिमा का निर्माण कराना तब प्रतिमा शुद्ध बनेगी ।

अरिहंत प्रतिमा (१)

सल्लक्षणं भावविवृद्धिहेतुकं संपूर्णशुद्धावयवं दिगम्बरम् ।
सत्प्रातिहार्यैर्निजचिह्नभासुरं संकारयेद्विंबमथार्हतः शुभम् ॥

इस प्रकार अरिहत का बिंब संपूर्ण अगोपांग विशुद्ध, दिगम्बर स्वरूप अष्टप्रातिहार्य सयुक्त तथा अपने चिन्ह से युक्त जानना चाहिए ।

सिद्ध प्रतिमा (१)

सिद्धेश्वराणां प्रतिमाऽपि योज्या तत्प्रातिहार्यादिविना तथैव ।
आचार्यसत्पाठकसाधुसिद्धक्षेत्रादिकानामपि भाववृद्धयै ॥

प्रातिहार्य बिना सिद्ध प्रतिमा बनवाना । आचार्य, उपाध्याय, व साधु की प्रतिमा भी आगम प्रमाण बनवाये । सिद्धक्षेत्र आदि की प्रतिमा भी योग्य है ।

प्रतिमा का फल (२)

आयु श्री बल जयदा दारुमयीमृण्मयी तथा प्रतिमा ।
लोकहितायमणिमयी सौवर्णी पुष्टिदा भवति ॥
रजतमयी कीर्तिकरी प्रजाविवृद्धि करोति ताम्रमयी ।
भूलाभं तु महान्तं शैलीप्रतिमाथवा लिंगम् ॥

लकड़ी और मिट्टी की प्रतिमा आयु, श्री, बल और विजय देती है मणि की प्रतिमा लोगो के हित के लिये होती है । सोने की प्रतिमा पुष्टि को देती है । चाँदी की प्रतिमा यश को करती है । तांबे (धातु) की प्रतिमा सन्तान की वृद्धि करती है । पत्थर की प्रतिमा अत्याधिक भूमि का लाभ करती है ।

(१) आ. ज. से, प्र. पा. पृष्ठ ४३ श्लोक १८० - १८१ (२) व. मि. वृ. सं. पृष्ठ ४०० श्लोक ४ एव ५

हीनांग प्रतिमा का फल (१)

प्रतिमा की नाक वक्र (टेड़ी) हो तो	दुःखकारक
प्रतिमा के अवयव छेटे हो तो	क्षयकारक
प्रतिमा के विकृत नेत्र हो तो	नेत्रविनाशक
प्रतिमा का छेटा मुख हो तो	भोगविनाशक
प्रतिमा की कटि (कमर) हीन हो तो	आचार्यनाशकारक
प्रतिमा की जघा हीन हो तो	पुत्रमित्रविनाशक
प्रतिमा का हीन आसन हो तो	ऋद्धिनाशकारक
प्रतिमा के हीन हाथ और चरण हो तो	धनक्षयकारक
प्रतिमा का ऊर्ध्वमुख हो तो	धननाशकारक
प्रतिमा की गर्दन वक्र (टेड़ी) हो तो	स्वदेशनाशकारक
प्रतिमा का अधोमुख हो तो	चिन्ताकारक
प्रतिमा का ऊचा नीचा मुख हो तो	विदेशगमन
प्रतिमा का विषम आसन हो तो	व्याधिकारक
प्रतिमा अन्याय के धन से निर्मित हो तो	दुष्कालकारक
प्रतिमा न्यूनाधिक अंगवाली हो तो	स्व-पर पक्ष को कष्ट
प्रतिमा रौद्र रूप वाली हो तो	प्रतिमा निर्माता का नाश
प्रतिमा अधिक अगवाली हो तो	शिल्पीकार का नाश
प्रतिमा दुर्बल अगवाली हो तो	द्रव्य का नाश
प्रतिमा पतले उदरवाली हो तो	दुर्भिक्ष कारक
प्रतिमा तिरछी दृष्टिवाली हो तो	अपूजनीय विरोधकारक
प्रतिमा गाढ दृष्टि वाली हो तो	अशुभकारक
प्रतिमा अधोदृष्टि वाली हो तो	विघ्नकारक पुत्रनाश
प्रतिमा ऊची दृष्टि वाली हो तो	भार्या का नाश
प्रतिमा नेत्ररहित हो तो	नेत्रनाशकारक
प्रतिमा बड़े उदरवाली हो तो	उदररोग कारक
प्रतिमा हृदय हीनाधिकवाली हो तो	हृदयरोग कारक
प्रतिमा हीनकम्पावाली हो तो	पुत्रनाशकारक

विशेष -

नासाग्रहृष्टि और क्रूरतादि १रौद्र २कृशाग ३सक्षिप्ताग ४चिपिटनासिका ५विरूपक

नेत्र ६हीनमुख ७महोदर ८महाहृदय ९महाअंस १०महाकटी ११महपाद १२हीनजंघा (शुष्क जघा) इन बारह दोष रहित जिनबिब पूजने योग्य है और अंगहीन व अंग अधिक हो तो कर्त्ता अर्थात् पूजक के नाश के अर्थ होता है। अतः प्रतिमा शास्त्रानुसार ही होना चाहिये। विस्तारपूर्वक कथन, प्रतिष्ठा ग्रंथ एवं श्रावकाचार से विचार करना और मृत्तिका, काष्ठ और चित्राम आदि का जिनबिब पूज्य नहीं कहा है।^(१)

खण्डित प्रतिमा फल (२)

प्रतिमा के नख खण्डित हो	शत्रुभयकारक
प्रतिमा की अगुली खण्डित हों	देशविनाशकारक
प्रतिमा की बाहु खण्डित हो	बंधनकारक
प्रतिमा की नासिका खण्डित हो	पुत्रनाशकारक
प्रतिमा के चरण खण्डित हो	द्रव्यक्षयकारक
प्रतिमा का पादपीठ खण्डित हो	स्वजननाश
प्रतिमा का चिन्ह खण्डित हो	वाहननाश
प्रतिमा का परिकर खण्डित हो	सेवकनाश
प्रतिमा का छत्र खण्डित हो	लक्ष्मीनाश
प्रतिमा का श्रीवत्स खण्डित हो	सुख का नाश
प्रतिमा के वग्न खण्डित हों	बंधु का नाश

प्रतिमा माप पर विशेष विचार (३)

प्रतिमा समागुल माप की स्थापित नहीं करना चाहिए।

एक अंगुल की प्रतिमा श्रेष्ठ है।

दो अंगुल की प्रतिमा धन नाश कारक

तीन अंगुल की सिद्धि कारक।

चार अंगुल की दुख कारक

पाँच अंगुल की धनधान्ययश कारक

छह अंगुल की उद्वेग कारक,

सात अंगुल की पशुवृद्धि कारक,

आठ अंगुल की हानि कारक,

नौ अंगुल की पुत्रादि वृद्धिकारक,

दस अंगुल की धन का नाश करने वाली,

ग्यारह अंगुल की इच्छित कार्य की सिद्धि करने वाली है।

इससे प्रतिमा विषम माप की बनवाना और गृह चैत्यालय में ग्यारह अंगुल से अधिक मापवाली प्रतिमा विराजमान नहीं करना। गृह - चैत्यालय में मल्लिनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान नहीं करना। किंतु इक्कीस तीर्थकरों की प्रतिमा गृह मंदिर में शांतिकारक, पूजनीय एवं वंदनीय है।

(१) आ. ज. से., प्र. श्लोक १८३ (२) ठ. फे., वा. सा. प्र. गाथा ४४ से ५१ (३) श्री उमास्वामी श्रावकाचार, श्लोक १०१ से १०३, ठ. फे., वा. सा. प्र. गाथा ४३

दीवार में लगी प्रतिमा का फल (१)

दीवार के साथ लगा हुआ ऐसा जिनबिब और उत्तम पुरुष की मूर्ति सर्वथा अशुभ मानी गयी है। अतः दीवार से या दीवार के अदर कोई मूर्ति विराजमान नहीं करना चाहिए।

चौबीस जिनालय एवं प्रतिमाओ की स्थापना (२)

चौबीस जिनालय वाला मंदिर बनवाना हो तो बीच के मुख्य मंदिर के सामने, दाहिनी और बायी तरफ इन तीनों दिशाओ में आठ-आठ वेदियों मंदिर के भीतर निर्मित करना चाहिए और सिंहद्वार (प्रमुख द्वार) के दक्षिण दिशा से (अपनी बायी ओर से) क्रमशः ऋषभदेव आदि जिनेश्वरो के पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर इस क्रम से बिम्ब स्थापन करना चाहिए।

प्राचीन प्रतिमा का शुभाशुभ फल (३)

१- जो प्रतिमा एक सौ वर्ष से पहले स्थापित की हो वह यदि विकलाग (बेडौल) हो अथवा खण्डित हो तो भी वह प्रतिमा पूजना चाहिए पूजा का फल निष्फल नहीं जाता।

२- मुख, नाक, नयन, नाभि और कमर इन अंशों में से कोई अंग खण्डित हो जाय तो मूलनायक रूप में स्थापित प्रतिमा का त्याग करना चाहिए। किंतु परिकर चिन्ह भंग हो तो पूजन कर सकते हैं। दोष नहीं है।

३ - प्रतिष्ठते पुनर्बिम्बे सस्कारं स्यान्न कर्हिचित् ।

सस्कारे च कृते कार्या प्रतिष्ठा तादृशी पुनः ॥

संस्कृते तुलते चैव दुष्टस्पृष्टे परीक्षिते ।

हृते बिम्बे च लिंगे च प्रतिष्ठा पुनरेव हि ॥

प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति का संस्कार करना पड़े, तोलना पड़े दुष्ट मनुष्य का स्पर्श हो जाय, परीक्षा करना पड़े अथवा चोर चोरी कर ले जाय तो फिर उस मूर्ति की पूर्ववत् ही प्रतिष्ठा करना चाहिए (या लघु पंचकल्याणक करें)।^५

(१) ठ. फे., वा. सा. प्र., पृष्ठ १३३ गाथा ४७ (२) वही पृष्ठ १४८ गाथा १६ (३) उमास्वामी श्रावकाचार श्लोक ११०-१११ (४) ठ. फ., वा. सा. प्र. बिम्ब परीक्षा पृष्ठ ९९

प्रतिमा की दृष्टि का प्रमाण (पद्मासन विम्ब) (१)

१- मंदिर के मुख्यद्वार के देहली और उत्तरंग के मध्यभाग का दश भाग करना । जिसमें से नीचे से छह भाग छोड़ और ऊपर से तीन भाग छोड़ना फिर सातवें भाग के दश भाग करें उसमें से सातवें भाग में वीतराग की प्रतिमा की दृष्टि रखना चाहिए ।

२- वसुनन्दि कृत प्रतिष्ठासार के अनुसार -

द्वार का नवभाग करके नीचे के ६ भाग ऊपर के दो भाग छोड़कर बाकी जो सातवां भाग रहा, उसके भी नव भाग करके सातवें भाग पर प्रतिमा की दृष्टि रखना चाहिए ।

३- प्रासाद मण्डन के अनुसार

मंदिर के मुख्य द्वार के आठ भाग करना उनमें से ऊपर का जो सातवां भाग है, उसके भाग आठ करें उसी के सातवें भाग में प्रतिमा की दृष्टि रखना चाहिए । उदाहरण - जैसे द्वार के ६४ भाग किए उनमें से ५५वें भाग पर वीतराग की दृष्टि (गजंश) रखना चाहिए ।

आठ आय के नाम (२)

१ ध्वज २ धूम ३ सिंह ४ श्वान ५ वृष ६ खर ७ गज ८ ध्वांक्ष । इनके नाम के सदृश ही जल जानना । इनमें विषम आय (ध्वज, सिंह, वृष, गज) श्रेष्ठ हैं । सम आय (धूम, श्वान, खर, ध्वांक्ष) अशुभ हैं । इनका फल निम्न प्रकार से जानना ।

ध्वज विभूति बढ़ाता है, धूम सु मृत्यु करेय ।

सिंह सुजयजय करत है, श्वान कष्ट बहु देय ॥

धूम बैल की शुभ करै, खर की पीर बढ़ाय ।

गज की लक्ष्मी देत है, ध्वांक्ष त्याग घर जाय ॥ (३)

द्वार के आठ भाग किए थे उसमें से सातवें भाग के आठ भाग करें, उनमें से

१ भाग की दृष्टि संपत्तिकारक,

२ भाग की दृष्टि मृत्युकारक,

३ भाग की दृष्टि शुभकारक,

४ भाग की दृष्टि कष्टकारक,

५ भाग की दृष्टि कल्याणकारक,

६ भाग की दृष्टि पीड़ाकारक,

७ भाग की दृष्टि लक्ष्मीदायक,

८ भाग की दृष्टि अशुभफलदायक

(१) ठ. फ. वा. सा. प्र. प्रासाद प्रकरण पृष्ठ १३१ गाथा ४४

(२) ठ. फ. वा. सा. प्र. पृष्ठ ३१ गाथा ७२ (३) आ. विद्यानन्द नहारज से प्राप्त

इस प्रकार सातवे भाग के आठो भागो का फल बताया है अतः १,३,५,७ वें भाग में दृष्टि शुभ है बाकी के भाग अशुभ है। अतएव वीतराग की दृष्टि विचार पूर्वक शुभ स्थान में रखना चाहिए। दीवार पर एव द्वार के ऊपर प्रतिमा की दृष्टि नहीं होना चाहिए।

प्रतिमा पर रेखा विचार (१)

हृदय, मस्तक, कपाल, दोनो स्कंध, दोनो कान, मुख, पेट, पृष्ठ भाग, दोनो हाथ, दोनों पांव इत्यादि प्रतिमा के किसी अंग पर अथवा सब अंगो पर नीली या अन्य रंगवाली रेखाएँ हो तो उस प्रतिमा को पण्डित जन छोड़ दे।

उक्त अंगो को छोड़ दूसरे अंगों पर हो तो मध्यम है किंतु खराब चीरा आदि दूषणो से रहित स्वच्छ चिकनी ठंडी अपने वर्ण सदृश रेखा दोष वाली नहीं है। दोष जानने का प्रयोग वेलवृक्ष की छल काजी में पीसकर मूर्ति या पाषाण पर लेप करने से दाग (रेखाएँ) दिखने लगते हैं। (२)

मुहूर्तावली

प्रतिमा निर्माण मुहूर्त (१)

उत्तराणां त्रये पुष्ये रोहिण्यां श्रवणे तथा ।

वारुणे वा धनिष्ठायामार्द्रायां बिम्बनिर्मितिः ॥

अर्थ - तीनों उत्तरा पुष्य रोहणी श्रवण चित्रा धनिष्ठा आर्द्रा नक्षत्रो तथा सोम गुरु शुक्रवारो मे बिब बनवाना श्रेष्ठ है ।

प्रसन्नमनसा कारुं संतर्प्य पुष्यवाससैः ।

ताम्बूलैर्द्रविणैर्यज्वा कारयेन्नेत्रहृत्प्रियम् ॥

गुरुपुष्ये तथा हस्तार्क्यग्नि गर्भोत्सवे शुभान् ।

निमित्तान्नवलोक्येशप्रतिमानिर्मितिः शुभा ॥

अर्थ - पूजक प्रथम प्रसन्न मन करके पुष्य वस्त्र ताबूल और दक्षिणा आदि देकर सिलावट को सतोषित करे तथा अपने नेत्र एव हृदय को सुन्दर लगे ऐसा बिब निर्मित करावे तथा एक गुरुपुष्य योग तथा हस्तार्क योग मे तथा जिस भगवान का बिब बनाना हो भगवान का गर्भकल्याणक दिन निमित्त शुभ सूचक एव देखकर प्रतिमा निर्माण योग्य है ।

भारतीय ज्योतिष

पुष्य, रोहिणी, श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा, आर्द्रा अश्विनी, तीनो उत्तरा, हस्त, मृगशिर, रेवती, अनुराधा, नक्षत्रो मे एव सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार - तथा २,३,५,७,११,१३ इन तिथियो मे प्रतिमा बनावाये ।

प्रतिष्ठा मुहूर्त एवं शुभाशुभ योग^(२)

लग्नस्य शुद्धिमभिधाय सुपंचधाग्यां यां वारयोगतिथिभादिकलग्नशुद्ध्या ।

नैमित्तिकार्थपरिसंकलने पुराणैरुक्तां प्रतिष्ठितिविधौ पुरतो विदध्यात् ॥

भौमं रविं शौरिमपास्य वारान् सर्वे हि शस्याः किल संस्थितौ च ।

सिद्धामृतादिं परियोज्य रिक्ताममां त्यजन् याति सुसौरव्यभावम् ॥

रिक्तास्वथोयोगविशेषसिद्ध्या कार्याणि कुर्यात्सिनिवालिकां च ।

संवर्जयेत्सिद्धियुजं तथापि रुद्रामपि प्रांततिथिं विनेष्टम् ॥

जिनस्य यस्यात्र दिने प्रजातं कल्याणकं तन्नियमेन तत्र ।

तस्यास्तु तत्कार्यमथोत्तरायां पुनर्वसूपुष्यकरश्रवस्सु ॥

(१) आ ज से, प्र पाठ पृष्ठ ४५ श्लोक १८५-१८६

(२) वही, श्लोक १८७ से १९१

अंत्येऽपि रोहिण्यजवाजिषु द्राक् चित्रामघास्वातिभगांगमूलम् ।

कदाचिदंगीकृतमत्र चान्यत् ग्राह्यं सुनक्षत्रमधीतिवाक्यात् ॥

अर्थ- पाच प्रकार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग करण रूप दिनशुद्धि है। उसमें लग्नशुद्धि मुख्य है और पुराण (उत्तम) पुरुषो द्वारा कथित ऐसे दिन में प्रतिष्ठा विधि विधान करे और मंगल रविवार शनिवार को छोड़ सर्व ही वार प्रशस्य है। और सिद्ध अमृत आदि योग उत्तम है। अमावस्या त्याग सुख को प्राप्त होता है, रिक्ता तिथि के दिन भी योग विशेष की शुद्धि हो तो कार्य करे पूर्णिमा वर्जित है और सिद्धि योग भी हो परन्तु एकादशी हो तो वर्जित है तथा मासात तिथि बिना भी इष्ट कहा है। जिन जिनेन्द्र का जिस तिथि में जो कल्याण हुआ हो उस तिथि में वह कल्याणक इष्ट है। उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, श्रवण इनमें और रेवती में, रोहणी अश्विनी में शुभ योग ग्राह्य है। और चित्रा, मघा, स्वाति, भरणी, मूल भी कदाचित्, आवश्यक कार्य में अंगीकार किया है अन्य भी शुभयोगयुक्त नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार ग्रहण करना।

विष्कम्भमूले शरनाडिकाः षट् गंडातिगंडे नववज्रघाते ।

व्ययादिपातं परिधं च सर्वं विवर्जयेद् मुक्तिसुखाभिलाषी ॥

भूकंपदिग्दाहनरेशमृत्युनुद्दिश्य घस्रत्रयमत्र वर्ज्यं ।

चरेषु विष्टिप्रगतेषु नैवं प्रतिष्ठितिं प्रांचति पूज्यलोकः ॥ (१)

विष्कम्भ और मूल में प्रथम पाच घड़ी वर्जित है और गड अतिगड में छह घड़ी, वज्र और घात में नव घड़ी वर्जित है और मुक्ति सुख की वांछ करने वालों को व्यतीपात और परिधि हमेशा ही वर्जित है। धरती का कम्पना, दिशा का दाह, भूपति का मरण आदि के उत्पात में तीन दिन प्रतिष्ठा वर्जनीय है। इस कार्य में चर नक्षत्र विष्टि (भद्रा) योग हो तो सर्वथा वर्जित है।

शुभयोग

सूर्येण वा चन्द्रमसा कुजेनाष्टम्यंकशल्यानि शुभावहानि ।

बुधेन च द्वादशिका द्वितीया गुरुस्पृशो दिक्शरपूर्णिमाश्च ॥

शुक्रेण षष्ठी प्रतिपत्प्रशस्ता चतुर्थिका वा नवमी शनिस्था ।

सिद्धिं तथा चामृतयोगमुच्चैः प्रशस्तमाहुर्मुनयो निमित्तात् ॥ (२)

सूर्यवारकी अष्टमी, सोमवार की नवमी, मंगलवार की तृतीया, बुधवार की द्वादशी, तथा द्वितीया, गुरुवार की दशमी, पचमी, पूर्णिमा हो तो श्रेष्ठ है। शुक्रवार की षष्ठी वा पडिमा शुभ है, और शनिवार को चतुर्थी, नवमी श्रेष्ठ है। इनमें सिद्धियोग अमृतसिद्धियोग हो तो मुनीश्वर निमित्तज्ञान से अति प्रशस्त कहते हैं।

अशुभयोग^(१)

सूर्यादितो वा भरणी च चित्रां तथोत्तराषाढघनिष्ठं च ।
 सद्गुरां फाल्गुनिकां च ज्येष्ठामन्त्यं तथा जन्मभमेव मोच्यम् ॥
 दग्धातिथिः प्रयत्नेन वर्जनीया तथा शुभाः ।
 अमृताख्या श्वात्र योज्याः प्रतिष्ठाया महोत्सवे ॥
 क्रूरासन्ने दूषितोत्पातलूता विद्धाः दुष्टाः पर्वसन्नोपपाताः ।
 वर्ज्याः सर्वेऽसद्ग्रहास्सूर्यबिधोराशिद्रेष्काणर्क्षकांशोऽपि वर्ज्यः ॥

अर्थ- रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ, बुध को घनिष्ठा, गुरुको उत्तराफाल्गुनी शुक्र को ज्येष्ठा, शनि को रेवती हो तो वज्रमुसल अशुभ योग होते हैं यह प्रतिष्ठा में त्याज्य है। तथा जन्म नक्षत्र, दग्धा तिथि, क्रूर, आसन्न, दूषित उत्पात, लूता, विद्ध दुष्ट, सन्न उत्पात योग वर्जित है। तथा राशि द्रेष्काण नक्षत्र संबंधी सूर्य वेध भी वर्जित है। शुभ अमृतादि योग ही प्रतिष्ठादि शुभकार्यों में प्रशस्त माने गये हैं।

लग्नास्तृतीये शिवषट्कदेशे भौमो यमश्चापि शनैश्चरोऽपि ।
 शुभाय सूर्यो दशमोऽपि सौम्यो मुक्त्वाष्टमं द्वादशगं शुभाय ॥
 षष्ठाष्टमं द्वादशकं तृतीयं त्यक्त्वा गुरुः स्याद् शुभदो विधिज्ञः ।
 शुक्रोरसाष्टान्त्यमुनिस्थितोऽसौ न स्याच्छुभोऽन्यत्र शुभाय बोध्यः ॥
 शशी त्रिरुद्रद्वितये प्रशस्तो यदास्तदौर्बल्यमुपागतो न ।
 ताराबलं चात्र विधौ विधेयं त्रिसप्तपंचम्यपराः शुभाय ॥

लग्न में अर्थात् १, ३, ६, ११ स्थान में मंगल राहु, शनि हो तो शुभ है १० वे सूर्य शुभ है। किंतु चन्द्रमा ८वे १२वे स्थान छोड़ सर्वस्थानों में शुभ है और ३, ६, ८, १२ वे स्थान छोड़ गुरु हो ५वे में गुरु श्रेष्ठ है। तथा ६, ८, १२वे स्थान छोड़ शुक्र हो तो शुभ है और चन्द्रमा २, ३, ११ वे स्थान में शुभ है तथा तारा हीनबली हो, अस्त न हो क्योंकि ३, ५, ७वे तारा छोड़ शुभ होता है।

कृष्णे च ताराबलमत्र शुक्ले सुधांशुवीर्यं नियतं मुनीन्द्रैः ।
 जीवेन्दुसूर्योऽस्य बलं प्रधानमन्यद्ग्रहाणामपि निर्बलत्वे ॥

कृष्ण पक्ष में ताराबल प्रशस्त है। शुक्लपक्ष में चन्द्रबल श्रेष्ठ है। यदि अन्य ग्रह निर्बल हो किंतु गुरु चंद्र सूर्य बल को श्रेष्ठ माना है।

प्रतिष्ठामयूख से मुहूर्त

चैत्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठे वा माघवे तथा ।
 माघे वा सर्वदेवाना प्रतिष्ठा शुभदा भवेत् ॥
 पचागतिथिसशुद्धिर्लग्न षट्त्वर्गगोचर ।
 शुभाशुभ निमित्त च लग्नशुद्धिस्तु पचधा ॥
 वारास्तिथिभयोगाश्च करण पचधातिथि ।
 त्यक्त्वा कुज रवि सौरि वारा सर्वेऽपि शोभना ॥
 सिद्धामृतादियोगेषु कुर्यात्तेष्वपि मगलम् ।
 त्यक्त्वा रिक्ताममावस्या सर्वास्तु तिथयः शुभा ॥

प्रतिष्ठा योग्य नक्षत्र (१)

पुनर्वसूत्तरापुष्य हस्तश्रवणरेवती ।
 रोहिण्यश्च मृगर्क्षेषु प्रतिष्ठा कारयेत्सदा ॥

अमृत सिद्धियोग (२)

रविवार - हस्त, पुनर्वसु, पुष्य	सोमवार - मृगसिर, रोहणी
मंगलवार - अश्विनी, रेवती	बुधवार - अनुराधा, शतभिषा
गुरुवार - उत्तरात्रय, पुष्य	शुक्रवार - श्रवण, रेवती
शनिवार - विशाखा, कृत्तिका, रोहणी, श्रवण	

इन वारो मे यह नक्षत्र अमृतसिद्धियोग सजक है

भारतीय ज्योतिष, केवलज्ञान प्रश्न चूडामणि, लग्नचन्द्रिका, मुहूर्तचक्रावली, ज्योतिषसार, मुहूर्तचितामणि, वास्तुरत्नावली, मुहूर्त गणपति, वृहत्सहिता आदि ग्रंथो के अनुसार

गुरु शुक्रास्त मे वर्जित कार्य (३)

बावड़ी, कुआ, तालाब, यज्ञ करना, यात्रा, मुण्डन, प्रतिष्ठाकार्य, प्रथमव्रतारभ, विद्याध्ययन, मंदिर एव मकान निर्माण, कर्ण छेदन, महादान, गुरुसेवा, विवाह कार्य, हवन कार्य, मन्त्रोपदेश आदि शुभकार्य नही करना चाहिए ।

मलमास में वर्जित कार्य

बावड़ी, कुआ, तालाब बनवाना, यज्ञकार्य, देवप्रतिष्ठा, महादान, प्रथमव्रतारंभ आदिकार्य मलमास (अधिक मास) में नहीं करना। (प्रथम मास का शुक्ल पक्ष द्वितीय मास का कृष्ण पक्ष मलमास माना है एव प्रथम मास के कृष्ण पक्ष द्वितीय मास के शुक्ल पक्ष को शुद्ध मास माना है)।

शुभकार्यों में वर्जित हैं (१)

जन्म का नक्षत्र, जन्म का महीना, जन्मतिथि, व्यतीपातयोग, भद्रातिथि, अमावस्या, क्षयतिथि, वृद्धि तिथि, क्षयमास, अधिकमास, कुलिकयोग प्रहरार्द्ध, वारबेला, दग्धातिथि आदि अशुभयोग, महापात, यह सब शुभ कार्यों में वर्जित है। तथा विष्णुभ और वज्र योग की आदि की ३ घड़ी, शूलयोग की ५ घड़ी, गण्ड, अतिगण्ड की ६ घड़ी, व्याघात की ९ घड़ी त्यागना चाहिए। तथा सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण और १३ दिन वाला पक्ष वर्जित है।

भद्रानिवास (२)

मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक के चन्द्रमा में स्वर्ग में शुभ कन्या, मकर, धन, तुला के चन्द्रमा में पाताल में शुभ कर्क, सिंह, कुम्भ, मीन के चन्द्रमा में मर्त्यलोक अशुभ

इस प्रकार भद्रा निवास माना है शुभ कार्यों में भद्रा विचार आवश्यक है। भद्रा का फल इस प्रकार है स्वर्ग की भद्रा शुभ है, पाताल की भद्रा धन प्राप्त कराती है। मर्त्यलोक की भद्रा अशुभ है इसको शुभ कार्य में बचाना चाहिये। दिनार्द्ध के बाद भद्रा शुभ होती है।

मास, पक्ष, तिथि नक्षत्र से अशुभयोग

चैत्र	- कृ० शु० ८, ९ तिथि	- रोहिणी अश्विनी नक्षत्र
वैशाख	- कृ० शु० १२ तिथि	- चित्रा, स्वाति नक्षत्र
ज्येष्ठ	- कृ० १४ शु० १३ तिथि	- उत्तराषाढ, पुष्य नक्षत्र
आषाढ	- कृ० ६ शु० ७ तिथि	- पूर्वा फाल्गुनी, धनिष्ठा नक्षत्र
श्रावण	- कृ० शु० २, ३ तिथि	- उत्तराषाढ श्रवण नक्षत्र
भाद्रपद	- कृ० शु० १, २ तिथि	- शतभिषा, रेवती नक्षत्र
अश्विन	- कृ० शु० १०, ११ तिथि	- पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र
कार्तिक	- कृ० ५ शु० १४, तिथि	- कृत्तिका, मघा नक्षत्र

मार्गशीर्ष - कृ० शु० ७, ८ तिथि

- चित्रा, विशाखा नक्षत्र

पौष - कृ० शु० ४, ५ तिथि

- आर्द्रा, अश्विनी हस्त नक्षत्र

माघ - कृ० ५ शु० ६ तिथि

- श्रवण, मूल नक्षत्र

फाल्गुन - कृ० ४ शु० ३ तिथि

- भरणी ज्येष्ठा नक्षत्र

मास शून्य तिथि एवं नक्षत्रों में विद्यारंभ, गृहनिर्माण, वेदी प्रतिष्ठा, बिब प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य और प्रतिमा के नाम से चन्द्रमा देखना चाहिए। इनकी राशि से ४, ८, १२वां चन्द्रमा वर्जित है।

जैन ज्योतिष के अनुसार उदयतिथि ६ घड़ी या अधिक हो तो मान्य है, यदि कम हो तो पहिले दिन व्रत करना चाहिए। यदि जैन तिथि दर्पण या पंचांग में दो तिथि हों तो पहिले दिन की तिथि मान्य होती है, किन्तु यह देखलें कि उस दिन तिथि कितनी है। यदि ६ घड़ी से कम हो तो दूसरे दिन की तिथि मानना चाहिए।

शुभ कार्यों में त्याज्य दग्ध लग्न

तिथि	१	३	५	७	९	११	१३
लग्न	तुला	मकर	मिथुन	धन	कर्क	धन	मीन
	मकर	सिंह	कन्या	कर्क	सिंह	मीन	वृष

कुलिक योग (शुभ कार्यों में त्याज्य है)

तिथि	७	६	५	४	३	२	१
वार	रवि	चन्द्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि

दग्ध तिथि (शुभ कार्यों में त्याज्य है)

सूर्य	मीन	वृष	मेघ	कन्या	सिंह	मकर
	धन	कुम्भ	कर्क	मिथुन	वृश्चिक	तुला
तिथि	२	४	६	८	१०	१२

अशुभयोगचक्र

क्रमांक	योग नाम	तिथि नक्षत्र	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
१	चरयोग	नक्षत्र	पूर्वाषाढ़ उषा	आर्द्रा	विशाखा	रोहणी	शतभिषा	मघा	मूल
२	क्रकच योग	तिथि	१२	११	१०	९	८	७	६
३	दग्ध योग	तिथि	१२	११	५	३	६	८	९
४	विशाख्य योग	तिथि	४	६	७	२	८	९	७
५	हुताशन योग	तिथि	१२	६	७	८	९	१०	११
६	यमघट योग	नक्षत्र	मघा	विशाखा	आर्द्रा	मूल	कृत्तिका	रोहणी	हस्त
७	दग्ध योग	नक्षत्र	भरणी	चित्रा	उत्तरा षाढ़	धनिष्ठा	उत्तरा फाल्गुनी	ज्येष्ठा	रेवती
८	उत्पात योग	नक्षत्र	विशाखा	पूर्वा षाढ़	धनिष्ठा	रेवती	रोहणी	पुष्य	उत्तरा फाल्गुनी
९	मृत्यु योग	नक्षत्र	अनु राधा	उत्तरा षाढ़	शत- भिषा	अश्विनी	मृगसिर	अश्लेषा	हस्त
१०	काण योग	नक्षत्र	ज्येष्ठा	अभि जित	पूर्वभाद्र पद	भरणी	आर्द्रा	मघा	चित्रा
११	काल योग	नक्षत्र	भरणी	आर्द्रा	मघा	चित्रा	ज्येष्ठा	अभिजित	पूर्व भा०

अशुभयोगचक्र

क्रमांक	योग नाम	तिथि नक्षत्र	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
१२	वज्र मुसल	नक्षत्र	भरणी	चित्रा	उत्तरा षाढ	धनिष्ठा	उत्तरा फाल्गुनी	ज्येष्ठा	रेवती
१३	शत्रु योग	नक्षत्र	भरणी	पुष्य	उत्तरा षाढ	आर्द्रा	विशाखा	रेवती	शतभिषा
१४	अवला योग	तिथि	१२ आर्द्रा	११ मृगशिर	० -	२ रोहणी	० -	० -	५ कृत्तिका
१५	यमल योग	तिथि नक्षत्र	० -	० -	२ मृगशिर	० -	७ चित्रा	० -	१२ धनिष्ठा
१६	सर्वत योग	तिथि	७	०	०	१	०	०	०
१७	यमदृष्ट योग	नक्षत्र	मघा धनिष्ठा	मूल विशाखा	कृत्तिका भरणी	पूर्वाषाढ पुनर्वसु	उत्तराषाढ अभिजित	रोहणी अनुराधा	श्रवण धनिष्ठा
१८	मृत्युयोग तिथि	तिथि	१,६,११	२,७,१२	१,६,११	३,८,१३	४,९,१४	२,७,१२	५,१०,१५ ३०
१९	अधम योग	तिथि	१२	११	१०	३	६	२	७
२०	राक्षस योग	नक्षत्र	शतभिषा	अश्विनी	मृगशिर	अश्लेषा	हस्त	अनुराधा	उत्तराषाढ
२१	वज्रपात योग	तिथि नक्षत्र	२ अनुराधा	३ तीनो उत्तरा	५ मघा	६ रोहणी	७ मूलहस्त	-	-

१३ को चित्रा एव स्वाति, ७ को भरणी, ९ को पुष्य, १० को अश्लेषा, ८ को पू भाद्रपद हो तो वज्रपात होता है अतः त्याज्य है।

२२- तिथि नक्षत्र से अशुभ योग

कालमुखी	तिथि	४	५	९	३	८
	नक्षत्र	तीनो उत्तरा	मघा	वृत्तिका	अनुराधा	रोहणी

२३- मृत्यु योग तिथि नक्षत्र से^(१)

तिथि	नक्षत्र
१ ६ ११	मूल, आर्द्रा, स्वाति, चित्रा, अश्लेषा, रेवती वृत्तिका, शतभिषा
२ ७ १२	पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी
३ ८ १३	मृगशिर, श्रवण, पुष्य, अश्विनी, भरणी ज्येष्ठा
४ ९ १४	पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, विशाखा, अनुराधा, मघा, पुनर्वसु
५ १० १५	हरत, धनिष्ठा, रोहणी

इन तिथियो मे यह नक्षत्र मृतक समान है अत इनमे नान्दी, प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्य नहीं करना

२४- सूर्य दग्धा तिथि

सूर्य	तिथि	सूर्य	तिथि
घन, मीन	२	मिथुन, कन्या	८
मेष, कर्क	६	सिंह वृश्चिक	१०
वृष, कुम्भ	४	तुला, मकर	१२

यह तिथिया शुभ कार्यो मे वर्जनीय है ।

(१) ठ फे, वा सा प्र, पृष्ठ २३३

२५ चन्द्रदग्धा तिथि

चन्द्रमा	तिथि	चन्द्रमा	तिथि
कुंभ, धन	२	मकर, मीन	८
मेष, मिथुन	४	वृष, कर्क	१०
तुला, सिंह	६	कन्या, वृश्चिक	१२

यह तिथिया शुभ कार्यों में वर्जनीय है।

वार तिथि एवं नक्षत्र से अशुभयोग

वार	तिथि	एवं	नक्षत्र
रविवार	तिथि - ६ ७ ११ १२ १४		शतभिषा, भरणी, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मघा
सोमवार	तिथि - ७ ११ १२ १३		विशाखा, चित्रा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, अभिजित्, आर्द्रा, अश्विनी
मंगलवार	तिथि - १ १० ११		पूर्वभाद्रपद, उत्तराषाढ, मघा, आर्द्रा, धनिष्ठा, शतभिषा
बुधवार	तिथि - १ ३ ८ ९ १३ १४		शतभिषा, मूल, धनिष्ठा, अश्लेषा, रेवती, अश्विनी, भरणी, चित्रा
गुरुवार	तिथि - २ ७ १२ ४ ६ ८		शतभिषा, कृत्तिका, रोहणी, मृगसिर, आर्द्रा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा
शुक्रवार	तिथि - २ ३ ४ ७ ९ १४		रोहणी पुष्य, अश्लेषा, मघा, अभिजित्, ज्येष्ठा
शनिवार	तिथि - ५ ६ ७ १० १५		रेवती, उत्तराषाढ, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ, मृगसिर, पूर्वभाद्रपद

वार नक्षत्र एवं वार तिथि से शुभयोग

	योग	रवि	चन्द्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
१	सिद्ध योग	मूल	श्रवण	उत्तरा भाद्रपद	वृत्तिका	पुनर्वसु	फूलफा०	स्वाति
२	सर्वार्थ सिद्धि योग दुष्टतिथि	हस्तमूल पुष्य अश्विनी तीनो उत्तरा १ ३ ७	श्रवण रोहणी मृगसिर अनुराधा पुष्य २, ११	अश्विनी उ०भा० वृत्तिका अश्लेषा ३, ९, १२	रोहणी अनुराधा हस्त वृत्तिका मृगसिर ७, ९, ११	रेवती अश्विनी अनुराधा पुष्य पुनर्वसु ---	अनुराधा रेवती अश्विनी पुनर्वसु श्रवण ---	श्रवण रोहणी स्वाति ११, १३
३	अमृत सिद्धयोग विषयोग तिथि	हस्त पुष्य पुनर्वसु ५	रोहणी मृगसिर ६	अश्विनी रेवती ७	अनुराधा शतभिषा ८	पुष्य तीनो उत्तरा ९	रेवती श्रवण १०	श्रवण रोहणी विशाखा वृत्तिका ११
४	आनन्द योग	अश्विनी	मृगसिर	अश्लेषा	हस्त	अनुराधा	उत्तरा षाढ	रेवती शतभिषा
५	तिथि सिद्धियोग	--	--	३, ८, १३	२, ७, १२	५, १० १५ ३०	१, ६ ११	४, ९ १४
६	अमृत योग	५ १० १५, ३०	५, १० १५, ३०	२, ७ १२	१, ६ ११	३, ८ १३	४ ९ १४	१, ६ ११
७	सिद्धियोग	३, ८ १३	१, ६	३, ८ १३	२, ७ १२	५, १० १५	१, ६ ११	४, ९ १४
८	रत्नाकुल योग	३, ८, १३	१, ६	४, ९, १४	५, १० १५, ३०	२, ७, १२	५, १५ १०, ३०	३, ८, १३

३, ६ - आ व न प्र सा स ७ - लोक विजयपचाग स २०४४ पृष्ठ ४
८ चित्ताहरण जत्री सन् १९८८, शेष - ज्योतिष मुहूर्त विज्ञान

तिथि वार एवं नक्षत्र से शुभयोग

१. रविवार	तिथि - १ - ८ - ९ हस्त, पुनर्वसु, सेती, मृगशिर, तीनों उत्तरा पुष्य, मूल, अश्विनी, घनिष्ठा
२. सोमवार	तिथि - २ - ९ मृगशिर, रेहणी, अनुराधा, उत्तराफल्गुनी, हस्त श्रवण, शतभिषा, पुष्य
३. मंगलवार	तिथि - ३ - ६ - ८ - १३ अश्विनी, सेती, उत्तराभाद्रपद, मूल, विशाखा, उत्तराफल्गुनी, वृत्तिक, मृगशिर, पुष्य, अश्लेषा
४. बुधवार	तिथि - २ - ७ - १२ अनुराधा, श्रवण, ज्येष्ठा, पुष्य, हस्त, वृत्तिक, रेहणी, पूर्वाषाढ, उत्तराफल्गुनी
५. गुरुवार	तिथि - ५ - १० - ११ - १५ पुष्य, अश्विनी, पुनर्वसु, पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढ, फु० भा० अश्लेषा, घनिष्ठा, सेती, स्वाति, विशाखा, अनुराधा
६. शुक्रवार	तिथि - १ - ६ - ११ - १३ सेती, अश्विनी, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, अनुराधा, मृगशिर, श्रवण घनिष्ठा, पूर्वाफल्गुनी, पुनर्वसु
७. शनिवार	तिथि - ४ - ८ - ९ - १४ रेहणी, श्रवण, घनिष्ठा, अश्विनी, स्वाति, पुष्य, अनुराधा, मघा, शतभिषा

शुभाशुभ विशेष योग चक्र

क्रमांक	नामयोग	रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	फल	त्याज्य घड़ी
१	आनंद	अश्विनी	मृगसिर	अश्लेषा	हस्त	अनुराधा	उत्तराषाढ	शतभिषा	सिद्धि	०
२	कालदंड	भरणी	आर्द्रा	मघा	चित्रा	ज्येष्ठा	अभिजित्	पू० भा०	मृत्यु	सर्व
३	धूम्र	कृत्तिका	पुनर्वसु	पू०फा	स्वाति	मूल	श्रवण	उ० भा०	दुःख	आदि १ घड़ी
४	प्रजापति	रोहणी	पुष्य	उ० फा	विशाखा	पू पा	घनिष्ठा	रेवती	सौभाग्य	०
५	सौम्य	मृगसिर	अश्लेषा	हस्त	अनुराधा	उ पा	शतभिषा	अश्विनी	सुख	०
६	ध्याक्ष	आर्द्रा	मघा	चित्रा	ज्येष्ठा	अभिजित्	पू भा	भरणी	घनक्षय	आदि ५
७	द्वज	पुनर्वसु	पू फा	स्वाति	मूल	श्रवण	उ भा	कृत्तिका	सौभाग्य	०
८	श्रीवत्स	पुष्य	उ फा	विशाखा	पू पा	घनिष्ठा	रेवती	रोहणी	संपत्ति	०
९	वज्र	अश्लेषा	हस्त	अनुराधा	उ पा	शतभिषा	अश्विनी	मृगसिर	क्षय	आदि ५
१०	मुद्गर	मघा	चित्रा	ज्येष्ठा	अभिजित	पू भा	भरणी	आर्द्रा	लक्ष्मीनाश	५
११	छत्र	पूर्वा फा	स्वाति	मूल	श्रवण	उ भा	कृत्तिका	पुनर्वसु	राज्यसन्मान	०
१२	मित्र	उ फा	विशाखा	पू पा	घनिष्ठा	रेवती	रोहणी	पुष्य	पुष्टी	०
१३	मानस	हस्त	अनुराधा	उ पा	शतभिषा	अश्विन	मृग०	अश्लेषा	सौभाग्य	०
१४	पद्माख्य	चित्रा	ज्येष्ठा	अभिजित	पू भा	भरणी	आर्द्रा	मघा	घनप्राप्ति	आदि ४
१५	लुपक	स्वाति	मूल	श्रवण	उ भा	कृत्तिका	पुनर्वसु	पू पा	घनक्षय	" ४
१६	उत्पात	विशाखा	पू पा	घनिष्ठा	रेवती	रोहणी	पुष्य	उ फा	प्राणनाश	सर्व
१७	मृत्यु	अनुराधा	उ पा	शतभिषा	अश्विन	मृगसिर	अश्लेषा	हस्त	मृत्यु	सर्व
१८	यागणाख्य	ज्येष्ठ	अभिजित	पू भा	भरणी	आर्द्रा	मघा	चित्रा	यत्नेश	आदि २
१९	सिद्धि	मूल	श्रवण	उ भा	कृत्तिका	पुनर्वसु	पू०फा०	स्वाति	कार्यसिद्धि	०
२०	शुभ	पू पा	घनिष्ठा	रेवती	रोहणी	पुष्य	उ फा	विशाखा	कल्याण	०
२१	अमृत	उ पा	शतभिषा	अश्विन	मृग०	अश्लेषा	हस्त	अनुराधा	राज्यसन्मान	०
२२	मुसल	अभिजित	पू भा	भरणी	आर्द्रा	मघा	चित्रा	ज्येष्ठा	घनक्षय	आदि २
२३	गदाख्य	श्रवण	उ भा	कृत्तिका	पुनर्वसु	पू फा	स्वाति	मूल	अविद्या	६
२४	मातंग	घनिष्ठा	रेवती	रोहणी	पुष्य	उ फा	विशाखा	पू पा	कुलवृद्धि	०
२५	राक्षस	शतभिषा	अश्विन	मृगसिर	अश्लेषा	हस्त	अनुराधा	उ०पा०	कष्ट	सर्व
२६	घर	पू०भा०	भरणी	आर्द्रा	मघा	चित्रा	ज्येष्ठ	अभिजित	सिद्धि	आदि २
२७	स्थिर	उ भा	कृत्तिका	पुनर्वसु	पू फा	स्वाति	मूल	श्रवण	गृहारम्भ	०
२८	प्रवर्धमान	रेवती	रोहणी	पुष्य	उ०फा०	विशाखा	पू पा	घनिष्ठा	वियाह	०

१ - रवियोग (१)

सूर्यजिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से दिन का नक्षत्र ४, ६, ९, १०, १३, २० हो तो रवियोग होता है। यह सब प्रकार से सिद्धिकारक है। किंतु सूर्य नक्षत्र से दिन का नक्षत्र १, ५, ७, ८, ११, १५, १६ हो तो प्राणो का नाश करने वाला है। इसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।

२ - कुमारयोग

मंगल, बुध, सोम, और शुक्र इनमें से कोई एक वार एवं अश्विनी, रोहणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, विशाखा, मूल, श्रवण, पूर्वभाद्रपद इनमें से कोई एक नक्षत्र तथा १, ५, ६, १०, ११, कोई एक तिथि हो तो कुमार नाम का शुभ योग होता है। यह योग मित्रता, दीक्षा, व्रत, विद्या, गृहप्रवेशादि कार्यों में शुभ है।

परन्तु मंगलवार को १० तिथि, पूर्वभाद्रपद नक्षत्र, सोमवार को ११ तिथि, विशाखा नक्षत्र, बुधवार को ९ तिथि, मूल व अश्विनी नक्षत्र, शुक्रवार को १० तिथि, रोहणी नक्षत्र हो तो उस दिन कुमार योग भी होता हो तो शुभकारक नहीं है, क्योंकि इन दिनों में कर्क, संवर्तक, काण, यमघण्ट, आदि अशुभ योग होते हैं।

३ - राजयोग

मंगल, बुध, शुक्र, और रवि इनमें से कोई एक वार को भरणी, मृगशिर, पुष्य, पूर्वाफाल्गुणी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ, धनिष्ठा और उत्तराभाद्रपद इनमें से कोई एक नक्षत्र तथा २, ३, ७, १२, १५, इनमें से कोई एक तिथि हो तो राजयोग शुभकारक है।

४ - स्थिरयोग

गुरुवार या शनिवार को ४, ८, ९, १३, १४ इनमें से कोई एक तिथि, कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, स्वाति, उत्तराफाल्गुनी, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ, शतभिषा, रेवती इनमें से कोई एक नक्षत्र हो तो शुभकारक स्थिरयोग होता है। शुभ कार्यों में यह श्रेष्ठ है।

५ - त्रिपुष्करयोग

मंगल, गुरुवार, या शनिवार को २, ७, १२ तिथि, कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, पूर्वभाद्रपद, उत्तराषाढ नक्षत्र हो तो शुभकारक त्रिपुष्कर योग होता है।

६ - द्वितीय त्रिपुष्कर योग (मुहूर्त ज्योतिष विज्ञान)

रवि, मंगल गुरु शनि इनमें से कोई एक वार १, २, ६, ७, ११, १२ तिथि, विशाखा, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वभाद्रपद, पुनर्वसु, कृत्तिका, उत्तराषाढ नक्षत्र हो तो शुभकारक द्वितीय त्रिपुष्कर योग है।

७ - यमलयोग

मंगल, गुरुवार या शनिवार को २, ७, १२ तिथि मृगसिर, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र हो तो यमल योग होता है

८ - द्विपुष्कर योग (मूहूर्त ज्योतिष विज्ञान)

रवि, मंगल गुरु, शनि को १, २, ६, ७, ११, १२ तिथि, मृगसिर, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र के योग से द्विपुष्कर योग होता है। यह शुभ कार्यों में श्रेष्ठ है।

९ - पंचकयोग

धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद रेवती ये नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। इनमें मृतक कार्य एवं दक्षिण गमन वर्जित है।

विशेष

त्रिपुष्कर, यमल, पंचक योगों में जो शुभ या अशुभ कार्य किए जाते हैं, वह क्रम से द्विगुना, तिगुना, पाच गुना तक फल देते हैं। जितने शुभ या अशुभ योग बताये हैं उन्हें प्रत्येक मुहूर्त में देखना आवश्यक है। धार्मिक या लौकिक कार्य शुभयोग में गुरु और शुक्र के अस्तकाल एवं मलमास को बचाकर करना चाहिए।

अशुभयोगों का परिहार (१)

- १ तिथि और वार के योग से, तिथि और नक्षत्र के योग से, नक्षत्र और वार के योग से तथा तिथि, वार, नक्षत्र इन तीनों के योग से जो अशुभ योग होते हैं वे सब उड़ीसा, बंगाल, नेपाल देशों में वर्जनीय हैं, अन्यत्र नहीं। फिर भी अशुभ योग में कार्य नहीं करना चाहिए।
- २ अशुभ योग के दिन यदि शुभ योग (रवि, राजयोग, कुमारयोग) हो तो अशुभयोग का नाश करके सिद्धि कारक होते हैं।
- ३ लग्न शुद्धि से कुयोगों का फल नाश होता है। अतएव लग्न शुद्धि पर विशेष विचार आवश्यक है।
- ४ दुष्टतिथि, दुष्टवार, अशुभयोग, विष्टि (भद्रा) जन्म नक्षत्र और दग्धतिथि यह सब मध्याह्न के बाद अवश्य ही शुभ होते हैं।
- ५ तिथिवार और नक्षत्र से उत्पन्न होने वाले जो अशुभ योग कहे गये हैं वे सब बलवान् ग्रह युक्त लग्न में कभी समर्थ नहीं होते अर्थात् यदि लग्न बल ठीक है तो वहाँ कुयोगों का दोष नहीं होता।

सिद्धयोगों का अशुभ फल

अमृत योग और सिद्धि योग दोनो जिस दिन साथ पड़ जावें तो वह दिन दुष्ट हो जाता है। जैसे मधु और घृत समान मात्रा में विष बन जाता है। कोई कहते हैं कि सिद्ध योग के साथ अमृत योग का विषाक्त प्रभाव ६ घड़ी (२ घटा २४ मिनट) तक रहता है, बाद में शुभ हो जाता है। किंतु तत्कालीन लग्न बलशुद्धि समस्त कुयोगो को नाशकर शुभ फल प्रदान करता है।

शिलान्यास मुहूर्त (१)

तीनो उत्तरा, रोहणी, मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाति इन नक्षत्रों में कार्य प्रारंभ करना और पुष्य तीनो उत्तरा, रेवती, रोहणी हस्त, मृगशिर, श्रवण इन नक्षत्रों में शिलान्यास करना। ईशान कोण में वास्तु विधान पूर्वक पंचरत्न, स्वर्ण, रजत, शिला, ताम्रकलश, दीपक आदि को एकत्रित करके कारीगर का सम्मान करके धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक शिला स्थापित करना चाहिए।

मंदिर की नींव का मुहूर्त

मूल, अश्लेषा, विशाखा, कृतिका, तीनो पूर्वा, भरणी मघा इन नक्षत्रों में मंगल, बुधवार को नींव खनन करना चाहिए। नींव खनन के समय राहु सन्मुख न हो पृष्ठ में हो तो ध्यान पूर्वक पृष्ठ १६ पर लिखे "राहु विचार" को देखकर कार्य प्रारंभ करना चाहिए।

वेदी निर्माण मुहूर्त

रोहणी, मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, स्वाति - तीनो उत्तरा ये नक्षत्र, तिथि २, ३, ५, ७, ११, १३, वार रवि, चन्द्र, बुध गुरु, शुक्र इनमें वेदी का निर्माण करना चाहिए।

मण्डप निर्माण मुहूर्त

नक्षत्र - मृगशिर, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, श्रवण तीनों उत्तरा। तिथि - २, ५, ७, ११, १२, १३ वार - चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र

प्रतिष्ठा नक्षत्र

मघा, मृगशिर, हस्त, तीनों उत्तरा, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनर्वसु, रोहणी, स्वाति, धनिष्ठा यह नक्षत्र शुभ हैं। तिथि - शुक्ल पक्ष की १, २, ५, १०, १३, १५। कृष्णपक्ष की १, २, ५, १०। गुरुवार, सोम, बुध, शुक्र यह वार शुभ माने हैं।

संवत्सर अयन एवं मास शुद्धि

सिंहस्थ गुरु के वर्ष को छोड़कर वर्ष, मास, दिन, नक्षत्र और मंगलवार को छोड़कर दूसरे वार इन सबकी शुद्धि जैसे - विवाह कार्य में देखते हैं। उसी प्रकार प्रतिष्ठा कार्य में भी देखना।

गृह प्रवेश, बिम्ब की प्रतिष्ठा, विवाह, मुण्डन, यज्ञोपवीत व्रत आदि शुभ कार्य उत्तरायण सूर्य में करना। दक्षिणायन सूर्य में नहीं करना। चैत्र पौष और अधिक मास सूर्य ग्रहण तथा चन्द्र ग्रहण एव १३ दिवसीय पक्ष को छोड़कर मार्गशीर्ष माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ मास शुभ हैं। किंतु गुरु शुक्र की बाल, वृद्ध दशा न हो और अस्तकाल भी नहीं हो।

क्रूर तिथि यंत्र (चन्द्रमा राशि) से विचार करना

मेष १ - ५	कर्क ४ - ५	तुला ८ - १०	मकर १२ - १५
वृष २ - ५	सिंह ६ - १०	वृश्चिक ९ - १०	कुम्भ १३ - १५
मिथुन ३ - ५	कन्या ७ - १०	धन ११ - १५	मीन १४ - १५

इन क्रूर तिथियों में शुभ कार्य वर्जित है। उक्त राशि पर सूर्य, मंगल, शनि या राहु आदि कोई पापग्रह हों वे तब क्रूर तिथि मानना अन्यथा नहीं मानना।

ग्रह - मैत्री (ग्रहों का स्वाभाविक मित्र बल) ^(१)

रवि	चन्द्र	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	गृहदशा
चन्द्र		सूर्य		सूर्य			
मंगल	सूर्य	चन्द्र	सूर्य	चन्द्र	बुध	बुध	मित्रगृही
गुरु	बुध	गुरु	शुक्र	मंगल	शनि	शुक्र	
बुध	म गु शु श	शुक्र शनि	मंगल बुध शनि	शनि	मंगल गुरु	गुरु	समगृही
शुक्र शनि	०	बुध	चन्द्र	बुध शुक्र	सूर्य चन्द्र	सूर्य चन्द्र मंगल	शत्रुगृही

(१) ठ फे, वा. सा प्र पृ २११, श्लोक १४-१५

कौन वार में प्रतिष्ठा शुभ है (१)

रविवार की प्रतिष्ठा प्रभावशाली होती है। सोनवार की प्रतिष्ठा दुःखल मंगलकारी। मंगलवार की अग्निदाहकारक, बुधवार की मनवांछित फलदायक, गुरुवार की वृद्ध (स्थिर) शुक्रवार की आनन्ददायक, शनिवार की कल्पपर्यन्त अर्थात् सूर्य एवं चन्द्र जब तक हैं, तब तक स्थिर रहने वाली है। अतः मंगलवार को विम्ब प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिये।

लग्नशुद्धाशुद्धि विचार

- १ लग्न से ग्यारहवें स्थान में समस्त ग्रह शुभ होते हैं। ३, ८ वें स्थान में सूर्य, एवं शनि शुभ हैं, २, ३, स्थान में चन्द्रमा, ३, ६ स्थान में मंगल २, ३, ४, ५, ६, ९, १० स्थानों में बुध व गुरु २, ३, ४, ५, ९, १० स्थानों में शुक्र ३, ५, ६, ८, ९, १०, १२ स्थानों में राहु शुभ माना है।
- २ रवि, मंगल, शनि, राहु एवं शुक्र यदि सप्तम स्थान में रहें तो स्थापना करने वाले आचार्य का, गृहस्थ का तथा प्रतिमा का भी शीघ्र विनाश होता है।
- ३ लग्न से ३, ६, १०, ११, स्थानों में रवि २, ३, ६, ९, १०, ११ स्थानों में चन्द्रमा ३, ६, ११ स्थानों में मंगल व शनि, १, २, ३, ४, ५, ९, १०, ११ स्थानों में शुक्र और ८, १२ स्थान छोड़कर शेष स्थानों में बुध एवं गुरु हो तो श्रेष्ठ है। अतएव लग्नशुद्धि के साथ ही शुभ कार्य करना चाहिए।
- ४ रवि, मंगल, शनि, राहु, केतु यदि १, ८, ५, ७ स्थानों में हो ८ स्थान में शुभग्रह हो एवं १, ६, ८ स्थान में चन्द्रमा हो तो वह लग्न प्रतिष्ठा में त्यागने योग्य है।

लग्न चक्र (२)

द्वि स्वभाव	मिथुन, कन्या, धन, मीन	उत्तम
स्थिर	वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ	मध्यम
चर	मेष, कर्क, तुला, मकर	अधम

(१) ठ. फे. वा. सा. प्र. पृ. २१०, उद्धरणरत्नमाला श्लोक १२ (२) ठ. फे., वा. सा. प्र. पृ. २३५

बिम्ब प्रवेश नक्षत्र (बिम्ब स्थापना)

शतभिषा, पुष्य, घनिष्ठा, मृगशिर, तीनो उत्तरा रोहणी, चित्रा अनुराधा, रेवती, नक्षत्र । चन्द्र, गुरु शुक्रोदय मे शुभ है । शुभ तिथि और शुभवार मे वेदी पर बिम्ब स्थापन करना शुभ है । बिम्ब स्थापना मध्यान्ह के पूर्व ही करना चाहिए ।

प्रतिष्ठाकारक को अशुभ नक्षत्र

जन्म नक्षत्र १०, १६, १८, २३, २५, यह नक्षत्र प्रतिष्ठा कराने वाले यजमान के बचाना चाहिए ।

स्वयंफलप्रद तिथियां

चैत्रशुक्ला १, वैशाखशुक्ला ३, अश्विन शुक्ला १०, कार्तिक शुक्ला १ आषाढा, आषाढशुक्ला ९, फाल्गुन शुक्ला २ दीपावली की प्रदोष वेला, तीर्थकरो के कल्याणको की तिथिया शुभ है ।

वर्गबल विचार

अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग, आठ वर्ग है । उनके स्वामी अवर्ग का गरुड़, कवर्ग का विलाव, चवर्ग का सिंह, टवर्ग का श्वान, तवर्ग का सर्प, पवर्ग का मूषक, यवर्ग का हिरन, शवर्ग का मीढा (बकरा) है अपने वर्ग से पचम शत्रु है । चौथा मित्र, तीसरा सम है, प्रतिमा के चिन्ह पर विचार करना ।

प्रतिष्ठा दोष (१)

अर्थहीनाऽथ कर्तारं मंत्रहीना तु ऋत्विजम् ।

श्रियं लक्षणहीना तु ना प्रतिष्ठा समो रिपुः ॥

अर्थ (द्रव्य) हीन प्रतिष्ठा यजमान का, मंत्रहीन प्रतिष्ठाचार्य का, लक्षण हीन प्रतिष्ठा, लक्ष्मी का नाश करती है और विधि हीन प्रतिष्ठा विनाशकारिणी होती है ।

प्रतिष्ठा महाद्योग (२)

इत्थं मुहूर्त परिशोध्य सम्यक् राजाज्ञया संघ निमंत्रणार्थं,
विधानकृत्यरफुट् लेखनांका प्रेष्या पुरःपत्रविनीत रज्जूः ।

आदिष्टिनं सदसि पूज्यविचार्यकार्यमात्सर्यसंशयितनिस्त्रपवाक्यहीनं,
पत्रं लतांतमलयादिभिरर्च्यदूरादामंत्रयेद्, गुणवतो बहुमानपूर्वं ॥

सहायन् ब्राह्मण्ये विधिवदतिथीन् कल्पनिरतान् मरुत्त्वन्तं सन्तं प्रकृतिविरतं कोशनिरतं ।
परं चान्यं सत्रे सदसि विनयुंज्याद्यजनभृद् धृतौदार्याशंसु प्रथम पठितार्हच्छ्रुतनुतिः ।

(१) बृहद वारस्तुमाला पृ १७८ श्लोक ३५ (२) आ. ज. से प्र पाठ, पृ ४९ श्लोक २०३ से २०६

गुरुं नत्वा पृच्छेद्यजनसमनीतांबुधितटं परिप्राप्तुं कामो मुनिवरनिमित्तानि कथयन् ।
तदुद्देशे सम्यक् प्रणिधिनिहतात्मप्रतिभया स चाप्यालोकेत् श्रितविजनदेशोपवसनः ।

शकुनावधारण (१)

भूमौ विधाय परिकर्मचतुष्कमध्ये चक्रं सुकूर्मविधिना परिभाव्य रम्यम् ।
देवांशसंस्थितिवता खलु सिद्धचक्रं मंत्रं यथोक्तविधिना परिजल्पनीयम् ।
स्वप्ने स्वरांगर्क्षविधाविधिज्ञः प्रातर्जिनाराधनसंस्तवं च ।
वृत्त्वोपदिश्येत यथाध्वरीयं शुभाशुभं यन्निशि लोक्यमानम् ॥

गोहस्तिशार्दूलमुनीश्वराणां चन्द्रार्यमाम्भोनिधिकल्पभाजाम् ।
शालेयमुक्ताफलपर्वतानां सौरव्याय दृष्टिः शयने नितान्तम् ॥

समाप्तिकाले मनुजल्पनस्य वामाशुभांका निजनाडिकेष्टा ।
आरंभकाले खलु दक्षिणाचार्या स्वस्थस्य निर्णीतिवृत्तो जनस्य ॥

बाहोः परिस्पृर्तिस्त्रो नितंबतुंदस्तनानामपि सौख्यपात्रम् ।
धत्ते तु नित्यं विपरीतपक्षः स्यादेतदंगस्फुरणे निमित्तम् ॥

लग्ने विचार्ये सति कुंभवर्ज्य षष्ठाष्टमे चन्द्रमसा वियुक्ते ।
धर्मे गुरो तदृशिनापि युक्ते वीर्ये तनौ वा बलवत्प्रदिष्टे ॥

तैलसर्पधरणीधरकंममाक्षिकात्तनुकूपनिपाताः ।
यद्यशुद्धशकुनेक्षणलब्धी शांतिकर्म विदधीत तदानीम् ॥

कूर्म चक्र (२)

लक्ष	क ख ग घ ङ			च छ ज झ ञ
श ण स ह	अं अः	अ आ	इ ई	ण ङ ठ ड
	ओ औ	जप स्थान	उ ऊ	
	ए ऐ	लृ लृ	ऋ ॠ	
य र ल व	प फ ब भ म			त थ द ध न

(१) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक २०७ से २१३ (२) वही, पृष्ठ ११९

यदि स्वप्न मे बैल, हाथी, सिंह, मुनि, चन्द्रमा, सूर्य, समुद्र, कल्पवृक्ष, चावल, मोती, पर्वत दिखे तो शुभ है। यदि तेल, सर्प, पर्वतो का कपन, शरीर पर मधुमक्खी लगना, कुआँ में गिरना आदि अशुभ स्वप्न दिखे तो धरती पर चावल से कूर्मचक्र बनाकर निम्न मंत्रों का जाप करे।

- (१) जाप मंत्र - ओ ह्री अनाहत सिद्धचक्राधिपतये ह्रां ह्री हूं ह्रौ हः स्वाहा
 (२) ओं ह्रां ह्री हूं ह्रौ ह्रः, श्रीसिद्धिचक्राधिपतयेऽष्टगुणसमृद्धाय फट् स्वाहा
 (१०८ बार जाप करना।)

मंदिर एवं यज्ञ स्थल की शुद्धि (१)

मनोज्ञवर्णासुरसा विशाला कार्कश्यवल्मीकशिलादिवर्ज्या।
 दग्धादिदोषैरहिता जलाद्यारामादिसस्था धरिणी प्रशस्ता ॥

अहो धरायामिह ये सुराश्च क्षमतु यज्ञाधिकृति ददतु।

प्रीतिपुराणा बहुवासयोगात् क्षितावतोऽस्मद्विनिवेदनव ॥

तद्द्वादशांशेषु जिनेन्द्रगर्भगृह तु मध्ये परिकल्पनीयम्।

तत्प्राचि सन्मण्डलमुन्नताग क्रियाकलापोचितमाविधेयम् ॥

प्रेक्षागृह साधनिकागृह तु तदग्रभूमावपि सव्यपार्श्वे।

होमाहवनीयोद्धरण सुदक्षे पार्श्वे सभा प्रश्नकृता मनोज्ञा ॥

आचार्यशक्रस्थितिरस्य पृष्ठे स्नानासनादीनि तदतिकेच।

तथोत्तरस्या जननोत्सवादि दीक्षावन ज्ञानविभूतिसद्म ॥

नृत्यालयादि स्वकयोग्यभूमौ विकल्पनीय परिणाहभागे।

गर्भालयात्पश्चिमदिग्विभागे सामग्रिका कल्पनमग्रभागे ॥

सप्रेष्यकानामपि नृत्यगीतमताडव पुण्यविधानदक्षम्।

मार्गाविदूरा किल दानशाला सद्भेषजागारमपि क्रियावत् ॥

निस्तारकेधर्मनिरूपण च पृच्छश्रुतोद्धोषणवाचनादि।

गर्भोत्सवे मातृजनोपवेश पृथग्गृपागारनिवेशन च ॥

वेदी निर्माण विचार (२)

एव विधिज्ञस्तु यथानुरूप देशोचित सविदधीत युक्त्या।

गर्भालये स्थापनमीश्वराणा वेदी त्रिभूरूर्ध्वविशालमध्या ॥

तदग्रवेदीचतुरस्रकाष्ठकरप्रमाणा सुकुमारिकाभि।

सुवासिनीभिश्च सुलिप्यमाना सन्मृत्स्नया चित्रविचित्रशोभा ॥

(१) आ ज से, प्र पा श्लोक २१४ से २२१ (२) आ ज से, प्र पा. श्लोक २२२ से २२९

अपक्वपक्ववैष्टिकसनिवेशा दृढा सिता दर्पणवत्समाना ।
 अत स्थितै षोडशभिर्लसद्भिः स्तभैर्वितानोद्ग्रथितै प्रयुक्ता ।
 वेद्या कोणे हस्तिहस्तोच्चवेदस्तभान् दद्याद् बह्निदिक्त् सचूडान् ।
 प्रादक्षिण्यात् पचमाश तु भूमौ दद्यादेव षोडशस्तभसस्था ॥
 वेदी चतुर्विधातत्र चतुरस्रा च पद्मिनी, श्रीधरी सर्वतो भद्रा दीक्षासु स्थापनादिषु ।
 चतुरस्रा चतु कोणा वेदी सौख्यफलप्रदा, केचिच्चैत्य प्रतिष्ठाया पद्मिनी पद्मसंनिभा ॥
विशेषः-

वेदिया चार प्रकार की है १ चौकोर, २ कमल के आकार पद्मनी,
 ३ अर्द्धचन्द्राकार श्रीधरी, ४ आठ खूट की सर्वतोभद्रा ।
 सो दीक्षा मे प्रतिष्ठा मे आवश्यकतानुसार उपयोग करना ।

प्रतिष्ठासारोद्धार मे कथन है कि चौकोर वेदी यदि अनुकूल नहीं हो अर्थात् प्रतिष्ठा पात्रो की संख्या अधिक हो तो जितनी वेदी की चौड़ाई हो उससे डेढ गुनी लम्बाई वाली वेदी बनाना शुभ मानी है । पचकल्याणक मे चौकोर, जन्मकल्याणक मे अर्द्धचन्द्राकार, दीक्षा कल्याणक मे सर्वतोभद्र, ज्ञान कल्याणक मे पद्मिनी वेदी का उपयोग करे ।

जिनालय, वेदी एवं यज्ञवेदी के शिलान्यास पर विचार

भूमि परीक्षण के पश्चात् यदि वह स्थान अनुकूल हो तो भूमि शुद्धि करके पीछे दिए गए 'मंदिर निर्माण मुहूर्त' के अनुसार शुभ लग्न मे कार्य प्रारम्भ करना । भूमि सुप्त नक्षत्र का ध्यान आवश्यक है । उसे बचाकर नीव खनन का कार्य प्रारंभ करना । और "वृष वास्तुचक्र" के अनुसार कार्य करना ।

भूमि सुप्त नक्षत्र ज्ञान (१)

सूर्य के नक्षत्र से जिस दिन मुहूर्त कराना हो उस दिन के नक्षत्र तक गिनें भूमि सुप्त नक्षत्र मे आवे तो नीव नही खोदना चाहिए ।

सूर्य नक्षत्र से ५, ७, ९, १२, १९, २६ इन नक्षत्रो मे भूमि की सुप्त अवस्था होती है इन्हे बचाकर कार्य करना चाहिए ।

वृषवास्तुचक्र सूर्यभात्

नक्षत्र	अंग	फल	नक्षत्र	अंग	फल
३	मस्तक	अग्निभय	४	दक्षिणकोख	लाभदायक
४	अगले चरण	शून्यता	३	पूछ	स्वामीनाश
४	पिछले चरण	स्थिरता	४	वाम कोख	दरिद्रता
३	पीठ	लक्ष्मी लाभ	३	मुख	पीड़ाकारक

चक्रानुसार ७ अशुभ ११ शुभ और १० अशुभ है, इसलिए भूमि सुप्त नक्षत्र, चक्र के अशुभ नक्षत्रों को त्यागकर मुहूर्त विचार करना आवश्यक है।

पंचकल्याणक पत्रिका

ओ ह्री अनन्तानन्तपरमसिद्धेभ्यो नमः ।

स्वस्ति श्री सम्प्रतिकालश्रेयस्करस्वर्गावतरणजन्माभिषवणपरिनिष्क्रमण केवलज्ञान -
निर्वाणविभूषितानासिद्धविद्याधाममहाराजमण्डलीकमुकुटबद्धबलवेशव ।

सार्वभौमादिकल्पज्योतिष्क दानवोरगेन्द्र किरीटमणिगणप्रभाव्योमापगाप्रवाहप्रक्षालित
नखकिरणचन्द्रिका प्रतिहतपापान्धकाराणा चतुर्विंशति तीर्थकराणा भवनै पवित्रिते
घरातले, हाटककल कल ध्वजा पताकादि विराजिते, स्फटिकपद्मरागमणिजडितभित्तिस्त
भवेदिकालकृते, सुरासुरमानवाद्यर्चितोत्तमसप्तधातुनिर्मितप्रतिमा सुशोभिते,
वर्णाश्रमसमधिष्ठाने, श्रीमद्वैयाकरण काव्यकोष सिद्धान्त तर्कादिसमस्तशास्त्रपारग
वद्वज्जनसमाकीर्णे, विकशादिन्दीवरबहुविधकल्हारराजकेलिलोलकलहस
चक्रवाकादिकलरवाकुलविमलशीतलसलिल ललित कासार भूषिते मद सुगंध
समीरणान्दोलित पादपोपविष्टशुकपिकमयूरकपोतादिपक्षीगण रवकूजतोपवन सुसज्जिते,
शुभस्थाने नगरे, निवसतो नम देवेन्द्रचक्रमुकुटतटसमारोपितरत्नप्रभोद्योतक
भगवच्चरणारविद-दर्शनाभिलाषिन्श्चतुर्विध धर्मपरायणा नष्टमदत्रिमूढताष्टदोषविवर्जितान्,
साष्टागसम्यग्दर्शन-धारकान् द्वाविंशतिगुणपालकान्, सम्यक्त्वपचभूषणभूषितान्
श्रीजिनप्रासाद-प्रतिमाप्रतिष्ठासघतीर्थयात्रागुरु पदस्थापनाद्यनेकशुभकार्य
करणधुरीणानाहारादि-वितरण प्रवर्तितसन्मार्गान्, सिद्धान्तादिशास्त्रपरिशीलनोद्युक्तान्,
सकलप्राणिग-णानुग्रहकरदया धर्मप्रवर्तकान्, धैर्यशौर्यगाभीर्यसौन्दर्याद्यनेकगुण गरिष्ठा,
श्चतु संघोपासकान्, सकलसाधर्मिकजनान्प्रति . प्रान्तातर्गत . ग्रामतो
(नगरतो) मिच्छकारार्थगर्भिता सविनय जुहारेतिगी प्रोल्लसन्तुतरामुभयत्रशामिति,
अपरञ्च श्रीमद्देवाधिदेवजिनेन्द्रपरमात्मा की असीम अनुकम्पा से हमारे भाव
श्रीमज्जिनेन्द्रबिम्ब पचकल्याणकप्रतिष्ठा (गजरथ) महोत्सव कराने के हुए है जिसका
मुहूर्त शुभ मिति तदनुसार दिनाक से तिथि तदनुसार दिनाक पर्यन्त हैं ।

निमंत्रण पत्रिका (२)

स्वस्तिश्रीसाम्प्रत सर्वकल्याणकराणा स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण केवल
ज्ञान निर्वाणेतिपचकल्याणकविभूतिविभूषितानाम् चतुर्विंशतितीर्थकराणांनिलयै पवित्रते,
अतुल धनधान्यादिपरिपूरिते, वीतरागधर्मधारकसज्जनजनास्पदे, श्रीनगरे
विराजमान अनेकगुणगणालकृतस्याद्वादसिद्धान्तदक्षश्रावकोचितषट् कर्मनिरत
चतुर्विधसंघसेवारत धर्मवत्सलश्रीमत योग लिखा . धर्मस्नेहाभिषिक्त
जयजिनेन्द्र बाचियेगा । श्री १००८ मगलोत्तमशरणभूत जिनेन्द्रदेव कुशल मगल करें ।

अपरच . . (कार्य विवरण देकर कार्यक्रम देना ।)

मांगलिक कार्यक्रम

- प्रथमदिवस -** गुरुआज्ञा उपलभन, आचार्यनिमत्रण, मंगलध्वज स्थापन, घट यात्रा, यज्ञवेदिका शुद्धि ।
- द्वितीय दिवस -** मण्डप प्रतिष्ठा, बिम्ब स्थापन, मंगलकलश स्थापन, दीप प्रज्ज्वलन, सकलीकरण, इन्द्र प्रतिष्ठा, नान्दी विधान । याग मण्डल विधान ।
- गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप -** इन्द्र सभा तत्त्व चर्चा, इन्द्रासन कम्पायमान होना, रत्न वृष्टि, मातृसेवा, स्वप्न दर्शन, गर्भकल्याणक क्रिया ।
(अर्घरात्रि मे)
- तृतीय दिवस -** गर्भकल्याणक का उत्तर रूप - महाराज नाभिराय का दरबार, तत्त्वचर्चा, स्वप्न फल, मातृ सेवा, प्रश्नोत्तर ।
- चतुर्थ दिवस, जन्म कल्याणक :**
- जन्मक्रिया, जन्माभिषेक, जन्म सस्कारारोपण, ताण्डव नृत्य पालना, बाल क्रीड़ा ।
- पंचम दिवस, तप कल्याणक -** नाभिराय दरबार, राज्याभिषेक, भेट समर्पण, नीलांजना नृत्य, वैराग्य, दीक्षा, सस्कारारोपण अगन्यास ।
- षष्ठ दिवस- ज्ञान कल्याणक -** आहार विधि अधिवासना, तिलकदान, नयनोन्मीलन, प्राणप्रतिष्ठा, सूरी मंत्र, केवलज्ञानोत्पत्ति, समवशरण रचना ।
- सप्तम दिवस, निर्वाण कल्याणक -** कैलास पर्वत पर ध्यानारूढ़ दर्शन, निर्वाण गमन, सिद्धाराधन सिद्धप्रतिष्ठा, विश्वशांति महायज्ञ, गजरथपरिक्रमा ।
- अष्टमदिवस -** मंदिर वेदी सस्कार, जिनबिम्ब स्थापन, कलशारोहण, ध्वजारोहण, पूर्णाहुति, यज्ञ दीक्षा विधि, समापन मण्डल विसर्जन ।
- अन्य कार्यक्रम आयोजन के अनुसार दिये जावेगे ।

प्रतिमा - प्रशस्ति (प्रथम)

मंगल भगवान् वीरो, मंगल गौतमोऽगणी ।
मंगल कुन्दकुन्दाचार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

ओ नमः सिद्धेभ्य । स्वस्ति श्री महावीर निर्वाणाब्दे . . . विक्रमाब्दे
मासे . . . पक्षे . . . तिथौ . . . वासरे श्री मूलसंघे दिगम्बर जैन
कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतिगच्छे प्रदेशे . . . नगरे (क्षेत्रे)
श्रीमज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक जिन बिम्ब प्रतिष्ठा (गजरथ) महोत्सवे
सान्निध्ये . . . वास्तव्य . . . प्रतिष्ठाचार्यत्वे . . . वास्तव्य . . . अन्वये
. गोत्रोत्पन्न . . . तस्यपुत्रेण . . . प्रतिष्ठापितमिति तेनित्यप्रणमन्ति
. . . श्री दिगम्बर जैन मदिरे (क्षेत्रे) स्थापितमिदं जिनबिम्ब लोककल्याणकारक
भवतु ।

प्रतिमा प्रशस्ति (द्वितीय)

वीराब्दे . . . स० , . . . मासे . . . पक्षे . . . तिथौ वासरे
मूलसंघे कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतिगच्छे नगरे पंचकल्याणक
जिनबिम्ब प्रतिष्ठोत्सवे . . . प्रतिष्ठाचार्येण . . . प्रतिष्ठापितमिति तेनित्य
प्रणमन्ति । शुभं भूयात् ।

प्रतिमा प्रशस्ति (तृतीय)

वीराब्दे . . . स० , . . . मासे . . . तिथौ वासरे
कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये . . . नगरे पंचकल्याणकोत्सवे . . . प्रतिष्ठाचार्येण
प्रतिष्ठापितमिदं बिम्ब शुभ भूयात् ।

मंदिर - वेदी शिला - पाण्डुक शिला प्रशस्ति

श्री वीतरागाय नमः । स्वस्ति श्री मन्महावीर निर्वाणाब्दे विक्रमाब्दे ,
. . . मासे . . . पक्षे . . . तिथिमारभ्य . . . पर्यन्तसुतिथिषु
पंचकल्याणकाभ्यन्तर जन्माभिषवण महोत्सवे . . . तिथौ . . . वासरे श्री दिगम्बर
जैन कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये सरस्वतिगच्छे बलात्कारगणे . . . मण्डलान्तर्गत . . .
ग्रामे (नगरे) . . . वास्तव्य . . . गोत्रोत्पन्न . . . वास्तव्य . . . प्रतिष्ठाचार्यकर कमलेन
. . . (मंदिर वेदी पाण्डुक शिला) स्थाने स्थापितेय पुण्यशालिनी पाण्डुकशिलेति शुभ
भूयात् ।

गुर्वाज्ञालंभन विधि^(१)

प्रातर्गृहीत्वा गुरुपूजनार्घ्यं वादित्रनादोत्वणयात्रया स ।
 गुरुरूपकठे नतमस्तकेन भूमि स्पृशन् वाक्यमुपाचरेत्सत् ॥
 निर्हेतुबधो सुवृत्तानुभावात् सप्राप्तजन्मा सुकुले सुगोत्रे ।
 नरत्वमासाद्य यथार्यदेशे क्षेत्रेऽथ काले जिनधर्ममाप ॥
 न्यायेन पित्रा धनमर्जित मे मह्य प्रदत्त च मयार्जित यत् ।
 तदात्मनीन कतिचिद्विधस्त्रीपुत्राद्यनुज्ञातमुपस्पृशामि ॥
 जानामि लक्ष्मी कुलटा तथाहि स्त्रीपुत्रमित्राणि वियोगभाजि ।
 आयुश्चलनश्वरमेवगात्र वियोगमूला परिषद्विभूति ॥
 चक्रेऽश्वराणा महनीयसपदपेक्षया मे कतिधानुभूति ।
 यथाबुधे कूपजल कियद्वा शक्रकववामे प्रचरत्सहाय ॥
 तथापि मेऽर्हत्सवनाभिलाषा वर्वर्ति हास्यानुपवृहणाय ।
 अतो जनोऽयं भवदाज्ञयैव शास्यो भवेच्चेत्सुकृते समिच्छेत् ॥
 यस्त्रैघहेतु वृत्तकारितानुमोदव्यवस्था प्रसराद्विधत्ते ।
 पुण्याकुर मोक्षफलप्रसूति बिब जिनेन्द्रस्य निवेशनीयम् ॥
 इन्द्रादिभिश्चक्रधरादिभिर्वा न शक्रमिष्टार्थविधानमुच्चै ।
 तत्कल्पना काचिदपि त्वदीयपादाब्जभूगाय निवेदनीया ॥
 पिपासुना सौधसरो निदाघे ग्रीष्माकुलश्चाभ्रतरुदरिद्र ।
 निधि समाश्रित्य सुखी न किं स्यात्तथा भवद्दृष्टिपथानुयायी ॥
 एव विनीतेन समर्थितोऽपि गुरु प्रमाणीकृतसस्तवादि ।
 सामर्थ्यसाकल्यविधि प्रशस्य निश्छद्मना त प्रतिबोधमीयात् ॥
 अहो नितांत जनकोटि मध्ये एकेन धन्येन धनवृषार्थे ।
 वितीर्यते तत्र च सत्प्रतिष्ठा विधौ जिनानामुदये प्रकर्षे ॥
 प्रधानभव्येषु सहस्रकोटिमनस्वित्तेषु विवृद्धमिष्टम् ।
 पुण्याकुर तत्स्वकुलाशुमास्त्व प्रशसनीय किमुवाक्प्रमेदैः ॥
 तुभ्य पर स्वस्ति मयाऽभ्यघायि व्रत गृहाणाखिलकर्मसिद्धये ।
 पूर्व गृहीतेष्वभिवृद्धिपुष्टिर्यथाभवेत्त वुरुतत्तथैव ॥

यावत्प्रतिष्ठासमयावतीर्णो न स्यादपब्रह्म चतुः कषायाः ।
अन्यायभुक्तिर्वसनाशनानां वर्ज्या त्रिकालं समताग्रहेण ॥

अन्यायसर्वस्वकुम्भुक्तिवृत्तसामिथ्याप्रलापादिविमोचनं च ।
पूर्व प्रयोगेष्वतिचारमृष्टिः स्वतस्तवास्त्येव किमर्थमन्यैः ॥

इत्याद्याभिप्रायवशादुदीर्यव्रतग्रहं सद्गुरुणोपदेश्यः ।
मंत्रेण बद्धांजलिमस्तकाभ्यां यज्वेद्रकाभ्यामपरैर्विधार्यः ॥


यजमान गुरुको नमस्कार कर श्री फलादि भेंट कर व्रत ग्रहण करें एवं मंगलकार्य
आरभ करने का आशीर्वाद एवं आज्ञा प्राप्त करें ।

ओंही अर्ह अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुसमक्षकंदृढव्रतंसमारूढंभवतुभवतुस्वाहा ।

प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण विधि

प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य के निवास स्थान पर जाकर प्रार्थना करे कि न्यायपूर्वक
अर्जित किये धन को जिनेन्द्रबिम्ब प्रतिष्ठा में लगाना चाहता हूँ। आपने प्रतिष्ठा कार्यो
को प्रभावना के साथ कराया है, आप यज्ञविधि के ज्ञाता है अतः आप इस महोत्सव
को सम्पन्न कराने की स्वीकृति प्रदान कीजिये ।

तत्पश्चात् प्रतिष्ठाचार्य का वस्त्र, राशि, श्रीफल आदि समर्पित कर मालादि से
सम्मान कर स्वीकृति प्राप्त करें ।



मंगल ध्वजारोहण

मंत्र - शान्ति मंत्र

मण्डल : नवदेव मण्डल

यंत्र - (१) विनायक यंत्र

(२) नवदेव यंत्र

भक्तियां :-

(१) सिद्ध भक्ति

(२) श्रुत भक्ति

(३) तीर्थकर भक्ति

(४) शान्ति भक्ति

सामग्री :-

(१) पूजन सामग्री

(२) मंगल ध्वज (तैयार)

(३) मंगल कलश (तैयार)

(४) दीपक (कांच एवं जाली सहित)

(५) पंचरंगा सूत

(६) हार मुकुट

(७) संगीत/बैण्ड

मंगलध्वजारोहण विधि

शुभ मुहूर्त एव शुभ लग्न मे कार्य प्रारम्भ करना । मण्डप के सामने तीन कटनी वाला गोल चबूतरा तैयार कराना जिस पर मंगलध्वजा स्थापित की जावे । मंगलध्वजा का दण्ड प्रतिष्ठा मण्डप से दुगना या डेढ गुना लम्बा होना चाहिए । वह लकड़ी का हो तो उत्तम है यदि लकड़ी न मिले, तो लोहे का लिया जा सकता है । यह लोहे का दण्ड तीन फुट नीचे जमीन मे गड़ा हो, और तीन फुट का चबूतरा हो, इतना मजबूत कराना चाहिए । ध्वजा दण्ड मे ही लगाना, यदि सभव न हो तो दण्ड के ऊपरी हिस्से पर गिरी का उपयोग किया जा सकता है किंतु यह प्रतिष्ठा शास्त्र की आज्ञा नहीं है। वर्तमान समयानुसार लोह दण्ड गिरी वाला उपयोग मे लाया जाता है किन्तु लकड़ी का दण्ड ही लेना चाहिए ।

प्रतिष्ठाकारक लोकप्रभावक जुलूस की व्यवस्था बनाये, जिसमे ध्वजाये बैण्ड बाजे, कीर्तन पार्टी, महिलाये एव इन्द्राणिया मंगलकलश सिर पर रख कर चले । विमान मे जिन बिब और विनायक सिद्धयत्र विराजमान करे और थाली मे मंगलध्वजा रखे । (मंगलध्वजा पर श्रीमज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक बिम्ब प्रतिष्ठा एव विश्वशांति महायज्ञ महोत्सव और जैन जयतुशासनम् लिखा जाना चाहिए एव ध्वजा पर सुंदर स्वस्तिक बनवाये । मंगलध्वजा का कपड़ा मजबूत एव सुंदर होना चाहिए)

इस प्रकार जुलूस को श्री जैन मंदिर से प्रारम्भ करें और यज्ञस्थल पर जावे । वहां पर पहले से शामयाना या चन्देवा लगवाना आवश्यक है । श्री जिनबिब एव विनायक यंत्र को उच्च स्थान पर कार्य स्थल पर विराजमान करे एव मंगलध्वजा का थाल वहा ही रख लेना चाहिए । दर्शको को बैठने की व्यवस्था बनाये । मंगलकार्य की निर्विघ्नता हेतु जुलूस मे जिनबिब के आगे प्रतिष्ठाचार्य रक्षामंत्र पढ़ता हुआ पीले सरसो या पुष्पो को फेकता जाय ।

सर्वप्रथम मंगलाष्टक, पात्र शुद्धि, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शान्तिमंत्राराधन कर यत्राभिषेक पूर्वक विनायक यत्र पूजा करे । तत्पश्चात् सभी श्रावक एव प्रतिष्ठापात्र खड़े होकर हाथ जोड़े और विनयपूर्वक शान्त्याष्टक पाठ (हिन्दी) पढ़ें । लघु शान्ति मंत्र का जप एव भक्तिया पढ़ें।

मंगलध्वजा स्थापन का समय

अष्टाविंशतितस्माद् एकविंशे चतुर्दशे ।

नवमे सप्तमे चैव दिने पूर्व ध्वजोत्सवे ॥

ध्वजभूमि/वेदी (चबूतरा) शुद्धि (१)

विहार काले जगदीश्वराणामवाप्तसेवार्थवृत्तापदान ।

हुत्वारचितो वायुकुमारदेव त्व वायुना शोधय यागभूमिम् ॥

भो वायुकुमारसर्वविघ्नविनाशाय महीपूतां कुरु कुरु हूं फट् स्वाहा ।

विहारकाले जगदीश्वराणामवाप्तसेवार्थवृत्तापदान ।

हुत्वारचितो मेघकुमार देव त्व वारिणा शोधय यागभूमिम् ॥

भो मेघकुमारसर्वविघ्नविनाशायधरां प्रक्षालय २ अं हं सं वं ठं झं यः क्षः फट् स्वाहा ।

गर्भान्वयादौ महिताद्विजेन्द्रैर्निर्वाणपूजासुवृत्तापदान ।

हुत्वारचितो वह्निकुमारदेव त्व ज्वालया शोधय यागभूमिम् ॥

भो अग्निकुमारसर्वविघ्नविनाशाय भूमिं ज्वालय २ अं हं सं वं ठं झं यः क्षः फट् स्वाहा ।

क्षेत्रस्थितदेवों से आज्ञा एवं आमंत्रण (२)

अहो घरायामिह ये सुराश्च क्षमन्तु यज्ञाधिकृति ददन्तु ।

प्रीति पुराणा बहुवासयोगात् क्षितावतोऽस्मद्विनिवेदन वः ॥

ओं अस्मिन्यज्ञस्थाने स्थितदेवगणाः आज्ञाप्रदानं कुर्यात् विघ्ननिवारणार्थं अत्र आगच्छ आगच्छ । (मंगलध्वज के स्थान पर पुष्पक्षेपण कर आज्ञा प्राप्त करके श्री फल भेटकर आमंत्रित करें)

श्रीमज्जिनस्य जगदीश्वरता ध्वजस्य, मीनध्वजादिरिपुजालजयध्वजस्य ।

तन्न्यासदर्शनजनागमनध्वजस्य, चारोपणं विधिवदाविदधेध्वजस्य (३) ॥

ओ ह्री श्री क्षी भू स्वाहा विधियज्ञ प्रतिज्ञायै पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

(ध्वजा स्थान पर पुष्प क्षेपण करें)

ध्वजदण्ड शुद्धि (३)

ज्ञानशक्तिमयी मत्वा ध्वजदण्डाग्रचूलिका ।

अनादिसिद्धमन्त्रेण स्नपन ते करोम्यहम् ॥

ओ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्जायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं । चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं केवलपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिहंते

(१) श्री ने दे प्र ति पृष्ठ ६५० (२) आ ज. से प्र पा. श्लोक २१५ (३) प. म. ला जै, प्र. ह लि डायरी

सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवल्लि पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि । ओं ह्री श्री क्ली अनादिसिद्धमंत्रेभ्योनमः पवित्रतरजलेन ध्वजदण्डशुद्धिं करोमि सर्वशान्तिं कुरुकुरुस्वाहा (प्रतिष्ठाकारकजल से शुद्धि करे । दर्शकगण ध्वजदण्ड पर पुष्प क्षेपण करें)

ध्वजदण्डाग्रभागस्थकोकिलात्रयवर्तिन ।

वेणुदण्डस्य तस्याग्रे बध्नामि ध्वजकूर्चिकाम् ॥

ओं ह्री श्री क्षी ध्वजदण्डं मालामंगलसूत्रेण वेष्टयामि ।

ध्वजदण्ड को माला मंगल सूत्रसे वेष्टित करे ।

ध्वजागर्तशुद्धि

(जहा ध्वजा लगाना है उस गर्त की जलादि द्रव्यो से शुद्धि करना।)

ओं ह्री नीरजसे नमः (जलं) (गर्त मे जल छोड़े) ।

ओ ह्री शीलगंधाय नमः (सुगंधं) ।

ओं ह्री अक्षताय नमः (अक्षतं) ।

ओं ह्री विमलाय नमः (पुष्पं) ।

ओं ह्री दर्पमथनाय नमः (नैवेद्यं) ।

ओं ह्री ज्ञानोद्योताय नमः (दीपं) ।

ओं ह्री श्रुतधूपाय नमः (धूपं) ।

ओं ह्री अभीष्ट फलप्रदाय नमः (फलं) ।

ओं ह्री परम सिद्धाय नमः (अर्घं) ।

ओं ध्वजदण्डगर्ते पंचरत्नहिरण्यस्वस्तिक स्थापनं करोमि

(गर्त मे चादी का स्वस्तिक, पंचरत्न, पारद, पुष्प डाले)

सिद्ध भक्ति पदकर नौ बार णमोकार मंत्र पढ़े । पश्चात् नवदेवपूजन करे ।

मंगलकलश स्थापन (९)

अभिनवनवकुम्भान् पुण्यतीर्थाम्बुपूर्णान्
विधिवदिह निवेश्याभ्यर्च्य पुण्यध्वजाग्रे ।
कलशनिकटदेशे सर्वत स्थापयामि
प्रकृतयजनयोग्य मंगलद्रव्यजालम् ॥

ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः नमोऽर्हते भगवते श्रीमत्पद्म महापद्मतिगिंछकेसरिपुण्डरीक
महापुण्डरीक गंगासिन्धु रोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासीतोदानारी नरकान्ता
सुवर्णरूप्यकूलारत्तारत्तोदाक्षीरांभोधिजलं स्वर्णघट प्रक्षिप्तं सर्वगंध पुष्पाढ्य आमोदकं
पवित्रं कुरुकुरुद्भ्रौं द्भ्रौं वं वं मंमं हं हं संसं तंतं पंपं स्वाहा जलाभिमंत्रणम् । (जल
के छींटे लगाकर) मंत्रोच्चारण कर कलश स्थापित करें ।
ओं ह्रीं स्वस्ति विधानाय मंगलकलश स्थापनं करोमि ।

दीपक स्थापन

रुचिरदीप्तिकरं शुभदीपकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलम् ।
तिमिर जालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमंगलकं मुदा ॥
ओं ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामि ।

नवदेव पूजा (१)

अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाश्च साधवः ।
चैत्यचैत्यालयो धर्मो जिनशास्त्रं नव देवताः ॥
निर्विघ्नकार्यसिद्ध्ये आह्वायामि सुभक्तितः ।
प्रसिद्धान् नवदेवांस्तान् प्रतिष्ठादिमहोत्सवे ॥

ओं ह्रीं नवदेवसमूह अत्र अवतर अवतर संवौषट् आह्वाननम् ।
ओं ह्रीं नवदेवसमूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् ।
ओं ह्रीं नवदेव समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम् ।

स्थानासनार्थं प्रतिपत्तियोगान् सद्भावसन्मानजलादिभिश्च ।
ध्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
ओं ह्रीं नवदेवेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीखण्डकपूरसुकुंकुमाद्यैः गंधैः सुगंधीकृतदिग्विभागैः ।
ध्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
ओं ह्रीं नवदेवेभ्यः संसारताप विनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।
शाल्यक्षतैरक्षतदीर्घगात्रैः सुनिर्मलैश्चन्द्रकरावदातैः ।
ध्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
ओं ह्रीं नवदेवेभ्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

- अम्भोजनीलोत्पलपारिजातकदंबकुन्दादिवरप्रसूनै ।
 ध्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
- ओं ह्री नवदेवेभ्यः कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।
 नैवेद्यकै काचनभाजनस्थै रसप्रपूर्णेर्नयनप्रियैश्च ।
 ध्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
- ओ ह्री नवदेवेभ्यः क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 दीपोत्करैर्ध्वस्ततमोवितानैरु द्योतिताशेषपदार्थजातै ।
 ध्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
- ओं ह्री नवदेवेभ्यो मोहांधकारविनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 तुरुष्कवृष्णागुरुचन्दनादिसच्चूर्णजैरुत्तमधूपवर्गै ।
 ध्वजप्रतिष्ठासमये सुभक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
- ओं ह्री नवदेवेभ्यो अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 लवगनारिगकपित्थपूग श्रीमोचचोवादिफलै पवित्रै ।
 ध्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
- ओं ह्री नवदेवेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 श्रीचन्दनाद्यक्षततोयमिश्र विकासिपुष्पाजलिना सुभक्त्या ।
 ध्वजप्रतिष्ठासमये सु भक्त्या जिनादिकानादरतो यजेऽहम् ॥
- ओ ह्री नवदेवेभ्यो अनर्घपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा

प्रत्येक अर्घ

- नि शेषदोषेधनधूमकेतुमपारससारसमुद्रसेतुम् ।
 यजे समस्तातिशयैकहेतून् श्रीमज्जिनानबुजकर्णिकायाम् ॥
- ओं ह्री अर्हत्परमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 तत्पूर्वपत्रे परित पुरस्तात् दुष्टाष्ट कर्माणि विनाशकान् च ।
 लोकाग्रचूडामणिसनिभास्तान् सिद्धान्यजे शान्तिकरान्नराणाम् ॥
- ओं ह्री सिद्धपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 सूरि सदाचारविचारसारानाचारयन्त स्वपरान्यथेष्टम् ।
 दुष्टेपसर्गेकनिवारणार्थं समर्चयाम्यक्षतगधधूपै ॥
- ओं ह्री आचार्यपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीधर्मशास्त्राप्यनिशं प्रशान्त्यै पठन्ति येऽन्यानपि पाठयन्ति ।

अध्यापकांस्तान् परमाब्जपत्रैः स्थितान् चरित्रान् परिपूजयामि ॥

ओं ह्रीं उपाध्यायपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वैराग्यमन्तर्वचःसु परं प्रसिद्धं सत्यं तपो द्वादशधा शरीरे ।

एषामुदक्पत्रगतान्पवित्रान्साधून् सदा तान् परिपूजयामि ॥

ओं ह्रीं साधुपरमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कृत्याकृत्रिमचारुचैत्यनिलयान्नित्यं त्रिलोकीगतान् ।

वंदे भावनव्यंतरद्युतिवरान् स्वर्गामरावासगान् ॥

सद्गन्धाक्षतपुष्पदामचरुकैः सद्दीपधूपैः फलैः ।

नीराद्यैश्च यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शान्तये ॥

ओं ह्रीं कृत्याकृत्रिमत्रिलोकवर्तिश्रीजिनालयेभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

यावन्ति जिनबिम्बानि विद्यन्ते भुवनत्रये ।

तावन्ति सततं भक्त्या त्रिशुद्धया पूजयाम्यहम् ॥

ओं ह्रीं त्रिलोकवर्तिवीतरागबिम्बेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हद्वक्त्रप्रसूतं गणधररचितं द्वादशांगं विशालं ।

चित्रं बह्वर्थयुक्तं मुनिगणवृषभैर्घोरितं बुद्धिमद्भिः ॥

मेक्षाग्रद्वारभूतं व्रतचरणफलं ज्ञेयभावप्रदीपं ।

भक्त्या नित्यं प्रवन्दे श्रुतमहमखिलं सर्वलोकैकसारम् ॥

ओं ह्रीं जिनागमेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

आराधकानभ्युदये समस्तान्निःश्रेयसे वा धरति ध्रुवं यः ।

तं धर्ममाग्नेयविदिग्दलान्तः संपूजये केवलिनोपदिष्टम् ॥

ओं ह्रीं जिनधर्माय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ध्वजारोहणमंत्र^(९)

रत्नत्रयात्मकतयाभिमतोऽत्रदण्डे, लोकत्रयप्रकृतकेवलबोधरूपम् ।

संकल्पपूजितमिदं ध्वजमर्च्यलग्ने, स्वारोपयामि सति मंगलवाद्यघोषे ॥

ओं णमो अरिहंताणं स्वस्ति भद्रं भवतु । सर्वलोकशान्तिर्मवतु स्वाहा ।

(ध्वजगान एवं वाद्यघोष के साथ ध्वज फहराना चाहिए) ।

(९) श्री जे. दे., प्र. ति. पृष्ठ २०२ श्लोक ५२ (२) अ. न. से., प्र. पा. श्लोक ३१८

तदग्रदेशे ध्वजदण्डमुच्चैर्भास्वद्विमानं गमनाद्विरुधत् ।

निवेश्यलग्नेमै सुशुभोपदेश्ये महत्पताकोच्छ्रयण विदध्यात् ॥ (२)

ओं ह्री अर्हं जिनशासनपताके सदोच्छ्रिता तिष्ठ तिष्ठ भव भद्र वषट् स्वाहा (अर्घम्) ।
अर्घ चढाये ।

सजयतु जिनधर्मो यावदाचन्द्र-तार व्रत-नियम-तपोभिर्वर्धता साधुसघ ।

अहरहरभिवृद्धि यान्ति चैत्यालयस्ते तदधिवृत्तजनानां क्षेममारोग्यमस्तु ॥ (१)

प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य एव सम्मिलित दर्शकगण सब ध्वजा पर पुष्प फेके और
नौ बार णमोकर मंत्र पढे ।

शांति भक्ति (शांतिपाठ), पढकर विसर्जन करे ।

ध्वजा फहराने का फल (२)

मुक्ते प्राची गते केतौ सर्वकामानवाप्नुयात् ।

उत्तराशां गते तस्मिन् स्वस्मारोग्य च सम्पद ॥

यदि पश्चिमतो याति वायव्ये च दिशाश्रये ।

ऐशान्ये वा ततो वृष्टि कुर्यात् केतु शुभानि स ॥

अन्यस्मिन् दिग्बिभागे तु गते केतौ मरुद्वशात् ।

शान्तिकं तत्र कर्तव्य दान-पूजा-विधानत ॥

ध्वजगान

मंगलमय केशरिया प्यारा, झण्डा ऊचा रहे हमारा २

अखिल विश्व का है जो प्यारा, जैन जाति का चमकित तारा,

हम युवको का पूर्ण सहारा - झण्डा ऊचा रहे हमारा - १

सत्य अहिंसा का है नायक, शांतिसुधारस का है दायक

भक्त जनो का सदा सहारा, झण्डा ऊचा रहे हमारा २

साम्य भाव दरशाने वाला, प्रेम क्षीर बरसाने वाला

जीव मात्र हरषाने वाला, झण्डा ऊचा रहे हमारा - ३

भारत का सौभाग्य बढाता, स्वावलम्ब का पाठ पढाता,

वन्दे वीरम् नाद गुजाता, झण्डा ऊचा रहे हमारा - ४

आओ इसके नीचे आओ, महावीर सदेश सुनाओ,

बोलो महावीर जयकारा, झण्डा ऊचा रहे हमारा - ५

(१) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ २०१ श्लोक ५१ (१) प आ ध प्र सा अध्याय

५ श्लोक ७१ से ७३

ध्वजगीत

(तर्ज - राष्ट्र गीत जनगण मन)

अरिहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु सुखदाता, परमेष्ठि पंच सुखदाता ।

इन्द्र नरेन्द्र यक्षसुर किन्नर, पण्डित बुधजन सारे

भवतम भंजन शीश नमावत, रक्षक तुम्ही हमारे

जब शुभ मन से ध्यावे, तब तुम आशिष पावे

हे सद्बुद्धी प्रदाता,

भवदुख से बाधा हरो हमारी, तुम्हे नमावत माथा

जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय, जय हे !

परमेष्ठि पंच सुखदाता, अरिहत सिद्ध

चारो गति मे भ्रमत फिरे है, कष्ट अनेक उठाये

ज्ञान नयन जब खुले हमारे, तब तुम दर्शन पाये

सुखकी ये आश लगाये, हम सब तुम ढिग आये


जहामिले सुखसाता,

नाथ तुम्हारे दर्शन से तो, मुक्ति पथ मिल जाता

जय हे, जयहे, जयहे, जय जय जय, जयहे !

परमेष्ठि पंच सुखदाता, अरिहत सिद्ध ।

जैनं जयतु शासनम् - वंदे वीर जिनेश्वरम्



घटयात्रा

- मंत्र - शान्ति मंत्र
- मण्डल - ८१ कोष्ठों का मण्डल
- यंत्र (१) विनायक यंत्र
(२) जल मण्डल यंत्र
- भक्तियां - (१) सिद्ध भक्ति
(२) नवदेव भक्ति
(३) शान्ति भक्ति
- सामग्री :-
- (१) पूजन द्रव्य
(२) घट यात्रा कलश
(३) जुलूस ध्वज
(४) हार मुकुट
(५) रंगोली
(६) वैण्ड

घट्यात्रा

मंदिर वेदी तथा कलश शुद्धि के लिए तीर्थ जल की आवश्यकता होती है। अतः किसी जलाशय पर गाजे-बाजे (जुलूस) के साथ जल लाना चाहिए। इस कार्य हेतु ९, २९, ३९, ५९, ८९ कलशों को ले जाकर जल भरना चाहिए। प्रत्येक कलश पर तूस या पीला कपड़ा, श्रीफल (नारियल) एवं मंगलसूत्र (मौली, कलावा) बाधना आवश्यक है। प्रत्येक कलश में हल्दी गोंठ, सुपारी पीले सरसो या पुष्प (पीले चावल) डालना चाहिए।

जलाशय पर बड़ी टेबिल, तख्त, बड़े पाटे पर नद्यावर्त स्वस्तिक, पंचपरमेश्ठी मण्डल, सत्रहवलय मंडल या ८९ खण्ड का एक मण्डल बनाना चाहिए, जिस पर कलश रखे जा सके। पानी भरने के लिए एक बड़े बर्तन की व्यवस्था करे, जिसमें पानी छनकर रखे और पिसी लवंग को पानी में डाल कर प्रासुक करे। यदि जलयंत्र हो तो वह पानी में डाल देवे अथवा केशर के द्वारा रकाबी पर लिखकर डाल देवे।

प्रथम मंगलाष्टक पाठ, दिग्बधन, पात्रशुद्धि, अगरक्षा मंत्र, शातिमंत्राराधन कर सिद्धभक्ति पाठ पढकर नौ बार णमोकार मंत्र का जाप करे। जुलूस के आते जाते हुए मार्ग में प्रतिष्ठाचार्य रक्षामंत्र पढता हुआ पीले सरसो सभी दिशाओ में फेकता जाय।

विनायकयंत्र अर्घ (१)

द्रव्याणि सर्वाणि विधाय पात्रे ह्यनर्घमर्घ वितरामि भक्त्या ।
भवे भवे भक्तिरुदारभावाद् येषां सुखायास्तु निरन्तराय ॥
ओं ह्रीं अर्हं मंगलोत्तमशरणभूतेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

नवदेव अर्घ

मध्येकर्णिकमर्हदार्यमनघ बाह्येऽष्ट पत्रोदरे
सिद्धान् सूरिवरांश्च पाठकगुरुन् साधूश्च दिक्पत्रगान् ।
सद्धर्मागमचैत्यचैत्यनिलयान् कोणस्थदिक्पत्रगान्
भक्त्या सर्वसुरासुरेन्द्रमहितान् तानष्टघेष्ट्या यजे ॥
ओं ह्रीं अर्हदादिनवदेवेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

(१) समयानुसार पृष्ठ २० से विनायक यत्र पूजा करे।

तीर्थमण्डलपूजा

ओं ह्री परब्रह्मणेऽनन्तानन्त ज्ञानशक्तयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओ ह्री श्रीप्रभृतिदेवतारस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्री गंगादेवीरस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्री सीताविद्धमहाह्रददेवरस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओ ह्री सीतोदाविद्ध महाह्रददेवरस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्री लवणोदकालोदमागधादितीर्थस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्री सीतारीतोदादिमागधादितीर्थस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओ ह्री संख्यातीत समुद्रदेवरस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओ ह्री लोकस्थिततीर्थस्थाने चैत्यचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्री श्री ह्री धृति-कीर्ति-बुद्धि-लक्ष्मी-शान्ति पुष्ट्यः श्री दिवकुमार्यो कलशमुखेष्वेतेषु
 नित्यनिविष्टा भवत् भवतेति स्वाहा । (जलाशय पर पुष्प क्षेपण करे)

जलशुद्धि मंत्र

ओं हां ह्री हूं ह्रौ ह्रः नमोऽर्हते भगवते श्रीमत्पद्ममहापद्मतिगिंछ्वेत्सरि पुण्डरीक
 महापुण्डरीक गंगासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिक्तान्ता सीता सीतोदानारीनरक्तान्ता
 सुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाः क्षीराम्मोधिजलं सुवर्णघटप्रक्षिप्तं नवरत्नगन्ध
 पुष्पाक्षतादिबीजपूरितं पवित्रं कुरूकुरूङ्गौ इत्रौ वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं स्वाहा
 (जलाभिमंत्रणम्)


(जलपात्र से घटो मे जल भरे)

इन्द्राणियो को कलश देने का मंत्र (९)

ओ क्षीराब्धि सर्वतीर्थोदकमयवपुषा स्वैरमाक्रोशतोऽस्य
 क्षीरै पद्माकरस्य प्रणयमुपगतान् शातकुम्भीयकुम्भान् ।
 सानन्दश्र्यादिदेवी निचयपरिचयोज्जृभमाणाप्रभावान्
 एतानभ्युद्धरामो भगवदभिषवश्रीविधानाय हर्षात् ॥

ओं ह्री श्री अर्ह पंच परमगुरुभ्यो नमः स्वाहा

पश्चात् शांतिभक्ति पढकर विसर्जन करे । रक्षा मंत्र पढता हुआ जुलूस सहित वापिस
 आवे । तख्त पर नद्यावर्त स्वस्तिक बनाकर कलश रख दे । मंदिर वेदी या कलश
 जिसकी शुद्धि करना हो उसकी विधि करे ।



यज्ञवेदी शुद्धि विधान

मंत्र	-	(१) मातृका मंत्र
मण्डल	-	(१) नवदेव मण्डल
यंत्र	-	(१) विनायक यंत्र (२) नवदेव यंत्र
भक्तियां	-	(१) सिद्ध भक्ति (२) श्रुत भक्ति (३) आचार्य भक्ति (४) चैत्य भक्ति (५) शान्ति भक्ति
सामग्री	-	(१) पूजन द्रव्य (२) मंगल कलश (तैयार) (३) दीपक (काँच एवं जाली सहित) (४) जिन बिम्ब विराजमान करने हेतु आवश्यक सामग्री

यज्ञवेदी शुद्धि क्रिया

घटयात्रा के पश्चात् वेदी शुद्धि करने के लिए मंगलाष्टक, दिग्बन्धन, रक्षामन्त्र, शांति मंत्र पढकर स्वस्ति मंगलपाठ (श्री पचकल्याण महार्हणार्हा) पढते हुए वेदी पर पुष्प क्षेपण करना चाहिए। तत्पश्चात् भक्तिया पढ़ें।

वेदी शुद्धि (१)

आयात भो वातकुमारदेवा प्रभोर्विहारावसराप्तसेवा ।

यज्ञाशमभ्येतसुगन्धिशीतमृद्धात्मना शोधयताध्वरोर्वीम् ॥

भो वायुकुमार ! सर्वविघ्नविनाशनाय वेदिकाभूमिशुद्धिं कुरु कुरु हूं फट् स्वाहा ।
(वेदी का शुद्ध वस्त्र से मार्जन करना)

आयात भो मेघकुमारदेवा प्रभोर्विहारावसराप्तसेवाः ।

गृह्णीत यज्ञांशमुदीर्णशम्या गन्धोदकैः प्रोक्षत यज्ञभूमिम् ॥

भो मेघकुमार ! वेदिधरां प्रक्षालय २ अं हं सं वं ठं झं यः क्षः फट् स्वाहा
(जल के छींटे वेदी पर देकर शुद्ध करें)

आयात भो वह्निकुमारदेवा आधानविध्यादिविधेयसेवा

भजध्वमिज्याशमिमां मखोर्वीज्वालाकलापेन परं पुनीत

भो अग्निकुमार ! वेदिभूमिज्वालय ज्वालय अं हं सं वं ठं झं यः क्षः फट् स्वाहा ।
(कपूर जलाकर वेदी को अग्नि द्वारा शुद्ध करें)

उद्भात भो षष्टि सहस्रनागा क्षमाकामचारस्फुटवीर्यदर्पा ।

प्रतृप्यतानेन जिनाध्वरोर्वीं सेकात्सुधागर्वमृजामृतेन ॥

भोः षष्टि सहस्रनागाः जिनवेदिकारक्षां कुरुत कुरुत
(ईशान कोण में पुष्प क्षेपण करें)

काश्मीरकालागुरुमिश्रितेन कर्पूरभाजा हरिचन्दनेन ।

वेदीसमंतादिह चर्चयामो निजात्मचर्चाचरणप्रसिद्धयै ।

ओं क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षः कुंजुमचन्दनादिना वेदीलेपनं करोम्यहम् ।
(सर्वोषधि अष्टगंध आदि से वेदी का लेपन करावें ।)

भव्यात्मनां दुष्कृतकर्मणौघ प्रक्षालनार्थं जिनयज्ञवेदीम् ।

कुशोद्धतैः प्रोक्षणमन्त्रपूतैः सप्रोक्षयामः परितः पयोभिः ॥

ओं हां हीं हूं हौं ह्रः जिनयज्ञवेदीप्रोक्षणं करोमि (वेदी को शुद्ध वस्त्र से प्रोक्षण करें)

मगल जिननामानि मगल मुनिसेवन ।

मगल श्रुतमध्येय मगल जिनसद्वृष ॥

ओं ह्रीं स्वस्ति विधानाय पुष्पांजलिं क्षिपेत् (वेदी पर पुष्प क्षेपण करे)

(यदि घट यात्रा मे विनायक यत्र ले जावे तो वेदी शुद्धि के पश्चात् उसे वेदी पर स्थापित करे) यदि समय हो तो जिन बिम्ब की स्थापना अभिषेक पूजन पूर्वक वेदी पर करे ।

वेदी पर हीरक (पंचरत्न) स्थापन

कोणेषु वेद्याश्चतुरस्रदेशे सस्थाप्य गाढ घनघातयोगात् ।

सद्धीरकान् शकुन्दासितांश्च काष्ठाविमूढी शिथिलीकरोतु ^(१) ॥

ओ ह्री अहं अ सि आ उ सा यज्ञवेदिका स्थाने हीरकस्थापनं करोमि ।

(वेदी पर प्रतिमा के नीचे हीरक (पंचरत्न) एव स्वस्तिक स्थापित करे)

ओं ह्री अष्टप्रातिहार्यसंयुक्तजिनबिम्बस्थापनं करोमि ।

(यह मंत्र पढकर जिनबिम्ब की स्थापना करे)

मंगल कलश स्थापन

भूशोधनादि विधिमाविधाय पूर्वादिदिक्षु प्रतिदिग्भवैव ।

कुम्भान् विशुद्धाभुभृत् प्रसिद्धान् सस्थाप्य सर्वान् परिपूजयामः ॥

ओ अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिब्रह्मणो मतेऽव - सर्पिण्याः दु खमकालस्य

प्रथमपादेश्रीमद्धीरनिर्वाणे . . स्वत्सरे ऋतौ

मासानामुत्तमेमासे पक्षे तिथौ . . वासरे सर्वदूषणरहितेऽस्मिन्

विधीयमाने . कर्मणि मण्डपे .. . मन्दिरे नवरत्नगंधपुष्पाक्षतादि

श्रीफल शोभित, मंगलकुम्भकलशस्थापन करोमि ।

इवीं क्ष्वीं हं सः स्वाहा (ईशान कोण मे कलश स्थापन करे)

दीपक स्थापन

दीव्यत्प्रदीपकलिकोदनवर्णपूरैर्नीराजनार्थं विदितैर्वरभाजनरथै ।

नीराजयामि भगवज्जिनयज्ञवेदीमोजोगुणस्य यजतामभिवर्द्धनाय ॥

ओं ह्री अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामि ।

मण्डप
प्रतिष्ठा

मण्डप प्रतिष्ठा

मंत्र	-	(१) शान्ति मंत्र
मण्डल	-	(१) नवदेव मण्डल
यंत्र	-	(१) नवदेव यंत्र
भक्तियां	-	(१) सिद्ध भक्ति (२) तीर्थंकर भक्ति (३) चैत्य भक्ति (४) शान्ति भक्ति
सामग्री	-	(१) पूजन सामग्री (२) ध्वजार्ये (तैयार) (३) सीढ़ी (४) रस्सी

मण्डप प्रतिष्ठा

मगलाष्टक पाठ, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शान्तिमंत्र, एव भक्तिया पढ़े।

मण्डप प्रतिष्ठा विधान (१)

इन्द्रवेद्यपि हस्ताना विज्ञेयाष्टोत्तरं शतम् ।
शतेन्द्रो जिनबिम्बाना प्रतिष्ठा कुरुते स्वयम् ।
साष्टारत्निशतेन्द्रिवेदिरुचिर शक्र कुब्रेण य
ज्यायांसमणिमण्डप विरचयत्यर्हत्प्रतिष्ठाकृत्ते ।

अन्तर्निर्मितदिव्यवेदिविलसल्लक्ष्मीकटाक्षोद्भट ।
सोय मंगलमण्डपो विजयते जैनप्रतिष्ठोत्सवे ॥
ओं ह्री अर्ह बिम्बप्रतिष्ठाविधाने मण्डपशुद्ध्यर्थ पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्
(मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे)

मण्डप प्रतिष्ठाक्रिया (२)

चतुर्णिकायामरसघ एष आगत्य यज्ञे विधिना नियोगम् ।
स्वीकृत्य भक्त्या हि यथार्हवशे सुस्था भवन्त्वाह्निककल्पनायाम् ॥
ओं चतुर्णिकायदेवाः स्वरथानेतिष्ठत-तिष्ठत, विघ्नं निवारयत निवारयत, प्रतिष्ठाकार्ये
सहयोगं कुरुत कुरुत । (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे)

आयात मारुतसुरा पवनोद्भटाशाः सघट्टसलसितनिर्मलतन्तरीक्षा ।
वात्यादिदोषपरिभूतवसुन्धरायां प्रत्यूहकर्म निखिल परिमार्जयन्तु ॥
भो वायुकुमारदेवगणाः प्रतिष्ठारथले तिष्ठत तिष्ठत, विघ्नं निवारयत निवारयत,
प्रतिष्ठा कार्ये सहयोगं कुरुत कुरुत (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे)

आयात वास्तुविधिषूद्भटसनिवेशा योग्याशभागपरिपुष्टवपु प्रदेशा ।
अस्मिन् मखे रुचिरसुरिस्थितभूषणाके सुस्था यथार्हविधिना जिनभक्तिभाज ॥
भो वास्तुकुमारदेवगणाः जिनेन्द्रभवत्यर्थ स्वरथाने तिष्ठत तिष्ठत प्रतिष्ठाकार्ये सहयोगं
कुरुत कुरुत । (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करे)

(१) प. मन्मथलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य की हस्त लिखित डायरी से

(२) आ ज. से प्र पा श्लोक ३२२ से ३३२

आयात निर्मलनभः कृत्तसंनिवेशाः मेघासुराः प्रमदभारनमच्छिरस्काः ।

अस्मिन् मखे विवृत्तविक्रियया नितान्ते सुस्था भवन्तु जिनभक्तिमुदाहरन्तु ॥

मो मेघकुमारदेवगणाः पंचकल्याणकप्रतिष्ठोत्सवे मेघकृत्तविघ्ननिवारणार्थं स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत, सहयोगं कुरुत कुरुत, (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करें)

आयात पावकसुराः सुरराजपूज्यसंस्थापनाविधिषु संस्कृत्तविक्रियार्हाः ।

स्थाने यथोचितकृत्ते परिवद्धकक्षाः सन्तु श्रियं लभतु पुण्यसमाजभाजाम् ॥

मो अग्निकुमारदेवगणाः अस्मिन् पंचकल्याणकप्रतिष्ठोत्सवे अग्निकृत्तविघ्ननिवारणार्थं स्वस्थाने तिष्ठत तिष्ठत, प्रतिष्ठाकार्ये सहयोगं कुरुत कुरुत ।

(मण्डप पर पुष्प क्षेपण करें)

नागाः समाविशत भूतलसंनिवेशाः स्वां भक्तिमुल्लसितगात्रतया प्रकाश्य ।

आशीविषादिवृत्तविघ्नविनाशहेतोः सुस्था भवन्तु निजयोग्यमहासनेषु ॥

इति जिनभक्तिरत्नत्परवारस्तुकुमारदेवगणाः यथायोग्यस्थाने तिष्ठत, तिष्ठत, सर्व विघ्ननिवारणार्थं मण्डपोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत् (मण्डप पर पुष्प क्षेपण करें)

पुरु हूतदिशि स्थितिमेहि करोद्धृतकाञ्चनदण्डगखण्डरुचे ।

विधिना कुमुदेष्वरसव्यश धृतपंकजशंक्तिरत्नकंकणके ॥

मो कुमुदप्रतीहारनिजपूर्वद्वारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्वविघ्ननिवारणं कुरु कुरु

(पूर्व दिशा में पुष्प क्षेपण करें)

वामनाशु यमदिग्विभागतः स्थानमेहिजिनयज्ञकर्मणि ।

भक्तिभारकृत्तदुष्टनिग्रहः पूतशासनकृत्तामबन्ध्यकः ॥

मो वामनप्रतीहारनिजदक्षिणद्वारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्वविघ्ननिवारणं कुरु कुरु

(दक्षिण दिशा में पुष्प क्षेपण करें)

पश्चिमासु विततासु हरित्सु भूरिभक्तिभरभूकृत्तपीठाः ।

अञ्जनस्वहितकाम्ययाऽध्वरे तिष्ठ विघ्नविलयं प्रणिधेहि ॥

मो अंजनप्रतीहारनिजपश्चिमद्वारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्वविघ्न निवारणं कुरु कुरु

(पश्चिम दिशा में पुष्प क्षेपण करें)

पुष्पदन्तभवनासुरमध्ये सत्कृत्तोऽसि यत इत्थमवोचम् ।

उत्तरत्र मणिदण्डकराग्रस्तिष्ठ विघ्नविनिवृत्तिविधायी ॥

मो पुष्पदन्तप्रतीहारनिज उत्तरद्वारि तिष्ठ तिष्ठ, सर्व विघ्ननिवारणं कुरु कुरु

(उत्तर दिशा में पुष्प क्षेपण करें)

करवृत्तकुसुमानामञ्जलि सवितीर्य धनदमणिसुरत्नाधीशपूजार्थसार्थे ।

विकिरविकिरशीघ्र भक्तिमुद्भाव्यनून निगदतु परमाके मण्डपोर्ध्वावकाशे ॥

इत्युक्त्वा मण्डपोपरि सर्ववर्णां चितपुष्पाक्षताः क्षेप्याः

(मण्डप के ऊपर पुष्प सहित अक्षत बरसावे)

पंचसूत्रं समादाय याजको वेष्टयेत्तदा ।

मण्डप सुन्दर कृत्वा वादित्रकलशब्दकैः ॥

ओं ह्रीं परमात्मब्रह्मणे नमो नमः, ओं ह्री जिनाय नमो नमः, ओं ह्री चतुर्भुजाय नमो

नमः, ओं ह्री चतुर्लोकोत्तमाय नमो नमः, ओ ह्री चतुःशरणाय नमो नमः, इति सर्वेषां

यजमानानां सर्वोपद्रव शान्तिं कुरुकुरुस्वाहा ।

(मण्डप को तीन बार पंचवर्णी सूत्र से वेष्टित करे)

मण्डप पर ध्वजारोहण^(१)

तस्तदडमुद्धृत्य मण्डपं परितः श्रिया ।

महत्या भ्रमयित्वा त्रिः सुलग्ने मंत्रमुच्चरन् ।

ओं णमो अरिहंताणं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु स्वाहा

(मण्डप पर ध्वजा लगावे) ।

स जयतु जिनधर्मो यावदाचन्द्रतारम् व्रतनियमतपोभिर्वर्द्धता साधुसघ ।

अहरहरभिवृद्धि यान्तु चैत्यालयास्ते तदधिवृत्तजनाना क्षेममारोग्यमस्तु ॥

इति पठित्वा विश्वकल्याणार्थं पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् (सब दिशाओ में पुष्प क्षेपण करे) ।

सकलीकरण
एवं
मंत्राशयन

सकलीकरण एवं मंत्राराधन

मंत्र	-	(१) णमोकार महामंत्र
मण्डल	-	(१) पंचपरमेष्ठीमण्डल
यंत्र	-	(१) विनायक यंत्र (२) वृहत्सिद्धचक्र यंत्र
भक्तियां	-	(१) सिद्ध भक्ति (२) श्रुत भक्ति (३) आचार्य भक्ति (४) चारित्र्य भक्ति (५) शान्ति भक्ति
सामग्री	-	(१) पूजन सामग्री (२) पंचरंगा सूत्र (३) यज्ञोपवीत (४) मंगल कलश (तैयार) (५) दीपक (काँच एवं जाली सहित) (६) जाप माला

सकलीकरण (पात्रों की शुद्धि)

अंगन्यासविधि

मंगलाष्टक पाठ पढकर कार्य प्रारम्भ करना चाहिए
 अथेन्द्रराज परिवद्ध कर्मा ह्याचार्यवर्य वृत्तनायकश्च ।
 स्थित्वा स चैत्योपकृतौ सुवेद्या देहस्य शुद्धि विदधातु मंत्रै ॥
 मन प्रसत्तै वचस प्रसत्तै कायप्रसत्तै च कषायहानि ।
 सैवाऽर्थत स्यात् सकलीक्रियाऽन्यामत्रैरुदारै वृत्तकल्पनागा ॥
 प्राक् कल्पितानेकविदुष्टभावप्रत्याहृति ता पुरतो विधाय ।
 आचार्य सिद्धश्रुतभक्तिपाठ , करोतु पूर्व विजनप्रदेशे ॥
 शिरस्युरस्यक्षिगले ललाटे पचाक्षरान् पिडगधर्मसिद्ध्यै ।
 आद्यन्तबीजादि विदर्भगर्भैर्गुरु पदेशादथवा विदध्यात् ॥
 पूर्वमाचार्यैः सिद्धश्रुतचारित्रभक्तिपाठाः कर्तव्याः

अमृतस्नान मंत्र

ओं ह्रीं अमृते अमृतोद्मवे अमृतवर्षिणि अमृतं स्रावय स्रावय सं सं क्ली क्ली ब्लूं ब्लूं
 द्रां द्रां द्री द्री द्रावय द्रावय सं हं इवी क्ष्वी ठः ठः हं सः स्वाहा ।

(इस मंत्र से जल को मंत्रित कर शरीर पर छिटककर शुद्धि करे)

ओं ह्रां णमो अरिहंताणं ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः (अगूठा शुद्ध करे)

ओं ह्रीं णमो सिद्धाणं ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः (तर्जनी अगुली शुद्ध करे)

ओं हूं णमो आइरियाणं हूं मध्यमाभ्यां नमः (मध्यमा अगुली शुद्ध करे)

ओं ह्रौं णमो उवज्झायाणं ह्रौं अनामिकाभ्यां नमः (अनामिका अगुली शुद्ध करे)

ओं ह्रः णमो लोए सब्बसाहूणं ह्रः कनिष्ठकाभ्यां नमः (कनिष्ठा अगुली शुद्ध करे)

ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः (दोनो हाथ शुद्ध करे)

ओं ह्रां णमो अरिहंताणं ह्रां मम शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा (शिर का स्पर्श करे)

ओं ह्रीं णमो सिद्धाणं ह्रीं मम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा (मुँह का स्पर्श करे)

ओं हूं णमो आइरियाणं हूं मम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा (हृदय का स्पर्श करे)

ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं ह्रीं मम नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा (नाभि का स्पर्श करे)
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं ह्रः मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा (पैरों का स्पर्श करें)
 ओं ह्रां णमो अरिहंताणं ह्रां मां रक्ष रक्ष स्वाहा (शरीर पर पुष्प छेड़ें)
 ओं ह्रीं णमो सिद्धाणं ह्रीं मम वस्त्रं रक्ष रक्ष स्वाहा (वस्त्रों पर पुष्प छेड़ें)
 ओं हूं णमो आइरियाणं हूं मम पूजाद्रव्यं रक्ष रक्ष स्वाहा
 (पूजा सामग्री के पास पुष्प छेड़ें)
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं ह्रीं मम स्थलं रक्ष रक्ष स्वाहा (पूजा स्थल पर पुष्प छेड़ें)
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं ह्रः सर्वं जगत् रक्ष रक्ष स्वाहा
 (यह मंत्र पढ़कर सब यजमानों पर पुष्प क्षेपण करें)

पात्रेऽर्पितं चन्दनमौषधीशं शुभ्रंसुगंधाहतचंचरीकं

स्थाने नवांके तिलकाय चर्च्य न केवल देहविकारहेतो ।^(१)

ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रीं ह्रः अ सि आ उ सा मम सर्वांगशुद्धिं कुरुकरु
 (नौ स्थानों पर तिलक लगावे) ।

तिलक के नौ स्थान (२)

शिखा^१ शीश की जान ललाट^२ गिनीजिये कंठ^३ हृदय^४ अरुकान^५ भुजा^६ शुभ लीजिए ।
 पीठ^७ हाथ^८ अरुनाभि^९ सरसशुभ लीजिए, तब जिनवर को जजै तिलक नव दीजिए ॥

रक्षासूत्रबंधन -

सम्यक्पिनद्धनवनिर्मलरत्नपंक्तिरोचिवृहद्वलयजातबहुप्रकारं ।

कल्याणनिर्मितमहं कटकं जिनेशपूजाविधानललिते स्वकर्त्रे करोमि ॥

ओं ह्रीं नमोऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा
 (दाहिने हाथ में रक्षासूत्र तीन बार लपेट कर बाधें)

यज्ञोपवीत धारण मंत्र

पूर्व पवित्रतरसूत्रविनिर्मितं यत् प्रीतः प्रजापतिरकल्पयदंगसंगि ।

सद्भूषणं जिनमहे निजकंठधार्यं यज्ञोपवीतमहमेष तदाऽऽतनोमि ॥

ओं नमः परमशान्ताय शान्तिकराय पवित्री करणायाहम् रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं
 दधामि, मम गात्रं पवित्रं भवतु अर्ह नमः स्वाहा ।

(निम्न नियमो को ग्रहण कर यज्ञोपवीत धारण करे)

(१) सप्तव्यसन का त्याग, (२) अष्टमूल गुणधारण करना, (३) अभक्ष्यत्याग, (४) बीड़ी, पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का त्याग, (५) बह्मचर्य पालन, (६) भूमिशयन, (७) एकाशन, (८) रात्रिभोजनत्याग, (९) शुद्धभोजन, (१०) हिसाजन्य तरीके से बनी वस्तुओं का त्याग । (११) विषय कषाय की मदता (१२) व्यग्रता, चित्त की चंचलता एव आलस्य त्याग । इन नियमो का यज्ञसमापन तक पालन करना आवश्यक है ।

दिग्बंधन

ओं ह्रां णमो अरिहंताणं ह्रां पूर्व दिशातः समागत विघ्नान् निवारय निवारय मां रक्ष रक्ष स्वाहा (बद मुट्ठी से पूर्व दिशा में पुष्प या पीले सरसो फेके)

ओं ह्रीं णमो सिद्धाणं ह्रीं दक्षिणदिशातः समागत विघ्नान् निवारय निवारय मां रक्ष - रक्ष स्वाहा (बद मुट्ठी से दक्षिण दिशा में पुष्प या पीले सरसो फेके) ।

ओं हूं णमो आइरियाणं हूं पश्चिमदिशातः समागत विघ्नान् निवारय निवारय मां रक्ष रक्ष स्वाहा (बद मुट्ठी से पश्चिम दिशा में पीले सरसो या पुष्प फेके)

ओं ह्रौं णमो उवज्झायाणं ह्रौं उत्तरदिशातः समागत विघ्नान् निवारय निवारय मां रक्ष रक्ष स्वाहा (बद मुट्ठी से उत्तर दिशा में पीले सरसो या पुष्प फेके) ।

ओं ह्रः णमो लोए सब्वसाहूणं ह्रः सर्वदिशातः समागत विघ्नान् निवारय निवारय मां रक्ष रक्ष स्वाहा (बद मुट्ठी से दशो दिशाओं में पीले सरसो या पुष्प फेके) ।

रक्षामंत्र

ओं हूं क्षूं फट् किरिटिं किरिटिं घातय घातय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरूकुरूपरमुद्रां छिन्द छिन्द परमंत्रान् भिन्द भिन्द क्षां क्षः वाः वाः हूं फट् स्वाहा । (अपने ऊपर पुष्प क्षेपण करे) ।

शान्ति मंत्र

ओं नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषायदिव्य तेजोमूर्तये नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरवृत्तुद्रोपद्रवनाशनाय सर्वक्षामडामरविघ्नविनाशनाय ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरूकुरूस्वाहा (यह मंत्र पढ़कर पीले सरसो या पुष्प चारो दिशाओं में फेके) । पश्चात् भक्तिया पढ़कर नौ बार णमोकार मंत्र पढे ।

प्रतिक्रमण

हे भगवन् ! अरहंत देव मैं आपके समक्ष अपने मन, वचन, काय से किए हुए दोषों की आलोचना गर्हा आत्मनिन्दापूर्वक करके प्रतिक्रमण करता हूँ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से किसी जीव की विराघना अथवा प्राण-पीड़ा हुई हो, उसे मैं आत्मनिन्दा पूर्वक मन, वचन, काय की शुद्धि से परित्याग करता हूँ। एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रसकाय इन जीवों को मैंने स्वतः मारा हो, अन्य से मरवाया हो व मारने वाले की अनुमोदना की हो अथवा और किसी प्रकार से जीवों को सन्ताप दिया हो, अन्य से दिलवाया हो, सन्ताप देने वाले को भला माना हो अथवा प्राणियों के अंगोपांग का वियोग किया हो, कराया हो, करते हुए को भला माना हो इत्यादि अनेक प्रकार से जिन जीवों को पीड़ा हुई हो उनसे उत्पन्न हुए पापों का परित्याग करता हूँ। मन, वचन, काय और वृत्त, कारित, अनुमोदना सहित जिन जीवों का मुझसे घात हुआ हो तो हे भगवन् ! वह सब पाप निरर्थक हों, तथा प्रमाद व अज्ञान से अतिचार व अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो उसकी मैं मन वचन काय से उपस्थापना करता हूँ। दिवस संबंधी, शारीरिक, मानसिक और वाचनिक कार्य करने में जो दोष मैंने किए हों उनका प्रतिक्रमण करता हूँ।

अब मैं मन शुद्धि के लिए अपने किए हुए दोषों की आलोचना करता हूँ एवं दोषों से सर्वथा मुक्त होने के लिए श्री पंचपरमेष्ठी का चिंतन कर सिद्ध भक्ति में लीन होता हूँ। (सिद्ध भक्ति पढ़कर नौ बार णमोकार मंत्र पढ़ें)

नोट : जपकरने वाले जपगृह में जाकर विनायक यंत्र पूजा करें एवं प्रतिष्ठापात्र मुख्य वेदी पर ही विनायक यंत्र पूजा करें।

जाप विधि

सामग्री - सूची के अनुसार

सकली करण के पश्चात् जपस्थल की शुद्धि करके टेबिल लगायें, ऊपर चंदोवा बांधकर छत्र लगावें तथा सिंहासन पर पूर्व या उत्तर दिशा में विनायक सिद्ध यंत्र विराजमान करें। टेबिल के चारों कोनों पर चार मंगल कलश स्थापित करें और पूर्वोत्तर कोण में अर्थात् यंत्र की बायीं ओर एक मंगल कलश स्थापित करें।

मंगलकलश में पंचरत्न, चांदी का स्वस्तिक, सुपारी, हल्दी गांठ, पीली सरसों या पुष्प एवं १.२५ रुपया डालकर पीले या लाल तूस से श्री फल बांध कर सुसज्जित

करे । मंगलाष्टक, पात्र शुद्धि, दिग्बंधन, रक्षामंत्र एवं शांति मंत्राराधन करके यंत्राभिषेक विनायक यंत्र पूजा पेज २० से करके नवदेव पूजा करें ।

नवदेवपूजन

अनंतकालसम्भवद्भवभ्रमणभीतितो निवार्य सन्दधत् स्वय शिवोत्तमार्यसद्मनि ।
जिनेश-विश्वदर्शि-विश्वनाथ-मुख्यनामभिः स्तुतजिनं महामि नीरचन्दनै फलैरहम् ॥१॥
ओं ह्री अनंतभवार्षवभयनिवारकानन्तगुणस्तुतायार्हते परमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति
स्वाहा ।

कर्मकाष्ठहुतभुक् स्वशक्तितः सम्प्रकाश्य महनीय भानुभिः ।
लोकतत्त्वेमचले निजात्मनि संस्थितं शिवमहीपति यजे ॥ २ ॥

ओं ह्री अष्टकर्मविनाशकनिजात्मतत्त्वविभासक सिद्धपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति
स्वाहा ।

सार्थवाहमनवद्यविद्यया शिक्षणान्मुनिमहात्मना वरम् ।
मोक्षमार्गमलघुप्रकाशक सयजे गुरुवर परमेश्वरम् ॥ ३ ॥

ओं ह्री अनवद्यविद्याविद्योतनायाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

द्वादशांगपरिपूर्णसत्सुत यः परानुपदिशेत् पाठक ।
बोधयत्यभिहितार्थसिद्धये तानुपास्य यजयामि पाठकान् ॥ ४ ॥

ओं ह्रीं द्वादशांगपरिपूर्णश्रुतपाठनोद्यतबुद्धिविमवोपाध्यायपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति
स्वाहा ।

उग्रमर्घ्यतपसाभिसंस्कृति ध्यानतानविनिवेशितात्मकम् ।
साधकं शिवरमासुखाप्तये साधुमीड्यपदलब्धयेऽर्घ्ये ॥ ५ ॥

ओं ह्रीं घोरतपोऽभिसंस्कृतध्यानस्वाध्यायनिरतसाधुपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

यो मिथ्यात्वमतंगजेषु तरुणक्षुन्नसिहायते एकान्तातपतापितेषु समरुत्पीयूषमेघाय ते ।
श्वभ्राख्य प्रहिसंपतत्सु सदय हरस्तावलम्बायते स्याद्वादध्वजमागम तमभितः सपूजयामो
वयम् ॥ ६ ॥

ओं ह्रीं स्याद्वादमुद्रांकितपरमजिनागमायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जिनेन्द्रोक्तं धर्मसुदशयुतभेदत्रिविधया, स्थितसम्यक्करणत्रयलतिक्रियापि द्विविधया ।
प्रणीतं सागारेतरचरणतो ह्येकमनघं दयारूपवन्दे मखभुवि समास्थापितमिमम् ॥७॥
ओं ह्री सर्वज्ञवीतरागप्रणीतशाश्वतधर्मायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

वृत्त्या कृत्रिमचारुचैत्यनिलयान्नित्यं त्रिलोकीगतान्
वन्दे भावनव्यतरान् द्युतिवरान् स्वर्गमरावासगान् ।

सद्गन्धाक्षतपुष्पदामचरुवैः सद्दीपधूपैः फलैः
नीराद्यैश्च यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शान्तये ॥

ओं ह्रीं वृत्त्याकृत्रिमत्रिलोकवर्तिश्रीजिनालयेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये ।

तावन्ति सततं भक्त्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहम् ॥ ९ ॥

ओं ह्रीं त्रिलोकवर्तिवीतरागबिम्बेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

शांति विसर्जन करके अग्रिम क्रियाये करावें ।

मंगल कलश स्थापन

ओ अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिब्रह्मणो मतेऽस्मिन् विधीयमानेकर्मणि
श्रीवीरनिर्वाण संवत्सरे मासे पक्षे
तिथौ वासरे प्रशस्तलग्ने कार्यस्यनिर्विघ्नसमाप्त्यर्थं नवरत्नगंधपुष्पाक्षत
श्रीफलादि शोभित मंगल कलश स्थापनम् करोमि । श्रीं इवी क्ष्वी हं सः स्वाहा ।

दीपक स्थापन

रुचिरदीप्तिकर शुभदीपकं सकललोकसुखाकर मुज्ज्वलम् ।

तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमंगलकमुदा ॥

ओं ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामि ।

जप का संकल्प

ओं जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखण्डे .. . देशे .. . प्रान्ते
नगरे वीरनिर्वाण सम्वत्सरे .. . ऋतौ .. . मासे
. पक्षे .. . तिथौ .. . जैनमन्दिरे
... .. कार्यस्यनिर्विघ्नसमाप्त्यर्थं इति मन्त्रस्य .. . वासरादारंभ
.. . वासर पर्यन्त करिस्यामहे । .. . जापस्य संकल्पं कुर्मः
निर्विघ्न समाप्तिर्भवतु अर्हं नमः स्वाहा ।

यह संकल्प लेकर श्री फल यत्र के पास चढ़ा दें ।

मौन गृहण मंत्र -

ओं ह्रीं अर्हं ह्युं मौनस्थित्थम् मौनव्रतं गृह्णामि

आसन गृहण मंत्र -

ओं ह्रीं अर्हं निःसहि हूं फट् दर्भासने उपविशामि ।

मालाशुद्धि मंत्र -

ओं ह्रीं रत्नैः स्वर्णैः सूतैर्बीजैः रचिता जपमालिका सर्वजपेषु सर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छन्तु ।

माला (जाप) को प्रासुक जल से धोकर थाली में स्वस्तिक बनाकर उसमें रखे उक्त मंत्र को ७ बार पढ़कर पुष्प क्षेपण करें ।

प्रतिष्ठाचार्य जपवालों से जाप मंत्र का उच्चारण कराकर मंत्रोच्चारण शुद्ध करा दें । मंत्राराधन बहुत ही शुद्धतापूर्वक होना चाहिए ।

प्रतिदिन यंत्राभिषेक-पूजा-विसर्जन करके मंत्राराधन का कार्य करने के पूर्व एवं पश्चात् कार्योत्सर्ग करके ही स्थान छोड़ें । माला के अंत में दाहिने हाथ से धूपदान में धूप क्षेपें । माला भी दाहिने हाथ से करना चाहिए । प्रतिदिन की माला का हिसाब लवंग द्वारा लगाकर सावधानी पूर्वक अलग कागज पर लिख कर रखना चाहिए ।

मंत्र परिभाषा -

मकारं च मनः प्रोक्तं त्रकारं त्राणमुच्यते ।

मनस्त्राणत्वयोगेन मंत्र इत्यभिधीयते ॥

जप परिभाषा -

जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशनः ।

तस्माज्जप इति प्रोक्तः जन्मपापविनाशकम् ॥

जाप एवं हवन में मंत्र का प्रयोग

जपकाले नमः शब्दो मंत्रस्यान्ते प्रयोजयेत्

होम काले पुनः स्वाहा मंत्रस्यायं सदा क्रमः ।

नोट : जाप मंत्र मंत्राधिकार परिच्छेद पेज में देखें ।



दुर्गा प्रतिष्ठा

इन्द्र प्रतिष्ठा - नान्दीविधान

भक्तियां - (१) सिद्ध भक्ति

सामग्री -

(१) हार मुकुट

(२) मंगलकलश (तैयार)

(३) दीपक (काँच एवं जाली सहित)

(४) यज्ञोपवीत

(५) मौली

(६) रंगोली

इन्द्र प्रतिष्ठा (१)

दृग्बोधदेशव्रतरूपरत्नत्रयभवेन्मेकलितैकभक्तम् ।

आकर्मिका ब्रह्मनिर्वृत्तियुक्तस्याद्यज्ञदीक्षविधिना विशिष्ट ॥ (१७)

ओं ह्री अर्हद्देवयज्ञदीक्षांगीकारः (सब पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे)

धृत्वाग्रतो मगलयत्रधाम्नि प्रसाधनान्यार्हतयज्ञपीठे ।

अनादिसिद्धादभिमन्त्रपूतान्यगेषु धार्याणि यथाप्रसादम् ॥

ओं ह्रां णमो अरिहंताणं, ओं ह्री णमो सिद्धाणं, ओ हूं णमो आइरियाणं, ओ हौ णमो उवज्झायाणं ओ ह्रः णमो लोए सब्बसाहूणं इन्द्र इन्द्राण्योराभूषणानि पवित्राणि कुरु कुरु (जल से मुकुट माला आदि शुद्ध करे)

अमृतस्नान मंत्र

ओं ह्री अमृते अमृतोद्मवे अमृतवर्षिणि अमृतं स्रावय स्रावय सं सं क्ली क्ली ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्री द्री द्रावय द्रावय हं सं इवी क्षी ठः ठः हं सः स्वाहा ।
(शरीर पर मन्त्रित जल के छीटे लगाकर शुद्धि करे)

धौतातरीय विधुकातिसूत्रै सद्ग्रथितं धौतनवीनशुद्धम् ।

नग्नत्वलब्धिर्न भवेच्च यावत् सधार्यते भूषणमूरुभूम्या ॥

इति अधोवस्त्रं अवधारयामि (अधोवस्त्र (धोती का) स्पर्श करे) ।

संव्यानमचद्दशया विभातमखडधौताभिनवमृदुत्वम् ।

सधार्यते पीतसिताशुवर्णमशोपरिष्ठाद् धृतभूषणाकम् ॥

इति दुकूलं अवधारयामि । (दुपट्टा का स्पर्श करे)

पात्रेऽर्पित चदनमौषधीश शुभ्र सुगन्धाहतचचरीकम् ।

स्थाने नवाके तिलकाय चर्च्य न केवल देहविकारहेतो ॥

ओं ह्रां ह्री हूं ह्रीं ह्रः मम सर्वांगशुद्धिं कुरु कुरु ।

यह मंत्र पढ़कर (१) शिखा, (२) मस्तक, (३) ग्रीवा, (४) हृदय, (५) दोनो भुजाएं, (६) पीठ, (७) कान, (८) नाभि और (९) हाथ में नौ तिलक लगावे ।

सम्यक्पिनद्धनवनिर्मलरत्नपंक्ति रोचिबृहद्वलयजातबहुप्रकारम् ।
कल्याणनिर्मितमहं कटकं जिनेशपूजाविधानललिते स्वकरे करोमि ॥

ओं णमो ऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा (दाहिने हाथ मे रक्षा सूत्र बांधे)

यज्ञार्थमेव सृजतादिचक्रेश्वरेण चिन्ह विधिभूषणानाम् ।
यज्ञोपवीत वितत हि रत्नत्रयस्य मार्गं विदधाम्यतोऽहम् ॥

ओं नमः परमशांताय शान्तिकराय पवित्रीकरणायाहं रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधामि मम
गात्रं पवित्रं भवतु अर्ह नमः स्वाहा । (यज्ञोपवीत धारण करे)

जिनांघ्रिभूमिस्फुरितां स्रज मे स्वयवरं यज्ञविधानपत्नी ।
करोतु यत्नादचलत्वहेतोरितीव मालामुररीकरोमि ।

ओं मालां अवधारयामि (माला धारण करे)

शीर्षण्यशुम्भन्मुकुटं त्रिलोकीहर्षाप्तराज्यस्य च पट्टबन्धम् ।
दधामि पापोर्मिकुलप्रहन्तुरत्नाढ्यमालाभिरुदञ्चितांगम् ॥

ओं मुकुटं अवधारयामि (मुकुट धारण करे) ।

मुक्तावलीगोस्तनचन्द्रमालाविभूषणान्युत्तमनाकभाजाम् ।
यथार्हससर्गगतानि यज्ञलक्ष्मीसमालिगनकृद्दधेऽहम् ॥

ओं हारं अवधारयामि (हार धारण करे)

प्रोत्फुल्लनीलकुलिशोत्पलपद्मरागनिर्जत्करप्रकरबधसुरेन्द्रचापम् ।
जैनेन्द्रयज्ञसमर्थेऽगुलिपर्वमूले रत्नागुलीयकमह विनिवेशयामि ॥

ओं रत्नमुद्रिकां अवधारयामि (मुद्रिका धारण करे)

त्रैवेयक मौक्तिकदामधामविराजित स्वर्णनिबद्धयुक्तम् ।
दधेऽध्वरापर्णविसर्पणेच्छूर्महाधनाभोगनिरूपणाकम् ॥

ओं कण्ठाभरणं अवधारयामि (कण्ठाभरण धारण करे)

एकत्र भास्वानपरत्र सोमं सेवा विधातुं जिनपस्य भक्त्या ।
रूप परावृत्य च कुण्डलस्य मिषादवाप्ते इव कुण्डले द्वे ॥

ओं कुण्डलं अवधारयामि (कुण्डल धारण करे)

- - भुजासु केयूरमपास्तदुष्टवीर्यस्य सम्यक् जयवृक्ष्वजांकम् ।
दधे निधीनां नवकैश्च रत्नैर्विमण्डितं सद्ग्रथितं सुवर्णं ॥

ओं केयूरं अवधारयामि (बाजूबंद धारण करे) ।

अन्यैश्च दीक्षां यजनस्य गाढ कुर्वद्भिरिष्टैः कटिसूत्रमुख्यैः ।
सभूषणैर्भूषयतां शरीरं जिनेन्द्रपूजा सुखदा घटेत ॥

ओं कटिमेखलां अवधारयामि (कटिसूत्र धारण करें)

विधेर्विधातुर्यजनोत्सवेऽहगेहादिमूर्च्छमपनोदयामि ।
अनन्यचेताः कृतिमादधामि स्वर्गादिलक्ष्मीमपि हापयामि ॥

(यह पढकर घर - गृहस्थी के कार्यों से उत्सवपर्यन्त निवृत्त रहने की प्रतिज्ञा करे)
(इति पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं पञ्चमहागुरुभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम् ।)

नान्दी विधान (१)

नान्दीविधान, पात्रों की मंत्रों द्वारा कल्पना जिनमदिर या प्रतिष्ठा मंडप में करना चाहिये। मण्डप के मध्य पाटला पर चावलों से नद्यावर्त स्वस्तिक बनावे। उस पर मंगलकलश एवं दीपक रखें। पश्चात् प्रतिष्ठा पात्रो (यज्ञनायक (माता-पिता) इन्द्र इन्द्राणी आदि) की अमृत स्नान (मंत्र द्वारा शुद्धि) करें फिर पृथक् पृथक् पात्रो की कल्पना (संकल्प) करना चाहिये।

अथोपनीतेऽध्वरसंनिवेशस्थले समागत्य पुरघ्निगानैः ।
 वादित्रनादैः परिपूरिताशं नांदीविधानं पुरतो विधत्ताम् ॥
 शाल्यक्षतैः कुंकुमकर्दमात्तैर्विधाय नद्यावर्तमर्जितांशे ।
 वेद्या कृत्तार्घ्यं मणिदर्पणस्रग्वरन्त्रावृतं सत्कलशं निवेशयेत् ॥
 रक्तवस्त्रफलदामभूषिते वेदिकातरितभूतले शुचौ ।
 स्वस्तिके मणिसुवर्णशालिजैर्निर्मिते कुलबधूमिरादरात् ॥
 इन्द्रमध्वरकृतं सुचंदनैः कुंकुमाक्ततिलजैः सतीर्थगैः ।
 अंबुभिः कलशवारिधारया स्नापयेदवभृताथर्मजसा ॥
 स्वस्तिमंत्रपरिपाठनपूर्वमाशिषां ततिमवाप्य हितार्थम् ।
 श्रोत्रियेण विहितक्रिययाऽमू यज्ञयोग्यपरिकर्मभृतौ स्तः ॥

अमृत स्नान मंत्र

ओं ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं सप्तर्द्धिं
 समृद्धगणधराणां अनाहतपराक्रमरते भवतु भवतु ह्रीं नमः

(आचार्य, इन्द्र और यजमान पर जल के छिंटे लगावे एवं पुष्प क्षेपण करें)

उपवासमेकभक्तं तद्विसे संविधाय भावनया ।

त्रैषष्टिस्मरणकथानिपुणः पंक्त्यां तु वर्जयेद् भोज्यं ॥

तत्प्रभृति सोऽपि याजकवर्यो मघवाऽऽज्ञया गुरुदिशा विचरेत् ।

दानाध्ययनपरार्थिषु भक्त्या चेहानयेत्संघम् ॥

रत्नत्रयांगमुपवीतमुरस्यथांगं देशव्रतस्य च सुक्कणमत्र हस्ते ।

ब्रह्मव्रतांगमधुना स्वकटौ च मौर्जीं घृत्वारभे जिनमखं मखदीक्षितोऽहम् ॥ (२)

ओं ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्राय नमः ।

(प्रतिष्ठा पात्रों पर पुष्प क्षेपण करें)

यज्ञनायक (माता-पिता) की योग्यता एवं कल्पना (१)

पक्षिकाचारसपन्नो धीसपद्वन्धुबधुर ।
 राज्यमानो वदान्यश्च यजमानो मत प्रभु ॥
 आयुष्मस्त्वयि वर्तन्ते यजमानगुणा अमी ।
 यज्ञेऽस्मिन् याजमानत्व साधुमन्यामहे त्वयि ॥^(२)
 इत्युच्चैर्वदता दत्तान्समत्रान् गुरुणाक्षतान् ।
 स्वीकृत्यांजलिनो पाशु मत्रमुच्चार्यनामिते ॥

ओं ह्री अर्हं अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं अनाहतपराक्रमस्ते भवतु भवतु ह्री नमः
 स्वाहा । (माता-पिता पर पुष्प क्षेपण करे)

गोत्र परिवर्तन (३)

यद्वंश्यतीर्थकरबिबमुदीर्य संस्था -
 मुख्या तदीयकुलगोत्रजनिप्रवेशात् ।
 सवृत्तगोत्रचरणप्रतिपातयोगा -
 दा शौचमावहतु नोद्यभवप्रशस्तम् ॥

ओं तत्सदद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिब्रह्मणो मतेऽवसर्पिण्या दुःखमपंचमकालस्य
 प्रथमपादे वर्षगतेश्रीमद्दीरनिर्वाणे मारसानामुत्तमे मासे,
 शुभे पक्षे तिथौ वासरे
 अस्मिन् जम्बूद्वीपस्य भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे नाम्नि नगरे मंत्राभिषव
 श्रीमज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक बिम्ब प्रतिष्ठा कर्मणि नाम्नो यजमानस्य
 इक्ष्वाववादिवंशेश्री ऋषभनाथादिरंताने काश्यपगोत्रे परावर्तनं यावदध्वरं भवतु भवतु क्रौ
 ह्री अर्हं नमः । (पुष्प क्षेपण करे)

इत्युक्त्वा यजमानस्य पट्टं बध (मुकुटबध) कुर्यादाचार्य यज्ञनायक (माता-पिता)
 को मुकुट बाधे माला पहिनावें तथा प्रतिष्ठाचार्य आशीष देवे ।

ओं सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे आसन्नमव्य आसन्नमव्य विश्वेश्वरे विश्वेश्वरे अर्जित पुण्ये
 अर्जित-पुण्ये जिन माता पिता भव । (माता पिता पर पुष्प छोड़े ।)

नांदीविधान के पश्चात वश-परिवर्तन हो जाने से कुटुंब सबधि सूतक-पातक नहीं
 लगता समस्त पात्रो को व्यापारादि कार्य छोड़ कर प्रतिष्ठाकार्यो को समय पर ही
 करे ।

(१) श्री ने दे, प्र. ति पृष्ठ १३ श्लोक ४१ से ४३ (२) श्री ने दे प्र ति श्लोक
 ४२-४३ (३) आ ज से प्र पा पृष्ठ ६२ श्लोक २५८

इन्द्रकल्पना (स्थापना) (१)

देशजातिकुलाचारैः श्रेष्ठो दक्षः सुलक्षणः ।

त्यागी वाग्मी शुचिः शुद्धः राम्यक्त्वः सद्वृतो युवा ॥ १ ॥

श्रावकाध्ययनज्योतिर्वास्तुसारपुराणवित् ।

निश्चयव्यवहारज्ञः प्रतिष्ठाविधिवित्प्रभुः ॥ २ ॥

विनीतः सुभगो मन्दकषायो विजितेन्द्रियः ।

जिनेज्यादिक्रियानिष्ठो भूरिसत्वार्थबाधवः ॥ ३ ॥

आयुष्मंस्त्वयि वर्तन्ते प्रोक्ता याजकसद्गुणाः ।

जिनाग्रयाजकतया सौधर्मेन्द्रोऽसि सोऽधुना ॥ ४ ॥

इत्युच्चैर्वदता दत्तान्समंत्रान् गुरुणाक्षतान् ।

स्वीकृत्यांजलिनोपांशुमंत्रमुच्चार्य नामिते ॥ ५ ॥

ओं ह्रीं अर्ह अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं अनाहत पराक्रमस्ते इन्द्रो भवतु भवतु
ह्रीं नमः स्वाहा । (पुष्प क्षेपण करें)

(इन्द्र को मुकुट बांधे, माला पहिनावें)

शचीकल्पना (स्थापना) (२)

सौभाग्यामलचारुभूषणचरित्रालंकृतां पावर्णी

कल्पद्वासवभामिनी व्रतगुणैः शीलैर्महाशोभनाम् ।

अन्या वा कृत्तिकर्मसंग्रहकरी योग्यामुदीक्ष्य ध्रुवं

संदीक्षाव्रतशुद्धये वितनुतामाचार्यवर्य स्वयम् ॥

अस्मिन् कर्मणि मात्रुपासनविधावेषा प्रशस्ता भव -

त्वेवं सभ्यजनाः प्रमाणयत सद्धर्मत्वबुद्धयेति ताम् ।

मांगल्यादिविभूषणैः कृतमहोत्संहामिमां रक्षय

मंत्रोपास्तितया नियोज्य कुसुमक्षेप विदध्योत्सवे ॥

ओं ह्रीं अर्ह अ सि आ उ सा णमो अरिहंताणं अनाहत पराक्रमस्ते शची भवतु भवतु
ह्रीं नमः स्वाहा (पुष्प क्षेपण करें)

(१) श्री. ने. दे., प्र. ति. पृष्ठ ११ एवं १२ श्लोक ३३ से ३८

(२) आ. ज. से., प्र. पा पृष्ठ २३२ श्लोक ७१६, ७१७

यज्ञ दीक्षा विधि (१)

तुभ्य पर स्वस्ति मयाऽभ्यघायि व्रत गृहाणाखिलकर्मसिद्धये ।
 पूर्वगृहीतेष्वभिवृद्धिपुष्टिर्यथा भवेत्त्व कुरु तत्तथैव ॥
 यावत्प्रतिष्ठा समयावतीर्णो न स्यादपब्रह्म चतु कषाया ।
 अन्यान्यभुक्तिर्वसनाशनाना वर्ज्या त्रिकाल समताग्रहेण ॥
 अन्याय सर्वस्वकुभुक्तिवृत्सामिथ्याप्रलापादिविमोचन च ।
 पूर्वप्रयोगेष्वतिचारमृष्टि- स्वतस्तवास्त्येव किमर्थमन्यै ॥
 इत्याद्यभिप्रायवशादुदीर्य व्रतग्रह- सद्गुरुणोपदेश्य ।
 मन्त्रेण बद्धाजलिमस्तकाभ्या यज्वेन्द्रकाभ्यामपरैर्विधाय ॥

इस प्रकार समस्त पात्र, इद्र इद्राणी प्रतिज्ञाबद्ध हो कि वह प्रतिष्ठाकार्य समाप्त होने तक ग्रहण किये गये नियमों के साथ-साथ विजातीय के यहाँ भोजन एवं वस्त्रादिक का सन्मान, अन्यायपूर्वक धनार्जन मिथ्याप्रलाप, पर निदा आदि कोई कार्य नहीं करेंगे। मन में इस प्रकार विचार करके हाथ जोड़े पचपरमेष्ठी को साक्षी मानकर कायोत्सर्ग करके सकल्प लें।

व्रतग्रहण मंत्र (२)

ओं ह्रीं अर्हं अर्हं त्स्त्रिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधु समक्षकं दृढ्व्रतं समारूढं भवतु स्वाहा ।
 यावत्कल्प समाप्तिस्तावदर्थितमंगेन पालयितव्यमिति मन्त्रेण व्रतदानं कुर्यात् ।
 तस्मिन् क्षणे तन्महती पुरस्तात् चतुर्विध वाद्यगण प्रशस्य ।
 स्थाप्य तदीशान् पुरु चारुवस्त्रैः सन्मानयेत्तत्र विधौ नियुज्यात् ॥
 (यज्ञनायक का वस्त्रादिक द्वारा सन्मान करे)
 एव नान्दीविधानेन वृत्तारभक्रियो नर ।
 सन्मगलपुरस्कारैः सौख्याभागी भवेत्सदा ॥
 (पात्रों पर आशीर्वाद स्वरूप पुष्प क्षेपण करे)

(१) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक २४६ - २४९

(२) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक २५९ - २६०

आभिषेक
एवं
शान्तिधारा

सामग्री :

टेबिल

चौका

चंदोवा

छत्र

चंवर

प्रासुक जल

चंदन / केशर

अष्ट द्रव्य

शुद्ध वस्त्र पहिने इन्द्र

कलश

अभिषेक पाठ (आचार्य माघनदी कृत)

मंगलाष्टक, पात्र शुद्धि, दिग्बधन रक्षामंत्र, शांति मंत्र, आराधन के पश्चात् अभिषेक क्रिया करे ।

श्री मन्त्रतामरशिरस्तट्परत्नदीप्ति, तोयाविभासिचरणाम्बुजयुग्ममीशम् ।
अर्हन्तमुन्नतपदप्रदमाभिनम्य, त्वन्मूर्तिषूद्यदभिषेकविधिंकरिष्ये ॥

अथ पौर्वाह्निक देववन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भावपूजा वंदना स्तव समेतं श्री पञ्चमहागुरुभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम् (नौ बार णमोकार मंत्र पढ़ें)

पात्रेऽर्पितं चंदनमौषधीशं, शुभ्रं सुगन्धाहृतचचरीकम् ।
स्थाने नवांके तिलकाय चर्च्य, न केवल देहविकारहेतो ॥

ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः मम सर्वांग शुद्धि कुरु कुरु ।
(चंदन से तिलक लगाये एवं आभूषण पहने)

यां वृत्रिमास्तदितरा प्रतिमा जिनस्य, सस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ता ।
सद्भावलब्धिसमयादिनिगित्तयोगात्तत्रैवमुज्ज्वलधिया कुरुसुमक्षिपामि ॥

इति अभिषेक प्रतिज्ञानाय पुष्पाञ्जलि क्षिपामि ।

श्रीपीठक्लृप्ते विशदाक्षतोद्ये, श्रीप्रस्तरे पूर्णशशाककल्पे ।

श्री वर्तते (१) चन्द्रमसीतिवार्ता, सत्यापयन्ती श्रियमालिखामि ॥

ओं ह्रीं श्रीं अर्हं श्रीं लेखनं करोमि । 'श्री' लेखन करे

कनकादिनिभं कम्ब्रं पावन पुण्यकारणम् ।

स्थापयामि वर पीठं जिनस्नपनाय भक्तितः ॥

ओं ह्रीं पीठस्थापनं करोमि । (सिंहासन स्थापित करे)।

भृंगारचामरसुदर्पणपीठकुम्भ-तालध्वजातपनिवारकभूषिताग्रे ।

वर्धस्व नन्द जय पाठपदावलीभिः, सिंहासने जिन! भवन्तमह श्रयामि ॥

ओं ह्रीं श्रीं धर्मतीर्थाधिनाथ! भगवन्निह स्नपनपीठे (सिंहासन) तिष्ठ तिष्ठ!

शातकुम्भीयकुम्भौघान्क्षीराब्धेस्तोयपूरितान् ।

स्थापयामि जिनस्नानचन्दनादिसुचर्चितान् ॥

ओं ह्रीं चतुःकोणेषु स्वतये चतुः कलशस्थापनं करोमि!

(चार कोनो मे चार कलशो पर स्वस्तिक बनाकर कलश स्थापित करे)

आनन्दनिर्भरसुरप्रमदादिगानै-वादित्रपूरजयशब्दकलप्रशस्तौ ।

उद्गीयमानजगतीपतिकीर्तिमेना, पीठस्थली वसुविधार्चनयोल्लसामि ॥

ओं ह्री र्नपन पीठ स्थिताय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा !

(अर्घ चढ़ावे, वादित्र, नाद, तथा जय-जय शब्द का उच्चारण करे ।)

कर्मप्रबन्धनिगडैरपि हीनताप्त, ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम् ।

त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव, शुद्धोदकैरभिनयामि नयार्थतत्त्वम् ॥

ओं ह्री श्री क्ली ऐं अर्ह वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं इवी इवी
क्वी क्वीं द्रां द्रां द्री द्री हं हं इवी इवी हं सः झं वं हः सः सः क्षां क्षी क्षूं क्षें क्षैं
जिनमभिषेचयामः । (अभिषेक करे)

सकलभुवननाथ त जिनेन्द्र सुरेन्द्रै, रभिषवविधिमाप्त स्नातकं स्नापयाम् ।

यदभिषवनवारा विन्दुरेकोऽपि नृणां, प्रभवति विदधातुं भुक्तिस्सन्मुक्तिलक्ष्मीम् ॥

ओं ह्री श्री क्ली ऐं अर्ह वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं इवीं
इवी क्वी क्वी द्रां द्रां द्री द्री हं हं इवी इवीं हं सः झं वं हः सः सः क्षां क्षी क्षूं क्षें क्षैं
क्षों क्षों क्षं क्षः क्वी हां ही हूं हें हैं हों हों हं हः ह्री द्रां द्री नमोऽर्हते भगवते श्री
मते ठः ठः इति बृहच्छ्रुतिमंत्रेणाभिषेकं करोमि ।

दूरावनग्रसुरनाथकिरीट कोटि, संलग्नरत्नकिरणच्छवि-धूसराङ्घ्रम् ।

प्रस्वेदतापमल-मुक्तिमपि प्रकृष्टे, भक्तया जलैर्जिनपति बहुधाऽभिषिञ्चे ॥

ओं ह्री श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालुसन्तं श्रीवृषभादि महावीरपर्यन्त चतुर्विंशति तीर्थकर
परमदेवं मध्यलोकेजम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे..... प्रदेशे..... नगरे
(ग्रामे)

.....मंदिरे (मण्डपे)वीरनिर्वाणसंवत्सरेमासानामुत्तमेमासे.....
.....पक्षे.....पुण्यतिथौ.....वासरेमुनि-आर्यिकत्र-श्रावक-श्राविक्रणांसकलकर्मक्षयार्थं
जलेनाभिषेचयामः । (उदकचदनादि. . . .बोलकर अर्घ चढ़ाना)

स्नात्वा शुभावरधराः कृत्वा यत्नयोगात् यंत्रं निवेश्य शुचि पीठ वरेऽभिषिचेत् ।

ओ भूर्भुवः स्वरिह मंगलयत्र मेतत् विघ्नौघवारक मह परिषेचयामि ॥

ओं ह्री विघ्नौघवारकं यंत्रं वयं परिषेचयामः

अर्ह मंत्रं नमस्कृत्य रत्नत्रयतपोनिधिम् ।

सिद्धयत्र स्नपयामि सर्वोपद्रवशान्तये ॥

ओं ह्री श्री वृषाभादिवीरान्तान् विनायकसिद्धयंत्रं च जलेन स्नपयामः ।

(यहा पर शान्तिधारा करे)

पानीयचन्दनसदक्षतपुष्पपुञ्जनैवेद्यदीपकसुधूपफलव्रजेन ।

कर्माष्टकक्रथनवीरमनन्तशक्ति, सम्पूजयामि महसा महसा निधानम् ॥

ओं ह्रीं अभिषेकान्ते श्री वृषभादिवीरान्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा !

नत्वा मुहुर्निजकरैरमृतोपमेयै स्वच्छैर्जिनेन्द्र तव चन्द्रकरावदातै ।

शुद्धाशुक्लेन विमलेन नितान्तरम्ये, देहेस्थितान् जलकणान् परिमार्जयामि ॥९॥

ओं अमलांशुकेन जिनविम्बमार्जनं करोमि ।

(प्रतिमाजी को शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र से पौछें)

स्नान विधाय भवतोऽष्ट राहरत्रनाम्नामुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिम् ।

जिघृक्षुरिष्टिमिनतेऽष्टतयीं विधातु सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि ॥

ओं ह्रीं सिंहासने जिन विम्बं स्थापयामि ।

(प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करे)

जलगन्धाक्षतैः पुष्पैश्चरुदीपसुधूपकैः ।

फलैरर्घैर्जिनमर्चं जन्मदुःखापहानये ॥

ओं ह्रीं पीठ स्थिताय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा !

इमे नेत्रे जाते सुवृत्तजलसिवत्ते सफलिते, ममेदं मानुष्य कृतिजनगणादेयमभवत् ।

मदीयाद् भल्लाटादशुभकर्माटनमभूत्, सदेदृक्पुण्यार्हन् मम भवतु ते पूजनविधौ ॥

(पुष्पक्षेपण करे) ।

मुक्ति - श्रीवनिता करोदकमिदं पुण्याकुरोत्पादकं,

नागेन्द्र - त्रिदशेन्द्रचक्रपदवी-राज्याभिषेकोदकम् ।

सम्यग्ज्ञानचरित्र-दर्शनलता-संवृद्धि-सम्पादक,

कीर्तिश्रीजयसाधक तव जिन स्नानस्य गन्धोदकम् ॥३॥

(गन्धोदक मस्तक पर लगावे)

शांतिधारा (१)

- (१) ओं नमः सिद्धेभ्यः । श्री वीतरागाय नमः । ओं ह्रीं णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं । चत्तारि मंगलं-अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवल्लिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा-अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्लिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवल्लिपण्णत्तं

- धम्मं सरणं पव्वज्जामि । ओं ह्री अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरु ।
- (२) ओं नमोऽर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु-विनाशनाय सर्व परकृच्छ्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामरविघ्न - विनाशनाय ओं ह्रां ह्री हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु ।
- (३) ओं हूं क्षूं फट् किरिटिं किरिटिं घातय घातय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमंत्रान् भिन्द भिन्द क्षां क्षः वाः वाः हूं फट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।
- (४) ओं ह्री श्री क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहत विद्यायै णमो अरिहंताणं ह्रौं सर्वविघ्नशान्तिं कुरु कुरु ।
- (५) ओं अ ह्रां, सि ह्री, आ हूं, उ ह्रौं, सा ह्रः जगदातप विनाशनाय ह्री श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।
- (६) ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय अशोकतरुसत्प्रातिहार्य मण्डिताय अशोकतरुसत्प्रातिहार्य शोभनपद प्रदाय ह्म्लर्व्यू बीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः सर्व शान्तिं कुरु कुरु ।
- (७) ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्य मण्डिताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय म्लर्व्यूबीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।
- (८) ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्य मण्डिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय म्लर्व्यू बीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।
- (९) ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार्य मण्डिताय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय म्लर्व्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरुकुरु ।
- (१०) ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय सिंहासनसत्प्रातिहार्य मण्डिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य-शोभनपदप्रदाय म्लर्व्यू बीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।

- (११) ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथाय दुन्दुभिसत्प्रातिहार्यमण्डिताय दुन्दुभिसत्प्रातिहार्य शोभनपद प्रदाय इम्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।
- (१२) ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य मण्डिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य शोभनपद प्रदाय इम्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।
- (१३) ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथाय भामण्डल सत्प्रातिहार्य मण्डिताय भामण्डल सत्प्रातिहार्य शोभनपद प्रदाय खल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ।
- (१४) ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथाय प्रातिहार्याष्टसहिताय बीजाष्टमण्डनमण्डिताय सर्वविघ्नशान्तिं कराय नमः सर्व शान्तिं कुरु कुरु ।

ऋद्धि मंत्र (१)

१५. ओं ह्रीं अर्हं णमो जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
१६. ओं ह्रीं अर्हं णमो ओहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
१७. ओं ह्रीं अर्हं णमो परमोहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
१८. ओं ह्रीं अर्हं णमो सव्वोहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
१९. ओं ह्रीं अर्हं णमो अणंतोहि जिणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२०. ओं ह्रीं अर्हं णमो कोट्ठबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२१. ओं ह्रीं अर्हं णमो बीजबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२२. ओं ह्रीं अर्हं णमो पादाणुसारीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२३. ओं ह्रीं अर्हं णमो संभिण्णसोदाराणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२४. ओं ह्रीं अर्हं णमो सयंबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२५. ओं ह्रीं अर्हं णमो पत्तेयबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२६. ओं ह्रीं अर्हं णमो बोहियबुद्धीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२७. ओं ह्रीं अर्हं णमो उजुमदीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
२८. ओं ह्रीं अर्हं णमो विउलमदीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।

२९. ओं ह्री अर्ह णमो दसपुव्वीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३०. ओं ह्री अर्ह णमो चउदसपुव्वीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३१. ओं ह्री अर्ह णमो अट्ठांगमहाणिमित्तकुसलाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३२. ओं ह्रीं अर्ह णमो विउव्वण पत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३३. ओं ह्री अर्ह णमो विज्जाहराणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३४. ओं ह्रीं अर्ह णमो चारणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३५. ओं ह्री अर्ह णमो पण्णसमणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३६. ओं ह्री अर्ह णमो आगासगामीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३७. ओं ह्री अर्ह णमो आसीविसाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३८. ओं ह्रीं अर्ह णमो दिट्ठविसाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ३९. ओं ह्री अर्ह णमो उग्गतवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४०. ओं ह्रीं अर्ह णमो दित्ततवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४१. ओं ह्री अर्ह णमो तत्ततवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४२. ओं ह्रीं अर्ह णमो महातवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४३. ओं ह्री अर्ह णमो घोरतवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४४. ओं ह्रीं अर्ह णमो घोरगुणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४५. ओं ह्री अर्ह णमो घोरपरक्कमाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४६. ओं ह्री अर्ह णमोऽघोरगुण वंमचारीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४७. ओं ह्री अर्ह णमो आमोसहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४८. ओं ह्रीं अर्ह णमो खेलोसहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ४९. ओं ह्रीं अर्ह णमो जल्लोसहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५०. ओं ह्रीं अर्ह णमो विट्ठो सहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५१. ओ ह्री अर्ह णमो सब्बोसहिपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५२. ओं ह्री अर्ह णमो मणवलीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५३. ओं ह्री अर्ह णमो वचवलीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।

५४. ओं ह्री अर्ह णमो कायवलीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५५. ओ ह्री अर्ह णमो खीरसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५६. ओ ह्री अर्ह णमो सप्पिसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५७. ओं ह्री अर्ह णमो महुसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५८. ओं ह्री अर्ह णमो अमड् सवीणं-सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ५९. ओं ह्रीं अर्ह णमो अक्खीणमहाणसाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ६०. ओं ह्री अर्ह अमो वड्ढमाण बुद्धिरिसिरस सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ६१. ओ ह्री अर्ह णमो सत्त्वसिद्धायदणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 ६२. ओं ह्री अर्ह णमो भगवदोमहति महावीर वड्ढमाणबुद्धिरिसाणं सर्वशान्तिर्भवतु ।
 (इसके बाद धारा यत्र पर करे)

६३. तव भक्तिप्रसादाल्लक्ष्मी पुरराज्यगेह पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योद्भवोपद्रव स्वचक्रपर-चक्रोद्भवोपद्रव प्रचण्डपवनानलजलोद्भवोपद्रव शाकनीडाकनी भूतपिशाचकृतोपद्रव दुर्भिक्षव्यापार वृद्धिरहितोपद्रवाणां विनाशनं भवतु ।

६४. श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोऽस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, सर्वेषाम् (यजमानानां) तुष्टिरस्तु, पुष्टि रस्तु समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अमिवृद्धिरस्तु, कुलगोत्रघनधान्यंसदास्तु, श्रीसद्धर्मबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ।

ओं ह्री अर्ह णमो सम्पूर्णकल्याण मंगलरूप मोक्षपुरुषार्थश्च भवतु ।

शातिधारा के पश्चात् प्रतिमा प्रक्षालन, अर्घ, बिम्ब-स्थापन और गधोदक आदि का पाठ एव मत्र बोलना चाहिए पश्चात् जिन बिम्ब को सिंहासन पर विराजमान करे ।

हिन्दी अभिषेक पाठ (१)

श्रीमत् स्याद्वाद के नायक तीन लोक में पूजित ईश ।
चार अनंत चतुष्टयराजित श्रीजिनभव्य नमावत शीश ॥
शुद्धदृष्टि से गुण चिन्तन मे कारण आत्मरूप गिरीश ।
कायोत्सर्ग नवकार मत्र जप करू त्रियोग कर्म की खीश ॥

अथ पौर्वाह्निक, (माध्याह्निक, अपराह्निक) देव वन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण
सकलकर्मक्षयार्थ भावपूजा वंदनारस्तव समेतं श्री पंचमहागुरु भक्ति कायोत्सर्ग
करोम्यहम् (नौ बार णमोकार मत्र पढे)

पावन शीतल केशर चन्दन सलिल सग दीजे घिसवाय ।
नव स्थान पर तिलक लगावें तब जिनवर का न्हवन कराय ॥
शिखा कठ अरु हृदय भुजा शिर कान कुक्षि कर नाभि लगाय ।
तिलक लगाकर जिनवर पूजे बने पुजारी भाग्य सुपाय ॥

ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः मम सर्वांगशुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा

क्षीर सिधु सम निर्मल पावन, प्रासुक जल कर मे लाया ।
न्हवन पीठ के प्रक्षालन हित भक्ति भाव मन में आया ।
वीतराग जिनवर की मूर्ति के अभिषेक विधी के काज ।
देवेन्द्रो से अनुपम अवसर भाग्योदय से पाया आज ॥

ओं ह्रीं पीठप्रक्षालनं करोमि ।

शारद मुख से निर्गत 'श्री' है विघन विनाशक मंगल रूप ।
सब जीवों को शान्ति प्रदाता स्वस्तिक मय है आत्म स्वरूप ॥
भद्र पीठ पर लिखकर 'श्री' को स्थापन जिनवर जगभूप ।
विधि अभिषेक करूं जिनवर का होवेगा तन मन सुख रूप ॥

ओं ह्रीं श्री अर्हं श्री लेखनं करोमि

ऐसे जिनपद-पंकज को नमि नित्य सही विधि न्हवन प्रसारे ।
तिनपद सन्मुख तिष्ठत उज्ज्वल, द्रव्यसुधार यहा विस्तारे ॥
कचन सिहासन श्री लिखकर निर्मल प्रासुक द्रव्य सभारे ।
ता मधि बिम्ब शिवालय नायक हो अभिषेक हितार्थ सुधारे ॥

ओं ह्रीं श्री भगवन्निह रनपनपीठे तिष्ठ तिष्ठ

रत्न स्वर्णमय कलश मनोहर क्षीरोदधि से लिए भराय ।
 केशर स्वस्तिक लिखकर सुन्दर चार कोण पर चार धराय ॥
 भाग्य उदय है आज हगारा जिनवर न्हवन करु हरषाय ।
 सम्यग्दर्शन साधन पाकर यह मिथ्यात्व करम नश जाय ॥

ओं ह्री चतुः कोणेषु स्वस्तये चतुः कलश स्थापनं करोमि

प्राशुक निर्मल द्रव्य मनोहर हर्षित मन से सुरगण आय ।
 वादित्रो के अनुपम स्वर से श्री जिनवर के गुण को गाय ॥
 नीर गध चरुपुष्प सु अक्षत दीप धूप फल अर्घ बनाय ।
 अर्चन करता प्रभु चरणो का अवसर आज मिला है आय ॥

ओं ह्री स्नपनपीठस्थितजिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा

१ अभिषेक मंत्र

कृत्रिम और अकृत्रिम बिम्ब सनातन राजत श्री जिन तेरे ।
 तासु तनी नित भव्य उपासन ठानत भानत कर्म करेरे ॥
 क्षीर समुद्र नदी नद तीरथ तासु तनो जल प्रासुक हेरे ।
 कवचन कुम्भ भरे परिपूरित ल्याय यथाक्रम उत्थित टेरे ॥

ओं ह्री श्रीमंतं भगवन्तं कृमालु सन्तं श्रीवृषभादि महावीरान्त चतुर्विंशति तीर्थकर परमदेवं
 आद्यानां आद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे.....प्रान्ते.....मण्डलान्तर्गते
नगरे (ग्रामे).....मंदिरे (मण्डपे) वीर निर्वाण
 संवत्सरे मासानामुत्तमे.....मासे.....पक्षे.....पुण्यतिथौ.....
 वासरे मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाणां सकलकर्मक्षयार्थं जलेनाभिषेचयामः।

लघुमंत्र

ओं ह्री श्री वृषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः

२

कर्म जंजीर जुरयो यह जीव शुभाशुभ भोगत ज्ञान न पायो ।
 पै अब कालसुलब्धि प्रसाद लह्यो तव दर्शन आनद आयो ॥
 हो तुम कर्म कलक विनाशक प्रेमभक्ति रत प्रेरित लायो ।
 हो गुणकार करुअभिषेक वरो शिवनारि समय अब आयो ॥

ओं ह्री श्री वृषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः
 (उदकचन्दन आदि बोलकर अर्घ चढाना)

३

यो कहि दीप चहूं दिश जोय कियो बहु धूप सुधूपक केरो ।
बाजत ताल सुधीन मृदंग सुजिनगुण गावत भाव सुटेरो ॥
जय जिनराज सु विरद उचार कियो अभिषेक जिनेश्वर तेरो ।
भावन शक्ति प्रमाण यहां हम ठानत मानत कर्म करेरो ॥

ओं ह्रीं श्री वृषमादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः

४

अष्टादशदोष रहित तुम पावन अमल विदानंद ज्योति स्वरूपी ।
वीतराग सर्वज्ञ हितैषी शुद्धात्म तन-रहित अरूपी ॥
मैं आतनस्वरूप नहि जाना राग द्वेष की परनति ठानी ।
इसी मलिनता धोने को प्रभु करता नहवन त्रिभुवन ज्ञानी ॥

ओं ह्रीं श्रीवृषमादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः ।

५

तनबिन सहज पवित्र प्रभूवर मज्जन तन बिन बनता नार्हीं ।
तुम पवित्रता कारण भगवन् नहवन करने की विधि नार्हीं ॥
मैं नलीन रागादिक मल से दुःख उपजाया बन अज्ञानी ।
निले नाथ सद्ज्ञान आत्मका इसीलिए मज्जन विधि ठानी ॥

ओं ह्रीं श्रीवृषमादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः ।

६

पावन जल को लेकर आया नहवन करने को हे स्वामी ।
सब विभाव का नाश होय जब तभी बनूं मैं अन्तर्यामी ॥
जैसा णवन पद तुम पाया मैं कब ऐसा अवसर पाऊं ।
भक्ति भावना सुदृढ़ बनै मन भवसागर से अब तिर जाऊं ॥

ओं ह्रीं श्री वृषमादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः ।

७

बीताऽनन्तानन्तकाल नहि शुचिता अब तक मन मे आई ।
 पुण्यसयोग मिला यह नर तन भक्ति भावना आत्म पाई ॥
 जलाभिषेक मै करूआपका पाप न कण मन मे रह जाए ।
 शरण आपका पाकर भगवन् जनम मरण के दुख नश जाए ॥
ओं ह्री श्री वृषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः ।

८

अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय साधू मुनिवर आत्मज्ञानी ।
 जग मे मगलमय सुखदायक भविजन को शिवमारग दानी ॥
 उत्तम जग मे शरण सदा ही जीवन मे सब विधि सुखदानी ।
 श्री विनायक सिद्धयत्र का न्हवन करते है भवि प्राणी ॥
ओं भूर्भुवः स्वरिह एतद् विघ्नौघवारकं यंत्रं जलेन अभिषिचयामः ।

९

हैं बीजाक्षर मध्य विराजे अष्टरूप है कमलाकार ।
 स्वरव्यजन से शोभित वसुदिशि मत्र अनाहत है सुखकार ॥
 अन्त ही से वेष्टित यत्र है सिद्धचक्र अनुपम गुणधार ।
 कर्म नाश के कारण न्हवन सिद्धयत्र का करू निहार ॥
ओं ह्रीं अर्ह सिद्धचक्रयंत्रं जलेन अभिषिञ्चयामः । (यहा शान्तिधारा करे)

अर्घ मंत्र (शांतिधारा करने के बाद)

नीर महाशुचि गधित चन्दन पुष्प सु अक्षत ले अनियारे ।
 व्यजन सयुत ले चरुउत्तम दीप धूप फल अर्घ सुधारे ॥
 यो वसुंद्रव्य तनो कर अर्घ उतारि उतारि जजो पदथारे ।
 द्यो मोहि शीघ्र शिवालय वास सदा तुम भव्य उतारनहारे ॥
ओं ह्री अभिषेकान्ते वृषभादिवीरान्तेम्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ले शुचि निर्मल स्वर्ग समुद्भव वस्त्र अलौकिक हाथ मझारे ।
तब तन ऊपर नीर निहार सतत परिमार्जन को विस्तारे ॥

पुलकित भक्ति भाव से भविजन निरखत पावन रूप तिहारे ।
धन्य धन्य जिनराज लोक में वसुविध कर्म जलावन हारे ॥

ओं अमलांशुकेन जिनबिम्बं मार्जनं करोमि ।

दोहा - मार्जनकरि वेदी विषें सिंहासन पर थाप ।
प्रातिहार्य युत निरख जिन यजन करूंगुण जाप ॥

विनय सहित अभिषेक करि धारा शांति कराय ।
प्रक्षालन करि बिम्ब को सिंहासन पधराय ॥

ओं ह्रीं अर्हं सिंहासने जिनबिम्बं स्थापनम् करोमि ।

अर्घ मंत्र

यों अभिषेक कियो अब पूरन पूजन के हित अर्घ सुधारो ।
तीरथ को जल प्रासुक चन्दन अक्षय अक्षत पुष्प सुधारो ॥
ले चरु उत्तम दीप सुधूप फलार्घ करो वर मंत्र उचारो ।
वार धरों तुम चरणन के ढिग हो जिन तारक मोहि उबारो ॥

ओं ह्रीं सिंहासन स्थित जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

गन्धोदक लेने का मंत्र

जिन तन परस पवित्र भयो गधोदक जन जन शुचि कर तारौ ।
ले चरणोदक शीश धरें हम भीषण रोग व्यथा निरवारौ ॥

कर गुणगान नमावत मस्तक, जनम जनम के दुख निरवारों ।
जीवन मेरा धन्य हुआ प्रभु भक्ति भाव सम्यक् निधि धारों ॥

(गन्धोदक मस्तक पर लगावें)

अभिषेक के पश्चात् विनयपाठादि पढ़कर नित्य मह पूजा करके फिर प्रतिष्ठा पात्रों के द्वारा यागमंडल विधान करना चाहिए ।

पूजा करने के अधिकारी (१)

शुचिः प्रसन्नो गुरुदेवभक्तो दृढव्रती सत्य-दयासमेत ।
दक्षः पटुर्बीजपदावधारी जिनेन्द्रपूजाराजु सर्वे प्रशस्त ॥

पूजा के अनधिकारी (२)

नाकुलीनो न दुदृष्टिर्न पापी नाप्यपण्डित ।
न निवृष्टक्रियावृत्तिर्नातपः परदूषित ॥

नाधिकांगो न हीनागो नातिदीर्घो न वामन ।
न विरूपो न मूढात्मा नातिवृद्धो न बालक ॥

न मायावी न मोही वा न चेष्टी वाऽदृढव्रत ।
नार्थार्थी न च पाखण्डी न रोगी न चविनीतक ॥

न साहसिकवेशाशीर्नाशास्त्रो न च लोभवान् ।
नातिक्रोधो न दुष्टात्मा नाभक्तो न विकल्पक ॥

आरती

आनंद अपार हे भक्ति का प्रसार है
देखो बिम्ब प्रतिष्ठा का, कैसा जयजयकार है । टेक ।
मंगल आरती लेकर स्वामी, आया तेरे द्वार जी ।
गुण गाता हूँ आदि प्रभू का, होगा बेड़ा पार जी ॥ १
इन्द्र इन्द्राणी नाचे भगवन, आज तुम्हारे द्वार जी ।
आदि प्रभू का करके न्हवन, बोले जय जयकार जी ॥ २
पर परणति से अब तक भटका, शरण कही नहीं पाया जी ।
तारन तरन विरद सुनकर के, सिद्ध शरण मे आया जी ॥ ३
अब तो पार लगा दो भगवन, 'पुष्प' चरण शिर नाया जी ।
अजर अमर पद पा जाऊ मै, सिद्ध शरण मे आया जी ॥ ४

विनयपाठ

इह विधि ठाड़ो होय के, प्रथम पढै जो पाठ ।
धन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जु आठ ॥१॥

अनत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरताज
मुक्ति बधू के कत तुम तीन भुवन के राजा ॥२॥

तिहु जग की पीड़ा हरन, भवदधि शोषणहार।
ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिवसुख के करतार ॥३॥

हरता अघ अधियार के, करता धर्म प्रकाश।
थिरतापद दातार हो, धरता निजगुण रास ॥४॥

धर्माभूत उर जलधिसो, ज्ञानभानु तुम रूप।
तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहु जग भूप ॥५॥

मै वदौं जिनदेव को, कर अति निर्मल भाव।
कर्मबध के छेदने, और न कछु उपाव ॥६॥

भविजन को भवकूप ते, तुम ही काढनहार।
दीनदयाल अनाथ पति, आतमगुण भडार ॥७॥

चिदानद निर्मल कियो, धोय कर्म रज मैल।
सरल करी या जगत मे, भविजन को शिवगैल ॥८॥

तुम पद पकज पूजते, विघ्न रोग टर जाय।
शत्रु मित्रता को धरै, विष निर्विषता थाय ॥९॥

चक्री खगसुर इन्द्रपद, मिले आप ते आप।
अनुक्रम कर शिवपद लहै, नेम सकल हनि पाप ॥१०॥

तुम बिन मै व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन।
जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन ॥११॥

पतित बहुत पावन किये, गिनती कौन करेव।
अजन से तारे कुम्भी, जय जय जय जिनदेव ॥१२॥

थकी नाव भवदधि विषै, तुम प्रभु पार करेव।
खेवटिया तुम हो प्रभु, जय जय जय जिनदेव ॥१३॥

राग सहित जग मे रूत्यो मिले सरागी देव।
 वीतराग भेट्यो अबै, मेटो राग कुटेव॥१४॥

· कित निगोद कित नारकी, कित तिर्यच अज्ञान।
 आज धन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान॥१५॥

तुमको पूजै सुरपति, अहिपति नरपति देव।
 धन्य भाग्य मेरो भयो, करन लग्यो तुम सेव॥१६॥

अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार।
 मै डूबत भवसिधु मे, खेव लगाओ पार॥१७॥

इन्द्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान।
 अपनो विरुद निहारिके, कीजै आप समान॥१८॥

तुमरी नेक सुदृष्टि रो, जग उतरत है पार।
 हा हा डूबो जात हो, नेक निहारि निकार॥१९॥

जो मै कहहू और सो, तो न मिटे उरझार।
 मेरी तो तोसौ बनी, तातै करो पुकार॥२०॥

वदो पांचो परमगुरु, सुरगुरुवदत जास।
 विघन हरन मगलकरन, पूरन परम प्रकाश॥२१॥

चौबीसो जिनपद नमो, नमो शारदा माया।
 शिवमग साधक साधु नमि, रच्यो पाठ सुखदाया॥२२॥

मंगल मूरति परम पद, पच धरो नित ध्यान।
 हरो अमगल विश्व का, मगलमय भगवान॥२३॥

मगल जिनवर पद नमो, मगल अर्हत देव।
 मगलकारी सिद्धपद, सो वंदो स्वयमेव॥२४॥

मगल आचारज मुनि, मगल गुरुउवज्झाया।
 सर्वसाधु मगलकरो, वदो मन वव काय॥२५॥

मगल सरस्वती मात का, मगल जिनवर धर्मा।
 मगलमय मगल करो, हरो असाता कर्मा॥२६॥

या विधि मगल करन से, जग मे मगल होत।
 मगल "नाथूराम" यह भवसागर दृढ़ पोत॥२७॥

अथ अर्हतपूजाप्रतिज्ञायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावन्दनास्तवसमेतं
 कायोत्सर्गं करोम्यहम् ।

पूजा पीठिका

जय श्री ओ नम सिद्धेभ्य ३ ओं जय जय जय। नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ।
णमो अरिहंताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोए
सव्वसाहूण ।

ओं ह्री अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः (पुष्पाञ्जलि क्षिपामि)

चत्तारि मगल- अरिहंता मगल, सिद्धा मंगल, साहू मगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगला
चत्तारि लोगुत्तमा- अरिहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो
धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरण पव्वज्जामि- अरिहते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरण
पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्म सरणं पव्वज्जामि॥

ओं नमोऽर्हते स्वाहा (पुष्पाञ्जलि क्षिपामि)

अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा।

ध्यायेत्पंच-नमस्कार सर्वपापै प्रमुच्यते॥१॥

अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावरथा गतोऽपि वा।

यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यतरे शुचिः॥२॥

अपराजित - मंत्रोऽय सर्व-विघ्न-विनाशन।

मगलेषु च सर्वेषु प्रथम मगल मत॥३॥

एसो पच - णमोयारो, सव्व-पावप्पणासणो।

मंगलाणं च सव्वेसि पढम होइ मगला॥४॥

अर्हमित्यक्षर ब्रह्मवाचक परमेष्ठिन।

सिद्धचक्रस्य सद्बीज सर्वत प्रणमाम्यहम्॥५॥

कर्माष्टक-विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी - निवेत्तनम्।

सम्यक्त्वादि - गुणोपेतं सिद्धचक्र नमाम्यहं॥६॥

विघ्नौघाः प्रलय यान्ति, शाकिनी - भूत - पन्नगा।

विषं निर्विषतां याति, स्तूयमाने जिनेश्वरे॥७॥

(पुष्पाञ्जलि क्षिपामि)

उदक चदनतदुलपुष्पकैश्चरुदीपसुधूपफलार्घकैः।

धवलमगल गान रवाकुले जिनगृहे कल्याणमह यजे॥९॥

ओ ह्री श्री भगवज्जिनगर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाण पंचकल्याणकेभ्योऽर्घं निर्व० स्वाहा ।

उदकचदनतदुलपुष्पकैश्चरु सुदीपसुधूपफलार्घवैः ।

धवलमगलगान रवाकुले जिनगृहे जिनइष्टमह यजे ॥

ओं ह्री श्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा।

उदकचदनतदुलपुष्पकैश्चरु सुदीपसुधूपफलार्घवैः ।

धवलमगलगान रवाकुले जिनगृहे जिननाम मह यजे॥

ओं ह्री श्री भगवज्जिनअष्टाधिकसहस्रनामेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा।

उदकचदनतदुलपुष्पकैश्चरु सुदीपसुधूपफलार्घवैः ।

धवलमगलगान रवाकुले जिनगृहे जिनसूत्रमह यजे।

ओं ह्री जिनमुखोद्भूतसरस्वती देव्यै अर्घ निर्वपामीति स्वाहा।

उदकचदनतदुलपुष्पकैश्चरु सुदीपसुधूपफलार्घवैः ।

धवलमगलगान रवाकुले जिनगृहे जिनस्तोत्र मह यजे।

ओं ह्री सर्वजिनस्तोत्रेम्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वस्ति पाठ

श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवद्य जगत्त्रयेश, स्याद्वादनायकमनत - चतुष्टयार्हम् ।

श्रीमूलसद्यसुदृशा सुवृत्तैक हेतु, जैनेन्द्रयज्ञविधिरेष, मयाऽभ्यधायि ॥१॥

स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुगवाय, स्वस्ति स्वभावमहिमोदय - सुस्थिताया

स्वस्तिप्रकाशसहजोर्जित-दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न - ललिताद्भुत वैभवाया॥२॥

स्वस्त्युच्छलद्विमल - बोधसुधाप्लवाय, स्वस्ति स्वभावपरभाव - विभासकाया

स्वस्ति त्रिलोक - विततैकचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकालसकलायत विस्तृताया॥३॥

द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूप, भावरस्य शुद्धिमधिकामधिगतुकाम ।

आलबनानि विविधान्यवलग्न्य वल्गन्, भूतार्थयज्ञ - पुरुषस्य करोमि यज्ञम् ॥४॥

अर्हत्पुराणपुरुषोत्तमपावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव।

अस्मिन्ज्वलद्विमल - केवल - बोधबह्नौ, पुण्यसमग्रमहमेकमना जुहोमि॥५॥

ओं ह्री विधि यज्ञप्रतिज्ञानाय जिनप्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जलि क्षिपामि।

श्री वृषभो नः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित।

श्री सभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनदन।

श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभ।

श्री सुपाश्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चन्द्रप्रभ।

श्री पुष्पदत्त स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल।
 श्री श्रेयान्स स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य।
 श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनत।
 श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शाति।
 श्री कुशु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ।
 श्री मल्लि स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रत।
 श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ।
 श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्द्धमान।

इति स्वस्तिमंगलविधानं (पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि)

नित्याप्रकपाद्भुत - केवलौघा स्फुरन्मन पर्ययशुद्धबोधा।
 दिव्यावधिज्ञान - बलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥१॥
 (प्रत्येक श्लोक के अंत में पुष्प क्षेपण करें)

कोष्ठस्थधान्योपममेकबीजसभिन्नसश्रोतृ-पदानुसारि।
 चतुर्विध बुद्धिबल दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥२॥
 सस्पर्शन सश्रवण च दूरादास्वादनघ्राण - विलोकनानि।
 दिव्यान्मतिज्ञान - बलाद्ब्रह्म स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥३॥
 प्रज्ञाप्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येकबुद्ध्या दशसर्वपूर्वे
 प्रवादिनोऽष्टागनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥४॥
 जघानलश्रेणिफलाबुततु - प्रसूनबीजाकुरचारणाहवा।
 नभोऽङ्गणस्वैर-विहारिणश्च, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥५॥
 अणिमि दक्षा कुशला महिमि लघिमि शक्ता कृत्तिनो गरिम्णि।
 मनो वपुर्वाग्बलिनश्च नित्य, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥६॥
 सकामरूपित्व - वशित्वमैश्य प्राकाम्यमन्तर्द्धिमथाप्तिमाप्ता।
 तथाऽप्रतीघातगुणप्रधाना, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥७॥
 दीप्त च तप्त च तथा महोग्र, घोर तपो घोर पराक्रमस्था।
 ब्रह्मापर घोरगुणाश्चरन्त, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥८॥

आमर्षसर्वौषधयस्तथाशी - विषाविषा दृष्टिविषाविषाश्च।
 सखिल्लविङ्जल्ल-मलौषधीशा , स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥९॥
 क्षीर स्रवंतोऽत्र घृत स्रवतो, मधु स्रवतोऽप्यमृत स्रवत।
 अक्षीणसवास महानसाश्च, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न॥१०॥
 ॥इति परमर्षि स्वस्तिमंगलविधानम् ॥ (पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि)

देव शास्त्र गुरु पूजा

अडिल्ल - प्रथम देव अरहत सुश्रुत सिद्धात जू,
 गुरु निर्ग्रथ महन्त मुकतिपुर पन्थ जू।
 तीन रतन जग माहि सो ये भवि ध्याइये,
 तिनकी भक्तिप्रसाद परमपद पाइये ॥

दोहा - पूजो पद अरहत के पूजो गुरुपद सार,
 पूजो देवी सररवती, नितप्रति अष्टप्रकार ॥१॥

ओं ह्रीं देव-शास्त्र-गुरु-समूह ! अत्र अवतर अवतर, संवौषट् आह्वाननं । ओं ह्रीं
 देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ , ठः ठः स्थापनं । ओ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह !
 अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणं ।

सुरपति उरग नरनाथ तिनकर, वन्दनीक सुपद-प्रभा ।
 अति शोभनीक सुवरण उज्ज्वल, देख छवि मोहित सभा ॥
 वर नीर क्षीरसमुद्र घट भरि अग्र तसु बहुविधि नचू ।
 अरहत श्रुत-सिद्धात गुरु-निरग्रन्थ नित पूजा रचू ॥

मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मलछीन ।
 जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरुतीन ॥१॥

ओं ह्रीं देव-शास्त्र-गुरुभ्यो जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वो ॥
 जे त्रिजग उदर मझार प्राणी, तपत अति दुद्धर खरे ।
 तिन अहित-हरन सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे ॥
 तसु भ्रमर-लोभित घ्राण पावन, सरस चदन घिसि सचू ।
 अरहत श्रुत-सिद्धात गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचू ॥

चदन शीतलता करे, तपत वस्तु परवीन ।

जासो पूजो परमपद, देवशास्त्र गुरु तीन ॥२॥

ओं ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः, संसार-ताप-विनाशनाय चंदनं निर्वो ॥२॥

यह भवसमुद्र अपार तारण, के निमित्त सुविधि ठई ।
 अति दृढ परमपावन जथारथ, भक्ति वर नौका सही ॥
 उज्ज्वल अखडित सालि तदुल, पुज धरि त्रयगुण जचू ।
 अरहत श्रुत-सिद्धात गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचू ।
 तदुल सालि सुगध अति, परम अखडित बीन ।
 जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥३॥

ओं ह्री देवशास्त्रगुरुभ्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपा० स्वाहा ॥

जे विनयवंत सुभव्य-उर-अंबुज प्रकाशन भान हैं ।
 जे एक मुख चारित्र भाषत, त्रिजगमांहि प्रधान है ॥
 लहि कुद्द कमलादिक पहुप, भव भव कुवेदन सों बचूं ।
 अरहंत श्रुत-सिद्धात गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥
 विविध भाति परिमल सुमन, भ्रमर जास आधीन ।
 जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरुतीन ॥४॥

ओं ह्री देवशास्त्रगुरुभ्यः कामबाण-विध्वंसनाय पुष्यं निर्व० ॥४॥

अति सबल मद-कर्दप जाको, क्षुधा-उरग अमान है ।
 दुस्सह भयानक तासु नाशन, को सु गरुड समान है ॥
 उत्तम छहों रसयुक्त नित, नैवेद्य करि घृत मे पचूं ।
 अरहंत श्रुत-सिद्धात गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥
 नानाविधि संयुक्तरस, व्यंजन सरस नवीन ।
 जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥५॥

ओं ह्री देवशास्त्रगुरुभ्यः क्षुधा-रोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्व० ॥५॥

जे त्रिजगउद्यम नाश कीने, मोहतिमिर महाबली ।
 तिहि कर्मघाती ज्ञानदीप, प्रकाश जोति प्रभावली ॥
 इह भौति दीप प्रजाल कवन, के सुभाजन में खचूं ।
 अरहत श्रुतसिद्धांत गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥
 स्वपरप्रकाशक ज्योति अति, दीपक तमकरि हीन ।
 जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरुतीन ॥६॥

ओं ह्री देवशास्त्रगुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्व० ॥६॥

जो कर्म-ईधन दहन अग्नि, समूह सम उद्धत लसै ।
 वर धूप तासु सुगन्धता करि, सकल परिमलता हंसै ॥
 इह भांति धूप चढाय नित, भव ज्वलन मांहि नहीं पचू ।
 अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥

अग्नि मांहि परिमल दहन, चंदनादि गुणलीन ।
 जासों पूजों परमपद, देवशास्त्र गुरुतीन ॥७॥

ओं ह्रीं देवशास्त्रगुरुम्योऽष्ट कर्मविध्वंसनाय धूपं निर्वो ॥७॥

लोचन सुरसना घ्राण उर, उत्साह के करतार है ।
 मौपै न उपमा जाय वरणी, सकल फल गुणसार हैं ॥
 सो फल चढावत अर्थपूरन, परम अमृतरस सचूं ।
 अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥

जे प्रधान फल फलविषे, पंचकरण-रस लीन ।
 जासो पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरुतीन ॥८॥

ओं ह्रीं देवशास्त्रगुरुम्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ॥

जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत, पुष्प चरुदीपक धरूं ।
 वर धूप निरमल फल विविध, बहु जनम के पातक हरूं ॥
 इहि भांति अर्घ चढाय नित, भवि करत शिवपंकत मचूं ।
 अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥

वसुविधि अर्घ संजोयके, अति उछह मन कीन ।
 जासों पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥९॥

ओं ह्रीं देवशास्त्रगुरुम्योऽनर्घपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

जयमाला

दोहा - देवशास्त्रगुरुरतन शुभ, तीन रतन करतार ।
 भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार ॥

पद्धरी- चउ कर्म की त्रेसठ प्रकृति नाशि, जीते अष्टादश दोषराशि ।
 जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के छ्यालिस गुण गंभीर ॥२॥
 शुभ समवशरण शोभा अपार, शत इंद्र नमत कर सीस धार ।
 देवाधिदेव अरहंत देव, वदौ मन-वच-तन करि सु सेव ॥३॥

जिनकी ध्वनि हवै ओंकाररूप, निर-अक्षरमय महिमा अनूप ।
दश अष्ट महाभाषा समेत, लघुभाषा सात शतक सुचेत ॥४॥

सो स्याद्वादमय सप्तभग, गणधर गूथे बारह सुअंग ।
रवि शशि न हरै सो तम हराय, सो शास्त्र नमों बहु प्रीति ल्याय ॥५॥
गुरु आचारज उवझाय साध, तन नगन रतनत्रय-निधि अगाध ।
ससारदेह वैराग्य धार, निरवाछि तपे शिवपद निहार ॥६॥

गुण छत्तिस पच्चिस आठबीस, भवतारन तरन जिहाज ईस ।
गुरुकी महिमा वरनी न जाय, गुरु-नाम जपो मन-वचन-काय ॥७॥

सोरठा- कीजे शक्ति प्रमान, शक्ति बिना सरधा धरे ।
द्यानत सरधावान, अजर अमरपद भोगवे ॥८॥

ओं ह्री देवशास्त्रगुरुभ्यो महार्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा- श्री जिनके परसाद ते सुखी रहे सब जीव ।
याते तन मन वचन ते सेवो भव्य सदीव ॥

इत्याशीर्वादः पुष्पांजलि क्षिपेत् ।

अर्घावली

विद्यमान विंशति तीर्थकर अर्घ

जलफल आठो दर्व अरघकर प्रीतिधरी है,
गणधर इन्द्रनहू तें थुति पूरी न करी है ।
द्यानत सेवक जानके जगते लेहुनिकार,
सीमंधर जिन आदिदे बीस विदेह मंझार
श्री जिनराज हो, भवतारण तरण जहाज ।

ओं ह्री विद्यमान विंशतितीर्थकरेभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

सिद्धपरमेष्ठी अर्घ

गन्धाढ्य सुपयो मधुव्रतगणै संग वरं चन्दन,
पुष्पौघ विमल सद्क्षतचयं रम्य चरुदीपकम् ।
धूप गन्धयुत ददामि विविध श्रेष्ठ फल लब्धये,
सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमल सेनोत्तर वाञ्छितम् ।

ओं ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

कृत्रिमाकृत्रिम जिनचैत्य चैत्यालय अर्घ

कृत्याकृत्रिम - चारुचैत्यनिलयान् नित्य त्रिलोकीगतान्।
वदे भावन व्यन्तरान् द्युतिवरान् स्वर्गमरावासगान्-
सद्गंधाक्षत-पुष्पदाम-चरुकैः सद्दीप-धूपे फलै,
नीराद्यैश्च यजे प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणा शांतये॥

ओं ह्री कृत्रिमाकृत्रिम चैत्यालयरथ सर्वजिनबिम्बेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा॥

वर्षेषु वर्षान्तर-पर्वतेषु, नन्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु ।
यावन्तिचैत्यायतनानि लोके, सर्वाणि वदे जिन-पुगवानाम् ॥

अवनि तल गतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणा,
वन भवन गताना दिव्य वैमानिकानाम्।

इह मनुज कृताना देवराजार्चिताना,
जिनवर निलयाना भावतोऽह स्मरामि॥

जम्बू-धातकि-पुष्करार्द्ध-तसुधा क्षेत्र-त्रये ये भवा -
श्चन्द्राम्भोज-शिखण्डि-कण्ठ-कनक-प्रावृद्धनाभा जिना ।

सम्यग्ज्ञान-चरित्र-लक्षणधरा, दग्धाष्ट-कर्मन्धना,
भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥

श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रजतगिरवरे शात्मलौ जम्बुवृक्षे,
वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकर-रुचिके कुण्डले मानुषाके ।

इष्वाकारेऽञ्जनाद्रौ दधिमुख-शिखरे व्यन्तरे स्वर्गलोके,
ज्योतिर्लोकेऽभिवन्दे भवन-महितले यानि चैत्यालयानि ॥

द्वौ वृन्देन्दु-तुषार-हार-धवलौ द्वाविन्द्रनील-प्रभौ,
द्वौ बन्धूक-सम-प्रभौ जिनवृषौ द्वौ च प्रियंगुप्रभौ ।

शेषा षोडश जन्म-मृत्यु-रहिता सन्तप्त-हेम-प्रभा -
स्ते सज्ञान-दिवाकरा सुर नुता सिद्धि प्रयच्छन्तु न ॥

नवकोडि सया पण वीसा, त्रेपण लक्खा सहस सत्ताईसा ।
नव से दे अडियाला जिन पडिमा किट्टिमा वन्दे ॥

ओं ह्री त्रिलोक संबंधि कृत्रिमाकृत्रिम चैत्यालयेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

इच्छामि भंते । चेइयभक्तिकाउसग्गो कओ तस्सालोचेउ अहलोय-तिरियलोय-
उड्ढलोयम्मि किट्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिणचेइयाणि ताणि सव्वाणि तीसु वि

लोएसु भवणवासिय वाणवितर-जोइसिय-कप्पवासिय ति चउव्विहा देवा सपरिवारा दिव्वेण गधेण, दिव्वेण पुप्फेण, दिव्वेण धूवेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण दिव्वेणण्हाणेण णिव्वकाल अव्वंति, पुज्जति, वदति णमस्सति, अहमवि इह संतो तत्थ सताई णिच्चकाल अच्चेमि, पुज्जेमि, वदामि, णमस्सामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ वोहिलाहो, सुगइगमण समाहिमरण जिणगुण-सम्पत्ति होउ मज्झं इति पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थ भावपूजा-वन्दना-स्तव-समेतं श्री पंचमहागुरु भक्ति-कायोत्सर्गम् करोम्यहम् । (नौ बार णमोकार मंत्र की जाप करें)

तीस चौबीसी अर्घ

दरब आठों जु लीना है, अर्घ कर मे नवीना है,
पूजते पाप छीना है 'भानुमल' जोर कीना है ।
द्वीप ढाई सरस राजे, क्षेत्र दश ता विषे छजे,
सात शत बीस जिनराजे, पूजता पाप सब भाजे ॥

ओं ह्री सार्द्धद्वयद्वीप सम्बन्धि त्रिंशजिनचतुर्विंशतिजिनेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चौबीस तीर्थकर अर्घ

जल फल आठो शुचि सार, ताको अर्घ करों ।
तुमको अरपों भवतार, भवतरि मोक्ष वरों ॥
चौबीसो श्री जिनचंद, आनन्द कन्द सही ।
पद जजत हरत भव फन्द, पावत मोक्ष मही ॥

ओं ह्री श्री वृषभादि वीरान्तेभ्यो अनर्घपदप्राप्तये अर्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

पंच परमेष्ठी अर्घ

मणुयणाइद सुरधरियघ्ततया, पचकल्लाणसोक्खावली पत्तया ।
दंसणं णाण ज्ञाण अणतं वलं, ते जिणा दितु अम्हं वरं मंगलं ॥१॥
जेहिज्ञाणग्गि वाणेहि अइदड्ढयं, जम्मजरमरण णयरत्तय दड्ढयं ।
जे हि पत्त सिवं सासयं ठाणयं, ते महं दितु सिद्धा वरं णाणयं ॥२॥
पंचहाचार, पचग्गि संसाहया, वार सगाइ सुअ जलहिं अवगाहया ।
मोक्खलच्छी महंती महंते सया, सूरिणो दितु मोक्खं गया संगया ॥३॥
घोर ससार भीमाडवी काणणे, तिक्ख वियराल णहपाव पंचाणणे ।
णट्ठ मग्गाण जीवाण पहदेसया, वंदिमो ते उवज्जाय अम्हे सया ॥४॥
उग्ग तव चरण करणेहि खीणं गया, धम्मवर ज्ञाण सुक्केक्क ज्ञाणं गया ।
णिब्बरं तवसिरिय ये समालिगया, साहवो ते महामोक्खपह मग्गया ॥५॥

एण थोत्तेण जो पचगुरुवदए, गुरुय ससार घणवल्ली सो छिदये ।
 लहइ सो सिद्ध सुक्खाइ बहु माणण, कुणइ कम्मि घण पुजपज्जालण ॥६॥
 अरुहासिद्धाइरिया, उवज्झाया साहु पंचपरमेट्ठी ।
 एयाण णमुक्कारो भवे भवे मम सुह दितु ॥७॥

ओं ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठिन्यो अर्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री आदिनाथ अर्घ

शुचि निर्मल नीर गघ सुअक्षत, पुष्प चरु ले मन हरषाय ।
 दीप, धूप फल अर्घ सु लेकर, नाचतताल मृदग बजाय ॥
 श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊँ मन वच काय ।
 हो करुणानिधि भव दुख मेटो, याते मै पूजो प्रभु पाय ॥

ओं ह्री श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री अजितनाथ अर्घ

जलफल सब सज्जै, वाजत वज्जै, गुनगनरज्जै मनमज्जै ।
 तुम पदजुगमज्जै सज्जन जज्जै, ते भव भज्जै निजकज्जै ॥
 श्री अजितजिनेश, नुतनकेश चक्रधरेश खग्गेश ।
 मन वाछित दाता त्रिभुवन त्राता, पूजो ख्याता जग्गेश ॥

ओं ह्री श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री संभवनाथ अर्घ

जल चदन तन्दुल पुष्प चरु, दीप धूप फल अर्घ किया ।
 तुमको अरपो भावभगतिघर, जै जे जै शिवरमनि पिया ॥
 संभवजिनके चरण चरचते, सब आकुलता मिट जावै ।
 निज निधि ज्ञान-दरश-सुख-वीरज, निराबाध भविजन पावै ॥

ओं ह्री श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री अभिनन्दननाथ अर्घ

अष्ट द्रव्य सवारि सुन्दर, सुजस गाय रसाल ही ।
 नचत रजत जजो चरण जुग, नाय नाय सुभाल ही ॥
 कलुषताप निकन्द श्री अभिनन्द, अनुपम चन्द है ।
 पदवद वृन्द जजे प्रभू भवद्वन्द-फन्द निकन्द हैं ॥

ओं ह्री श्री अभिनन्दननाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री सुमितनाथ अर्घ

जल चंदन तन्दुल प्रसून चरु, दीप धूप फल सकल मिलाय ।
 नाचिराचि शिरनाय समरचों, जय जय जय जय जयजिनराय ॥
 हरिहर वंदित पाप निकंदित, सुमतिनाथ त्रिभुवन के राय ।
 तुम पद पद्म सद्म शिवदायक, जजत मुदित मन उदित सुभाय ॥

ओं ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री पद्मप्रभ अर्घ

जलफल आदि मिलाय गाय गुन, भगति भाव उमगाय ।
 जजो तुमहि शिवतियवर जिनवर, आवागमन मिटाय ॥
 पूजो भाव सो श्री पद्मनाथ पद सार, पूजो भाव सो ॥

ओं ह्रीं श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री सुपार्श्वनाथ अर्घ

आठों दरव सांजि गुनगाय, नाचत राचत भगति बढाय ।
 दया निधि हो, जय जगबन्धु दयानिधि हो ॥
 तुम पद पूजों मन वच काय, देव सुपारस शिवपुरराय ।
 दयानिधि हो जय जगबन्धु दयानिधि हो ॥

ओं ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री चन्द्रप्रभ अर्घ

वसु विधि अर्घ बनाय मनोहर, श्री जिन मंदिर जावो ।
 अष्टकर्म के नाश करन को, श्री जिन चरण चढावो ॥
 चंचल चित को रोक, चतुर्गति चक्रभ्रमण निरवारो ।
 चारुचरण आचरण चतुरनर, चन्द्रप्रभ चितधारो ।

ओं ह्रीं श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री पुष्पदन्त अर्घ

जलफल सकल मिलाय मनोहर मनवचतन हुलसाय ।
 तुम पद पूजो प्रीति लायकें जय जय त्रिभुवनराय ॥
 मेरी अरज सुनीजे, पुष्पदन्त जिनराय मेरी अरज सुनीजे ।

ओं ह्रीं श्री पुष्पदन्त जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री शीतलनाथ अर्घ

कश्री फलादि वसु प्रासुक द्रव्य साजे ।
 नाचे रचे मचत वज्जत सज्ज बाजे ॥
 रागादिदोष मलमर्दन हेतु येवा ।
 चर्चो पदाब्ज तव शीतलनाथ देवा ॥

ओं ह्री श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री श्रेयांसनाथ अर्घ

जलमलयतदुलसुमनचरुअरुदीपधूपफलावली ।
 करि अर्घ्य चरचो चरनजुग प्रभु मोहि तार उतावली ॥
 श्रेयासनाथ जिनेन्द्र त्रिभुवन वन्द आनद कन्द है ।
 दुख द्वन्दफन्द निकन्द पूरनचन्द्र जोति अमन्द है ॥

ओं ह्री श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री वासुपूज्य अर्घ

जलफल दरब मिलाय गाय गुन, आठो अग नमाई ।
 शिवपदराज हेतु हे श्री पति । निकट धरो यह लाई ॥
 वासुपूज्य वसुपूज तनुज पद, वासव सेवत आई ।
 बाल ब्रह्मचारी लखि जिनको, शिवतिय सनमुख घाई ॥

ओं ह्री श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री विमलनाथ अर्घ

आठो दरब सवार, मनसुखदायक पावने ।
 जजो अर्घ भर थार विमल विमल शिवतिय रमन ॥

ओं ह्री श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री अनंतनाथ अर्घ

शुचि नीर चन्दन शालिनदन, सुमन चरुदीपक धरो ।
 धूप फल जुत अरघ करके, कर जोर जुग विनती करो ॥
 जगपूज परमपुनीत मीत, अनन्त सत सुहावने ।
 शिवकंठवत महत ध्यावो, भ्रमणतत नशावने ॥

ओं ह्री श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री धर्मनाथ अर्घ

आठो दरब साज शुचि चितहर, हरषि हरषि गुन गाई ।
वाजत दृमदृम दृम मृदगगत, नाचत ता थेई थाई ॥
परम धरम शमरमण धरम - जिन अशरनशरन तिहारी ।
पूजै पाय गाय गुन सुन्दर, नाचूँ दै दै तारी ॥

ओं ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री शान्तिनाथ अर्घ

वसु द्रव्य संवारी, तुम ढिग धारी, आनन्दकारी दृग प्यारी ।
तुम हो भवतारी, करुणाधारी, यातें थारी शरनारी ॥
श्री शान्ति जिनेशं, नुतशक्रेश, वृषचक्रेश चक्रेश ।
हनि अरि चक्रेश हे गुन धेशं दया मृतेश मक्रेश ॥

ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री कुन्थुनाथ अर्घ

जल चंदन तन्दुल प्रसून चरु, दीप धूप लेरी ।
फलजुतजजन करों मन सुखधरि, हरो जगत फेरी ॥
कुन्थु सुन अरज दाराकेरी, नाथ सुनि अरज दासकेरी ।
भवसिन्धु परयो हो नाथ, निकारो बाँह पकर मेरी ॥

ओं ह्रीं श्री कुन्थुनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री अरनाथ अर्घ

शुचि स्वच्छ पठीर, गघगहीर, तंदुलशीर पुष्प चरु ।
वर दीप धूपं, आनन्दरूपं, लै फल भूप अर्घ्य करुं ॥
प्रभु दीनदयाल अरिकुलकाल, विरद विशालं सुकुमालम् ।
हनि मन जजाल, हे जगपाल, अरगुनमालं वरमालम् ॥

ओं ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री मल्लिनाथ अर्घ

जलफल अरघ मिलायगाय गुन पूजो भगति बढाई ।
 शिवपदराज हेत हे श्रीधर, शरनगही मै आई ॥
 राग रोष मद मोह हरन को, तुम ही हौ वरवीरा ।
 याते शरन गही जगपतिजी, वेग हरो भव पीरा ॥
 ओं ह्रीं श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री मुनिसुव्रतनाथ अर्घ

जलगध आदि मिलाय आठो, दरव अरघ सजो वॅरो ।
 पूजो चरनरज भगत जुत, जाते जगत सागर तॅरो ॥
 शिवसाथ करत सनाथ सुव्रतनाथ मुनिगुनमाल है ।
 तुम चरन आनन्दभरन तारन, तरन विरद विशाल है ॥
 ओं ह्रीं मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री नमिनाथ अर्घ

जल फलादि मिलाय मनोहर, अरघ धारत ही भय भौ हर ।
 जजतु हो नमि के गुन गाय के जुगपदांबुज प्रीति लगाय के ॥
 ओं ह्रीं श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री नेमिनाथ अर्घ

जलफल, अर्घ बनाय गाय गुन रतन थाल भरिये सुखदान ।
 अष्टकर्म के नाशक प्रभु को पूजौ निजगुणदायक जान ॥
 बाल ब्रह्मचारी जगतारी, नेमीश्वर जिनराज महान ।
 मै नित ध्यान धरूँ प्रभु तेरा, मोकू दीजे अविचल थान ॥
 ओं ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री पार्श्वनाथ अर्घ

सघर्षो मे उपसर्गो मे तुमने समता का भाव धरा ।
 आदर्श तुम्हारा अमृत - बन भक्तो के जीवन मे बिखरा ॥
 मैं अष्टद्रव्य से पूजा का शुभथाल सजाकर लाया हूँ ।
 जो पदवी तुमनें पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ ।
 ओं ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री महावीर अर्घ

जल फल वसु सजि हिमथार तनमन मोद धरो ।
 गुणगाऊँ भवदधि तार पूजत पाप हरो ॥
 श्री वीर महा अतिवीर, सन्मति नायक हो ।
 जय वर्द्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो ।
 ओं ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीबाहुबलि अर्घ

वसु विधि के बस बसुधा सब ही परवश अति दुख पावें,
 तिहि दुख दूर करन को भविजन अर्घ जिनाग्र चढ़ावें ।
 परम पूज्य वीराधिवीर जिन बाहुबलि बलधारी,
 तिनके चरण कमल को नित प्रति धोक त्रिकाल हमारी ॥
 ओं ह्रीं श्री बाहुबलि जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

सोलहकारण अर्घ

जल फल आठों दरब चढ़ाय, द्यानत वरत करो मनलाय ।
 परम गुरुहो जय जय नाथ परम गुरुहो ॥
 दरश विशुद्धि भावना भाय, सोलह तीर्थकर पद पाय ।
 परम गुरुहो, जय जय नाथ परम गुरुहो ॥
 ओं ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादिषोडशकारणम्योअनर्घपद प्राप्तये अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

पञ्चमेरु अर्घ

आठ दरबमय अरघबनाय, 'द्यानत' पूजो श्री जिनराय ।
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥
पॉवो मेरुअसी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम ।
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥

ओं ह्री पञ्चमेरुसंबंधिजिन चैत्यालयस्थ जिन विम्बेम्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

नंदीश्वरद्वीप अर्घ

यह अरघ कियो निज हेत, तुमको अरपतु हो ।
'द्यानत' कीज्यो शिवखेत, भूमि समरपतु हो ॥
नन्दीश्वर श्री जिनधाम बावन पुज करों ।
वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनद भाव धरो ॥
नन्दीश्वर द्वीप महान चारो दिश सोहे ।
वावन जिन मदिर जान सुरनरमन मोहे ॥

ओं ह्री नन्दीश्वर द्वीपे, द्विपञ्चाशज्जिनालयस्थ जिनविम्बेम्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दशलक्षण अर्घ

आठो दरब सवार, 'द्यानत' अधिक उघ्नहसो ।
भव आताप निवार, दश लक्षण पूजो सदा ॥

ओं ह्री उत्तमक्षमादिदशलक्षण धर्मम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

रत्नत्रय अर्घ

आठ दरब निरधार, उत्तम सो उत्तम लिये ।
जनम - रोग निरवार, सम्यक् रत्नत्रय भजूं ॥

ओं ह्री सम्यक् रत्नत्रयाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

सिद्धचक्र अर्घ

निर्मल सलिल शुभ वास चंदन घवल अक्षतयुत अनी ।
शुभ पुष्प मधुकर नित रमे, चरुप्रचुर स्वाद सुविधि घनी ॥
वर दीपमाल उजाल धूपायन रसायन फल भले ।
करि अर्घ सिद्ध समूह पूजित कर्ममल सब दलमले ॥

ते क्रमावर्त नशांयं युगपत् ज्ञान निर्मल रूप हैं ।
 दुःख जन्म तार अपार गुण सूक्ष्म सरूप अनूप हैं ॥
 कर्माष्ट बिन त्रैलोक्य पूज्य अद्वैत शिवकमलापती ।
 मुनि ध्येय सेय अमेय चहुंगुण, गेय द्यो मो शुभमती ॥
 ओं ह्रीं अर्ह अनाहत पराक्रमाय सकल कर्म विमुक्ताय श्री सिद्धचक्राधिपतये श्री
 सम्मत्तणाण दंसणवीर्य सुहमत्त अवग्गहणं अगुरुलघु अव्वावाहं अष्ट गुण संयुक्ताय
 अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

विनायक यंत्र अर्घ

सुवर्ण के पात्र धराये, शुचि आठों द्रव्य मिलाये ।
 गुरुपंच परम सुखदाई, हम पूजें ध्यान लगाई
 ओं ह्रीं अर्ह मंगलोत्तम शरण्यभूतेभ्यो अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।

नवदेवता अर्घ

मध्येकर्णिकमर्हदार्यमनघं बाह्येष्ट पत्रोदरे,
 सिद्धान् सूरिवरांश्च पाठकगुरुन् साधूंश्च दिक्पत्रगान् ।
 सद्धर्मागमचैत्यचैत्यनिलयान् कोणस्थदिक्पत्रगान्,
 भक्त्या सर्वसुरासुरेन्द्रमहितान् तानष्टघ्नेष्ट्या यजे ॥
 ओं ह्रीं अर्हदादि नवदेवेभ्योऽर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

सप्तर्षि अर्घ

जल गंध अक्षत पुष्प चरुवर दीप धूप सु लावना ।
 फल ललित आठो द्रव्य मिश्रित अर्घ कीजे पावना ॥
 मन्वादि चारण ऋद्धि धारी मुनिन की पूजा करूँ ।
 ता करे पातक हटें सारे, सकल आनंद विस्तारूँ ॥
 ओं ह्रीं श्री मन्वादि सप्तऋषिभ्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

निर्वाण क्षेत्र अर्घ

जल गंध अक्षत पुष्प चरुवर दीप धूपायन धरों,
 द्यानत करो निर्भय जगत सों, जोरकर विनती करों ।
 सम्मेदगढ़ गिरनार चम्पा, पावापुरि कैलाश को,
 पूजों सदा चौबीस जिन, निर्वाण भूमि निवास को ।
 ओं ह्रीं श्रीचतुर्विंशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥

नोट :यदि समय हो याग मण्डल विधान करें अन्यथा मध्याह्न यागमण्डल विधान करें । महार्घ, शांति विसर्जन कर पूजा समाप्त करे ।

महार्घ

मै देव श्री अर्हन्त पूजुं, सिद्ध पूजू चाव सो,
 आचार्य श्री उवझाय पूजुं साधु पूजू भाव सो ।
 अरहंत भाषित वैन पूजू, द्वादशाग रचे गनी
 पूजू दिगम्बर गुरुचरन, शिवहेत सब आशा हनी ।
 सर्वज्ञ भाषित धर्म दशविधि, दयामय पूजू सदा,
 जजुं भावना षोडश रत्नत्रय, जा बिना शिव नहि कदा ।
 त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजू,
 पंचमेरुनन्दीश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजू ।
 कैलाश श्री सम्मेदगिरि, गिरनार मै पूजू सदा ।
 चम्पापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा,
 चौबीस श्री जिनराज पूजू बीस क्षेत्र विदेह के,
 नामावली इक सहस्रवसु, जय होय पति शिव गेह के ।
 जल गंधाक्षत पुष्प चरुदीप धूपफललाय,
 सर्वपूज्य पद पूजहु बहुविधि भक्ति बढ़ाय ।

ओंही अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुम्यो, द्वादशांगजिनागमेम्यो, दशलक्षणधर्मेम्यो,
 षोडशकारणेम्यो, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेम्यो, त्रिलोकस्थित कृत्रिमाकृत्रिमजिनचैत्य
 -चैत्यालयेम्यो, नन्दीश्वरद्वीप स्थित द्विपंचाशत् जिनालयस्थ जिनेम्यो, श्री
 सम्मेदाष्टापदूर्जयंत- गिरि, चम्पापावापुरादिसिद्धक्षेत्रेम्यो, सातिशय क्षेत्रेम्यो,
 विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्यो, अष्टाधिकजिनसहस्रनामभ्यो, श्रीवृषभादि
 चतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यो जलादि महार्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ शान्ति - पाठ ॐ

(शान्ति पाठ पढ़ते समय पुष्पक्षेपण करें)

शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणव्रत संयमधारी ।
 लखन एक सौ आठ विराजे, निरखत नयन कमल दल लाजे ॥१॥
 पंचम चक्रवर्ती पद धारी, सोलम तीर्थकर सुखकारी ।
 इन्द्रनरेन्द्र पूज्यजिननायक, नमों शांतिहित शांति विधायक ॥२॥
 दिव्य विट्प पहुपन की वरषा, दुन्दुभि आसनवाणी सरसा ।
 छत्र चमर भामण्डल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी ॥३॥
 शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज्य पूजों शिरनाई ।
 परमशांति दीजे हम सबको, पढ़ें तिन्हें पुनि चार संघ को ॥४॥

वसंततिलका छंद

पूजें जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके, इन्द्रादि देव अरुपूज्य पदाब्ज जाके ।
 सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करहिं शांति सदा अनूप ॥५॥

इन्द्रवज्रा छंद

सम्पूजकों को प्रतिपालकों को, यतीनकों को यति नायकों को ।
 राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को, ले कीजे सुखी हे जिन शांति को दे ॥६॥

स्रग्धरा छंद

होवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्म धारी नरेशा ।
 होवे वर्षा समय पर, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा ॥
 होवे चोरी न मारी, सुसमय वरते, हो न दुष्काल भारी ।
 सारे ही देश धारें, जिनवर वृष को जो सदा सौख्यकारी ॥७॥

दोहा - घाति कर्म जिन नाश करि, पायो केवलराज ।

शांति करो सब जगत में, वृषभादिक जिनराज ॥

(यह तीन बार पढ़ें और तीन बार शान्ति धारा दें)

मंदाक्रांता छंद (सब हाथ जोड़ लें)

शास्त्रो का हो पठन सुखदा, लाभ सत्सगति का ।
सद्वृत्तो का सुजस कहके, दोष ढाकू सभी का ॥
बोलू प्यारे वचन हितके, आपका रूप ध्याऊँ ।
तोलो सेऊँ चरण जिनके, मोक्ष जोलो न पाऊँ ॥

आर्या छन्द

तब पद मेरे हिय मे, मम हिय तेरे पुनीत चरणो में ।
तब लों लीन रहो प्रभु, जबलो न पाया मुक्तिपद मैंने ॥
अक्षर पद मात्रा से दूषित, जो कुछ कहा गया मुझ से ।
क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणाकरि पुनि छुड़ाहु भवदुख से ॥
हे जगबधु जिनेश्वर पाऊँ, तब चरण शरण बलिहारी ।
मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मो का क्षय सुबोध सुखकारी ॥

(पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि)

(नौ बार णमोकार मन्त्र का जाप करे ।)

विसर्जन पाठ

बिन जाने व जान के, रही टूट जो कोय ।
तुम प्रसाद ते परमगुरु, सो सब पूरण होय ॥१॥
पूजा विधि जानू नही, नही जानू आह्वान ।
और विसर्जन हू नही, क्षमा करो भगवान ॥२॥
मन्त्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिनदेव ।
क्षमा करहु राखहु मुझे, देहु चरण की सेव ॥३॥
चौबीसों जिनराज पद, पूजे शक्ति प्रमाण ।
पूजा विसर्जन मै करुं सदा करो कल्याण ॥

ठोने पर पुष्प क्षेपण कर विसर्जन करें तथा ठोने पर जल डालकर संकल्प के पुष्पो को थाली मे डाल देवे (अग्नि मे नही डाले) ।

यागमण्डल
विधान

यागमण्डल - विधान

यागमण्डल रचना (१)

मुक्ताचूर्णमुदीर्णपूर्णकनकस्थाल्यर्पित शुद्धिभृद् ।
व्यस्त्रोद्भासितपेषणीषु युवतीश्लाघ्याभिरुत्पेषितम् ॥
चंचच्चन्द्रकला कलापहृदयाहकारनिर्वापक ।
स्थाप्याग्रे विधिमंजुल धनद भो सन्मंडल संलिख ॥
इति श्वेतचूर्ण स्थापनम्

पीतचूर्ण स्थापन

हारिद्रपीतमणिचूर्णवृक्ताधिवासो स्वर्णावखडपरिमंडलभृद्विकल्पः ।
त्व भो कुत्रेर जिनसद्मनि चित्रशोभे सन्मंडलं रदशुभायति पुण्यहेतो ॥
इति पीतचूर्ण स्थापनम्

हरिचूर्ण स्थापन

वैडूर्यरत्नवृक्तचूर्णमनर्घ्यजात वास्तोष्पतीयवनभूसदृश मनोज्ञं ।
उड्डीयमानशुकपक्षवदाप्लुतागं सगृह्य गुह्यकपते रदमंडलानि ॥
इति हरिचूर्ण स्थापनम् ।

रक्तचूर्ण स्थापन

माणिक्यताम्रमणिचूर्णसुपाशुमत्रैः हस्ते प्रगृह्य समवसृतिचित्रकार ।
सन्मंडलं जिनपते प्रतिपातनेष्टौ सलिख्य निर्जरगणे कृतिमान् भवेथाः ॥
इति रक्तचूर्णस्थापनम्

कृष्णचूर्ण स्थापन

गारुत्मताश्मशिखिक्रमणिप्रवाहजात सुकौशलवृक्ता हृदयापहारी ।
चूर्णोत्पिपक्षसमतामुपनीय यक्ष राजेन मंडलविधौ विनियोक्तुमिष्टः ॥
इति कृष्णचूर्ण स्थापनम्

हीरक स्थापन

कोणेषु वेद्याश्चतुरस्रदेशे संस्थाप्य गाढं घनघातयोगात् ।
सद्धीरकान् शकुन्वदासिताश्च काष्ठाविमूर्द्धीं शिथिलीकरोतु ॥
इति वेद्याः कोणे हीरक स्थापनम् ।

लघुपताका स्थापन

स्थाने स्थाने स निवेश्या पताका लघ्व स्थूला उन्नताशामहोर्व्याम् ।

वादित्राणा नादपूर्व वरस्त्रीगीतध्वानै मंगलार्थैरनूनै ॥

इति वेद्यग्रभूमौ च वेदीपरितो पंच वर्णकाः पीत, हरित, शुक्ल, नील श्याम,
लघुपताकाः स्थापनम् ।

इस यज्ञ मे दो वेदी आवश्यक है एक तो यागमण्डल के लिये मुख्यवेदी और दूसरी
अन्तरकर्म जप ध्यान मंत्र आदि के निमित्त उत्तर वेदी ।

अथोत्तरस्मै कृति कर्मणे कृती वेदी द्वितीया विनिवर्त्य पावनीं ।

यागीयमंत्राणि तथोत्तर पृथक् कर्मरंभता यजनक्रियोचित ॥

अथ यागमण्डल प्रयोगः

अचित्यचितामणिकल्पवृक्षरसायनाधीश्वरमादिदेवम् ।

वदामहे सृष्टिविधानमूढप्राणिप्रणेतारमबाध्यवाक्यम् ॥१॥

स्याद्वादविद्यामृततर्पणेन सुप्त जगद्बोधयितारमर्च्यम् ।

श्रीकुन्दकुन्दादिमुनि प्रणम्य श्रीमूलसंघे प्रणमामि यज्ञम् ॥२॥

एव समासादितवेदिकादिप्रतिष्ठयोपक्रियया दृढार्थ ।

पुष्पाजलिक्षेपणमत्रसार्थे वितीर्य यागोद्धरणे यतेऽहम् ॥३॥

परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्

अथ यागमण्डलोद्धारः

मंगलाष्टक, पात्रशुद्धि, दिग्बधन, रक्षामंत्र शान्तिमंत्राराधन कर यागमण्डल विधान
करे इसके प्रारंभ मे यागमण्डल का उद्धार कहते है

ओं जय जय जय, नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु, नदं नदं नदं, पुनीहि पुनीहि पुनीहि ।
ओ णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए
सव्वसाहूणं ।

मध्ये तेजस्तदगे वलयितसरणौ पंच पूज्योत्तमादि -

द्वादश्यर्चा द्वितीये चतुरधिकसुविशा जिना भूतकाला.

अग्रेष्ट योर्वर्तमाना अवरतणवृत्तोऽग्रे विदेहरथपूज्या,

आचार्या पाठका स्युर्मुनिवरसुगुणा वन्हिवृत्ते निवेश्या ॥^१

मध्य मे ओकार, प्रथम वलय मे पंचपरमेष्ठी और मंगलादिक द्वादश पूजा, और

द्वितीय वलय मे चौबीस तीर्थकर भूत काल के, तृतीय वलय मे चौबीस तीर्थकर वर्तमान काल के, चतुर्थ वलय मे चौबीस तीर्थकर भविष्यकाल के, पंचम वलय मे विदेह के बीस जिन, षष्ठ वलय मे आचार्य, सप्तम वलय मे उपाध्याय, अष्टम वलय मे साधु परमेष्ठी की पूजा करना ।

तेषामग्रिमवृत्तके गणधरा ऋद्धि प्रशस्ताश्चतु -
दिक्षु स्यु क्षितिमण्डले जिनगृह चैत्यागमौ सद्वृषाः ।

एव स्युर्निधयो नवा पर विधैर्युक्ता इहाभ्युद्भृते,
सद्यागार्चनमंडले विलिखिता पूज्या स्वमंत्रै सदा ॥

नवमे वलय मे ऋद्धिधारी गणधर और चतुर्दिशा मे चैत्य, चैत्यालय, जिनागम, जिनधर्म ऐसे नव वलय मे बनावें इस यागमण्डल में लिखे हुये अपने-अपने मंत्रो द्वारा सदा पूज्य है ।

प्रथमे १७, द्वितीये २४, तृतीये २४, चतुर्थे २४, पंचमे २०, षष्ठे ३६, सप्तमे २५, अष्टमे २८ नवमे ४८, कोणचतुष्के ४ एवं कोष्ठक्रमः ।

द्विशतोत्तरत. पचाशत्स्थान सूपूजयति यो धीमान् ।
निर्धूतकलुषनिकरो जिनबिम्बस्थापको भवति ॥

ऐसे जो सुबुद्धि प्राणी है वे दो सौ पचास अर्घो से पूज्य है, सो सर्व पापमल धोकर जिनबिम्ब को स्थापन करने वाले होते है ।

वेद्यामूले पचरत्नोपशोभ कठे लबान्माल्यमादर्शयुक्तं ।
माणिक्याभ काचन पूगदर्भस्रक् वासोभ सदघट स्थापयेद् वै ॥
ओं ह्री अहं मंगलकलशस्थापनं करोमि

यागमण्डल (माडना) के चारो कोनो पर चारआराधना स्वरूप (सम्यक् दर्शन, ज्ञान चारित्र एव तप) चार मंगल कलश स्थापित करे । तथा मौली (पचवर्णी सूत्र से चारो कलशो को (एक साथ) तीन बार वेष्टित करे ।

श्वेतेन पीतेन चलोहितेन धर्मानुरागात् प्रविकल्पितेन ।
जिनस्य मन्त्रेण पवित्रतेन सूत्रेण कुम्भ अनिवेष्टयामि ॥^(१)

ओं नमो भगवते अ सि आ उ सा ऐं ह्रीं ह्रां ह्रीं सः संवोषट् त्रिवर्ण सूत्रेण शान्तिकुम्भं वेष्टयामि ।

यागमण्डल विधान (१)

प्रत्यर्थिव्रजनिर्जयान्निजगुणप्राप्तावनन्ताक्रम-
दृष्टिज्ञानचरित्रवीर्यसुखचित् सज्ञारस्वभावाः परम् ।
आगत्यात्र निवेशितांकितपदैः सवौषडा द्विष्टतो,
मुद्गरारोपणसत्त्वृत्तैश्च वषडा गृह्णीध्वमर्चाविधिम् ॥

ओं ह्री अत्र जिनप्रतिष्ठाविधाने सर्वयागमंडलोक्ता जिनमुनय अत्रावतर अवतर ।
तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । ममात्रसंनिहितो भव भव वषट् इत्यादि त्रिवारं कुर्यात् ।
मण्डलमध्ये सुप्रतीकपीठे स्वारस्तिकोपरि स्थापयेत् । (मण्डल में स्वारस्तिक बनाकर
ठोना रखकर स्थापना करें)

प्राशुस्वर्णमणिप्रभाततिभृताभृगारनालोच्छ्लद्-
गगासिन्धुसरिन्मुखोपचितसत्पाथो भरेण त्रिधा ।
जन्मारातिविभंजनौषधिमितेनोद्घृतगंधालिना
चाये यागनिधीश्वरानवहते निःश्रेयसः प्राप्तये ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जिन मुनिभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

घुसृणमलयजातैश्चंदनै शीतगंधैर्भवजलनिधिमध्ये दु खदोवाडवाग्निः ।
तदुपशमनिमित्तंबद्धकक्षैर्निमज्जद् भ्रमरयुवभिरीडत् सांद्रसारद्रप्रवाहैः ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जिनमुनिभ्यः चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

शशांकस्पर्द्धभि कमलजननैरक्षतपदा-
धिरूढैः श्रामण्यं शुचिसरलताद्यैर्गुणवरैः ।
हसद्भिः साम्राज्याधिपतिचमनाहै सुरभिभि -
र्जिनार्चान्हि प्रांची विपुलतरपुंजै परियजे ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जिन मुनिभ्योऽक्षतम् निर्वपामीति स्वाहा ।

दुरतमोहानलदीप्यदंशुकामेन नष्टीकृत्तमाशुविश्वम् ।
तद्वाणराजीशमनाय पुष्पैर्यजामि कल्पद्रुमसगतैर्वा ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर मुनिभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

पीयूषपिडनिवहैर्धृतशर्करान्न, योगोद्भवैर्नयनचित्तविलासदक्षैः ।

चामीकरादिशुचिभाजनसंस्थितैर्वासंपूजयाम्यशनबाधनबाधनाय ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अमितमोहतमोविनिवृत्तये घटितरत्नमणिप्रभवात्मभिः ।

अयमह खलु दीपकनामकैर्जिनपदाग्रभुवं परिदीपये ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जिनमुनिभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूपोद्घ्राणैर्यजनविधिषु प्रीणिताशेषदिवकै-

रुद्घृद्वह्नवगुरुमलयापीडकान्सदहद्भिः ।

अर्चे कर्मक्षपणकरणे कारणैराप्तवाक्यै -

र्यज्ञाधीशानिह बहुविधैर्धूपदानप्रशस्तै ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

नि श्रेयसपदलब्धै कृतावतारै प्रमाणपटुभिरिव ।

स्याद्वादभगनिकरेर्यजामि सर्वज्ञमनिशममरफलै ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

पात्रे सौवर्णे कृतमानदजयषट्पूजार्हत विस्फुरिताना हृदयेऽत्र ।

तोयाद्यष्टद्रव्यसमेतैर्भूतमर्घ शारत्तृणामग्रे विनयेन प्रणिदध्म ॥

ओ ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अथ प्रत्येकार्घाणि

अनतकालसपद्भवभ्रमणभीतितो निर्वार्य सदधन् स्वय शिवोत्तमार्यसद्भानि ।

जिनेश-विश्वदर्शि-विश्वनाथ-मुख्यनामभि स्तुत जिन महामि नीरचदनै फलैरह ॥

ओं ह्री अनंतमवार्षवमयनिवारकानंतगुणस्तुतायार्हतेऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

कर्मकाष्ठहुतभुक् स्वशक्तित सप्रकाश्य महनीयभानुभि ।

लोकतत्त्वमचले निजात्मनि सस्थितं शिवमहीपति यजे ॥

ओं ह्री अष्टकर्मविनाशकनिजात्मतत्त्वविभासकसिद्धपरमेष्ठिनेऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

सार्थवाहमनवद्यविद्यया शिक्षणान्मुनिमहात्मना वरम् ।

मोक्षमार्गमलघुप्रकाशक सयजे गुरुपरंपरेश्वरम् ॥

ओं ह्री अनवद्यविद्याविद्योतनायाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

द्वादशागपरिपूर्णसच्छ्रुत य परानुपदिशेत पाठत ।

बोधयत्यभिहितार्थं सिद्धये तानुपास्य यजयामि पाठकान् ॥

ओं ह्री द्वादशांगपरिपूर्णश्रुतपाठनोद्यतबुद्धिविमवोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

उग्रमर्घ्यतपसाभिसंस्कृति ध्यानमानतिनिवेशितात्मक,
साधक शिवरमासुखामृते साधुमीड्यपदलब्धयेऽर्चये ।

ओं ह्रीं घोरतपोऽभिसंस्कृतध्यानस्वाध्यायनिरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घम् ।

अर्हन्नेव त्रिभुवनजनानदनान्मडलाग्रो विघ्नध्वस निजमतिकृतादरत्रसघोपनोदात् ।
सकुर्वस्तत् प्रकृतिरपि स्पष्टमानददायि न्येव स्मृत्वा जलचरु फलैरर्चयामि त्रिवारम् ॥

ओं ह्रीं अर्हत्परमेष्ठिमंगलायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

स्मारस्मारं गुणगणमणिस्फारसामर्थ्यमुच्चै यत्प्राप्त्यर्थं प्रयतति जनो मोक्षतत्त्वेऽनवद्ये ।
प्रत्यूहान्त भवभवगतानां प्रघातप्रक्लृप्त्यै सिद्धानेव श्रुतिमतिबलादर्चये संविचार्य ॥

ओ ह्रीं सिद्धमंगलेभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

रागद्वेषोरगपरिशमे मंत्ररूपस्वभावा मित्रे शत्रौ समकृतहृदानंदमागल्यरूपा ।
येषां नामस्मरणमपि सन्मगल मुक्तिदायी त्यर्चे यज्ञे वसुविधविधि प्रीणनैः प्राणिपूज्यम् ॥

ओं ह्रीं साधुमंगलायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

मूर्च्छं मूर्च्छं गुरुलघुभिदा द्वैधवर्त्म प्रदिष्टो जैनो धर्म सुरशिवगृहद्वारदर्शीनितातम् ।
सेव्यो विघ्नप्रहणनविधावुत्तमार्थे प्रशस्त सपूजेऽह यजनमननोद्धर्मसिद्ध्यर्थमह्यम् ॥

ओ ह्रीं केवलप्रज्ञप्तधर्ममंगलायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

येषा पादस्मृतिसुखसुधायोगतरतीर्थनाम प्रापु पुण्य यदवनतिना जन्मसार्थ लभते ।
लोका धात्र्यां वनगिरिभुवश्चोत्तमत्व जिनेद्रा नर्चे यज्ञप्रसवविधिषु व्यक्तये मुक्तिलक्ष्म्या ॥

ओं ह्रीं अर्हल्लोकोत्तमेभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

दृष्टिज्ञानप्रतिभटतया कर्ममीमासयाऽन्यान् श्वभ्रे संपादयति विविधा वेदनाः संकरोति ।
तेषां मूलं निविडपरमज्ञानखड्गेन हत्वा नि कर्मत्व समधिगतवानर्च्यते सिद्धनाथ ॥

ओं ह्रीं सिद्धलोकोत्तमायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

सूर्याचंद्रौ मरु दधिपतिभूमिनाथोऽसुरेद्रो यस्याहृदब्जे प्रणतशिरसा लोलुठीति त्रिशुद्ध्या ।
सोऽय लोके प्रवरगणना पूजितः किं नवा स्याद् यस्मादर्चे मुनिपरिवृढं स्वानुभावप्रसत्त्या ॥

ओं ह्रीं साधुलोकोत्तमेभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

यत्र प्राणि प्रवरकरुणा यत्र मिथ्यात्वनाशो यत्रोपाते शिवपदसमान्वेषणा कामनष्टिः ।
यत्र प्रोक्ता दुरितविरति सोयमग्र कथन यस्माद् धर्मो निखिलहितकृत् पूज्यतेऽसौ मयाऽपि ॥

ओं ह्रीं केवलप्रज्ञप्तधर्मलोकोत्तमायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

जीवाजीवद्विविधशरणान्वेषणस्थैर्यभंग ज्ञात्वा त्यक्त्वाऽन्यतरशरणनश्वरं मद्धिधानाम् ।
इद्रादीनामिति परिचयादात्मरत्नोपलब्धि मिष्टैः प्राप्तु निचितमनसा पूज्यतेऽहं शरण्य ॥

ओं ह्रीं अर्हच्छरणेभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

यावद्देहे स्थितिरुपचयः कर्मणामास्रवेण तावत्सौख्यं कुत उपलभेऽतस्तत्स्रोतं नेच्छुः ।
एतत्कृत्यं न भवति विना सिद्धभक्तिः यतो मे पूर्णाधींघप्रयजनविधावाश्रितोऽहं शरण्यम् ॥

ओं ह्रीं सिद्धशरणायार्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

रागद्वेषव्यपगमनतो नि स्पृहा धीरवीराः ससाराब्धौ विषमगहने मज्जतां निर्निमित्तम् ।
दत्त्वा धर्मोद्धरणतरणि पारयंतो मुनीशास्तानर्घेण स्थिरगुणधिया प्रा चर्चयामि त्रिगुप्त्या ॥

ओं ह्रीं साधु शरणेभ्योऽर्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

मित्रं सम्यक् परभवयथाचक्रमे सार्थदायि नान्यो धर्माद्भूरितदहनप्लोषणेऽबुप्रवाहः ।
जानतमां समदृशिधियासनिधानाच्छरण्यत्रायस्व त्वत्त्वयि धृतिगतिपूजनार्घेणयुक्तम् ॥

ओं ह्रीं धर्मशरणायार्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

सर्वानेतान् तत्त्वचंद्रप्रमाणान् जापध्यानस्तोत्रमत्रैरुदर्थ्य ।

द्रव्यक्षेत्रस्फूर्तिसज्जावकाशं नत्वार्येण प्रांशुना संस्मरामि ॥

ओं ह्रीं अर्हत्परमेष्ठिप्रभृतिधर्मशरणांतप्रथमवलय स्थितसप्तदशजिनाधीशयज्ञ
देवताभ्योऽर्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

अथ द्वितीयवलये चतुर्विंशतिभूतजिनपूजा

निर्वाणदेवश्रितभव्यलोकनिर्वाणदातारमनतसौरव्यम् ।

सपूजयेऽहं मखसिद्धिहेतोरधीश्वरप्राथमिकजिनेन्द्रम् ॥

ओं ह्रीं निर्वाणजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीसागरवीतममत्तरागद्वेषकृताशेषजनप्रसादम् ।

समर्चये नीरचरुप्रदीपैरुद्धीपिताशेषपदार्थमालम् ॥

ओं ह्रीं सागरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीमन्महासाधुजिनं प्रमाणनयप्रमाणीकृताजीवतत्त्वं ।

स्याद्वादभगप्रणिधानहेतुसमर्चये यज्ञविधानसिद्ध्यै ॥

ओं ह्रीं महासाधुजिनायार्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

यस्यातिसाज्ज्ञानविशालदीपे प्रभासमानं जगदल्पसारं ।

विलोक्यते सर्षपवत्कराग्रे समर्चयेऽहं विमलप्रभाख्यं ॥

ओं ह्रीं विमलप्रभायार्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

समाश्रितानामनसो विशुद्ध्यै कृतावतारमुनिगीतकीर्तिम् ।

प्रणम्य यज्ञेऽहमुदर्चयामि शुद्धाभदेवचरुभिः प्रदीपैः ॥

ओं ह्रीं शुद्धाभदेवायार्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

लक्ष्मीद्वय वाह्यगतातरगभेदात्पदाग्रे विलुलोठ यस्य ।
यस्मात्सदा श्रीधरकीर्तिमापत्तमर्चयेऽद्याश्रितभव्यसार्थम् ॥

ओं ह्री श्रीधराय अर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रिय ददातीह सुभक्तिभाजा वृदाय यस्मादिह नाम जातम् ।
श्रीदत्तदेव भवभीतिमुक्त्वै यजामि नित्याद्भुतधामलक्ष्म्यै ॥

ओ ह्री श्रीदत्तजिनायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

सिद्धाप्रभागस्य विसर्पिणी तन्मध्ये जनु · सप्तकदर्शनेन ।
सम्यग्विशुद्धिर्मनसो यतस्त्वा सिद्धाभ । यज्ञेऽर्चयितु समीहे ॥

ओं ह्री सिद्धाभजिनायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रभामति शक्तिरनेकधा सद्ध्यानलक्ष्म्या यत् उत्तमार्थैः ।
सगीयते त्व ह्यमला विभर्षि यतोऽर्चये त्वाममलप्रभाख्यम् ॥

ओं ह्री अमलप्रभजिनायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

अनेकससारगत भ्रमेभ्य उद्धारकर्तेति बुधैरवादि ।
यतो मम भ्रातिमपाकुरु त्वमुद्धारदेवं प्रयजे भवतम् ॥

ओं ह्री उद्धारजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दुष्टाष्टकर्मधनदाहकर्ता यतोऽग्निनामाभ्युदितं यथार्थम् ।
ततो ममासातृणव्रजेऽपि तिष्ठार्चये त्वां किमु पौनरुक्त्या ॥

ओं ह्री अग्निदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्राणेन्द्रियद्वैधसुसयमस्य दातारमुच्चै कथयामि सर्वम् ।
मदत्तमर्घं जिन सगृहाण सुसयम स्वीयगुण प्रदेहि ॥

ओं ह्री संयमजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वय शिव शाश्वतसौख्यदायि स्वयप्रभु स्वात्मगुणप्रपन्नः ।
तस्मात्तदर्थप्रतिपन्नकामरस्त्वमर्चये प्राजलिना नतोऽस्मि ॥

ओं ह्री शिवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सत्पुद्गमल्लीजलजादि-पुष्पैरभ्यर्च्यमान श्रियमादधाति ।
नाम्नाऽप्यसौ तादृश एव यस्मात् पुष्पाजलि त्वा प्रतिपूजयामि ॥

ओ ह्री पुष्पांजलिजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा

उत्साहयन् ज्ञानधनेश्वराणा शाम्याम्बुधि संयमचद्रकीर्ते : ।

उत्साहनाथो यजनोत्सवेऽस्मिन् संपूजितो मे स्वगुणं ददातु ॥

ओं ह्री उत्साहजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

नमोऽस्तु नित्य परमेश्वराय कृपा यदीया क्षणसनिधानात् ।
करोति चितामणिरीप्सितार्थमिवाचये त परमेश्वराख्यम् ॥

ओ ह्री परमेश्वरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

यज्ज्ञानरत्नाकरमध्यवर्ती जगत्त्रय विदुसम विभाति ।
त ज्ञानसाम्राज्यपति जिनेन्द्र ज्ञानेश्वर सप्रति पूजयामि ॥

ओं ह्री ज्ञानेश्वरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

तपोवृहद्भानुसमूढतापवृत्तात्मनैर्मल्यमनिर्मलानाम् ।
अस्मादृशा तद्गुणमाददान सपूजयामो विमलेश्वर तम् ॥

ओं ह्री विमलेश्वरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

यश प्रसारे सति यस्य विश्व सुधामय चद्रकलावदातम् ।
अनेकरूप विवृत्तैकरूप जात समर्चे हि यशोधरेशम् ॥

ओं ह्री यशोधरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

क्रोधरस्मराशातविघातनाय सजाततीव्रकृषिवात्मनाम ।
प्राप्त तु कृष्णेति नु शुद्धियोगात् त कृष्णमर्चेऽशुचिता प्रपन्नम् ॥

ओ ह्री कृष्णमतये जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ज्ञान मतिर्भाव उपाश्रयादिरेकार्थ एव प्रणिधानयोगात् ।
ज्ञानेमतिर्यस्य समासजातेर्यथार्थनामानमह यजामि ॥

ओ ह्री ज्ञानमतये जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

समस्य मानान्यपदार्थजात धुरधर धर्मरथागनेमिः ।
जिनेश्वर शुद्धमति यजेत प्राप्नोति शुद्धा मतिमेव ना स ।

ओं ह्री शुद्धमतये जिनायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

ससारलक्ष्म्या अतिनश्वराय जन्मर्क्षमुद्रामिव कुत्सयन्त्वा ।
भद्रा शिवश्रीरिति योगयुक्त्या श्रीभद्रमीश रभसार्चयामि ॥

ओं ह्री श्रीभद्रजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अनतवीर्यादिगुणप्रसन्नमात्मप्रभावानुभवैकगम्यम् ।
अनतवीर्यं जिनप स्तवीमि यज्ञार्थभागैरुपलाल्यमानम् ॥

ओं ह्री अनंतवीर्यजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पूर्वं विसर्पिण्यथ कालमध्ये सजातकल्याणपरपराणाम् ।
सस्मृत्य सार्थं प्रगुण जिनाना यज्ञे समाहूय यजे समस्तान् ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठामहोत्सवे याज्ञमंडलेश्वरद्वितीयवलयोन्मुद्रितनिर्वाणाद्यनंत-
वीर्यान्तेम्यो भूतजिनेभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

अथ तृतीयवलयस्थापित वर्तमान जिनपूजा

मनुनाभिमहीधरजात्मभुव मरुदेव्युदरावतरतमहम् ।

प्रणिपत्य शिरोभ्युदयाय यजे कृत्तगुख्यजिन वृषभ वृषभम् ॥

ओ ह्री ऋषभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जितशत्रुगृह परिभूषयितु व्यवहारदिशा तनुभूप्रभवम् ।

नयनिश्चयत स्वयमेवभुवमजितं जिनमर्चतु यज्ञधरं ॥

ओं ह्री अजितजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दृढराजसुवशनभोमिहिर त्रिजगत्रयभूषणमभ्युदयम् ।

जिनसभवमूर्ध्वगतिप्रदमर्चनया प्रणमामि पुस्कृत्तया ॥

ओ ह्री संभवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कपिकेत्तनमीश्वरमर्थयतो मृतिजन्मजरापदनोदत ।

भविकस्य महोत्सवसिद्धिमियादतएव यजे ह्यभिनन्दनकम् ॥

ओ ह्री अभिनन्दननाथ जिनायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

सुमति श्रितमर्त्यमतिप्रकरार्पणतोऽर्थकराख्यमवाप्तशिवम् ।

महयामि पितामहमेतदधिजगतीत्रयमूर्जितभक्तिनुत ॥

ओ ह्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

धरणेशभव भवभावमित जलजप्रभमीश्वरमानमताम् ।

सुरसपदियर्ति न केरति यजे चरुदीपफलै रुरवासभवै ॥

ओ ह्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शुभपार्श्वजिनेश्वरपादगुवा रजसा श्रयत कमलाततय ।

कति नाम भवति न यज्ञभुवि नयितु महयामि महध्वनिभिः ॥

ओं ह्री सुपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

मनसा परिचित्य विधु स्वरसात् मम कातिहृतिर्जिनदेहघृणेः ।

इति पादभुव श्रितवानिव त जिनचद्रपदाबुजमाश्रयत ॥

ओं ह्री चन्द्रप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुमदतजिन नवम सुविधीतिपराहमखडमनंगहरम् ।

शुचिदेहततिप्रसर प्रणुतात् सलिलादिगणैर्यजता विधिना ॥

ओं ह्री पुष्पदंतजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शीत सुख लाति सदा सुजीवान्, त शीतल प्रणिगदति यतीश्वराद्या ।

त शीतलं श्रयत भव्यजनाहि भक्त्या, यस्याश्रयेणभवतीहममापि सौख्यम् ॥

ओं ह्री शीतलजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रेयो जिनस्य चरणौ परिधार्य चित्ते ससारपचतयदुर्भ्रमणव्यपाय ।
श्रेयोऽर्थिना भवति तत्कृत्तये मयाऽपि सपूज्यते यजनसद्विधिषु प्रशस्य ॥
ओं ह्री श्रेयोजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

इक्ष्वाकुवशतिलको वसुपूज्यराजा यज्जन्मजातकविधौ हरिणार्चितोऽभूत् ।
तद्वासुपूज्यजिनपार्वनया पुनीत स्यामद्य तत्प्रतिकृति चरुभिर्यजामि ॥ओ
ह्री वासुपूज्यजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कापिल्यनाथकृत्तवर्मगृहावतार श्यामाजयाहजननीसुखद नमामि ।
कोलध्वज विमलमीश्वरमध्वरेऽस्मिन्नर्चे द्विरुक्तमलहापनकर्मसिद्ध्यै ॥

ओं ह्री विमलनाथजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

साकेतनायकनृपस्य च सिंहसेननाम्नस्तनूजममरार्चितपादपद्म ।
सपूजयामि विविधार्षणया ह्यनतनाथं चतुर्दशजिन सलिलाक्षतौघैः ॥

ओं ह्री अनंतनाथजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

धर्म द्विधोपदिशता सदसीद्रघार्ये किं किं न नाम जनताहितमन्वदर्शि ।
श्रीधर्मनाथ! भवतेति सदर्थनाम सप्राप्तयेऽर्चनविधि पुरतः करोमि ॥

ओं ह्री धर्मनाथजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री हस्तिनागपुरपालकविश्वसेन स्वाके निवेश्य तनयामृतपुष्टितुष्ट ।
ऐराऽपि सा सुकुरुवशनिधानभूमिर्यस्माद् बभूव जिनशातिमिहाश्रयामि ॥

ओं ह्री शांतिनाथ जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीकुंथुनाथजिनजन्मनि षट्त्रिकायजीवा सुख निरुपमं बुभुजुर्विशकम् ।
किं नाम तत्समृतिनिराकुलमानसोऽहं भुङ्क्वे न सत्त्वरमतोऽर्चनमारभेय ॥

ओं ह्री कुंथुनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सद्दर्शनप्लुतसुदर्शनभूपुत्र, त्रैलोक्यजीववररक्षणहेतुमित्रम् ।
श्रीमित्रसेनजननीखनिरत्नमर्चे श्रीपुष्पचिह्नमरनाथजिनेन्द्रमर्च्यम् ॥

ओं ह्री अरनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कुम्भोद्भव धरणिदुःखहर प्रजावत्यानदकारकमतद्रमुनीद्रसेव्यम् ।
श्रीमल्लिनाथविभुमध्वरविघ्नशात्थैः सपूजये जलसुचदनपुष्पदीपैः ॥

ओं ह्री मल्लिनाथजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

राजत्सुराजहरिवशनभोविभास्वान् वप्रांबिकाप्रियसुतो मुनिसुव्रताख्य ।
सपूज्यते शिवपथप्रतिपत्यहेतुर्यज्ञे मया विविधवस्तुभिरर्हणेऽस्मिन् ॥

ओं ह्री मुनिसुव्रतजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सन्मैथिलेशविजयाह्वगृहेऽवतीर्णकल्याणपचकसमर्चितपादपद्मेम् ।
धर्माबुवाहपरिपोषितभव्यशस्य नित्य नमि जिनवर महसार्चयामि ॥

ओं ह्री नमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

द्वारावतीपतिसमुद्रजयेशमान्यश्रीयादवेशबलकेशवपूजिताग्निम् ।
शखाकमबुधरमेघघ्नदेहमर्चं सद्ब्रह्मचारिमणिनेमिजिनं जलाद्यैः ॥

ओ ह्री नेमिनाथजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

काशीपुरीशानृपभूषणविश्वसेननेत्रप्रियकमठशाठ्यविखंडमेनं ।
पद्माहिराजविबुधत्रजपूजनांकवन्देऽर्चयामि शिरसान्तमौलिनीतः ॥

ओ ह्री पार्श्वनाथ जिनायार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

सिद्धार्थभूपतिगणेन पुरस्त्रिक्रियायामानदताडवविधौ स्वजनु शशंसे ।
श्रीश्रेणिकेन सदसि ध्रुवभूपदाप्त्यै यज्ञेऽर्चयागि वरवीरजिनेद्रमस्मिन् ॥

ओं ह्री वर्धमानजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अत्राहूतसुपर्वपर्वनिकरे बिबप्रतिष्ठोत्सवे -

सपूज्याश्चतुरुत्तरा जिनवरा विशप्रमा सप्रति ।

'सजाग्रत्समयादयैकसुकृतानुद्धार्य मोक्षं गता -

स्तेऽत्रागत्य समस्तमध्वरकृत ग्रहणतु पूजाविधिम् ॥

ओं ह्री अस्मिन् यागमंडले मखमुख्यार्चिततृतीयवलयोन्मुद्रितवर्तमानचतुर्विंशतिजिनेभ्यः
पूर्णार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

अथ चतुर्थवलयस्थापितभविष्यज्जिनपूजा

पद्मा चलेत्यकनलुप्तिकामा जिनस्य पादावचलौ विचार्य ।

यत्पादपद्मवसति चकार सोऽय महापद्मजिनोऽर्च्यतेऽर्घ्ये ॥

ओं ह्री महापद्मजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

देवाश्चतुर्भेदनिकायभिन्नारस्तेषा पदौ मूर्धनि सदधानः ।

तेनैव जात सुरदेवनाम तमर्चये यज्ञविधौ जलाद्यैः ॥

ओ ह्री सुरप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सेवार्थमुत्प्रेक्ष्य न भूतिदाता कारुण्यबुद्धयैव ददाति लक्ष्मीम् ।

यतो जिन सुप्रभुरायसार्थ तमर्चयेऽह विधिनाध्वरीयै ॥

ओं ह्री सुप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

न केनचित्पट्टविधायि मोक्षसाम्राज्यलक्ष्म्या स्वयमेव लब्धम् ।
स्वयं प्रभत्त्वं स्वयमेव जातं यस्यार्च्यते पादसरोजयुग्मम् ॥

ओं ह्रीं स्वयंप्रभदेवाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सर्वं मनः कायवचं प्रहारे कर्मागसा शस्त्रमभूद् यतो यः ।
सर्वायुधाख्यामगमन्मयाद्य संपूज्यतेऽसौ कृत्तुभागभाज्यै ॥

ओं ह्रीं सर्वायुधदेवाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कर्मद्विषा मूलमपास्य लब्धोजयोऽन्यमर्त्यैरपि योऽनवाप्यः ।
ततो जयाख्यामुपलभ्यमानो मयार्हणाभिः परिपूज्यतेऽसौ ॥

ओं ह्रीं जयदेवाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

आत्मप्रभावोदयनात्रितात लब्धोदयत्वादुदयप्रभाख्याम् ।
समाप यस्मादपि सार्थकत्वात् कृत्तार्चनं तस्य कृत्ती भवामि ॥

ओं ह्रीं उदयप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रभा मनीषा प्रकृर्तोगतिर्ज्ञाप्रभृत्युदीर्णकफलेति मत्वा ।
जाता प्रभादेव इति प्रशस्तिरस्ततोऽर्चनातोऽहमपि प्रयामि ॥

ओ ह्रीं प्रभादेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

उदकदेव त्वयि भक्तिभोग्या घटीघटीसा न तदुच्यते हा ।
त्वामेव लब्ध्वा जननं प्रयात वरं यतस्त्वामिह तं महामि ॥

ओं ह्रीं उदकदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुरासुरस्वातगतभ्रमैकविध्वंसने प्रश्नकृत्तोपपत्त्या ।
कीर्तिं ययौ प्रोष्ठिलमुख्यनामस्तवैर्निरुक्तोऽहमुदचयामि ॥

ओं ह्रीं प्रश्नकीर्तिजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पापाश्रयाणा दलनाद् यशोभिर्व्यक्तेर्जयात् कीर्तिसमागमेन ।
निरुक्तलक्ष्म्यै जयकीर्तिदेव स्तवस्त्रजा नित्यमुपाचरामि ॥

ओं ह्रीं जयकीर्तिदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वैखल्यभानातिशये समग्रा बुद्धिप्रवृत्तिर्यत उत्तमार्थाः ।
तत्पूर्णबुद्धेश्चरणौ पवित्रावर्घ्येन यायज्मि भवप्रणष्ट्यै ॥

ओ ह्रीं पूर्णबुद्धिजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

क्रोधादयश्चात्मसपत्नभावस्वधर्मनाशान्नजहत्युदीर्णं ।
तेषां हतिर्येन कृत्ता स्वशस्तेस्तं निःकषायं प्रयजामि नित्यं ॥

ओं ह्रीं निःकषायजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

- मलव्यपायान्मननात्मलाभाद् यथार्थशब्दं विमलप्रभेति ।
 लब्धं वृत्तौ स्वीयविशुद्धिकामाः संपूजयामस्तमनर्घ्यजातम् ॥
 ओं ह्रीं विमलप्रभदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 भास्वद्गुणग्रामविभासनेन पौरस्त्यसंप्राप्तविभावितां ।
 संस्मृत्य काम बहुलप्रभ तं समर्चये तद्गुणलुब्धिलुब्धः ॥
 ओं ह्रीं बहुलप्रभदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 नीराभ्ररत्नानि सुनिर्मलानि प्रवाद एषोऽनृतवादिनां वै ।
 येन द्विधा कर्ममलो निरस्तः स निर्मलः पातु सदर्चितो माम् ॥
 ओं ह्रीं निर्मलजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 मनोवचः कायनियंत्रणेन चित्राऽस्ति गुप्तिर्यदवाप्तिपूर्तेः ।
 तं चित्रगुप्ताह्वयमर्चयामि गुप्तिप्रशंसाप्तिरिय मम स्यात् ॥
 ओं ह्रीं चित्रगुप्तिजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अपारसंसारगतौ समाधिर्लब्धो न यस्माद् विहितः स येन ।
 समाधिगुप्तिर्जिनमर्चयित्वा लभे समाधि त्विति पूजयामि ॥
 ओं ह्रीं समाधिगुप्तिजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 स्वयं विनाऽन्यस्य सुयोगमात्मस्वशक्तिमुद्भाव्यनिजस्वरूपे ।
 व्यक्तो बभूवेति जिनः स्वयंभूर्दध्यात् शिवं पूजनयानयार्च्यः ॥
 ओं ह्रीं स्वयंभूजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 कंदर्पनामस्मरसद्भटस्य मुधैव नामेति तददर्दनोद्घः ।
 प्रशस्तकंदर्प इयाय शक्ति यतोऽर्चयेऽह तदयोगबुद्धये ।
 ओं ह्रीं कंदर्पजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अनेकनामानि गुणैरनंतैर्जिनस्य बोध्यानि विचारवद्भिः ।
 जयं तथा न्यासमथैकविशमनागतं सप्रति पूजयामि ॥
 ओं ह्रीं जयनाथजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अभ्यर्हितात्मप्रगुणस्वभावं मलापहं श्री विमलेशमीशम् ।
 पात्रे निधायार्घ्यमफल्गुशीलोद्धरप्रशक्त्यै जिनमर्चयामि ॥
 ओं ह्रीं विमलजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अनेकभाषा जगति प्रसिद्धा परन्तु दिव्यो ध्वनिरर्हतो वै ।
 एवं निरूप्यात्मनि तत्त्वबुद्धिमभ्यर्चयामो जिनदिव्यवादम् ॥
 ओं ह्रीं दिव्यवादजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शक्तेरपारश्चित एव गीतस्तथापि तद्व्यक्तिमियति लब्ध्या ।
अनतवीर्यं त्वमगा सुयोगात्त्वामर्चये त्वत्पदघृष्टमूर्ध्ना ॥

ओं ह्री अनंतवीर्यजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

काले भाविनि ये सुतीर्थधरणात् पूर्वं प्ररूप्यागमे
विख्याता निजकर्म सततिमपावृत्त्य स्फुरच्छक्तय ।

तानत्र प्रतिवृत्त्यपावृतमखे सपूजिता भक्तित
प्राप्ताशेषगुणारस्तदीप्सितपदावाप्त्यै तु सतु श्रिये ॥

ओं ह्री विबप्रतिष्ठोद्यापने मुख्यपूजार्हचतुर्थबलयोन्मुद्रितानागतचतुर्विंश
तिमहापद्माद्यनंतवीर्यतेम्यो जिनेभ्यः पूर्णार्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

अथपंचमवलयस्थापित विदेहजिनपूजा

सीमधर मोक्षमहीनगर्या श्रीहसचित्तोदयभानुमन्तम् ।
यत्पुडरीकाख्यपुरस्वजात्या पूतीवृत्त त महसार्चयामि ॥

ओं ह्री सीमंधरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

युग्मधर धर्मनयप्रमाणवस्तुव्यवस्थादिषु युग्मवृत्ते ।
सधारणात् श्रीरुहभूपजात प्रणम्य पुष्पाजलिनार्चयामि ॥

ओं ह्री युग्मंधरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुग्रीवराजोद्भवमेणचिन्ह सुसीमपुर्या विजयाप्रसूत ।
बाहु त्रिलोकोद्धरणाय बाहु मखे पवित्रेऽर्चितमर्घयामि ॥

ओं ह्री बाहुजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा

नि शल्यवशाभ्रगभस्तिमत सुनदया लालितमुग्रकीर्तिम् ।
अबध्यदेशाधिपति रुबाहु तोयादिभि पूजितुमुत्सहेऽहम् ॥

ओ ह्री सुबाहुजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीदेवसेनात्मजमर्यमाकविदेहवर्षेप्यलकापुरिस्थम् ।
सजातक पुण्यजनुर्धरत्वात् सार्थाख्यमर्चेऽत्र मखे जलाद्यै ॥

ओं ह्री संजातकजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वयवृत्तात्मप्रभवत्वहेतो स्वयप्रभुसद्दृदयस्वभूतम् ।
सन्मगलापूः स्थमनुष्णकातिचिन्ह यजामोऽत्र महोत्सवेषु ॥

ओ ह्री स्वयंप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

- श्रीवीरसेना प्रसवं सुसीमाधीश सुराणामृषभाननं तम् ।
ईश सुसौभाग्यभुव महेशमर्चे विशालैश्वरुभिर्नवीनैः ॥
- ओं ह्री ऋषभाननदेवजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
यस्यास्ति वीर्यस्य न पारमश्रे तारागणस्येव नितातरम्यम् ।
अनतवीर्यप्रभुमर्चयित्वा कृतीभवाम्यत्र मखे पवित्रे ॥
- ओं ह्री अनंतवीर्यजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
वृषाकमुच्चैश्वरणे विभाति यस्या परस्ताद् वृषभूतिहेतुः ।
सूरिप्रभुं तं विधिना महामि वार्मुख्यतत्त्वैः शिवतत्त्वलब्धैः ॥
- ओं ह्री सूरिप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
वीर्येशभूमिरुहपुष्पमिद्रसल्लाछनं पुडरपूस्किरीटम् ।
विशालमीश विजयाप्रसूतमर्चामि तद्दधानपरायणोऽहम् ॥
- ओं ह्री विशालप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
सरस्वतीपद्मरथागजातं शंखाकमुच्चैः श्रियमीशितारम् ।
संमान्यत वज्रधरं जिनेन्द्रं जलाक्षतैरर्चितमुत्करोमि ॥
- ओं ह्री वज्रधरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा
वाल्मीकवशाबुधिशितरश्मि दयावतीमातृकमंक्वगावम् ।
सत्पुंडरीकिण्यवनं जिनेन्द्रं चंद्रानन पूजयताज्जलाद्यैः ॥
- ओं ह्री चंद्राननजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा
श्रीरेणुकामातृकमब्जचिन्ह देवेशमुत्पुत्रमुदारभावम् ।
श्रीचंद्रबाहुं जिनमर्चयामि क्रतुप्रयोगे विधिना प्रणम्य ॥
- ओं ह्री चंद्रबाहुजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा
भुजंगम स्वीयभुजेन मोक्षपथावरोहाद्घृतनामकीर्तिम् ।
महाबलक्ष्मापतिपुत्रमर्चे चद्राकयुक्तं महिमाविशालम् ॥
- ओं ह्री भुजंगमजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा
ज्वालाप्रसूर्येन सुशातिमाप्ता कृतार्थतां वा गलसेनभूपः ।
सोऽय सुसीमापतिरीश्वरो मे बोधि ददातु त्रिजगद्विलासाम् ॥
- ओं ह्री ईश्वरजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा
नेमिप्रभ धर्मरथांगवाहे नेमिस्वरूपं तपनाकमीडे ।
वाश्चन्दनैः शालिसुमप्रदीपैः धूपैः फलैश्चारुस्वाप्रतानैः ॥
- ओं ह्री नेमिप्रभजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीवीरसेनाप्रभव प्रदुष्ट कर्मारिसेनाकरिणे मृगेन्द्र ।
 य. पुंडरीशं जिनवीरसेन सद्भूमिपालात्मजमर्चयामि ॥
ओं ही वीरसेनजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 यो देवराजक्षितिपालवंशदिवामणि पूर्वजयेश्वरोऽभूत् ।
 उमाप्रसूनो व्यवहारयुक्त्या श्रीमन्महाभद्र उदर्यतेऽसौ ॥
ओं ही महामद्रजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 गगास्वनिस्फारमणि सुसीमापुरीश्वर वै स्तवभूतिपुत्रम् ।
 स्वस्तिप्रद देवयशोजिनेद्रमर्चामि सत्स्वस्तिकलाछनीयम् ॥
ओं ही देवयशोजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 कनकभूपतितोकमकोपक वृत्ततपश्चरणार्दितमोहकम् ।
 अजितवीर्यजिन सरसीरुहविशदचिन्हमहं परिपूज्यते ॥
ओं ही अजितवीर्यजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 एव पंचमकोष्ठपूजितजिना सर्वे विदेहोद्भवा,
 नित्य ये स्थितिमादधु प्रतिपतत्तन्नाममत्रोत्तमा ।
 कस्मिश्चित्समयेऽ भ्रष्टद्विधुमित पूर्णं जिनाना मतं,
 ते कुर्वतु शिवात्मलाभमनिश पूर्णार्घसमानिता ॥
**ओं हीं विंव प्रतिष्ठाध्वरोद्यापने मुख्य पूजार्हं पंचमवलयोन्मुद्रितविदेहक्षेत्रे सुषष्टिसहितैकशत-
 जिनेशसंयुक्तनित्यविहरमाणविंशतिजिनेभ्यः पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।**

अथ षष्ठवलयस्थापिताचार्यगुणपूजा

मोहात्ययादाप्तदृशो स पचविंशतिचारत्यजनादवाप्ताम् ।
 सम्यक्त्वशुद्धि प्रतिरक्षतोऽर्चे आचार्यवर्यान् निजभावशुद्धान् ।
ओं ही दर्शनाचारसंयुक्ताचार्य परमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 विपर्ययादिप्रहते पदार्थज्ञान समासाद्य परात्मनिष्ठ ।
 दृढप्रतीति दधतो मुनीद्रानर्चे स्पृहाध्वंसनपूर्णहर्षान् ॥
ओं ही ज्ञानाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 आत्मस्वभावे स्थितिमादधानाश्चारित्रचारुव्रतधैर्यधर्तृन् ।
 द्विधा चरित्रादचलत्वमाप्तानार्यान् यजे सद्गुणरत्नभूषान् ॥
ओं हीं चारित्राचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

- बाह्यातरद्वैघतपोऽभियुक्तान् सुदर्शनाद्रि हसतोऽचलत्वात् ।
गाढावरोहात्मसुखस्वभावान् यजामि भक्त्या मुनिसघपूज्यान् ॥
- ओं ह्री तपाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
स्वात्मानुभावोद्भटवीर्यशक्तिदृढाभियोगावनत प्रसक्तान् ।
परीषहापीडनदुष्टदोषागतौ स्ववीर्यप्रवणान् यजेऽहम् ॥
- ओं ह्री वीर्याचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
चतुर्विधाहारविमोचनेन द्वित्र्यादिघस्त्रेषु तृषाक्षुधादे ।
अम्लानभाव दधतरस्तपस्थानर्चामि यज्ञेप्रवरावतारान् ॥
- ओं ह्री अनशनतपोयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
त्रिभागभोज्ये क्षितिवेदवह्निग्रासाशने तुष्टिमतो मुनीद्रान् ।
ध्यानावधानाद्यभिवृद्धिपुष्टान् निद्रालसौ जेतुमितान् यजामि ॥
- ओं ह्री अवमौदर्यतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।
शृगाग्रलग्न वसन नवीन रक्त निरीक्ष्यैव भुजि करिष्ये ।
इत्यादिवृत्तौ निरतानलक्ष्यभावान् मुनीद्रानहमर्चयामि ॥
- ओं ह्री वृत्तिपरिसंख्यातपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।
मिष्टाज्यदुग्धादिरसापवृत्ते परस्य लक्ष्येऽप्यवभासनेन ।
त्यागे मुद चेष्टितमत्ययोगाद् धर्तृन् गणेशाधिपतीन् यजामि ॥
- ओं ह्री रसपरित्यागतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
दरीषु भूध्रोपरिषु श्मशाने दुर्गे स्थले शून्यग्रहावलीषु ।
शय्यासने योग्यदृढासनेन सघार्यमाणान् परिपूजयामि ॥
- ओ ह्री विविक्तशय्यासनतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
ग्रीष्मे महीध्रे सरिता तटेषु शरत्सुवर्षासु चतुष्पथेषु ।
योग दधानान् तनुकष्टदाने प्रीतान् मुनीद्राश्चरुभिः पृणामि ॥
- ओ ह्री कायक्लेशतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
सभाव्य दोषानुनय गुरुम्य आलोचनापूर्वमहर्निशं ये ।
तच्छ्रद्धिमात्रे निपुणा यतीशा सत्वर्घदानेन मुदचितारः ॥
- ओ ह्री प्रायश्चित्तपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
सद्दर्शनज्ञानचरित्ररूपप्रभेदतश्चात्मगुणेषु पच ।
पूज्येष्वशल्य विनयं दधाना मा पातुयज्ञेऽर्चनया पटिष्ठाः ॥
- ओं ह्री विनयतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

- दिक्सख्यसधे खलु वातपित्तकफादिरोगक्रमजार्तिसंधौ ।
 दयार्द्रचित्तानमुनिरिगितज्ञास्तददुःख हतूनहमाश्रयामि ॥
- ओं ह्रीं वैयावृत्यतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 श्रुतस्यबोध स्वपरार्थयोर्वा स्वाध्याययोगादवभासमानान् ।
 आम्नाय पृच्छदिषु दत्तचित्तान् सपूजयामोऽर्घविधानमुख्ये ॥
- ओं ह्रीं स्वाध्यायतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 विनश्वरे देहवृत्ते ममत्वत्यागेन कायोत्सृजतोऽपि पद्मा -
 सनादियोगानवधार्य चात्मसपत्सु सस्थानहमर्चयामि ॥
- ओं ह्रीं व्युत्सर्ग तपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 येषा मनोऽहर्निशमार्तरौद्रभूमेरनगीकरणाद्धिधर्म्यं ।
 शुक्लोपकंठे परिवर्तमान तानाश्रये बिबविधानयज्ञे ॥
- ओं ह्रीं ध्यानावलंबननिरताचार्य परमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 येषा भुव क्षेपणमात्रतोऽपि शक्रस्य शकृत्वविघातन स्यात् ।
 एव विधा अप्युदितक्रुद्धातान्क्षमा भजतेननुतान् महामि ॥
- ओं ह्रीं उत्तमक्षमापरमधर्मधारकाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 न जातिलाभैश्यविदगरु पमदा कदाचिज्जनन प्रयाति ।
 येषा मृदिम्ना गुरुणार्द्रचित्तास्तेदद्युरीशा स्तवनाच्छिवं मे ॥
- ओं ह्रीं उत्तममार्दवधर्मधुरंधराचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 सर्वत्र निश्छद्मदशासु वल्लीप्रतानमारोहति चित्तभूमौ ।
 तपोयमोद्भूतफलैरबध्या शाम्याबुसित्ता तु नमोऽस्तु तेभ्य ॥
- ओं ह्रीं उत्तमार्जवधर्मपरिपुष्टाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 भाषासमित्या भयलोभमोहमूलकषत्वादनुभूतया च ।
 हित मित भाषयता मुनीना पादरविदद्वयमर्चयामि ॥
- ओं ह्रीं उत्तमसत्यधर्मप्रतिष्ठिताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 न लोभरक्षोऽभ्युदयो न तृष्णागृधी पिशाच्यौसविध सदेत ।
 तस्मात् शुचित्वात्मविभाचकास्ति येषा तु पादस्थलमर्चयेऽहं ॥
- ओं ह्रीं उत्तमशौचधर्मधारकाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥
 मनोवच कायभिदानुमोदादिभगतश्चेद्रियजतुरक्षा ।
 वर्वर्ति सत्सयमबुद्धिधीरास्तेषा सपर्याविधिमाचरामि ॥
- ओं ह्रीं उत्तमद्विविधसंयमपात्राचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

- तपोविभूषा हृदयं बिभर्त्ति येषा महाघोरतपोगुणाग्र्याः ।
 इन्द्रादिदैर्यच्यवनं स्वतस्त्यं तपो युता एव शिवैषिणः स्युः ॥
- ओं ह्रीं उत्तमतपोऽतिशयसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 समस्तजंतुष्वभयं परार्थसंपत्करी ज्ञानसुदत्तिरिष्टा ।
 घर्मौषधीशा अपि ते मुनीशारस्त्यागेश्वरा पांतुमनोमलानि ॥
- ओं ह्रीं उत्तमत्यागधर्मप्रवीणाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 आत्मस्वभावादपरे पदार्थान् मेऽथवाऽहं न परस्य बुद्धिः ।
 येषामिति प्राणयति प्रमाणं तेषां पदार्था करवाणि नित्यम् ॥
- ओं ह्रीं उत्तमाकिंचन्यधर्म संयुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 रंभोर्वशी यन्मनसोविकारं कर्तुं न शक्ताऽत्मगुणानुभावान् ।
 शीलेशतामादधुरुत्तमार्था यजामि तानार्यवरान् मुनींद्रान् ॥
- ओं ह्रीं ब्रह्मचर्यमहानुभावधर्ममहनीयाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 संरोधनान्मानसभंगवृत्तेः विकल्पसंकल्पपरिक्षयाच्च ।
 शुद्धोपयोग भजतां मुनीना गुप्तिं प्रशस्यात्र यजामहे तान् ॥
- ओं ह्रीं मनोगुप्तिसंपन्नाचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 घर्मोपदेशात्तदृते कथाया अभाषणात् संभ्रमतादिदोषैः ।
 वियोजनाद् ध्यानसुधैकपानाद् गुप्ति वचोगामटि तान् यजामि ॥
- ओं ह्रीं वचनगुप्तिधारकाचार्य परमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 वन्याः समिद्भीरविता दृषत्सूत्कीर्णमिवांगप्रतिमां निरीक्ष्यः ।
 कंडूतिनांगानि लिहंति येषां धाराग्रमर्घेण यजामि सम्यक् ।
- ओं ह्रीं कायगुप्तिसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 सामायिकं जृहति नोपदिष्टं त्रिकालजातं ननु सर्वकाले ।
 रागक्रुद्धोर्मूल निवारणेन यजामि चावश्यककर्मघातून् ॥
- ओं ह्रीं सामायिकावश्यककर्मधारिम्य आचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 सिद्धश्रुति देवगुरुश्रुतानां स्मृति विघायापि परोक्षजातम् ।
 सद्बंदन नित्यमपार्थहान कुर्वति तेषां चरणौयजामि ॥
- ओं ह्रीं वंदनावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 तेषां गुणानां स्तवनं मुनींद्रा वचोभिरुद्धमनोमलाकैः ।
 कुर्वति चावश्यकमेव यस्मात् पुष्पांजलिं तत्पुरतः क्षिपामि ॥
- ओं ह्रीं स्तवनावश्यकसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

मलोत्सृजादौ क्वचनाप्तदोष प्रतिक्रमेणापनुदति वृद्ध ।

साधुं समुद्दिश्य निशादिवीयदोषान् जहत्यर्चनयाधिनौमि ॥

ओ ह्री प्रतिक्रमणावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वोनामचात्माऽध्ययते यदर्थं स्वाध्याययुक्तो निजभानुबुद्ध ।

श्रुतस्य चिताऽपि तदर्थबुद्धिस्तामाश्रये स्वाभिमतार्थसिद्धयै ॥

ओं ह्री स्वाध्यायावश्यक कर्मनिरताचार्यपरमेष्ठिनेऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

भुजप्रलबादिविधिज्ञताया पौरस्त्यमाप्याधिगमवहत ।

व्युत्सर्गमात्रावशिनः कृत्तार्था अस्मिन् मखे यातु विधिज्ञपूजा ॥

ओं ह्री व्युत्सर्गावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

गुणोद्देशादेवा प्रणिधिवशतोऽनतगुणिना कृत्ता ह्याचार्याणामपचितिरियभावबहुला ।

समस्तान् सस्मृत्य श्रमणमुकुटानर्घमलघु प्रपूर्त्त सदृब्धमम मखविधि पूरयतुवै ॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोद्यापने पूजार्हमुख्यषष्ठवलयोन्मुद्रित आचार्यपरमेष्ठिम्यस्तद्
गुणैर्म्यश्च पूर्णार्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

अथ सप्तमवल्यस्थापितोपाध्याय गुण पूजा प्रारंभ

आचाराग प्रथम सागारमुनीशचरणभेद कथम् ।

अष्टादशसहस्रपद यजामि सर्वोपकारसिद्धयर्थ ॥

ओं ह्री अष्टादशसहस्रपदाचारांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ॥

सूत्र कृत्ताग द्वितय षट्त्रिंशत्सहस्रपदकृत्तमहित ।

स्वपरसमयविधान पाठकपठित यजामि पूजार्हं ॥

ओं ह्री षट्त्रिंशत्सहस्रपदसंयुक्तसूत्रकृत्तांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ॥

स्थानागं द्विकचत्वारिंशत्पदक षडर्थदशसरणे ।

एकादिसुभेदयुज कथकं परिपूजये वसुभिः ॥

ओ ह्री द्विकचत्वारिंशत्पदसंयुक्तरथानांगज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ॥

समवायाग लक्षैक चतुरितषष्टीसहस्रपदविशद ।

द्रव्यादिचतुष्टयेन् तु साम्योक्तिर्यत्र पूजये विधिना ॥

ओं ह्री एकलक्षषष्टिपदन्याससहस्रसमवायांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ॥

व्याख्याप्रज्ञप्त्यगद्विलक्षसहिताष्टविशतिसहस्रपदम् ।

गणधरकृत्षष्टिसहस्रप्रश्नोक्तिर्यत्र पूज्यते महसा ॥

ओं ह्री द्विलक्षअष्टविंशति - सहस्रपद - रंजितव्याख्याप्रज्ञप्त्यंगज्ञाता - उपाध्याय -
परमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ॥

ज्ञातृधर्मकथाग शरलक्षसषट्कपंचाशत् ।
पदमहित वृषचर्चा प्रश्नोत्तरपूजित महये ॥

ओं ह्री पंचलक्षषट्पंचाशत्सहस्रपदसंगतज्ञातृधर्मकथांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्यो
ऽर्घ्यं ॥

उपासकपाठकशिवलक्षसप्ततिसहस्रपदभंगं ।
व्रतशीलाधानादिक्रियाप्रवीण यजामि सलिलाद्यै ॥

ओह्री एकादशलक्षसप्ततिसहस्रपदशोभितोपासकाध्ययनांगधारकोपाध्याय परमेष्ठिम्यो
ऽर्घ्यं ॥

अंतकृद्गं दश दश साधुजनोपसर्गकथकमघितीर्थम् ।
तेषा नि श्रेयसलंभनमपि गणधरपठितं यजामि मुदा ॥

ओंह्री त्रिविंशतिलक्षअष्टविंशतिसहस्रपदशोभितांतःकृतदशांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्यो
ऽर्घ्यं ॥

उपपादानुत्तरकद्विचत्वारिशल्लक्षसहस्रपदं ।
विजयादिषु नियमेन मुनिगतिकथक यजामि महीयं ॥

ओंह्री द्विनवतिलक्षचतुर्वत्वारिशत्पदशोभितानुत्तरोपपादिकांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्यो
ऽर्घ्यं ॥

प्रश्नव्याकरणागत्रिणवतिलक्षाधिषोडशसहस्रपदम् ।
नष्टोद्दिष्ट सुखलाभगतिभाविकथ पूजये चरुफलाद्यै ॥

ओंह्री त्रिनवतिलक्षषोडशसहस्रपदशोभितप्रश्नव्याकरणांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽ
र्घ्यं ॥

अग विपाक सूत्र कोट्येकचतुरशीतिसहस्रपद ।
कर्मादयसत्वानानोदीर्णादिकथ यजनभागतोऽ र्चामि ॥

ओं ह्री एककोटि चतुरशीतिसहस्रपदशोभितविपाकसूत्रांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्यो
ऽर्घ्यं ॥

उत्पादपूर्वकोटीपदपद्धतिजीवमुखषट्कम् ।
निजनिज स्वभावघटितकथयत्प्राचामि भक्तिभरः ॥

ओं ह्री उत्पादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

अग्रायणीयपूर्वषण्णवति कोटिपद तु यत्र तत्वकथा ।
सुनयदुर्णयतत्स्वप्रामाण्यप्ररूपकप्रयजे ॥

ओं ह्री अग्रायणीयपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

वीर्यानुवादमधिसप्ततिलक्षपाद द्रव्यस्वतत्त्वगुणपर्ययवादमर्थम् ।
तत्तत्स्वभावगतिवीर्यविधानदक्ष सपूज्ये निजगुण प्रतिपत्तिहेतो ॥

ओं ही वीर्यानुवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

नास्त्यस्तिवादमधिषष्टि सुलक्षपाद सप्तोद्धभगरचनाप्रतिपत्तिमूल ।
स्याद्वादनीतिभिरु दस्तविरोधमात्र सपूजयेजिनमतप्रसवैकहेतुम् ॥

ओं ही अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

ज्ञानप्रवादमभिकोटी पद तु हीनमेकेनवाणमितभान विवर्णनाक ।
कुञ्जानरूपतिमिरौघहर समर्चयत्पाठकै क्षणमिते समये विचार्यम् ॥

ओं ही आत्मज्ञानप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

सत्यप्रवादमधिक रसपादजाते कोटीपद निखिलसत्यविचारदक्ष ।
श्रोतृप्रवृत्तगुणभेदकथापियत्र त पूर्वमुख्यमभिवादय उक्तमत्रै ॥

ओं ही सत्यप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

आत्मप्रवादरसविशतिकोटीपादान् जीवस्य कर्तृगुणभोक्तृगुणादिवादान् ।
शुद्धेतरप्रणयतत्कथन तु येषु बदामहे तदभिलाष्यगुणप्रवृत्तै ॥

ओं ही आत्मप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

कर्म प्रवादसमये विधुसंख्यकोटी सख्यानशीतिलयुतान् वसुकर्मणा च ।
सत्त्वापकर्षणनिघत्तिमुखानुवादे पद्यान् स्थितानमितपूजनयाधिनोमि ।

ओं ही कर्मप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

प्रत्याहृतेश्चतुरशीतिसुलक्षपद्यान् निक्षेपसस्थितिविधानकथप्रसिद्धान् ।
न्यासप्रमाणनयलक्षणसयुजोऽर्चं यागार्चने श्रुतधरस्तवनोपयुक्तान् ॥

ओं ही प्रत्याहारपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

विद्यानुवादभुविचद्रसुकोटी काष्ठालक्षा पदायदधिमत्रविधि प्रकार
सरोहिणी प्रभृतिदीर्घविदां प्रसगस्त पूजये गुरुमुखाबुजकोशजात ॥

ओं ही विद्यानुवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

कल्याणवादमननश्रुतमगमुख्यं षड्विंशतिप्रमितकोटिपद समर्चं ।
यत्रास्तितीर्थकरकामबलत्रिखडिजन्मोत्सवाप्तिविधिरुत्तमभावना च ॥

ओं ही कल्याणवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

प्राणप्रवादमभिवादयता नराणा विश्वप्रमाणमितकोटिपदाभियुक्तम् ।
काऽऽर्तिर्भवेन्निरयघोरभवस्य चायुर्वेदादिसुस्वरभृत परिपूजयामि ॥

ओं ही प्राणप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

क्रियाविशालं नवकोटिपद्युक्त सुसंगीतकलाविशिष्टं ।

छन्दोगणाद्याननुभावयतमध्यापकानत्र विधौ यजामि ॥

ओं ह्री क्रियाविशालपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

त्रैलोक्यविदौ शिवतत्त्वचिता, सार्द्धा सुकोटि द्विदशप्रमाणान् ।

पदास्त्रिलोकीस्थिति सद्विधानमत्रार्चये भ्राति विनाशनाय ॥

ओं ह्रीं त्रैलोक्यविन्दुपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

इत्थं श्रीश्रुतदेवता जिनवरांभोद्युद्गतामृद्धिभृ -

न्मुख्यैर्ग्रथ निबंधनाक्षरकृत्तामालोकयंती त्रयम् ।

लोकाना तदवाप्तिपाठन धियोपाध्यायशुद्धात्मनः

कृत्वारारघनसद्विधि धृतमहार्घेणार्चये भक्तितः ॥

ओं ह्रीं अस्मिन् बिंबप्रतिष्ठोत्सवसद्विधाने मुख्यपूजार्हं सप्तमवलयोन्मु -
द्रितद्वाशांश्रुतदेवताभ्यस्तदाराधकोपाध्याय परमेष्ठिम्यश्च पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अथाष्टमवलयस्थापित साधुपरमेष्ठि गुणपूजाप्रारम्भः

जीवाजीवद्विरधिकरणव्याप्तदोषव्युदारात् सूक्ष्मस्थूलव्यवहृतिहते सर्वथात्यागभावात् ।

मूर्धन्यासं सकलविरति सदधानान्मुनीन्द्रा नाहिसाख्यव्रतपरिवृतान् पूजये भावशुद्ध्या ॥

ओं ह्रीं अहिसामहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मिथ्याभाषासकलविगमात् प्राप्तवाकशुद्ध्युपेतान् स्याद्वादेशान् विविधसनयैर्धर्ममार्गप्रकाशम् ।

संबुर्वाणानतिचरणधीदूर गानात्मसवित् सम्राजस्तांश्चरु फलगणै पूजयाम्यध्वरेऽस्मिन् ॥

ओं ह्री अनृतपरित्यागमहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

आकर्तव्ये (ध्वनि ?) शिवपदगृहेरंतुकामा पृथक्त्व देहात्मीयं करगतमिवाध्यक्षमादर्शयतः ।

प्राणग्राहं तृणमपि परैरप्रदत्तं त्यजंत स्तापंतां मां चरणवरिवस्याप्रशक्तं मुनीन्द्राः ॥

ओं ह्री अचौर्यमहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

तिर्यग्मर्त्यामिरगतिगताया स्त्रियः काष्ठचित्रा -

लेप्याश्मान्याश्चिदचिदुदधिस्थास्तवस्ता स्त्रियोग ।

स्वप्ने जाग्रद्विशि कतिचिदप्यर्तिमुद्रा स्मरतो (?)

ये वै शीलं परिदृढमगुस्तान्यजेऽह त्रिशुद्ध्या ॥

ओ ह्री ब्रह्मचर्यव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

रागद्वेषाद्यभिवृत्तपरावृत्तदोषांतरंगा ये बाह्या अप्युदितदशघातेऽप्यकिंचन्यभावात् ।

नापि स्थैर्यं दधुरु रु गुणाग्राहिणि स्वातमध्ये ग्रथा येषा चरण धरणि पूजयाम्यादरेण ।

ओं ह्री आकिंचन्यभावधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

ईर्यापथास्तिमितचक्तिस्तब्धदृष्टिप्रयोगा भावाच्छुद्धोयुगमितधरालोकनेनापियेषाम् ।
वर्षाकालावनियवसभूजतुजाति विहाय तीर्थश्रेयोगुरु नतिवशाद्गच्छतोऽर्चयतीद्रान् ॥
ओं ह्री ईर्यासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

लोभक्रोधाद्यरिगणजयाद्भीतिमोहापमर्दान्निःशल्याद्यान्जिनवचिसुधाकठ पानप्रपुष्टान्
याथातथ्य श्रुतनिगमयोजानत प्रश्नकर्तुं वाभिप्रायवचनसमिती धरिकान् पूजयामि ॥
ओं ह्री भाषासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

षट् चत्वारिंशदतिचरणा भ्रेडितत्यागयोगात्
दोषाचातुर्दशमलभुवां हापनात् कायहानिम्
अय्यासीनाममृतधिषणाभ्यासतोऽग्रे कृत्तार्था - (?)
मन्वानास्तेऽशनविरतय पातु पादाश्रित माम् ।

ओं ह्री एषणासमिति धारकसाधु परमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वस्तुग्राह त्वपरिणामाद्दाननिकेपयोगा (?) -
भाव पूर्व दृढपरिचयाद्विद्यते शुद्ध एव ।
पिच्छकुडी ग्रहणमपि ये रक्षणाचारहेतोः
कुर्वन्तोऽप्यत्र निहितदृशस्तान्यजेसत्समित्यै ॥

ओं ह्री आदाननिकेपणसमितिधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

व्युत्सर्गाख्यासमितिमघृणानासिकानेत्रपायूपरस्थस्थानान्मलहृतिविधौ सूत्रमार्गानुकूलम् ।
रक्षतोऽन्यानपि सदयता पोषयतोऽप्युदग्रा धन्या दातेन्द्रियपरिकरा आददत्वर्चना मे ॥

ओं ह्री व्युत्सर्गसमितिपालकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

उष्ण शीतो मृदुलकठिनौ स्निग्धरूक्षौ गुरुर्वा
स्तोक स्पर्शोष्टतय उदितस्पर्शनात् सप्रमादम् ।
रागद्वेषावपि न दधतश्चेतनाचेतनेषु
किञ्च स्त्रीणा वपुषि विषये तान्यजेऽहं मुनीद्रान् ॥

ओं ह्री स्पर्शेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

मिष्टस्तिक्तो लवणकटकामम्ल एव रसज्ञा ग्राही प्रोक्तो रसनविषयस्तत्ररागक्रुद्धोर्वा ।
त्यागात्सर्वप्रकृतिनियते पुद्गलस्य स्वभावसजानतो मुनिपरिवृद्धः पातु मामर्चितास्ते ॥
ओं ह्री रसनेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वातद्वेषस्तुहिनविकृतेरुष्णताद्वेष ऊष्म्य व्याप्तागस्य प्रकृतिनियमात् सुप्रसिद्धोऽप्रतर्क्य ।
साम्यस्वामी ह्यशुभसुभगद्वैधगधौ विजानन् वस्तुग्राहं भजति समतात यतीन्द्रयजेऽहम् ॥
ओं ह्री घ्राणेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं स्वाहा ।

यद्यद् दृश्य नयनविषये तेषु तेष्वात्मना वै
जन्माग्राहि त्रिजगदभितश्चक्रमावर्तपातात् ।
कृष्णे पीते हरिदरुणयोरर्जुने पौद्गलेक्षणो
र्व्यापारोऽसन्निति परिणत पूज्यतेऽसौ मयात्र ॥

ओं ह्री चक्षुरिन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

एक स्तोत्र रचयितु मुदा गद्यपद्यानवद्य -
र्वाक्यैरन्य श्वपचजननी तेऽद्य भार्या ममेति ।
श्रुत्वा शब्द श्रवसि जडतामेत्य तोष न कोप
घत्ते शक्तोऽप्यमरमहितस्तस्य पूजा विदध्म ॥

ओ ह्री श्रोत्रेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

साम्य यस्य स्फुरति हृदये निर्व्यलीक कदाचि-
दायातेऽपि ध्रुवमशुभसमयाबद्धपाकावतारे (?)
घोरापीडासदसि वपुषि स्पृङ्मृति सदधानो
बाहुभ्यामबुधिमिव तरत्येष साधुर्मयार्च्य ॥

ओं ह्री सामायिकावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्मार स्मार प्रकृतिमहिमान तु पचेश्वराणा प्रत्यक्ष वा मननविषय वदमानस्त्रिकाल ।
कर्मव्यूहक्षपणमसम चर्करीत्यात्मवत शुद्धस्फार गमयति शिव त महान्त यजामि ॥

ओ ह्री वन्दनावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चेतोरक्ष प्रसरणनिराकर्मणो तीर्थनाथ पादाब्जेषु प्रतिगुणगणे दत्तचित्तो मुनीन्द्र ।
तेषां स्तोत्रपठति परमानदमात्मानुभाव कि वा शुद्ध सृजति स मया पूज्यते तद्गुणाप्त्यै ॥

ओं ह्री स्तवनावश्यकगुणधारक साधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दोषाभावेऽप्यथ निशिदिवाहारनीहारकृत्ये ज्ञाताज्ञातप्रमदवशतो जंतुरभ्यर्दित स्यात् ।
नित्य तस्य प्रतिभयलव व्युत्सृजान स्वयंयो दोषव्रातैर्नहिजुडति तं धीरवीरं यजामि ॥

ओं ह्री प्रतिक्रमणावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

नित्यं चेत कपिरचलतानैति तद्यत्रणार्थं स्वाध्यायाख्यै प्रगुणनिगडैर्बधमानीय भद्रे ।
मार्गेयुंज्याच्छ्रुतपरिणतात्मीय मोदावधानो वृत्ति शुद्धा श्रयति स महानर्घ्यतेऽनर्घ्यबुद्धि ॥

ओं ह्री स्वाध्यायावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं स्वाहा ।

आमेभाडे कुथित कुणपे यादृशी नश्यहेय बुद्धि कायेसततनियता वीतरागेश्वराणाम् ।
व्यक्तीकर्तुं शिखरिविपिनातस्तनोर्निर्ममत्वे कायोत्सर्ग रचयति मुनि सोऽत्र पूजां प्रयातु ॥

ओं ह्री व्युत्सर्गावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पूर्व हर्म्ये मणिगणचितानेकपर्यकशायी सोऽय घोरस्वनमृगपतित्रस्तनागेद्र कारे ।
भूध्रग्रावोपरितनभुवि स्वप्नवत्किचिदात्त निद्रो यस्य स्मरणमपि सहति पापसमेऽर्च्य ॥
ओं ह्री भूशयननियमधारक साधु परमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ग्रीष्मे रेणूत्करविकरणव्यग्रवातप्रसर्पद् धूलिपुजे मलिनवपुषि त्यक्तसस्कारवाछ ।
अस्नानत्व विजनसरसीसनिधानेऽ पि येषा तेषा पादाबुजयुगमह पारिजातैरुदर्वे ॥
ओं ह्री अस्नाननियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वाल्कफाल वसनमुपसव्यानकोपीनखड कादाचित्केऽऽ प्युपधिसमयेनैव वाछस्तपस्वी ।
दैगवर्य परमकुशल जातरूपप्रबुद्ध सधार्थैव नयति परमानद धात्रीं तमर्चे ॥
ओ ह्री सर्वथावस्त्रपरित्यागनियमधारकसाधु परमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

क्षौर शस्त्रोज्जनिपराधीनता पात्रमेव (?)
जूडा मूर्धन्यतुलकृमिदा भूतशीर्षाकृतिस्था ।
दोषायैवेति विहितकचोत्पाटनो मुष्टि मात्रात्
साक्षान्मोक्षाध्वनिधृतिपद पूज्यते श्रौतकर्मा ॥

ओं ह्री वृक्तकेशलोचननियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

एकद्वित्रिप्रभृतिदिवसप्रोषधादिप्रकर्तुं रास्यग्लानिर्भवति नितरा दतशुद्धि विनाऽत्र ।
दौर्गध्यांध्रु वपुषमवृक्त स्थैर्यमापन्निदान जानन् योग मलिनयति नो त समर्चे मुनीन्द्रम् ॥
ओं ह्री दंतधावनवर्जननियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

याचादन्योदरविघटनादीगितादीनि येषा
निर्मूलतो मनसि चमनालाभलाभातराये ।
तुल्या दृष्टिस्तदपि सकृदेकाहनिभुक्ति प्रमाण
तेषा धर्म्यावगमसुगमत्वाय पादौ यजामि ॥

ओं ह्री एकभुक्तनियमधारकसाधुपरमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

यावद्देह स्थितिधृतिधराशक्तिमगीकरोति यावज्जघाबलमचलता नोज्जिहीते मुनित्वे ।
यावत्स्थाप्येतदपगमने भोजनत्याग एव सन्यासस्य ग्रहणमितियद् यस्यनीतिस्तमर्चे ॥
ओं ह्री आस्थितभोजननियमधारकसाधु परमेष्ठिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा

अष्टाविशतिसद्गुणग्रथितसद्दर्शनत्रयाभूषणशीलेशित्वतनुत्ररक्षितवपु कामेषुभिर्नाहतम् ।
आर्हत्यादिपदस्य बीजमनघ येषा पर पावन साधूना समुदायमुत्तमकुलालकरमाशाश्महे ॥
ओं ह्री अस्मिन् विबप्रतिष्ठोत्सवे मुख्य पूजार्ह अष्टमवलयोन्मुद्रित
साधुपरमेष्ठि भ्यस्तन्मूलगुण -ग्रामेभ्यश्च पूणार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अथ नवमवल्यस्थापिताष्टचत्वारिंशद् ऋद्धिधारक पूजा प्रारंभः

त्रैलोक्यवर्तिसकलं गुणपर्ययाद्ध्य यस्मिन्करामलकवत् प्रतिवस्तुजातम् ।

आभासते त्रिसमयप्रतिबद्धमर्चे कैवल्यभानुमधिपं प्रणिपत्य मूर्ध्ना ॥

ओं ह्रीं सकललोकत्रलोकत्रकशकनिरावरणकैवल्यलब्धिधारकेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

वक्रजुं भावघटि तांपरचित्तवर्तिभावावभासनपरं विपुलजुंभेदात् ।

ज्ञानं मनोऽधिगतपर्ययमस्य जातं तं पूजयामि जलचंदन पुष्पदीपैः ॥

ओं ह्री ऋजुमतिविपुलमतिमनः पर्ययधारकेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

देशावधि च परमावधिमेव सर्वावध्यादि भेदमतुलावमदेशपृक्तं ।

ज्ञान निरुप्य तदवाप्तियुतं मुनींद्रं संपूज्य चित्तभवसंशयमाहरामि ॥

ओं ह्री अवधिज्ञानधारकेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अन्योपदेशमनपेक्ष्य यथा सुकोष्ठे

बीजानि तद्गृहपतिर्विनियुज्यमानः ।

ग्रथार्थबीजबहुलान्यनतिक्रमाणि

संधारयन्नुषिवरोऽर्च्यत उवस्थमंत्रैः ॥

ओं ह्री कोष्ठ बुद्ध्यर्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

एकंपदार्थं मुपगृह्य मुखान्तमध्यस्थानेषु तच्छ्रुतसमस्तपदग्रहोक्तिम् ।

पादानुसारिधिषणाद्यभियोगभाजांसंपूज्यतन्मतिघरंतु समर्चयामि ॥

ओं ह्री पादानुसारिबुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

कालादियोगमनुसृत्य यथाप्तमत्रकोटिप्रदं भवति बीजमनिद्रियादि ।

वीर्यातरायशमनक्षयहेत्वनेक पादावधारणमतीन् परिपूजयामि ॥

ओं ह्री बीजबुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

ये चक्रि सैन्य गजवाजिखरोष्ट्रमर्त्य नानाविधस्वनगणं युगपत् पृथक्त्वात् ।

गृह्णन्ति कर्णपरिणामवशान्मुनीद्रास् तानर्चयामि कृत्तुभागसमर्पणेन ॥

ओं ह्री संभिन्नश्रोत्रऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दूरस्थितान्यपि सुमेरु विधुप्रभारवत् सन्मंडलानि करपादनखागुलीभिः ।

सस्पर्शशक्तिसहितर्द्धिवशात् स्पृशतस्तान्शक्तियुक्तपरिणामगतान् यजामि ॥

ओं ह्री दूरस्पर्शशक्ति ऋद्धि प्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

नास्वादयति न च तत्सदने समीहा तत्रापिशक्तिरमितेति रसग्रहादौ ।
 ऋद्धिप्रवृद्धिसहितात्मगुणान् सुदूर स्वादावभारानपरान् गणपान् यजामि ॥ ओ
 ह्री दूरास्वादनशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

उत्कृष्टनासिकहृषीकगति विहाय तत्स्थोर्ध्वगघसमवायनशक्ति युक्तान् ।
 उत्कृष्टभागपरिणामविधौ सुदूरगधावभासनमतौ नियतान् यजामि ॥
 ओ ह्री दूरघ्राणविषयग्राहकशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

निर्णीतपूर्णनयनोत्थहृषीकवार्ता चक्रेश्वरस्य नियता तदधिक्यभावात् ।
 दूरावलोकनजशक्तियुतान् यजामि देवेद्रचक्रधरणीद्र समर्चिताह्निम् ।
 ओ ह्री दूरावलोकनशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रोत्रेद्रियस्य नवयोजनशक्तिरिष्टा नात पर तदधिकावनिसस्थशब्दान् ।
 श्रोतु प्रशक्तिरुदयत्यतिशायिनीच येषा तु पादजलजाश्रयण करोमि ॥
 ओ ह्री दूरश्रवणशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अभ्यासयोग विह्वतावपि यन्मुहूर्त मात्रेण पाठयति दिग्प्रमपूर्वसार्थम् ।
 शब्देन चार्थपरिभावनयाश्रुत तच्छक्तिप्रभूनधियजामि मखस्य सिद्ध्यै ॥
 ओ ह्री दशपूर्वित्वऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

एव चतुर्दशसुपूर्वगतश्रुतार्थ शब्देन ये ह्यमितशक्तिमुदाहरति ।
 तानत्र शास्त्रपरिलब्धिविधानभूति सपत्तयेऽहमधुनार्हणया धिनोमि ॥
 ओ ह्री चतुर्दशपूर्वित्वऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अन्योपदेशविरहेऽपि सुसयमस्य चारित्रकोटि विधय स्वयमुद् भवति ।
 प्रत्येक बुद्धमतय खलुते प्रशस्यास् तेषा मनाक् स्मरणतो मम पापनाश ॥
 ओ ह्री प्रत्येकबुद्धत्वऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

न्यायागमस्यमृतिपुराणपठित्यभावेऽप्याविर्भवति परवादविदारणोद्धा ।
 वादित्वबुद्धय इतिश्रमणा स्वधर्म निर्वाहयति समये खलुतान् यजामि ॥
 ओ ह्री वादित्वऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जघाग्निहेतिकुसुमच्छदतुबीज श्रेणीसमाजगमना इति चारणाका ।
 ऋद्धिक्रियापरिणता मुनय स्वशक्ति सभावितारस्त इह पूजनमालभतु ॥
 ओ ह्री जलजंघातंतुषुपत्रबीजश्रेणीवह्न्यादि निमित्ताश्रयचारणऋद्धि प्राप्तेभ्योऽर्घं
 निर्वपामीति स्वाहा ।

आकाशयाननिपुणा जिनमंदिरेषु नेर्वाद्यकृत्रिमधरासु जिनेशचेत्यान् ।
 बंदंत उत्तमजनानुपदेशयोगा नुद्धारयंति चरणौ तु नमानि तेषाम् ॥
 ओं ह्री आकाशगमनशक्तिचारणद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ऋद्धिः सुविक्रियगता बहुलप्रकारा तत्र द्विधादिभजनेष्वणिमादिसिद्धिः ।
 मुख्यास्ति तत्परिचयप्रतिपत्तिमंत्रान् यायज्मि तत्कृतविकारविवर्जितांश्च ॥
 ओं ह्री अणिमामहिमालधिमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेशित्वऋद्धि प्राप्तेभ्योऽर्घं
 निर्वपामीति स्वाहा ।

अंतर्दधि प्रमुखकामविकीर्णशक्ति र्घं स्वयं तपस उद्भवति प्रकृष्टा ।
 तद्विक्रियाद्वितयभेदमुपागतानां पादप्रधावन विदिर्नम पातु पाणिम् ॥

ओं ह्रीं विक्रियायां अंतर्धानादिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 पञ्चाष्टमद्विदशपक्षकमासमात्रा नुद्धेयभुक्ति परिहारमुदीर्य योगम् ।
 आनृत्यनुग्रतपसा ह्यनिवर्तकास्ते पांत्वर्चनाविदिमिमं परिलंभयंतु ॥

ओं ह्रीं उग्रतपऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

घोरोष्वासकरणे ऽपि बलिष्ठ योगान् दोग्गव्यविच्युतनुखान् महदीप्तदेहान् ।
 पद्भ्योत्-लादिसुरनिस्वसनान्मुर्गीद्रान् यायज्मि दीप्ततपसो हरिचंदनेन ॥
 ओं ह्रीं दीप्ततपऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कैश्वानरौघ गतितांडुकगेन तुल्य नाहारनाशु विलयं ननु याति येषाम् ।
 विष्मूत्रनावपरिणाममुदेति नो वा ते संतु तप्ततपसो मन सद्धिमूत्थै ॥

ओं ह्रीं तप्ततपऋद्धि प्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

हारावलीप्रभृतिघोरतपोऽ नियुक्ताः कर्मप्रमाथनवियो यत उत्सहंते ।
 ग्रानाट वीश्वशननप्यतिपातयंति ते संतु कार्मणतृगाग्निचयाः प्रशांत्यै ॥

ओं ह्रीं महातपऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कासज्वरादि विदितोग्ररुजादिसत्त्वे षष्यच्युतानशनकायदनान् श्मशाने ।
 नीनादिगह्वरदरीतटिनीषु दुष्ट संकलृप्तबाधनसहानहमर्चयामि ॥

ओं ह्रीं घोरतपऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पूर्वादितासु विधियोगपरंपरासुस्फारीकृतोत्तरगुणेषुविकाशवत्सु ।
 येषा पराक्रमहतिर्न नदेतमर्चं जदस्थली निहसुग्गेरपराक्रमाणाम् ॥

ओं ह्रीं घोरपराक्रमगुणऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दु-स्वजदुर्गातिसुदुर्गातिदौर्मनस्त्व मुख्याःक्रिया वृत्तविधातकृते प्रशस्ताः ।
 तासां तपोविलसनेन सनूलकाणं वातो ऽस्ति ते सुरसमर्चितशीलपूज्याः ॥

ओं ह्रीं घोरब्रह्मचर्यगुणऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

- अतर्मुहूर्तसमये सकलश्रुतार्थ सचितनेऽपि पुनरुद्भट्सूत्रपाठा ।
स्वच्छ मनोऽभिलषिता रुचिरस्ति येषां कुर्यान्मनोबलिन उत्तममातर मे ॥
ओ ह्री मनोवलत्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
- जिह्वाश्रुतावरणवीर्यशमक्षयाप्ता वतर्मुहूर्त समयेषु कृतश्रुतार्था ।
प्रश्नोत्तरोत्तरचयेरपि शुद्धकठ, देशाःसुवाक्यबलिनो मम पांतु यज्ञम् ॥
ओं ह्री वचनवलत्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
- मेर्वादिपर्वतगणोद्धरणेषुशक्ता रक्ष.पिशाचशतकोटिबलाधिवीर्या ।
मासर्तुवत्सरयुगाशनमोचनेऽपि हानिर्न कायबलिन. परिपूजयामि ॥
ओ ह्री कायवलत्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
- स्पर्शात्कराहि जनिताद् गदशातन स्या दामर्पजा यव इति प्रतिपत्तिमाप्तान् ।
येषा च वायुरपि तत्स्पृशता रुजार्ति नाशाय तन्मुनिवराग्रघरां यजामि ॥
ओं ह्री आमर्षोषधित्र्यद्विप्राप्तेभ्यो ऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
- निष्ठीवनं हि मुखपद्मभव रुजाना शांत्यर्थमुत्कट तपोविनियोगभाजाम् ।
क्ष्वेलौषधारस्त इह सजनितावतारा कुर्वन्तु विघ्ननिचयस्य हति जनानाम् ॥
ओं ह्री क्ष्वेलौषधित्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।
- स्वेदावलंवितरजो निचयो हि येषा मुत्क्षिप्य वायुविसरेण यदंगमेति ।
तस्याशु नाशमुपयाति रुजा समूहो जल्लौषधीशमुनयस्त इमे पुनन्तु ॥
ओं ह्री जल्लौषधित्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
- नासाक्षिकर्णरदनादिभव मलं यन्नेरोग्यकारि वमनज्वरकासभाजाम् ।
तेषा मलोषधसुकीर्तिजुषा मुनीना पादारचनेन भवरोगहतिर्नितातम् ॥
ओं ह्री मलौषधित्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
- उच्चार एव तदुपाहितवायुरेणू अगस्पृशौ च निहत. किल सर्वरोगान् ।
पादप्रघावनजल मम मूर्ध्निपात कि दोष शोषणविधौ न समर्थमस्तु ॥
ओं ह्री विडौषधित्र्यद्विप्राप्तेभ्यो ऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
- प्रत्यगदतनखकेशमलादिरस्य सर्वो हि तन्मिलितवायुरपिज्वरादि ।
कासापतान वमिशूलभगदराणा नाशाय ते हि भविकेन नरेण पूज्या ॥
ओं ह्री सर्वोषधि त्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
- येषा विषाक्त मशन मुखपद्मयात स्यान्निर्विष खलुतदह्लिघरापि येन ।
स्पृष्टा सुधा भवति जन्मजरापमृत्यु ध्वसो भवेत्किमु पदाश्रयणे न तेषाम् ॥
ओं ह्री आस्याविषत्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

- येषां दूरमपि दृष्टिं सुधानिपातो यस्योपरिखलति तस्य विषं सुतीव्रम् ।
अप्याशु नाशमयते नयनाविषास्ते कुर्वन्नुग्रहममी कृत्तुभागभाजः॥
- ओं ह्रीं दृष्ट्यविषत्रघ्निप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
येषां ब्रुवन्ति यतयोऽ कृत्तया त्रियस्व सद्यो मृतिर्भवति तस्य च शक्तिभावात् ।
येषां कदापि न हि रोषजनिर्घटेत व्यक्ता तथापि यजतास्यविषान् मुनीन्द्रान् ॥
- ओं ह्रीं आशीविषत्रघ्निप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
येषामशातनिचय स्वयमेव नष्टोऽन्येषां शिवोपचयनात्सुखमाददानाः ।
ते निग्रहात्कमनसो यदि संभवेयुर्दृष्ट्यैव हतुमनिशं प्रभवो यजे तान् ॥
- ओं ह्रीं दृष्टि विषत्रघ्निप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
क्षीराश्रवर्द्धिं मुनिवर्यं पदाबुजातं द्वाश्रयाद् विरसभोजनमप्युदश्वित् ।
हस्तार्पितं भवति दुग्धरसात्कवर्णं स्वादं तदर्चनगुणामृतपानपुष्टाः॥
- ओं ह्रीं क्षीरस्राविषत्रघ्निप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
येषां वचासि बहुलार्तिजुषा नराणां दुःखप्रघातनतयापि च पाणिसस्था ।
भुक्तिर्मधुस्वदनवत् परिणामवीर्यां स्तानर्चयामि मधुसंश्रविणो मुनीन्द्रान् ॥
- ओं ह्रीं मधुस्राविषत्रघ्निप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
रुक्षात्रमर्पितमथो करयोस्तु येषां सर्पिः स्ववीर्यरसपाकवदाविभाति ।
ते सर्पिराश्रविण उत्तमशक्तिभाज पापाश्रवप्रमथनं रचयंतु पुसाम् ॥
- ओं ह्रीं घृतस्राविषत्रघ्निप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
पीयूषमाश्रवति यत्करयोर्घृतं सद् रुक्षंतथा कटुकमम्लतरं कुम्भोज्यम् ।
येषां वचोऽप्यमृतवत् श्रवसो निर्घत्त सतर्पयत्यसुभृतामपितान् यजामि ॥
- ओं ह्रीं अमृतस्राविषत्रघ्निप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
यद्दत्तशेषमशनं यदि चक्रवर्तिं सेनाऽपि भोजयति सा खलु तृप्तिमेति ।
तेऽक्षीण शक्ति ललिता मुनयो दृगाध्व जाता ममाशु वसु कर्महरा भवन्तु ॥
- ओं ह्रीं अक्षीणमहानसर्द्धिं प्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
यत्रोपदेशसरसि प्रसरच्युतेऽपि तिर्यग्मनुष्यविबुधाः शतकोटि संख्याः ।
आगत्य तत्र निवसेयुरबाधमाना स्तिष्ठन्ति तान्मुनिवरानहमर्चयामि ॥
- ओं ह्रीं अक्षीणमहालयत्रघ्निप्राप्तेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
इत्थं सत्तपसः प्रभावजनिताः सिद्धयर्धिसपत्तयो
येषां ज्ञान सुधा प्रलीढहृदया संसारहेतुच्युताः

रोहिण्यादिविधा विदोदितचमत्कारेषु सनि स्पृहा
 नो वाध्रति कदापि तत्कृत्तविधि तानाश्रये सन्मुनीन् ।
 ओं ह्री सकलन्नद्धिसंपन्नसर्वमुनिभ्यः पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अत्रैव चतुर्विंशतितीर्थेशा चतुर्दशशत मतम् ।
 सत्रिपचाशता युक्त गणिना प्रयजाम्यहम् ॥
 ओं ह्री चतुर्विंशति तीर्थेश्वराग्रिमसमावर्तिसत्रिपंचाशच्चतुर्दशशतगणधरमुनिभ्योऽर्घं
 निर्वपामीति स्वाहा ।
 मदवेदनिधिद्वयग्रखत्रयाकान्मुनीश्वरान् ।
 सप्तसधेश्वरास्तीर्थकृत्सभानियतान्यजे ॥
 ओ ह्री वर्तमानचतुर्विंशतितीर्थकरसभासंस्थायिएकोनत्रिशल्लक्षाष्ट
 चत्वारिशत्सहस्रप्रमितमुनीद्रेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अथ चतुर्दिक्षु जिनचैत्यचैत्यालयागम धर्माणां चत्वार्यर्घ्याणि देयानि तथाहि
 अकृत्रिमा श्रीजिनमूर्त्तयोनव सपचविशा खलु कोटयस्तथा ।
 लक्षास्त्रिपचा शमित्तास्त्रिसगुणा कृष्णा सहस्राणि शत नवानाम् ॥
 द्विहीनपचाशदुपात्तसख्यका प्रणभ्यता पूजनया महाम्यहम् ।
 ॥
 ओं ह्री नवशतपंचविंशतिकोटिपंचाशल्लक्षसप्त विंशतिसहस्रनवशताष्टचत्वारिंशत्
 प्रमित अकृत्रिम जिनविवेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अष्टौ कोट्यस्तथा लक्षा षट्पचाशमितारस्तथा ।
 सहस्र सप्तनवतेरे काशीतिश्चतु शतम् ॥
 एतत्सख्यान् जिनेद्राणामकृत्रिमजिनालयान् ।
 अत्राहूय समाराध्य पूजयाम्यहमध्वरे ॥
 ओं ह्री अष्टकोटिषट् पंचाशल्लक्षसप्तनवति सहस्रचतुः शत एकाशीति संख्याकृत्रिम
 -जिनालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 यो मिथ्यात्वमतगजेषु तरुणक्षुन्न सिहायते
 एकान्ता तपतापितेषु समरुत्पीयूषमेघायते ।
 श्वभ्राधप्रहिसपतत्सु सदय हस्तावलबायते
 स्याद्वादध्वजमागम तमभित सपूजयामो वयम् ॥
 ओं ह्री स्याद्वादमुद्रांकित परमजिनागमायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जिनेद्रोक्तधर्म सुदशयुतभेदत्रिविधया स्थितं सम्यक् रत्नत्रयलतिकयाऽपि द्विविधया ।
 प्रगीत सागारेतर चरणतोह्येकमनघं दयारूप वंदे मखभुवि समास्थापितमिमम् ॥
 ओं ह्रीं दशलक्षणोत्तमादित्रिलक्षणसम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप तथा मुनिगृह
 रथाचारभेदेन-द्विविध तथा दयारूपत्वेनैकरूपजिनधर्माय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

यागमडंलसमुद्धृता जिना सिद्धवीतमदना श्रुतानि च ।

चैत्यचैत्यगृहधर्ममागम सयजामि सुविशुद्धिपूर्तये ॥

ओं ह्रीं सर्वयागमंडल देवताभ्यः पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शाति पुष्टिरनाकुलत्वमुदित भ्राजिष्णुताविष्कृति

ससारार्णवदुःखदावशमननि श्रेयसोद्भूतिता ।

सौराज्य मुनिवर्यपादवरिवस्याप्रक्रमो नित्यशो-

भूयादभ्रशराक्षिनायकमहापूजा प्रभावान्मम ॥

इत्याशीर्वादं पठित्वा पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

अब यहा यजमान और आचार्य दोनो आचार्य भक्ति, अर्हद्भक्ति, सिद्धभक्ति,
 श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, पाठ करे ।

महार्घ के पश्चात् शातिभक्ति पढकर विधान समाप्त करे ।

यागगण्डल विधान पूजन

स्थापना (गीता)

कर्मतम को हननकर निजगुण प्रकाशन भानु है,
अन्त अर क्रम रहित दर्शन-ज्ञान-वीर्य निधान है ।
सुखस्वभावी द्रव्य चित् सत् शुद्ध परिणति में रमे,
आइये सब विघ्न चूरण पूजते सब अघ वमे ॥

ओं ह्री अत्र प्रतिष्ठाविधाने सर्वयागगण्डलोक्ता जिनमुनय अत्र अवतर अवतर
संवौषट् आह्वाननम् ।

ओं ह्री अत्र प्रतिष्ठाविधाने सर्वयागगण्डलोक्ता जिनमुनय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः
स्थापनम् ।

ओं ह्री अत्र प्रतिष्ठाविधाने सर्वयागगण्डलोक्ता जिनमुनय अत्र मम सन्निहितो भव
भव वषट् सन्निधिकरणम् ।

अष्टक (चाल)

गगा-सिद्ध वर पानी, सुवरणझारी भर लानी ।

गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥१॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

शुद्ध गन्ध लाय मनहारी, भवताप शमन करतारी

गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥२॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

शशिसम शुचि अक्षत लाए, अक्षयगुण हित हुलसाए ।

गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥३॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वर जिनमुनिभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

शुभकल्पद्रुम सुमना ले, जग वशकर काम नशा ले ।

गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥४॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

पकवान मनोहर लाए, जासे क्षुधा रोग शमाए ।

गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥५॥

ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिन मुनिभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मणि रत्नमयी शुभ दीपा, तममोह हरण उद्दीपा ।
 गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥६॥
 ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 शुभ गंधित धूप चढाऊँ, कर्मों के वंश जलाऊँ ।
 गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजें ध्यान लगाई ॥७॥
 ओं ह्रीं अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 सुन्दर दिव भव फल लाए, शिव हेतु सुचरण चढाये ।
 गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजें ध्यान लगाई ॥८॥
 ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 सुवरण के पात्र धराये, शुचि आठों द्रव्य मिलाए ।
 गुरुपञ्च परम सुखदाई, हम पूजे ध्यान लगाई ॥९॥
 ओ ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवे सर्वयज्ञेश्वरजिनमुनिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

(अडिल्ल)

काल अनन्ता भ्रमण करत जग जीव है । तिनको भव ते काढि करत शुचि जीव है ॥
 ऐसे अर्हत् तीर्थनाथ पद ध्याय के । पूजें अर्घ बनाय सुमन हरषाय के ॥
 ओं ह्री अनन्तभवार्णभयनिवारकानन्तगुणस्तुताय अर्हत्परमेष्टिने अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

(हरिगीता)

कर्म-काष्ठ महान जाले ध्यान-अग्नि जलायके ।
 गुण अष्ट लह व्यवहारनय निश्चय अनंत लहायके ॥
 निज आत्म में थिररूप रह के, सुधा स्वाद लखायके ।
 सो सिद्ध हैं कृत्तकृत्य चिन्मय, भजें मन उमगायके ॥
 ओं ह्रीं अष्ट कर्मविनाशकरनिजात्मतत्त्वविभासकसिद्धपरमेष्टिने अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

(त्रिभंगी)

मुनिगण को पालत आलस टालत आप सँभालत परम यती ।
 जिनवाणी सुहानी शिवसुखदानी भविजन मानी घर सुमती ॥
 दीक्षा के दाता अघ से त्राता समसुखभाता ज्ञानपती ।
 शुभ पञ्चाचारा पालत प्यारा है आचारज कर्महती ॥
 ओं ह्री अनवद्य विद्याविद्योतनाय आचार्यपरमेष्टिने अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥

(त्रोटक)

जय पाठक ज्ञान कृपाण नमो, भवि जीवन हत अज्ञान नमो ।

निज आत्म महानिधि धारक है, सशय वन दाह निवारक है ॥

ओं ह्री द्वादशांगपरिपूरणश्रु तपाठनोद्यत बुद्धिविमवोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्य
निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

(द्रुतविलंबित)

सुभग तप द्वादश कर्तार है, ध्यान सार महान प्रचार है ।

मुकति वास अचल यति साधते, सुख सु आत्म जन्य सम्हारते ॥

ओं ह्री घोरतपोऽभिसंस्कृतध्यानखाध्यायनिरतसाधुपरमेष्ठिने अर्घ्य निर्व० स्वाहा ॥

(मालिनी)

अरि हनन सु अरिहनन् पूज्य अर्हन् बताये, म पाप गलन हेतु मंगल ध्यान लाये ।

मग सुखकारण मंगलीकं बताये, ध्यानी छवि तेरी देखते दुख नशाये ॥

ओं ह्री अर्हत्परमेष्ठिमंगलाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥

(चौपाई)

जय जय सिद्ध परम सुखकारी । तुम गुण सुमरत कर्म निवारी ॥

विघ्नसमूह सहज हरतारे । मगलमय मगल करतारे ॥

ओ ह्री सिद्धमंगलाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥७॥

(शार्दूलविक्रीडित)

राग-द्वेष महान सर्प शमनेशम मन्त्रधारी यती ।

शत्रु-मित्र समान भाव करके भवताप हारी यती ॥

मगल सार महानकार अघहर सत्त्वानुकम्पी यती ।

सयम पूर्ण प्रकार साध तप को ससारहारी यती ॥

ओं ह्री साधुमंगलाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥

(शंकर)

जिनधर्म है सुखकार जग में धरत भवभयवत ।

स्वर्ग-मोक्ष सुद्वार अनुपम धरे सो जयवन्त ॥

सम्यक्त्व-ज्ञान-चरित्र लक्षण भजत जग मे सत ।

सर्वज्ञ रागविहीन वक्ता है प्रमाण महन्त ॥

ओं ह्री केवलिप्रज्ञप्तधर्ममंगलाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥९॥

(झूलना)

चर्ण सस्पर्शते वन गिरि शुद्ध हो, नाम सतीर्थ को प्राप्त करते भए ।
दर्श जिनका करे पूजते दुख हरे, जन्म निज सार्थ भविजीव मानत भए ॥
देव तुम लेखके देव सब छोड़के, देव तुम उत्तमा सन्त ठानत भए ।
पूजते आपको टालते ताप को, मोक्षलक्ष्मी निकट आप जानत भए ॥
ओं ह्रीं अर्हल्लोकोत्तमाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

(भुजंगप्रयात)

दरश ज्ञान वैरी करम तीव्र आए, नरक पशुगती मॉहि प्राणी पठाए ।
तिन्हे ज्ञान असितें हनन नाथ कीना, परम सिद्ध उत्तम भजूँ रागहीना ॥
ओं ह्रीं सिद्धलोकोत्तमाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११॥

(चौपेया)

सूरज चन्द्र देवपति नरपति पद सरोज नित वंदे ।
लोट-लोट मस्तक धर पग में पातक सर्व निकंदे ॥
लोकमॉहि उत्तम यतियन मे जेनसाधु सुखकंदे ।
पूजत सार आत्मगुण पावत होवत आप स्वच्छंदे ॥
ओं ह्रीं साधुलोकोत्तमाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१५॥

(सृग्विणी)

जो दया धर्म विस्तारता विश्व में,
नाश मिथ्यात्व अज्ञान हर विश्व में ॥
काम भाव दूर कर, मोक्षकर विश्व में,
सत्य जिनधर्म यह धार ले विश्व में ॥
ओं ह्रीं केवलप्रज्ञप्तधर्मलोकोत्तमाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३॥

(मरहटा)

भव-भ्रमण नशाया शरण कराया जीव-अजीवहि खोज ।
इन्द्रादिक देवा जाको पूजें जग गुण गावें रोज ॥
ऐसे अर्हत् की शरणा आये, रत्नत्रय प्रकटाय ।
जासे ही जन्ममरण भय नाशे नित्यानन्दी थाय ॥
ओं ह्रीं अर्हत्शरणाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१४॥

(नाराच)

सुखी न जीव हो कभी जहाँ कि देह साथ है ।
सदा हि कर्म आस्रवे, न शातता लहात है ॥
जो सिद्ध को लखाय भक्ति एक मन करात है ।
वही सुसिद्ध आप ही स्वभाव आत्मपात है ॥

ओं ही सिद्धशरणाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१५॥

(त्रोटक)

नहि राग न द्वेष न काम धरे, भवदधि नौका भवि पार करे ।
स्वारथ बिन सब हितकारक हे, ते साधु जजुँ सुखकारक है ॥

ओं ही साधुशरणाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१६॥

(चामर)

धर्म ही सु मित्रसार साथ नाहि त्यागता,
पापरूप अग्नि को रुमेघ सम बुझावता ।
धर्म सत्य शर्ण यही जीव को सम्हारता,
भक्ति धर्म जो करे अनन्त ज्ञान पावता ॥

ओं ही धर्मशरणाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१७॥

(दोहा)

पञ्च परमगुरुसार है, मगल उत्तम ज्ञान ।
शरणा राखन को बली, पूजुँ कर उर ध्यान ॥

ओंही अर्हत्परमेष्ठिप्रभृतिधर्मशरणांतप्रथमवलयस्थितसप्तदशजिनाधीशयागदेवताम्यः
पूर्णार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।

द्वितीय वलय मे भूतकाल के २४ तीर्थकरों की पूजा

(पद्धडी)

भवि लोक शरण निर्वाणदेव, शिव सुखदाता सब देव देव ।
पूजुँ शिवकारण मन लगाय, जासे भवसागर पार जाय ॥

ओं ही निर्वाणजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१८॥

तज राग-द्वेष ममता विहाय, पूजक जन सुख अनुपम लहाय ।
गुणसागर सागर जिन लखाय, पूजुँ मन-वच अर काय नाय ॥

ओं ही सागरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥१९॥

नय अर प्रमाण से तत्त्व पाय, निज जीव तत्त्व निश्चय कराय ।
साधो तप केवलज्ञान दाय, ते साधु महा वन्दो सुभाय ।

ओं ह्री महासाधुजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२०॥

दीपक विशाल निज ज्ञान पाय, त्रैलोक लखे बिन श्रम उपाय ।
विमलप्रभ निर्मलता कराय, जो पूजे जिनको अर्घ लाय ॥

ओं ह्री विमलप्रभाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२१॥

भवि शरण गेह मन शुद्धिकार, गावे थुति मुनिगण यश प्रचार ।
शुद्धाभदेव पूजें विचार, पाऊँ आतम गुण मोक्ष द्वार ॥

ओं ह्री शुद्धामदेवाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२२॥

अतर बाहर लक्ष्मी अधीश, इन्द्रादिक सेवत नाय शीश ।
श्रीधर चरण श्री शिव कराय, आश्रयकर्ता भवदधि तराय ॥

ओं ह्री श्रीधराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२३॥

जो भक्ति करे मन-वचनफाय, दाता शिवलक्ष्मी के जिनाय ।
श्रीदत्त चरण पूजें महान, भवभय छूटे लहूँ अमल ज्ञान ॥

ओं ह्री श्रीदत्तजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२४॥

भामण्डल छवि वरणी न जाय, जहँ जीव लखे भव सप्त आग ।
मन शुद्ध करे सम्यक्त्व पाय, सिद्धाभ भजे भवभय नसाय ॥

ओं ह्री सिद्धामजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२५॥

अमलप्रभ निर्मल ज्ञान धरे, सेवा में इन्द्र अनेक खड़े ।
नित सत सुमंगल गान करें, निज आतमसार विलास करें ॥

ओं ह्री अमलप्रभजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२६॥

उद्धार जिन उद्धार करे, भव कारण भौंति विनाश करे ।
हम डूब रहे भवसागर में, उद्धार करो निज आत्म रमें ॥

ओं ह्री उद्धारजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२७॥

अग्निदेव जिनं हो अग्निमई, अठ कर्मन ईधन दाह दई ।
हम असात तृणं कर दग्ध प्रभो, निजसम करले जिनराज प्रभो ॥

ओं ह्री अग्निदेवजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२८॥

सयम जिन द्वैविध सयम को, प्राणी रक्षण इन्द्रिय दम को ।
दीजे निश्चय निज सयम को, हरिये हम सर्व असंयम को ॥

ओं ह्री संयमजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२९॥

शिव जिन शाश्वत सौख्यकरी, निज आत्मविभूति स्वहस्त करी ।
शिव वाञ्छक प्रभु कर जोड़ नमे, शिवलक्ष्मी दो नहि काहू नमे ॥

ओं ही शिवजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३०॥

पुष्पाजलि पुष्पनिते जजिये, सब कामव्यथा क्षण मे हरिये ।

निज शील स्वभाव हि रम रहिये, आत्म जनित सुख को लहिये ॥

ओं ही पुष्पाञ्जलिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३१॥

उत्साह जिन उत्साह करे, निज सयम चन्द्रप्रकाश करे ।

समभाव समुद्र बढावत है, हम पूजत तव गुण पावत है ॥

ओं ही उत्साहजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३२॥

चिन्तामणि सम चिन्ता हरिये, निज सम करिये भव तम हरिये ।

परमेश्वर जिन ऐश्वर्य धरे, जो पूजे ताके विघ्न हरे ॥

ओं ही परमेश्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३३॥

ज्ञानेश्वर ज्ञान समुद्र पाय, त्रैलोक्य बिन्दु सम जह दिखाय ।

निज आतमज्ञान प्रकाशकर, वन्दूँ पूजूँ मै बार-बार ॥

ओं ही ज्ञानेश्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३४॥

कर्मी ने आत्म मलीन किया, तप अग्नि जला निज शुद्ध किया ।

विमलेश्वर जिन मो विमल करो, मम ताप सकल ही शात करो ॥

ओं ही विमलेश्वरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३५॥

यश जिनका विश्वप्रकाश किया, शशि कर इव निर्मल व्याप्त किया ।

भट मोह-अरी को शात किया, यशधारी सार्थक नाम किया ॥

ओं ही यशोधरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३६॥

समता भयक्रोध विनाश किया, जग कामरिपू को शान्त किया ।

शुचिताधर शुचिकर नाथ जजूँ, श्री कृष्णमती जिन नित्य भजूँ ॥

ओं ही कृष्णमतये जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३७॥

शुचि ज्ञानमती जिन ज्ञान धरे, अज्ञान तिमिर सब नाश करे ।

जो पूजे ज्ञान बढावत हैं, आतम अनुभव सुख पावत है ॥

ओं ही ज्ञानमतये जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३८॥

शुद्धमती जिनधर्म धुरन्धर, जानत विश्व सकल एकीकर ।

शुद्ध बुद्धि होवे जो पूजे, ध्यान करे भवि निर्मल हूजे ॥

ओं ही शुद्धमतये जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥३९॥

संसार विभूति उदास भये, शिवलक्ष्मी सार सुहात भए ।
निज योग विशाल प्रकाश किया, श्रीभद्र जिन शिववास लिया ॥

ओं ह्रीं श्रीभद्रजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४०॥

सतवीर्य अनन्त प्रकाश किये, निज आतमतत्त्व विकास किये ।
जिन वीर्य अनन्त प्रभाव धरे, जो पूजे कर्म-कलंक हरे ॥

ओ ह्रीं अनन्तवीर्यजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४१॥

(दोहा)

भूत भरत चोबीस जिन, गुण सुमरुँहर बार ।
मगलकारी लोक मे, सुख-शांति दातार ॥

ओंही अस्मिन् प्रतिष्ठामहोत्सवे यागमण्डलेश्वर द्वितीयवलयोन्मुद्रितनिर्वाणाद्यनन्तवीर्यान्त
भूतजिनेभ्यः पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

तृतीय वलय में वर्तमानकाल के २४ तीर्थकरों की पूजा
(चाल)

मनु नाभि महीधर जाये, मरुदेवि उदर उतराए ।
युग आदि सुधर्म चलाया, वृषभेष जजो वृष पाया ॥

ओं ह्रीं ऋषभनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४२॥

जित शत्रु जने व्यवहारा, निश्चय आयो अवतारा ।
सब कर्मन जीत लिया है, अजितेश सुनाम भया है ॥

ओं ह्रीं अजितनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४३॥

दृढराज सुयश आकाशे, सूरजसम नाथ प्रकाशे ।
जग-भूषण शिव गति दानी, सभव जज केवलज्ञानी ॥

ओं ह्रीं सम्भवनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४४॥

कपिचिन्ह धरे अभिनदा, भवि जीव करे आनन्दा ।
जन्मन मरणा दुख टारे, पूजे ते मोक्ष सिधारे ॥

ओं ह्रीं अभिनन्दननाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४५॥

सुमतीश जजो सुखकारी, जो शरण गहें मतिधारी ।
मति निर्मल कर शिव पावें, जग-भ्रमण हि आप मिटावे ॥

ओं ह्रीं सुमतिनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४६॥

धरणेश सुनृप उपजाए, पद्मप्रभ नाम कहाये ।

है रक्त कमल पग चिन्हा, पूजत सन्ताप विच्छिन्ना ॥

ओं ही पद्मप्रभजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥४७॥

जिनचरणा रज सिर दीनी, लक्ष्मी अनुपम कर लीनी ।

है धन्य सुपारश नाथा, हम छोड़े नहि जग साथी ॥

ओं ही सुपार्श्वनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥४८॥

शशि तुम लखि उत्तम जग मे, आया वसने तव पग मे ।

हम शरण गही जिन चरणा, चन्द्रप्रभ भवतम हरणा ॥

ओं ही चन्द्रप्रभजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥४९॥

तुम पुष्पदन्त जितकामी, हें नाम सुविधि अभिरामी ।

वन्दूँ तेरे जुग चरणा, जासे हो शिवतिय वरणा ॥

ओ ही पुष्पदन्तजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५०॥

श्री शीतलनाथ अकामी, शिवलक्ष्मीवर अभिरामी ।

शीतल कर भव आतापा, पूजूँ हर मम सतापा ॥

ओं ही शीतलनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५१॥

श्रेयास जिना जुग चरणा, चित धारूँ मगल करणा ।

परिवर्तन पञ्च विनाशे, पूजनते ज्ञान प्रकाशे ॥

ओं ही श्रेयांसनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५२॥

इक्ष्वाकु सुवंश सुहाया, वसुपूज्य तनय प्रगटाया ।

इद्रादिक सेवा कीनी, हम पूजे जिनगुण चीन्ही ॥

ओं ही वासुपूज्यजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५३॥

कापिल्य पिता वृक्तवर्मा, माता श्यामा शुचिवर्मा ।

श्री विमल परम सुखकारी, पूजूँ द्वै मल हरतारी ॥

ओं ही विमलनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५४॥

साकेता नगरी भारी, सिंहसेन पिता अधिकारी ।

सुर-असुर सदा जिनचरणा, पूजे भवसागर तरणा ॥

ओ ही अनन्तनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५५॥

समवसृत द्वैविध धर्मा, उपदेशो श्री जिनधर्मा ।

हितकारी तत्त्व बताए जासे जन शिवमग पाये ॥

ओं ही धर्मनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५६॥

कुरुवशी श्री विश्वसेना, ऐरादेवी सुख देना ।

श्री हस्तिनागपुर आए, जिन शांति जजो सुख पाए ॥

ओं ह्रीं शांतिनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥५७॥

श्री कुन्थु दयामय ज्ञानी, रक्षक षट्कायी प्राणी ।

सुमरत आकुलता भाजे, पूजत ले दर्ब सु ताजे ॥

ओं ह्रीं कुन्थुनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥५८॥

शुभदृष्टी राय सुदर्शन, अर जाए त्रय भू पर्शन ।

माता सेना उर रत्न, धर चिन्ह मच्छ जज यत्न ॥

ओं ह्रीं अरनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥५९॥

नृप कुम्भ धरणि से जाए, जिन मल्लिनाथ सुत पाये ।

जिन यज्ञ विघ्न हरतारे, पूजें शुभ अर्घ्य उतारे ॥

ओं ह्रीं मल्लिनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६०॥

हरिवश सु सुन्दर राजा, पद्मा माता जिनराजा ।

मुनिसुव्रत शिवपथ कारण, पूजें सब विघ्न निवारण ॥

ओं ह्रीं मुनिसुव्रतजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६१॥

मिथिलापुर विजय नरेन्द्रा, कल्याण पौव कर इन्द्रा ।

नमि धर्माभूत वर्षायो, भव्यन खेती प्रफुलायो ॥

ओं ह्रीं नमिनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६२॥

द्वारावति विजयसमुद्रा, जन्मे यदुवंश जिनेन्द्रा ।

हरिबल पूजित जिनचरणा, शंखांक अंबुधर वरणा ॥

ओं ह्रीं नेमिनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६३॥

काशी अश्वसेन नरेशा, उपजायो पार्श्व जिनेशा ।

पद्मा अहिपति पग वन्दे, रिपु कमठ मान नि.कंदे ॥

ओं ह्रीं पार्श्वनाथजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६४॥

सिद्धार्थराय त्रय ज्ञानी, सुत वर्द्धमान गुणखानी ।

समवसृत श्रेणिक पूजे, तुम सम है देव न दूजे ॥

ओं ह्रीं वर्द्धमानजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६५॥

दोहा - वर्तमान चौबीस जिन, उद्धारक भवि जीव ।

बिम्ब प्रतिष्ठा साधने, यजें परम सुख नीव ॥

ओं ह्रीं अस्मिन् यागमण्डले मखमुख्यार्चिततृतीयवलयोन्मुद्रित वर्तमानचतुर्विंशतिजिनेभ्यः पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

चतुर्थ वलय में भविष्यकाल के २४ तीर्थकरों की पूजा (चौपाई)

महापद्म जिन भावीनाथ श्रेणिक जीव जगत विख्यात ।
लक्ष्मी चञ्चल लिपटी आन, तव वरणा पूजें भगवान् ॥

ओं ह्री महापद्मजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६६॥

देव चतुर्विध पूजे पाय, नाय नाय सुरप्रभ जिनराय ।
सब सुमरण करके हरषाय, पूजे हर्ष न अग समाय ॥

ओं ह्री सुरप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६७॥

सुप्रभ जिनके वदूँ पाय, सेवकजन सुखसार लहाय ।
करुणाधारी धन दातार, जो अविनाशी जिय सुखकार ॥

ओं ह्री सुप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६८॥

मोक्ष राज्य देवे नहि कोय, स्वय आत्मबल लेवे सोय ।
देव स्वयप्रभ चरण नमाय, पूजें मन-वच ध्यान लगाय ॥

ओं ह्री स्वयंप्रभदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६९॥

मन-वच-काय गुप्ति धरतार, तीव्र शस्त्र अघ मारणहार ।
सर्वायुध जिन साम्य प्रचार, पूजत जग मगल करतार ॥

ओं ह्री सर्वायुधदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥७०॥

कर्म शत्रु जीतन बलवान्, श्री जयदेव परम सुखखान ।
पूजत मिथ्यातम विघटाय, तत्त्व कुत्तत्त्व प्रकट दर्शाय ॥

ओं ह्री जयदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥७१॥

आत्मप्रभाव उदय जिन भयो, उदयप्रभ जिन ताते थयो ।
पूजत उदय पुण्य का होय, पापबन्ध सब डाले खोय ॥

ओं ह्री उदयप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥७२॥

प्रभा मनीशा बुद्धिप्रकाश, प्रभादेव जिन छूटी आश ।
पूजत प्रभा ज्ञान उपजाय, सशयतिमिर सबै हट जाय ॥

ओं ह्री प्रभादेवजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥७३॥

भव्यभक्ति जिनराज कराय, सफल काल तिनका हो जाय ।
देव उदक पूज जो करे, मनुषदेह अपनी वर करे ॥

ओं ह्री उदकदेवजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥७४॥

सुरविद्याधर प्रश्न कराय, उत्तर देत भरम टल जाय ।
प्रश्नकीर्ति जिन यश धार, पूजत कर्मकलंक निवार ॥

ओं ह्रीं प्रश्नकीर्तिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥७५॥

पापदलन तें जय को पाय, निर्मल यश जग में प्रकटाय ।
गणधरादि नित वन्दन करे, पूजत पापकर्म सब हरें ॥

ओं ह्रीं जयकीर्तिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥७६॥

बुद्धिपूर्ण जिन वन्दूँ पाय, केवलज्ञान ऋद्धि प्रकटाय ।
चरण पवित्र करण सुखदाय, पूजत भवबाधा नश जाय ॥

ओं ह्रीं पूर्णबुद्धिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥७७॥

हैं कषाय जग में दुखकार, आत्मघर्म के नाशनहार ।
निःकषाय होंगे जिनराज, तातें पूजूँ मंगल काज ॥

ओं ह्रीं निःकषायजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥७८॥

कर्मरूप मल नाशनहार, आत्म शुद्ध कर्ता सुखकार ।
विमलप्रभ जिन पूजूँ आय, जासे मन विशुद्ध हो जाय ॥

ओं ह्रीं विमलप्रमदेवाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥७९॥

दीप्तवन्त गुण धारण हार, बहुलप्रभ पूजों हितकार ।
आत्मगुण जासैं प्रगटाय, मोहतिमिर क्षण में विनशाय ॥

ओं ह्रीं बहुलप्रमदेवाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८०॥

जलनभ रत्न विमल कहवाय, सो अभूत व्यवहार वसाय ।
भावकर्म अटकर्म महान, हत निर्मल जिन पूजूँ जान ॥

ओं ह्रीं निर्मलजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८१॥

मन-वच-काय गुप्ति धरतार, चित्रगुप्ति जिन हैं अविकार ।
पूजूँ पग तिन भाव लगाय, जासे गुप्तित्रय प्रगटाय ॥

ओं ह्रीं चित्रगुप्तिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८२॥

चिरभव भ्रमण करत दुःख सहा, मरण समाधि न कबहूँ लहा ।
गुप्ति समाधि शरण को पाय, जजत समाधि प्रगट हो जाय ॥

ओं ह्रीं गुप्ति समाधि जिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८३॥

अन्य सहाय दिना जिनराज, स्वयं लेय परमात्म राज ।
नाथ स्वयंभू मग शिवदाय, पूजत बाधा सब टल जाय ॥

ओं ह्रीं स्वयंभूजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८४॥

मानदर्प के नाशनहार, जिन कदर्प आत्मबल धार ।
दर्प अयोग बुद्धि के काज, पूजै अर्घ लिए जिनराज ॥
ओं ही कन्दर्पजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८५॥

गुण अनंत ते नाम अनत, श्री जयनाथ धरम भगवत ।
पूजै अष्टद्रव्य कर लाय, विघ्न सकल जासे टल जाय ॥
ओ ही जयनाथजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८६॥

पूज्य आत्म गुणधर मलहार, विमलनाथ जग परम उदार ।
शील परम पावन के काज, पूजै अर्घ लेय जिनराज ॥
ओं हीं विमलजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८७॥

दिव्यवाद अर्हन्त अपार, दिव्यध्वनि प्रगटावन हार ।
आत्मतत्त्व ज्ञाता सिरताज, पूजै अर्घ लेय जिनराज ॥
ओं हीं दिव्यवादजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८८॥

शक्ति अपार आत्म धरतार, प्रगट करे जिनयोग सभार ।
वीर्य अनन्तनाथ को ध्याय, नतमस्तक पूजै हरषाय ॥
ओ ही अनन्तवीर्यजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥८९॥

दोहा - तीर्थराज चौबीस जिन, भावी भव हरतार ।
बिम्ब प्रतिष्ठा कार्य मे, पूजै विघ्न निवार ॥

ओंहीप्रतिष्ठोद्यापनेमुख्यपूजार्हचतुर्थत्वलयोन्मुद्रितानागत-चतुर्विंशतिमहापद्माद्यनंतवीर्यात्
जिनेभ्यः पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

पंचम वलय मे विदेहक्षेत्र के २० तीर्थकरों की पूजा

मोक्षनगरी पति हस राजा सुतं, पुण्डरीका पुरी राजते दुखहतम् ।
सीमन्धर जिना पूजते दुखहना, फेर होवे न या जगत मे आवना ॥
ओ ही सीमन्धरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥९०॥

धर्मद्वय वस्तुद्वय नय-प्रमाणद्वयं, नाथ जुगमन्धर कथित व्रतद्वय ।
भूपश्री रुह सुतं ज्ञानकेवलगत, पूजिये भक्ति से कर्मशत्रु हत ॥
ओं ही जुगमन्धरजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥९१॥

भूप सुग्रीव विजया से जाए प्रभु, हिरन चिन्ह धरे जानते तीन भू ।
स्वच्छसीमापुरी राजते बाहुजिन, पूजिये साधु को राग-रुष दोष बिन ॥
ओ ही बाहुजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥९२॥

- वश जिन निर्मल सूर्य सम राजते, कीर्तिमय बध बिन क्षेत्र शुभ शोभते ।
मात सुन्दर सुनन्दा सु भवभयहत, पूजते बाहुशुभ भवभय निर्गत ॥
- ओं ह्री सुबाहुजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥९३॥
- जन्म अलकापुरी देवसेनात्मज, पुण्यमय जन्मए नाथ सञ्जातकं ।
पूजिये भाव से द्रव्य आठो लिये, ओर रस त्याग कर आत्मरस को पिये ॥ओं
- ओं ह्री सञ्जातकजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥९४॥
- जन्म पुर मगला चन्द्र चिन्ह धरे, आप से आप से भव उदधि उद्धरें ।
प्रभस्वय पूजते विघ्न सारे टरे, होय मगल महा कर्मशत्रू डरे ॥
- ओं ह्री स्वयंप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥९५॥
- वीरसेना सुमाता अयोध्यापुरी, देवदेवी परमभक्ति उर में धरी ।
देव ऋषभानन आनन सार है, देखते पूजते भव्य उद्धार है ॥
- ओं ह्री ऋषभाननदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥९६॥
- वीर्य का पार ना ज्ञान का पार ना, सुख का पार ना ध्यान का पार ना ।
आप मे राजते शान्तगय छाजते, अन्त बिन वीर्य को पूज अघ भाजते ॥
- ओं ह्री अनन्तवीर्यजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥९७॥
- अकवृष धारते धर्मवृष्टी करें, भाव सन्तापहर ज्ञानसृष्टी करे ।
नाथ सूरि प्रभ पूजते दुखहनं मुक्तिनारी वर राजते निजघन ॥
- ओ ह्री सूरिप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥९८॥
- नगर सीमापुरी मात विजया जने, विजयु राजा पिता ज्ञानधारी तने ।
जुगमचरणं भजे ध्यान इकतान हो, जिनविशालप्रभ पूज अघहान हो ॥
- ओं ह्री विशालप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥९९॥
- वज्रधर जिनवरं पद्मरथ के सुत, शंखचिन्हं धरे मानरुष भय गतं ।
मात सरसुति बड़ी इन्द्र सम्मानिता, पूजते जास को पाप सब भाजता ॥
- ओं ह्री वज्रधरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१००॥
- चन्द्र आनन जिन चन्द्र को जयकरं, कर्म विध्वंसकं साधुजन शमकरं ।
मात पद्मावती नग विनीता बनी, पूजते मोह की राजधानी छिनी ॥
- ओं ह्री चन्द्राननजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०१॥
- श्रीमती रेणुका मात है जास की, पद्मचिन्ह धरे मोह को मात दी ।
चन्द्रबाहुजिन ज्ञानलक्ष्मी धरं, पूजते जास को मुक्तिलक्ष्मी वरं ॥
- ओं ह्री चन्द्रबाहुजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०२॥

- नाथ निज आत्मबल मुक्तिपथ पग दिया, चन्द्रमा चिन्हधर मोहतम हर लिया ।
बलमहाभूपती है पिता जास के, पूजते जिन भुजगम न भव मे छके ॥
- ओं ह्री भुजंगमजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०३॥**
- मात ज्वाला सती सेन गल भूपती, पुत्र ईश्वर जने पूजते सुरपती ।
शुभ अयोध्यानगर धर्म विस्तार कर, पूजते हो प्रगट बोधिमय भास्कर ॥
- ओं ह्री ईश्वरजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०४॥**
- नाथ नेमिप्रभ नेमि है धर्मरथ वृषभचिन्ह धरे चालते मुक्तिपथ ।
अष्ट द्रव्यो लिये पूजते अघ हने, ज्ञान वैराग्य से बोधि पावे घने ॥
- ओं ह्री नेमिप्रभजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०५॥**
- भानुमति माँ सुत कर्मसेना हत, वीरसेन जिन इन्द्रसे वन्दित ।
नगर विजयावर भूमिपालक नृप, है पिता ज्ञानसूरा करूँ मै जप ॥
- ओं ह्री वीरसेनजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०६॥**
- नगर सीमा तने देव राजा पती, अर उमामात के पुत्र सशय हती ।
जिन महाभद्र को पूजिये भद्रकर, सर्व मगल करे मोह सन्ताप हर ॥
- ओं ह्री महाभद्रजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०७॥**
- है अयोध्यानगर भूप भूतस्रव, मात गगाजने द्योतते त्रिभुवन ।
लाछन स्वस्तिक जिनयशोदेव को, पूजिये वन्दिये मुक्ति गुरुदेव को ॥
- ओं ह्री देवयशोजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०८॥**
- पद्मचिन्ह धरे मोह को वश करे, नृप सुबोध सुत क्रोध को क्षय करे ।
ध्यान मण्डित महावीर्य अजित धरे, पूजते जास को कर्मबन्धन टरे ॥
- ओं ह्री अजितवीर्यजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०९॥**
- दोहा - राजत बीस विदेह जिन, कबहि राठ शत होय ।
पूजत वन्दत जास को, विघ्न सकल क्षय होय ॥
- ओ ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठाध्वरोद्यापने मुख्यपूजार्हपञ्चमवलयोन्मुद्रितविदेहक्षेत्रे**
- सु षष्टि सहितैकशतजिनेशसंयुक्तनित्यविहरमाणविशतिजिनेभ्यः पूर्णार्घ्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

षष्ठ वलय में आचार्य परमेष्ठी के ३६ गुणों की पूजा (भुजंगप्रयात)

हटाये अनन्तानुबंधी कषाये, करण से है मिथ्यात तीनो खपाये ।

अतीचार पच्चीस को है बचाये, सु आचार दर्शन परम गुरुधराये ॥

ओं ह्री दर्शनाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११०॥

न सशय विपर्यय न है मोह कोई, परग ज्ञान निर्मल धरें तत्त्व जोई ।

स्व-पर ज्ञान से भेदविज्ञान धारे, सु आचार ज्ञानं स्व-अनुभव सम्हारे ॥

ओं ह्री ज्ञानाचार संयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१११॥

सुचारित्र व्यवहार निश्चय सम्हारे, अहिसादि पौंचो महाव्रत सुधारें ।

अचल आत्म में शुद्धता सार पाए, जजुँ पद गुरुके दरब अष्ट लाए ॥

ओं ह्री चरित्राचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११२॥

तपें द्वादशो तप अचल ज्ञानधारी, सहे गुरुपरिषह सुसमता प्रचारी ।

परम आत्मरस पीवते आप ही ते, भजुँ मै गुरुछूट जाऊँ भवो ते ॥

ओं ह्री तपाचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११३॥

परम ध्यान मे लीनता आप कीनी, न हटते कभी घोर उपसर्ग दीनी ।

सु आत्मबली वीर्य की ढाल धारी, परम गुरुजजुँ अष्ट द्रव्यं सम्हारी ॥

ओं ह्री वीर्याचारसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११४॥

तपः अनशन जो तपे धीर-वीरा, तजें चारविध भोजन शक्ति धीरा ।

कभी मास पक्ष कभी चार त्रय दो, सु उपवास करते जजुँ आप गुण दो ॥

ओं ह्री अनशनतपोयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११५॥

सु ऊनोदरी तप महारवच्छकारी, करें नीद आलस्य का नहि प्रचारी ।

सदा ध्यान की सावधानी सम्हारें, जजुँ मै गुरुको करम घन विदारे ॥

ओं ह्री अवमोदर्यतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११६॥

कभी भोजना हेतु पुर मे पधारे, तभी दृढप्रतिज्ञा गुरुआप धारे ।

यही वृत्ति-परिसंख्य तप आशहारी, भजुँ जिन गुरुजो कि धारें विचारी ॥

ओं ह्री वृत्तिपरिसंख्यातपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११७॥

कभी छ रसो को कभी चार त्रय दो, तजे राग वर्जन गुरुलोभजित हो ।

धरें लक्ष्य आत्म सुधा सार पीते, जजुँ मै गुरुको सभी दोष बीते ॥

ओं ह्री रसपरित्यागतपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११८॥

- कभी पर्वतो पर गुहा वन मशाने, धरे ध्यान एकांत मे एकताने ।
 धरे आसना दृढ अचल शातिधारी, जजुँ मै गुरुको भरम तापहारी ॥
ओं ह्री विवक्तशय्यासनतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥११९॥
- ऋतु उष्ण पर्वत शरदरितु नदी तट, अधोवृक्ष बरसात मे या कि चउ पथ ।
 करे योग अनुपम सहे कष्ट भारी, जजुँ मै गुरुको सुशम दम अपारी ॥
ओं ह्री कायक्लेशतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२०॥
- करे दोष आलोचना गुरुसकाशे, भरे दण्ड रुचिसो गुरुजो प्रकाशे ।
 सुतप अन्तरग प्रथम शुद्ध कारी, जजुँ मै गुरु को स्व आतम विहारी ॥
ओं ह्री प्रायश्चित्ततपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२१॥
- दरश ज्ञान चारित्र आदि गुणो मे, परम पद मयी पौंच परमेष्ठियो मे ।
 विनय तप धरे शल्यत्रय को निवारे, हमे रक्ष श्री गुरुजूँ अर्घ धारें ॥
ओं ह्री विनयतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२२॥
- यती सघ दस विघ यदि रोग धारे, तथा खेद पीडित मुनी हो विचारे ।
 करे सेव उनकी दया वित्त ठाने, जजुँ मै गुरु को भरम ताप हाने ॥
ओं ह्री वैय्यावृत्तितपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२३॥
- करे बोध निजतत्त्व परतत्त्व रुचि से, प्रकाशे परम तत्त्व जग को स्वमति से ।
 यही तप अमोलक करम को खिपावे, जजुँ मै गुरु को कुबोध नशावे ॥
ओं ह्री स्वाध्यायतपोभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२४॥
- अपावन विनाशीक निज देह लखके, तजें सब ममत्व सुधा आत्म चखके ।
 करे तप सु व्युत्सर्ग सन्तापहारी, जजुँ मै गुरु को परम पद विहारी ॥
ओं ह्री व्युत्सर्गपोऽभियुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२५॥
- जु है आर्तरौद्र कुध्यान कुज्ञान, उन्हे नहि धरे ध्यान धर्म प्रमाण ।
 करे शुद्ध उपयोग कर्मप्रहारी, जजुँ मै गुरुको स्वअनुभव सम्हारी ॥
ओं ह्री ध्यानावलम्बननिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२६॥
- करे कोइ बाधा वचन दुष्ट बोले, क्षमा ढाल से क्रोध मन मे न कुछ ले ।
 धरे शक्ति अनुपम तदपि साम्यधारी, जजुँ मै गुरु को स्वधर्मप्रचारी ॥
ओं ह्री उत्तमक्षमापरमधर्मधारकाचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२७॥
- धरे मद न तप ज्ञान आदी स्व मन मे, नरम चित्त से ध्यान धारे सु वन मे ।
 परम मार्दव धर्म सम्यक् प्रचारी, जजुँ मै गुरुको सुधा ज्ञान धारी ॥
ओं ह्री उत्तममार्दवधर्मधुरन्धराचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२८॥

- परम निष्कपट चित्त भूमी सम्हारे, लता धर्म वर्धन करे शान्ति धारें ।
करम अष्ट हन मोक्ष फल को विचारे, जज्जूं मै गुरु को श्रुत ज्ञान धारे ॥
- ओ ह्री उत्तमार्जवधर्मपरिपुष्टाचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१२९॥
- न रुष लोभ भय हास्य नहि चित्त धारे, वचन सत्य आगम प्रमाणी उचारे ।
परम हितमित मिष्ट वाणी प्रचारी, जज्जूं मै गुरुको सु समता विहारी ॥
- ओं ह्री उत्तमसत्यधर्मप्रतिष्ठिताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३०॥
- न है लोभ राक्षस न तृष्णा पिशाची, परम शौच धारे सदा जो अजाची ।
करे आत्म शोभा स्व सतोष धारी, जज्जूं मै गुरु को भवातापहारी ॥
- ओ ह्री उत्तमशौचधर्मधारकाचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३१॥
- न सयम विराधे करे प्राणिरक्षा, दमे इन्द्रियो को मिटावे कु-इच्छ ।
निजानद राचे खरे सयमी हो, जज्जूं मै गुरु को यमी अरुदमी हो ॥
- ओं ह्री उत्तमद्विविधसंयमपात्राचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३२॥
- तपो भूषण धारते यदि विरागी, परमधाम सेवी गुणग्राम भागी ।
करे सेव तिनकी सु इन्द्रादि देवा, जज्जूं मै गुरु को लहूँ ज्ञान मेवा ॥
- ओ ह्री उत्तमतपोऽतिशयधर्मसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३३॥
- अभयदान देते परम ज्ञान दाता, सुधर्मोषधी बॉटते आत्म त्राता ।
परम त्याग धर्मी परम तत्त्व गर्भी, जज्जूं मै गुरुको शमूँ कर्म गर्मी ॥
- ओं ह्री उत्तमत्यागधर्मप्रवीणाचार्य परमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३४॥
- न परवरस्तु मेरी न सबध मेरा, अलख गुण निरञ्जन शमी आत्म मेरा ।
यही भाव अनुपम प्रकाशे सुध्यान, जज्जूं मै गुरुको लहूँ शुद्ध ज्ञान ॥
- ओ ह्री उत्तमाकिचनधर्मसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३५॥
- परम शील धारी निजाराम चारी, न रभा न नारी करें मन विकारी ।
परम ब्रह्मचर्या चलत एक तान, जज्जूं मै गुरु को सभी पापहान ॥
- ओं ह्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्ममहनीयाचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३६॥
- मन गुप्ति धारी विकल्प प्रहारी, परम शुद्ध उपयोग मे नित विहारी ।
निजानन्द सेवी परम धाम देवी, जज्जूं मै गुरुको धरम ध्यान टेवी ॥
- ओं ह्री मनोगुप्तिसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३७॥
- वचन गुप्तिधारी महासौख्यकारी, करे धर्म उपदेश सशय निवारी ।
सुधा सार पीते धरम ध्यान धारी, जज्जूं मै गुरुको सदा निर्विकारी ॥
- ओ ह्री वचनगुप्तिधारिकाचार्यपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३८॥

- अचल ध्यान धारी खड़ी मूर्ति प्यारी, खुजावे मृगी अग अपना सम्हारी ।
 धरी काय गुप्ति निजानन्द धारी, जजुँ मै गुरु को सु समता प्रचारी ॥
ओं ह्री कायगुप्तिसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१३९॥
 परम साम्यभाव धरे जो त्रिकाल, भरम राग द्वेष मद मोह टाल ।
 पिये ज्ञान रस शांति समता प्रचारी, जजुँ मै गुरुको निजानन्द धारी ॥
ओं ह्री सामायिकावश्यककर्मधारि आचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१४०॥
 करे वन्दना सिद्ध अरहन्त देवा, मगन तिन गुणो मे रहे सार लेवा ।
 उन्ही-सा निजातम जु अपने विचारे, जजुँ मे गुरुको धरम ध्यान धारे ॥
ओं ह्री वन्दनावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१४१॥
 करे सस्तव सिद्ध अरहन्त देवा, करे गान गुण का लहें ज्ञान मेवा ।
 करे निर्मल भाव को पाप, नाशे, जजुँ मै गुरु को सु समता प्रकाशे ॥
ओं ह्री स्तवनावश्यकसंयुक्ताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१४२॥
 लगे दोष तन मन वचन के फिरन से, कहे गुरुसमीपे परम शुद्ध मन से ।
 करे प्रतिक्रमण अर लहे दण्ड सुख से, जजुँ मै गुरुको छुट्टें सर्व दुख से ॥
ओं ह्री प्रतिक्रमणावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१४३॥
 करे भावना आत्म की ज्ञान ध्यावे, पढ़े शास्त्र रुचि से सुबोध बढावे ।
 यही ज्ञान सेवा करम मल छुड़ावे, जजुँ मै गुरुको अबोध हटावे ॥
ओं ह्री स्वाध्यायावश्यककर्मनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१४४॥
 तजे सब ममत्व शरीरादि सेती, खड़े आत्म ध्यावे छुटे कर्म रेंती ।
 लहे ज्ञान भेद सु व्युत्सर्ग धारे, जजुँ मै गुरुको स्व-अनुभव विचारे ॥
ओं ह्री व्युत्सर्गावश्यकनिरताचार्यपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१४५॥
दोहा- गुण अनन्त धारी गुरु, शिवमग चालनहार ।
 सघ सकल रक्षा करे, यज्ञ विघ्न हरतार ॥
ओं ह्री अस्मिन् प्रतिष्ठोद्यापने पूजार्हमुख्यषष्ठवलयोन्मुद्रिताचार्यपरमेष्ठिम्यः पूर्णार्घ्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

सप्तम वलय में उपाध्याय परमेष्ठी के २५ गुणों की पूजा (द्रुतविलम्बित)

प्रथम अग कथित आचार को, सहस्र अष्टादश पद धारतो ।

पढ़त साधु सु अन्य पढावते, जजुँ पाठक को अति चाव से ॥

ओं ह्री अष्टादशसहस्रपदाचारांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥१४६॥

द्वितीय सूत्रकृताग विचारते, स्व पर तत्त्व सु निश्चय लावते ।

पद छत्तीस हजार विशाल है, जजुँ पाठक शिष्य दयाल है ॥

ओं ह्री षट्त्रिंशत्सहस्रपदसंयुक्तसूत्रकृतांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥१४७॥

तृतीय अग स्थान छ द्रव्य को, पद हजार बियालिस धारतो ।

एक द्वै त्रय भेद बखानता, जजुँ पाठक तत्त्व पिछनता ॥

ओ ह्री द्विचत्वारिंशत्पदसंयुक्तरथानांगज्ञाता उपाध्याय परमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥१४८॥

द्रव्य क्षेत्र समय अर भाव से, साम्य झलकावे विस्तार से ।

लख सहस्र चौसठ पद धारता, जजुँ पाठक तत्त्व विचारता ॥

ओं ह्री एकलक्षषष्टिपदन्याससहस्रसमवायांगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥१४९॥

प्रश्न साठ हजार बखानता, सहस्र अठविंशति पद धारता ।

द्विलख और विशद परकाशता, जजुँ पाठक ध्यान सम्हारता ॥

ओ ह्री द्विलक्षअष्टविंशतिसहस्रपदरंजितव्याख्याप्रज्ञप्त्यंगज्ञाता उपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥१५०॥

धर्मचर्चा प्रश्नोत्तर करे, पाँच लाख सहस्र छप्पन धरे

पद सु मध्यम ज्ञान बढावता, जजुँ पाठक आत्म ध्यावता ॥

ओं ह्री पंचलक्षषट्पंचाशत्सहस्रपदसंगतज्ञातृधर्मकथांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥१५१॥

व्रत सुशील क्रिया गुण श्रावका, पद सुलक्षण ग्यारह धारका ।

सहस्र सप्तति और मिलाइये, जजुँ पाठक ज्ञान बढाइये ॥

ओं ह्री एकादशलक्षसप्ततिसहस्रपदशोभितोपासकाध्ययनांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥१५२॥

दश यती उपसर्ग सहन करे, समय तीर्थकर शिवतिय वरे ।

सहस्र अट्ठाइस लख तेइसा, पद जजुँ पाठक जिन सारिसा ॥

ओं ह्री त्रिंशतिलक्षअष्टविंशतिसहस्रपदशोभितांतःकृतदशांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं ॥१५३॥

दश यती उपसर्ग सहन करे, समय तीर्थ अनुत्तर अवतरे ।
सहस्र चव चालिस लख बानवे, पद धरे पाठक बहु ज्ञान दे ॥
ओं ही द्विनवतिलक्षचतुर्वत्वारिंशत्पदशोभितानुत्तरोपपादिकांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ॥१५४॥

प्रश्नव्याकरणाग महान ये, सहस्र सोलह लाख तिरानवे ।
पद धरे सुख दुख विचारता, जजुँ पाठक धर्म प्रचारता ॥
ओं ही त्रिनवतिलक्षषोडशसहस्रपदशोभितप्रश्नव्याकरणांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ॥१५५॥

सहस्र चुरासि कोटी एक पद, धरत सूत्रविपाक सुज्ञान पद ।
करम-बन्ध उदय सत्त्वादि कथ, जजुँ पाठक जीते कामरथ ॥
ओं ही एककोटि चतुरशीतिसहस्रपदशोभितविपाकसूत्रांगधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं ॥१५६॥

कथित षट् द्रव्यो की सारता, एककोटि पद को धारता ।
पूर्व है उत्पाद सु जानकर, जजुँ पाठक निज रुचि ठान कर ॥
ओं ही उत्पादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१५७॥

सुनय दुर्नय आदि प्रमाणता, नवति छह कोटी पद धारता ।
पूर्व अग्रायण विस्तार है, जजुँ पाठक भवदधि तार है ॥
ओं ही अग्रायणीयपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१५८॥

द्रव्य गुण पर्यय बल कथत है, लाख सत्तर पद यह धरत है ।
पूर्व है अनुवाद सु वीर्य का, जजुँ पाठक यति पद धारका ॥
ओं ही वीर्यानुवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१५९॥

अस्ति नास्ति प्रवाद सुअंग है, साठ लख मध्यम पद सग है ।
सप्तभग कथत जिनमार्ग कर, जजुँ पाठक मोह निवारकर ॥
ओं ही अस्तिनास्तिप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६०॥

ज्ञान आठ सुभेद प्रकाशता, एक कम कोटी पद धारता ।
सतत ज्ञानप्रवाद विचारता, जजुँ पाठक सशय टारता ॥
ओं ही आत्मज्ञानप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६१॥

कथित सत्य असत्य सुभाव को, कोटि अरुपद धारी पूर्व को ।
पढत सत्यप्रवाद जिनागगा, जजुँ पाठक ज्ञाता आगमा ॥
ओं ही सत्यप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६२॥

- सकल जीव स्वरूप विचारता, कोटि पद छब्बीस सुधारता ।
पढत आत्मप्रवाद महान को, जजुँ पाठक दुर्मति हान को ॥
- ओं ही आत्मप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६३॥
- कर्मबध विधान बखानता, कोटि पद अस्सीलख धारता ।
पठत कर्म प्रवाद सुध्यान से, जजुँ पाठक शुद्ध विधान से ॥
- ओं ही कर्मप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६४॥
- नय प्रमाण सुन्यास विचारता, लाख पद चौरासी धारता ।
पूर्व प्रत्याहार जु नाम है, जजुँ पाठक रमताराम है ॥
- ओं हीं प्रत्याहारपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६५॥
- मन्त्र विद्याविधि को साधता, लक्ष दशकोटी पद धारता ।
पूर्व है अनुवाद सुज्ञान का, जजुँ पाठक सन्मति दायका ॥
- ओं ही विद्यानुवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६६॥
- पुरुष त्रेशठ आदि महान का, कथत वृत्त सकल कल्याण का ।
कोटि छब्बिस पद को धारता, जजुँ पाठक अघ सब टारता ॥
- ओं ही कल्याणवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६७॥
- कथत भेद सुवैद्यक शास्त्र का, कोटि तेरह पदका धारका ।
पूर्व नाम सुप्राण प्रवाद है, जजुँ पाठक सुर नत पाद है ।
- ओं ही प्राणप्रवादपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६८॥
- कथत छद्कला सगीत को, कोटि नव पद मध्यम रीत को ।
पूर्व नाम सु क्रिया विशाल है, जजुँ पाठक दीनदयाल है ।
- ओं ही क्रियाविशालपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१६९॥
- तीन लोक विधानविचारता, कोटि अर्द्ध सु द्वादश धारता ।
पूर्वविन्दु त्रिलोक विशाल है, जजुँ पाठक करत निहाल है ।
- ओं ही त्रैलोक्यविन्दुपूर्वधारकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७०॥
- दोहा - अग इकादश पूर्वदश, चार सुज्ञायक साध ।
जजुँ गुरुके चरण दो, यजन सु अव्यावाध ॥
- ओं ही अस्मिन् प्रतिष्ठामहोत्सवविधाने मुख्यपूजार्हसप्तमवलयोन्मुद्रित
द्वादशांगश्रुतदेवताभ्यस्तदाराधकोपाध्यायपरमेष्ठिभ्यःपूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अष्टम वलय में साधुपरमेष्ठी के २८ मूल गुणों की पूजा (नाराच)

तजे सु राग-द्वेष भाव शुद्धभाव धारते, परम स्वरूप आपका समाधि से विचारते ।
करे दया सुप्राणि जतु चर अचर बचावते, जजो यति महान प्राणिरक्षत्रत निभावते ॥
ओं ह्री अहिंसामहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७१॥

असत्य सर्व त्याग वाक् शुद्धता प्रचारते, जिनागमानुकूल तत्त्वसत्य सत्य धारते ।
अनेक नय प्रकार से वचन विरोध टारते, जजो यति गहान सत्यव्रत सदा सम्हारते ॥
ओं ह्री अनृतपरित्यागमहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७२॥

अचौर्यव्रत महान धार शौचभाव भावते, जजो यति सदा सुज्ञान ध्यान मन रमावते ।
सुतृप्त है महान आत्मजन्य सौख्य पावते, जजो यती सदा सुज्ञान ध्यान मन रमावते ॥
ओं ह्री अचौर्यमहाव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७३॥

सु ब्रह्मचर्य व्रत महान धार शील पालते, न काष्ठमय कलत्र देव भामिनी विचारते ।
मनुष्यणी सुपशुतियां कभी न मन रमावते, जजो यती न स्वप्नमाहि शील को गमावते ॥
ओं ह्री ब्रह्मचर्यव्रतधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७४॥

न राग द्वेष आदि अतरग संग धारते, न क्षेत्र आदि ब्रह्म सग रग भी सम्हारते ।
धरे सु साम्यभाव आप पर पृथक् विचारते, जजो यती ममत्त्व हीन साम्यता प्रचारते ॥
ओं ह्री परिग्रहत्यागधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७५॥

सु चार हाथ भूमि अग्र देख पॉव धारते, न जीवघात होय यत्न सार मन विचारते ।
सु चारमास वृष्टि काल एक थल विराजते, जजुँ यती सु सन्मती जो ईर्या सम्हारते ॥
ओं ह्री ईर्यासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७६॥

न क्रोध लोभ हारस्य भय कराय साम्य धारते, वचन सुमिष्ट इष्ट मित प्रमाण ही निवारते ।
यथार्थ शास्त्र ज्ञानका सुधा सु आत्म पीवते, जजुँ यतीश द्रव्य आठ तत्त्व माहि जीवते ॥
ओं ह्री भाषासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७७॥

महान दोष छ्यालिसो सु टार ग्रास लेत है, पड़े जु अन्तराय तुर्त ग्रास त्याग देत है ।
मिले जु भोग पुण्य से उसी मे सब धारते, जजुँ यतीश काम जीत रागद्वेष टारते ॥
ओं ह्री एषणासमितिधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७८॥

धरें उठाय वस्तु देख शोध खूब लेत है, न जन्तु कोय कष्ट पाय, यह विचार लेत है ।
अत सु मोर पिच्छिका सुमार्जिका सुधारते, जजुँ यती दयानिधान, जीव दुख टारते ॥
ओं ह्री आदाननिक्षेपणसमितिधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१७९॥

धरे जु अग नेत्र नासिकादि मल सु देख के, न होय जंतु घात थान शुद्धता सुपेख के ।
परम दया विचार सार व्युत्सर्ग साधते, जजुँ यतीश चाह दाह शांति पय बुझावते ॥
ओं ह्री व्युत्सर्गसमितिपालकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८०॥

न उष्ण शीत मृदु कठिन गुरु लघु सपर्शते, न चीकनेऽरु रुक्ष वस्तु से मिलाप पावते ।
न राग द्वेष को करें समान भाव धारते, जजुँ यती दमी स्पर्श ज्ञान भाव सारते ॥
ओं ह्री स्पर्शनेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८१॥

न मिष्ट तिक्त लौण कटुक, आत्म स्वाद चाहते, करत न रागद्वेष शौच भाव को निवारते ।
सु जान के सुभाव पुद्गलादि साम्य धारते, जजुँ यती सदा जु चाह दाह को निवारते ॥
ओं ह्री रसनेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८२॥

जगत पदार्थ पुद्गलादि आत्म गुण न त्यागते, सुगन्ध गन्ध दु खदाय साधु जहां पावते ।
न रागद्वेष धार घ्राण का विषय निवारते, जजुँ यतीश एक रूप शातता प्रचारते ॥
ओं ह्री घ्राणेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८३॥

श्वेत रक्त कृष्ण पीत नील रग देखते, स्वरूप आ कुरूप देख वस्तु रूप पेखते ।
करे न रागद्वेष साम्यभाव को समहारते, जजुँ यती महान चक्षु राग को निवारते ॥
ओं ह्री चक्षुरिन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८४॥

करे थुती बनाय एक गद्य पद्य सारते, कहे असभ्य वात एक क्रूरता प्रसारते ।
न रोष तोष धारते पदार्थ को विचारते, जजुँ यती महान कर्ण रागद्वेष टारते ॥
ओं ह्री श्रोत्रेन्द्रियविकारविरतसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८५॥

धरे महान शातता न रागद्वेष भावते, चले नही सुयोग से विराट कष्ट आवते ।
तरें समुद्र कर्म को जहाज ध्यान खेवते, यजुँ यती स्वरूप मॉहि बैठ तत्त्व बेवते ॥
ओं ह्री सामायिकावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८६॥

करे त्रिकाल वन्दना सुपूज्य सिद्ध साधुको, विचार बार-वार आत्म शुद्ध गुण स्वभाव को ।
करें जु नाश कर्म जो कि मोक्षमार्ग रोकते, यजुँ यती महान माथ नाय नाय ढोकते ॥
ओं ह्री वन्दनावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८७॥

करें सुगान गुण अपार तीर्थनाथ देव के, मन पिशाच को विडार स्वात्मसार सेन के ।
वनाय शुद्ध भाव माल आत्मकण्ठ डारते, जजुँ यती महान कर्म आठ चूर डारते ॥
ओं ह्री स्तवनावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८८॥

करे विचार दोष होय नित्य कार्य साधते, क्षमा कराय राव जन्तु जाति कष्ट पावते ।
आलोचना सुकृत्य से स्वदोष को मिटावते, जजुँ यती महान ज्ञान अम्बु में नहावते ॥
ओं ह्री प्रतिक्रमणावश्यकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१८९॥

रखे सुबाध मन कपी महान है जु गटखटा, बनाय साकलान शास्त्र पाठ मे जुटावता ।
 धरे स्वभाव शुद्ध नित्य आत्म को रमावते, जजुँ यती उदय महान ज्ञानसूर्य पावते ॥
 ओं ही स्वाध्यायावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९०॥

तजे ममत्व काय का इसे अनित्य जानते, जु कौं व खण्ड मृत्तिका सुपिण्ड सम प्रमाणते ।
 खड़े वनी गुफा महा स्व-ध्यान सार धारते, जजुँ यती महान मोह राग द्वेष टारते ॥
 ओं ही कायोत्सर्गावश्यकगुणधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९१॥

करे शयन सुभूमि मे कठोर कक्कड़ानि की, कभी नही विचारते, पलग खाट पालकी ।
 मुहूर्त एक भी नही गमावते कुनीद मे, जजुँ यतीश सोचते सु आत्मतत्त्व नीद मे ॥
 ओ ही भूशयननियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९२॥

करे नही नहान सर्व राग देह का हते, पसेव ग्रीष्म मे पड़े न शीत अम्बु चाहते ।
 बनी प्रबल पवित्र और मन्त्र शुद्ध धारते, जजुँ यतीश शुद्ध पाद कर्म मैल टारते ॥
 ओं ही अस्नाननियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९३॥

करे नही कबूल छल वस्त्र खण्ड धोवती, दिगानि वस्त्र धार लाज सग त्याग रोवती ।
 बने पवित्र अग शुद्ध बाल से विचार है, जजुँ यतीश काम जीत शील खड्ग धार है ॥
 ओं ही सर्वथावस्त्रत्यागनियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९४॥

करे सु केशलोच मुष्टि मुष्टि धैर्य भावते, लखाय जन्म जन्तु का स्व केश ना बढ़ावते ।
 ममत्व देह से नहीं न शस्त्र से नुचावते, जजुँ यती स्वतंत्रता विहार चित रमावते ॥
 ओं ही कृतकेशलोचननियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९५॥

करे न दन्तवन कभी तजा सिगार अग का, लहे स्व खान पान एकबार साध्य अग का ।
 तथापि दंत कर्णिका महान ज्योति त्यागती, जजुँ यतीश शुद्धता अशुद्धता निवारती ॥
 ओं ही दन्तधोवनवर्जननियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९६॥

धरें न चाह भोग रोग के समान जानते, शरीर रक्ष काज एक बार भुक्त ठानते ।
 सकलदिवस सुध्यान शास्त्र पाठ मे वितावते, जजुँ यती अलाभ अन्न लाभ सानिभावते ॥
 ओं ही एकभुक्तनियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९७॥

खड़े रहे सुलेय अन्न देहशक्ति देखते, न होय बल विहार तब मरण समाधि पेखते ।
 करे सु आत्म ध्यान भी खड़े खड़े पहाड़ पर, जजुँ यती विराजते निजानुभव वटान पर ॥
 ओ ही आर्यितभोजननियमधारकसाधुपरमेष्ठिम्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१९८॥

दोहा - अठविंशति गुण धर यती, शील कवच सरदार ।

रत्नत्रय भूषण धरें, टारें कर्मपहार ॥

ओं ह्रीं अस्मिन् प्रतिष्ठोत्सवेमुख्य पूजार्ह अष्टमवलयोन्मुद्रित
साधुपरमेष्ठिभ्यस्तन्मूलगुणग्रामेभ्यः पूर्णार्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

नवम वलय में ४८ ऋद्धिधारी मुनीश्वरों की पूजा

दोहा - लोकालोक प्रकाश कर, केवलज्ञान विशाल ।

जो धारें तिन चरण को, पूजें नमूं निज भाल ॥

ओं ह्रीं सकललोकालोकप्रकाशनिरावरणवैत्रल्यलब्धिधारकेभ्योऽर्घ्य ॥१९९॥

वक्र सरल पर चित्तगत, मनपर्यय जानेय ।

ऋजू विपुलमति भेद धर, पूजें साधु सुध्येय ॥

ओं ह्रीं ऋजुमतिविपुलमतिमनःपर्ययधारकेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२००॥

देश परम सर्वा अवधि, क्षेत्र काल मर्याद ।

द्रव्य भाव को जानता, धारक पूजें साध ॥

ओं ह्रीं अवधिधारकेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२०१॥

कोष्ठ धरे बीजानिको, जानत जिम क्रमवार ।

तिम जानत ग्रन्थार्थ को, पूजें ऋषिगुण सार ॥

ओं ह्रीं कोष्ठ बुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२०२॥

ग्रन्थ एक पद ग्रह कहीं, जानत सब पद भाव ।

बुद्धि पाद अनुसारि धर, सार जजें धर भाव ।

ओं ह्रीं पादानुसारीबुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२०३॥

एक बीज पद जानके, कोटिक पद जानेय ।

बीज बुद्धि धारी मुनी, पूजें द्रव्य सुलेय ॥

ओं ह्रीं बीजबुद्धिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२०४॥

चक्री सेना नर पशू नाना शब्द करात ।

पृथक् पृथक् युगपत सुनें, पूजें यति भय जात ॥

ओं ह्रीं संभिन्नश्रोत्रऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२०५॥

गिरि सुमेरुरविचन्द्र को, कर पद से छू जात ।

शक्ति महत् धारी यती, पूजें पाप नशात ॥

ओं ह्रीं दूरस्पर्शशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२०६॥

- दूरक्षेत्र मिष्टान्न फल, स्वाद लेन बल धार ।
न वांछ रस लेनकी, जजूं साधु गुणधार ॥
- ओं ह्री दूरास्वादनशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२०७॥
- घ्राणेन्द्रिय मर्याद से, अधिक क्षेत्र गन्धान ।
जान सकल जो साधु है, पूजूं ध्यान कृपान ॥
- ओं ह्री दूरघ्राणविषयग्राहकशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२०८॥
- नेत्रेन्द्रिय का विषय बल, जो चक्री जानन्त ।
ताते अधिक सुजानते, जजूं साधु बलवन्त ॥
- ओं ह्री दूरावलोकनशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२०९॥
- कर्णेन्द्रिय नवयोजना, शब्द सुनत चक्रीश ।
ताते अधिक सुशक्तिघर, पूजूं चरण मुनीश ॥
- ओं ह्री दूरश्रवणशक्तिऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२१०॥
- बिन अभ्यास मुहूर्त में, पढ जानत दश पूर्व ।
अर्थ भाव सब जानते, पूजूं यती अपूर्व ॥
- ओं ह्री दशपूर्वित्वऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२११॥
- चौदह पूर्व मुहूर्त में, पढ जानत अविकार ।
भाव अर्थ समझे सभी, पूजूं साधु चितार ॥
- ओं ह्री चतुर्दशपूर्वित्वऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२१२॥
- बिन उपदेश सुज्ञान लहि, सयम विधि चालन्त ।
बुद्धि अमल प्रत्येक घर, पूजूं साधु महन्त ॥
- ओं ह्री प्रत्येकबुद्धित्वऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२१३॥
- न्याय शास्त्र आगम बहुत, पढे बिना जानन्त ।
परवादी जीते सकल, पूजूं साधु महन्त ॥
- ओं ह्री वादित्वऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२१४॥
- अग्नि पुष्प तंतु चले, जंघा श्रेणी चाल ।
चारण ऋद्धि महान घर, पूजूं साधु विशाल ॥
- ओं ह्री जलजंघातंतुपुष्पत्रवीजश्रेणिवह्न्यादिनिमिताश्रयचारणऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं ॥२१५॥
- नभ में उड़कर जात है, मेरुआदि शुभ थान ।
जिन वन्दत भविवोधते, जजूं साधु सुख खान ॥
- ओं ह्री आकाशगमनशक्तिचारणऋद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२१६॥

अणिमा महिमा आदि बहु, भेद विक्रिया रिद्धि ।

धरे करे न विकारता, जजुँ यती समृद्धि ॥

ओं ह्री अणिमामहिमालघिमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्यईशत्वशित्वत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं ॥२१७॥

अतर्दधि कामेच्छु बहु, त्र्यद्धि विक्रिया जान ।

तप प्रभाव उपजे स्वय, जजुँ साधु अघहान ॥

ओं ह्री विक्रियायांअंतर्धानादित्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२१८॥

मास पक्ष दो चार दिन, करत रहे उपवास ।

आमरण तप उग्र धर, जजुँ साधु गुणवास ॥

ओं ह्री उग्रतपत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२१९॥

घोर कठिन उपवास धर, दीप्तमई तन धार ।

सुरभि श्वास दुर्गन्ध बिन, जजुँ यती भाव पार ॥

ओं ह्री दीप्तत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२०॥

अग्नि माहि जल सम विलय भोजन पय हो जाय ।

कफ मल मूत्र न परिणमे, जजुँ यती उमगाय ॥

ओं ह्री तप्ततपत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२१॥

मुक्तावली महान तप, कर्मन नाशन हेतु ।

करत रहे उत्साह से, जजुँ साधु सुख हेतु ॥

ओं ह्री महातपत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२२॥

कास श्वास ज्वर ग्रसित हो, अनशन तप गिरि राध ।

दुष्टन कृत्त उपसर्ग सह, पूजुँ साधु अवाध ॥

ओं ह्री घोरतपत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२३॥

घोर घोर तप करत भी, होत न बल से हीन ।

उत्तर गुण विकसित करें, जजुँ साधु निज लीन ॥

ओं ह्री घोरपराक्रमत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२४॥

दुष्ट स्वप्न दुर्मति सकल, रहित शील गुण धार ।

परमब्रह्म अनुभव करे, जजुँ साधु अविकार ॥

ओं ह्री घोरब्रह्मचर्यगुणत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२५॥

सकल शास्त्र चिन्तन करे, एक मुहूर्त मझार ।

घटत न रुचि मन वीरता, जजुँ यती भवतार ॥

ओं ह्री मनोबलत्र्यद्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२६॥

- सकल शास्त्र पढ़ जात है, एक मुहूर्त मंझार ।
 प्रश्नोत्तर कर कण्ठ शुचि, धरत यजुँ हितकार ॥
- ओं ह्री वचनवलङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२७॥
- मेरुशिखर राखन वली, मास वर्ष उपवास ।
 घटे न शक्ति शरीर की, यजुँ साधु सुखवास ॥
- ओं ह्री कायवलङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२८॥
- अगुलि आदि सपर्शते, श्वास पवन छू जाय ।
 रोग सकल पीड़ा टले, जजुँ साधु सुखपाय ॥
- ओं ह्री आमर्षोपधिङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२२९॥
- मुखते उपजे राल जिन, शमन रोग करतार ।
 परम तपस्वी वैद्य शुभ, जजुँ साधु अविकार ॥
- ओं ह्री क्ष्वेलौषधिङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३०॥
- तन पसेव सह रज उड़े, रोगीजन छू जाय ।
 रोग सकल नाशे सही, जजुँ साधु उमगाय ॥
- ओं ह्री जलौषधिङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३१॥
- नाक आख कर्णादि मल, तन स्पर्श हो जाय ।
 रोगी रोग शमन करे, जजुँ साधु सुख पाय ॥
- ओं ह्री मलौषधिङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३२॥
- मल निपात पर्शी पवन, रजकण अग लगाय ।
 रोग सकल क्षण मे हरे, जजुँ साधु अघ जाय ॥
- ओं ह्री विजोषधिङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३३॥
- तन नख केश मलादि बहु, अग लगी पवनादि ।
 हरे मृगी सूलादि बहु, जजुँ साधु भववादि ॥
- ओं ह्री सर्वोषधिङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३४॥
- विष मिश्रित आहार भी, जह निर्विष हो जाय ।
 चरण धरे भू अमृती, जजुँ साधु दुख जाय ॥
- ओं ह्री आस्याविषङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३५॥
- पड़त दृष्टि जिनकी जहाँ, सर्वहि विष टल जाय ।
 आत्म रमी शुचि सयमी, पूजुँ ध्यान लगाय ॥
- ओं ह्री दृष्ट्यविषङ्घ्रिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३६॥

मरण होय तत्काल यदि, कहें साधु मर जाव ।

तदपि क्रोध करते नहीं, पूजें बल दरशाव ॥

ओं ह्री आशीविषत्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३७॥

दृष्टि व्रू देखें यदी, तुरत काल वश थाय ।

निज पर सुखकारी यती, पूजें शक्ति धराय ॥

ओं ह्री दृष्टिविषत्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३८॥

नीरस भोजन कर घरे, क्षीर समान बनाय ।

क्षीरस्नावी त्र्यद्वि धरें, जजें साधु हरषाय ॥

ओं ह्री क्षीरस्नावीत्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२३९॥

वचन जास पीड़ा हरे, कटु भोजन मधुराय ।

मधुश्रावी वर त्र्यद्वि धरे, जजें साधु उमगाय ॥

ओं ह्री मधुश्रावित्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२४०॥

रुक्ष कटुक भोजन घरे, अमृत सम हो जाय ।

अमृत सम वच तृप्ति कर, जजें साधु भय जाय ॥

ओं ह्री अमृतश्रावित्र्यद्विप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२४२॥

दत्त साधु भोजन बचे, चक्री कटक जिमाय ।

तदपि क्षीण होवे नहीं, जजें साधु हरषाय ॥

ओं ह्री अक्षीणमहानसर्द्धिप्राप्तेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२४३॥

सकुड़े थानक में यती, करते वृष उपदेश ।

बैठे कोटिक नर पशू, जजें साधु परमेश ॥

ओं ह्री अक्षीणमहालयत्र्यद्विधारकेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२४४॥

या प्रमाण त्र्यद्वि को, पावत तप परभाव ।

चाह कछू राखत नही, जजें साधु घर भाव ॥

ओं ह्री सकलत्र्यद्विसंपन्नसर्वमुनिभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥२४५॥

दोहा - चौदासे त्रेपन मुनी, गणी तीर्थ चौबीस ।

जजें द्रव्य आठों लिये, नाय नाय निज शीश ॥

ओं ह्री चतुर्विंशतितीर्थेश्वराग्रिमसगावर्तित्रिपंचाश्चतुर्दशशतगणधरमुनिभ्योऽर्घ्यं ॥२४६॥

अड़तालीश हजार अरु, उन्निस लक्ष प्रमान ।

तीर्थकर चौबीस यति, संघ यजें घर ध्यान ॥

ओं ह्री वर्तमानचतुर्विंशतितीर्थकरसभा संस्थायि विशंल्लक्षाष्ट
चत्वारिंशत्सहस्रप्रमितमुनीन्द्रेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

चार कोनो मे स्थापित जिनप्रतिमा मंदिर, शास्त्र व जिनधर्म के अर्घ्य
दोहा - नौसे पच्चिस कोटि लख त्रेपन अठ्ठावीस ।

सहस ऊन कर बावना, बिब प्रकृत नम शीश ॥

ओं ह्री नवशतपंचविंशतिकोटि त्रिपंचाशल्लक्षसप्तविंशतिसहस्रनवशताष्ट चत्त्वा
रिंशत्प्रमितअकृत्रिमजिनबिम्बेभ्योऽर्घ्य ॥२४७॥

आठ कोड़ लख छप्पने, सत्तानवे हजार ।

चार शतक इक असी जिन, चैत्य प्रकृत भज सार ॥

ओं ह्री अष्ट कोटि षट् पंचाशल्लक्षसप्तनवतिसहस्रचतुःशतएकाशीति
संख्याकृत्रिमजिनालयेभ्योऽर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ॥२४८॥

चौपाई - जय मिथ्यात्व नाग को सिहा, एक पक्ष जल धरको मेहा ।

नरक कूपते रक्षक जाना, भज जिन आगम तत्त्व खजाना ॥

ओं ह्री स्याद्वादअंकितजिनागमाय अर्घ्य ॥२४९॥

(भुजंगप्रयात छन्द)

जिनेन्द्रोक्त धर्म दयाभाव रूपा, यही द्वैविधा सयम है अनूपा ।

यही रत्नत्रय मय क्षमा आदि दशधा, यही स्वानुभव पूजिये द्रव्य अठधा ॥

ओह्री दशलक्षणोत्तमादित्रिलक्षणसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप तथामुनिगृहस्थाचारभेदेन
द्विविधं तथा दयारूपत्वेनैकरूपजिनधर्मायऽर्घ्य ॥२५०॥

दोहा - अर्हत्सिद्धाचार्य गुरु, साधु जिनागम धर्म ।

चैत्य चैत्य ग्रह देव नव, यज मडल कर शर्म ॥

ओं ह्री सर्वयागमण्डलदेवताभ्यः पूर्णार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाल

दोहा - पचरत्न मगलशरण, उत्तम जिन चौबीस ।

विद्यमान ऋद्धी मुनी, गुण गाऊँ नम शीश ॥

पद्धडी - अरहत सिद्ध आचार्य जान, पाठक साधू पौचो महान ।

जग मे इन सम नहि और कोय, वन्दत मगल अघ नशे सोय ॥१॥

है जग मे मगलमय स्वरूप, जग जन ध्यावे लहि सुख अनूप ।

तिहुलोक मांहि उत्तम सुजान, कर कर्म नाश शिवरूप मान ॥२॥

परमेष्ठीजग मे शरण आन, जो पाते जाते परम थान ।
 आगत नागत जिन वर्तमान, चौबीस जिनेश्वर जग प्रधान ॥३॥
 जग जन पायो है तीर्थधाग, तिन चरणो गे शत शत प्रणाम ।
 श्री बीस तीर्थकर विहरमान, रीमघर आदिक सुख निधान ॥४॥
 आचार्योपाध्याय साधु जान, तपज्ञान ध्यान करते महान ।
 ऋद्धि अनेक तपकर सुपाय, जग जीवन को आनददाय ॥५॥
 ये यागसुमण्डल सुख स्वरूप, वन्दित अर्चित मगल अनूप ।
 मै शरण गही मन वचन काय, भव भ्रमण मिटे शिव सौख्य पाय ॥६॥

दोहा - पच परम मगल करन, उत्तम शरण जिनेश ।
 चौबिस विशति साधुत्रय, पूजो जिन परमेश ॥७॥
 ओं ही सर्व याग मण्डल देवताभ्यः पूर्णार्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥

(अडिल्ल)

सर्व विघ्न क्षय जाय शाति बाढे सही, भव्य पुष्टता लहे क्षोभ उपजे नही ।
 पञ्चकल्याणक होय सबहि मगलकरा । जासे भवदधि पार लेय शिवघर शिरा ॥
 (इत्याशीर्वादः पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्) ।

गर्भ

कल्याणक

गर्भकल्याणक

- मंत्र - (१) मातृका मंत्र
(२) सुरेन्द्र मंत्र
- मण्डल - चौबीस तीर्थकर मण्डल
- यंत्र - (१) मातृका यंत्र
(२) सुरेन्द्र यंत्र
- भक्तियां - (१) सिद्ध भक्ति
(२) तीर्थकर भक्ति
(३) चारित्र्य भक्ति
(४) शान्ति भक्ति
- सामग्री - (१) षट्कोण शिला
- (२) विधिनायक प्रतिमा
(३) पूजा सामग्री
(४) काँच मंजूषा
(५) माता का पलंग एवं बिस्तर
(६) मंच व्यवस्था
(७) भेट सामग्री
(८) मलमल
(९) वाद्यघोष
(१०) हवन सामग्री

गर्भकल्याणक पूर्वरूप

(सिद्ध भक्ति पढ़कर कार्य आरंभ करे)

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की यज्ञ वेदी पर याग मण्डल के समीप परदा लगाकर बद कर ले उसके बाद सौधर्मइन्द्र की सुधर्मा सभा की रमणीक व्यवस्था कराना चाहिए बीच में एक तखत या उच्च आसन पर दो सिंहासन लगाना चाहिए । जिस पर सौधर्मइन्द्र और शची इन्द्रानी को बैठाना चाहिए । सौधर्मइन्द्र की आसन से दोनों ओर समस्त इन्द्र, इन्द्रानिया, यज्ञनायक, कुबेर, देवादि के बिठाने की व्यवस्था करा देना चाहिए । इन्द्र सभा की साज सज्जा बहुत ही सुंदर हो, इस इन्द्र सभा के सामने वेदी पर परदा हो जिसके बाद देवियों के गायन के लिए नृत्य एवं मंगलाचरण आदि की व्यवस्था की जा सके और इससे आगे एक परदा होना चाहिए । परदाये खुलने वाली हो ।

मंगलाचरण

श्री मज्जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का यह उत्सव प्यारा,
करता है भव का किनारा ।

श्री गर्भजन्म तप ज्ञान मोक्ष का, देखो उत्सव सारा,
करता है भव का किनारा । टेक ।

इस ससार अनादि वास को, जिनने सतत मिटाया ।
सम्यक्त्व सहित सोलहकारण को, जीवन में है ध्याया ॥
अपने समान ही जगत जीव सब, मार्ग बताया प्यारा,
करता है भव का किनारा श्री मज्जिनेन्द्र ॥१॥

हम भूल रहे हैं शिवपथ नित ही, आकर हमें बताओ
मोक्ष प्राप्त करने वाला, सद्ज्ञान नाथ दे जाओ,
हम भक्त तुम्हारे शरण में आये, हरो अज्ञान हमारा,
करता है भव का किनारा श्री मज्जिनेन्द्र ॥२॥

शुभ आशिष यह मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाये
ससार वास सब मिटे हमारा, आत्म ज्योति जगाये ।
नर से नारायण बनकर के, पावे शिव सुखसारा,
करता है भव का किनारा श्री मज्जिनेन्द्र ॥३॥

मगल गीत के पश्चात् देविया चली जाय परदा बंद करना चाहिए । तदनंतर इन्द्र सभा की परदा खोलना चाहिए ।

इन्द्र सभा में तत्त्वचर्चा (दृश्य १)

इन्द्र :- धर्मनिष्ठ सभासदो, चारगति और चौरासी लाखयोनियो में अनादि काल से परिभ्रमण करने वाले प्राणियो को कभी सुख एवं शान्ति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने यथार्थ कर्तव्य का ज्ञान नही कर पाया । जिसके बिना ससार का अन्त नही ।

प्रश्न देव (१) इस असार संसार में, कौन कार्य है सार ।

आज तलक पाया नही, समय गया बेकार ॥

देवेन्द्र । ससार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है ? जिसे करने के बाद जीवन सफल बनाया जा सके । कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन दीजिए ।

(१) उत्तर सौधर्मेन्द्र - बहुत ही ध्यान से आत्मोद्धारक उत्तर सुनो,

इस भव में दुर्लभ महा, सम्यग्दर्शन दर्शन जान,
सुखकारी कल्याणमय, अन्य न कोई मान ।

हे तत्त्व जिज्ञाषु । इस असार ससार मे सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने, आज तक सम्यग्दर्शन प्राप्त नही किया जो अत्यन्त दुर्लभ है । सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना, ससार से उद्धार होना असंभव है । अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए ।

(२) प्रश्न देव - कृपया नाथ बताइये, क्या है सम्यग्दर्श,
किस विधि से वह प्राप्त हो, सुनकर होवे हर्ष ।

देवेन्द्र । जिस सम्यग्दर्शन को आपने महान कहा है क्या उसे प्राप्त करने का भी कोई मार्ग है । हम सब जिज्ञासु हैं और ससार बन्धन से मुक्ति मार्ग की ओर भावनारत है ।

(२) सौधर्मेन्द्र - परद्रव्यों से भिन्न जो, लखता आत्म स्वरूप,
कर्म्मरहित विज्ञानधन, ध्याता निज चिद्रूप ।
देवागम निर्ग्रथगुरु, सप्त तत्त्वश्रद्धान,
आतम निष्ठावान के, सम्यग्दर्शन मान ।

सभाषद, सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए, परपदार्थों से अत्यन्त भिन्न ज्ञायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना, एव जीवादि सात तत्त्व और देव-शास्त्र गुरुकी

यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यग्दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलाना चाहिए।

(३) प्रश्न देव - इसका क्या माहात्म्य है, दीजे हमें बताय,
दुर्लभ क्यों इसको कहा, मुनियो ने गुण गाय।

सुरेन्द्र ! सम्यग्दर्शन महान है, यह सिद्धान्त में कहा है, ऐसा क्यों? यदि दुर्लभ ही है तो प्राणी इसे प्राप्त कर सकता या नहीं? कृपया सम्यग्दर्शन की दुर्लभता समझाइये।

(३) सौधर्मेन्द्र - देव ! स्थिर चित्त से सम्यग्दर्शन का माहात्म्य सुनो,
सम्यग्दर्शन, की महिमा अपार, पाकर के प्राणी होता भवपार। टेका
अल्प भ्रमण भव का रह जाता, तब ही भव्य इसे प्रगटाता।
नारायण बल चक्रपद धारी, सुर अहमिन्द्र होय सुखकारी।
होता है तीर्थकर सुखकार, पाकर के प्राणी होता भवपार ॥१॥
भवनत्रिक षट् नरक नपुंसक, थावर नारी पशु विकलान्तक।
जन्म न पाता कभी दृगधारी, मानव बनकर शिव अधिकारी।
शाश्वत शिव सुख हो भवपार। पाकर के प्राणी होता भवपार ॥२॥

संसारोद्धारक सम्यग्दर्शन की महानता नहीं समझ पाये, ध्यानपूर्वक सुनिये, सम्यग्दर्शन की महिमा अत्यधिक महान है। इसे प्राप्त करने वाला जीव, अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता और जब तक वह संसार में है तो नारायण बलभद्र, चक्रवर्ती, देव, अहमिन्द्रादिक में जन्म लेता रहता है। सम्यग्दृष्टीजीव भवनत्रिकदेव, नरक गति, नपुंसक, स्थावर, स्त्रीपर्याय एवं तीर्थवगति में जन्म नहीं लेता। उत्तमोत्तम पदों से दिग्म्बर मुद्रा धारण कर, तपस्या करके कर्मों का नाश करके, निर्वाण प्राप्त करता है एवं तीर्थकर प्रकृति को बाध कर तीर्थकर बनकर संसार के प्राणीमात्र को कल्याण मार्ग का उपदेश देकर मोक्ष प्राप्त करता है।

(४) प्रश्न देव - तीर्थकर कैसे बनें, दीजे हमें बताय,
किस विध यह प्रकृती बंधे, नाथ हमें समझाय।

देवेन्द्र ! तीर्थकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार के सब प्राणी तीर्थकर नहीं बन सकते? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए।

(४) सौधर्मेन्द्र - सोलह कारण भावना, शुद्ध हृदय से ध्याय,
केवलि के पद मूल में, इसको प्राप्त कराय।

सुनो देव ! सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के पश्चात्, केवली, श्रुतकेवली के पादमूल में, लोकोपकारी सोलह कारण भावनाओं का चिंतन कर, जीव तीर्थकर प्रकृति का

बंध करता है। लेकिन मानव को ही यह अवसर मिलता है, अन्य किसी जीव को नहीं, अब समझ गए।

(५) प्रश्न देव - सोलह कारण कौन हैं, पृथक्पृथक् समझाय,
क्या इनका माहात्म्य है, दीजे शीघ्र बताय।

देवेन्द्र ! बारह भावनायें तो सुनी हैं, जिनके द्वारा संसार शरीर और भोगों से विरक्तता होती है। किंतु यह सोलह कारण भावनायें कौन कौन हैं? जिनका चिंतवन तीर्थकर प्रकृति का बंध कराता है। कृपया इन भावनाओं के नामों से अवगत कराइये।

(५) सौधर्मेन्द्र - दरश विशुद्धि विनययुत, शील ज्ञान संवेग,
त्याग तपस्या साधुव्रत, अर्हद्भक्ति समेत १।

श्रुत प्रवचन आचार्य गुरु, छह आवश्यक जान,
धर्म भाव वात्सल्यता, सोलह भावना मान २।

जग जीवन करुणा धरे, ध्यावे भावना सार,
तीर्थकर प्रकृति बंधे, काटे करम पहार ३।

देव सुनिये, इन सोलह कारण भावनाओं के चिंतवन से, आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ, परम विशुद्धि होती है। उसी से तीर्थकर प्रकृति का बंध होता है।

(६) प्रश्न देव - देवेन्द्र, आश्चर्य ! महान आश्चर्य !! क्या कह रहे हैं आप। दर्शन विशुद्धि आदि भावना से बंध !

यह सुनकर रवामी मुझे, संशय उपजा आय,
दरश विशुद्धि से बंध हो, मोक्ष कौन विधि पाय।

इन्द्रराज ! विचार तो करिये यदि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से, बंध मान लिया जाय, तो फिर मोक्ष प्राप्ति कौन साधनों से होगी। अपनी बुद्धि में यह आया नहीं।

(६) सौधर्मेन्द्र - देव, आश्चर्य की बात नहीं, मनोयोग से ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए था। सुनो -

दरश विशुद्धि बंध का, कारण बनता नांहि,
रागभाव में बंध है, यह भव नाश कराहि।

देव, विशेष ध्यान पूर्वक सुनो - दर्शन विशुद्धि के काल में, जो प्राणि मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है, वह बंध में कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं।

(७) प्रश्न देव - तीर्थकर कितने कहां, कौन समय मे होय,
यह सब आप बताइये, सुन सुख उपजे मोय ।

देवेन्द्र ! तीर्थकर कितने, कहा और कब होते है कृमया विस्तार पूर्वक, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए ?

(७) सौधर्मेन्द्र - भरतैरावत क्षेत्र मे, उत अवसर्पिणीकाल,
तृतीय चतुर्थ में होत है, चौबीसो नमिभाल ।

देव । कालचक्र का परिणमन सदैव होता रहता है, जिस काल मे प्रत्येक प्राणी, सुख, आयु, शरीर, एव साधन विशेष पाता है, वह उत्सर्पिणी काल कहलाता है और जिस काल मे इनका अभाव पाया जाता है, वह अवसर्पिणी काल कहलाता है । इन मे उत्सर्पिणी का तीसरा एव अपसर्पिणी का चौथा काल आता है, तब भरत और ऐरावत क्षेत्रो मे तीर्थकरो का जन्म हुआ करता है ।

(८) प्रश्न देव - स्वामी जम्बूद्वीप में, अभी कौन सा काल,
कब तीर्थकर दर्श हो, कहिए सुंखमय हाल ?

देवराज । जम्बूद्वीप भरतैरावत क्षेत्रो मे, इस समय कौन सा काल चल रहा है । क्या इस समय हम सबको तीर्थकर के दर्शन का लाभ होगा ?

(८) सौधर्मेन्द्र - काल तीसरे पल्यका, रहे आठवां भाग,
कर्मभूमि तब ही लगे, तीर्थकर बढ़भाग ।

सुनिये देव । जब तीसरे काल के समय का, पल्यका आठवां भाग बाकी रहता है तब ही त्रैषठ शलाका पुरुष होते है और कर्मभूमि प्रारम्भ होती है । उसी समय तीर्थकरो का अवतरण होता है ।

(इन्द्र का आसन हिलना)

(आश्चर्यमय चितन) अरे । यह क्या ? अत्यन्त आश्चर्य ॥ क्या कारण है सिंहासन कर्पित होने का (कुछक्षण चितन अर्थात् अवधिज्ञान का उपयोग) तब इन्द्र प्रसन्न मुद्रा मे सिंहासन से उठकर सात पद चलकर नमोऽस्तु वृषभाय, नमोऽस्तु नाभिनदनाय, नमोऽस्तु ऋषभनाथाय (इन्द्र झुककर नमस्कार करता है)

सौधर्मेन्द्राणी (शची) प्राणेश । किसे नमस्कार कर रहे है आप, ये कौन है? कहा है? अपने अन्त कक्ष मे आसीन है क्या? (इधर उधर देखकर)

यहा तो कोई नही दिख रहा है । आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया है आपने? आश्चर्य है ।

सौधर्मेन्द्र :- प्रिये आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा शिर, उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है, जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को, मोक्षमार्ग बताने की क्षमता होती है। विषय विकारों से उठकर, जिसका अन्तर्मानस अतीन्द्रिय सुखों का भण्डार होता है। ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ।

शची :- किंतु नाथ ! यहा तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है।

सौधर्मेन्द्र :- प्राणप्रिये ! यहा अभी तो नहीं है किंतु होने वाले हैं।

वही समय अब आ गया, जम्बू भरतमझार,
आदि तीर्थकर आयेंगे, सब जीवन सुखकार।

प्रिये जिस प्रकार विदेह क्षेत्रों में, विद्यमान विशति भगवान् भव्यों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी, चतुर्विंशति तीर्थकर अवतार लेकर, प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग दर्शन करेंगे।

शची :- प्रभो ! धन्य है आपको, आपका ज्ञान एवं जिनेन्द्र गुणानुराग, आपका हृदय निरन्तर महा मानवों की गंवेशणा किया करता है। इसी से तो आप स्वर्गों के इन्द्र माने जाते हैं।

सौधर्मेन्द्र :- देव ! इस सुधर्मासभा में मेरे परममित्र कार्य-कुशल कोषाध्यक्ष (कुर्वेर) को आमंत्रित किया जाय।

धनपति को बुलवाइये, यह संदेश सुनाय,
नगर अयोध्या की करे, रचना अति सुखदाय।

देव :- जो आज्ञा देवेन्द्र (जाता है)

(कुर्वेर का आगमन)

उसी समय इन्द्र हाथ जोड़ कर नतमस्तक हो कर भगवान् ऋषभदेव की जय तीन बार बोलता है।

(कुर्वेर का धर्मसभा में प्रवेश)

माननीय देवेन्द्र, अभी आपने जिस महापुरुष का जयघोष किया है, कृपया उस महामना का परिचय देकर, सुधर्मासभा के समस्त सदस्यों को निर्विकल्प कीजिये।

सौधर्मेन्द्र :- प्रियदर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस धर्मसभा के लिये परमाल्हाद का है। विश्वधर्म के प्रवर्तक, इस काल के आद्य तीर्थकर, भगवान् ऋषभनाथ का, सर्वार्थसिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामनायुगप्रवर्तक महाराजा नाभिराय के यहाँ जन्म, आज से पन्द्रह माह बाद होगा। हम सबको प्रभु की सेवा का, सर्वप्रथम स्वर्णवसर प्राप्त होने वाला है।

(सभी धर्मसभा के सदस्य खड़े होकर भगवान आदिनाथ की जय, महाराजा नाभिराय की जय, माता मरुदेवी की जय बोलकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं)
कुवेर :- (आल्हादित होकर)

प्रिय देवेन्द्र ! आपके प्रसाद रो ही मुझे, समय-समय पर ऐसे स्वर्णावसर प्राप्त हुआ करते हैं, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व ही क्या है ।

सौधर्मेन्द्र :- धनाधिप, सुधर्मासभा आप जैसा कार्य-कुशल पाकर अतीव भाग्यशालिनी है । आपके सभी कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं ।

कुवेर :- अब मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं देवेन्द्र । यथा शीघ्र दीजिये । आपकी आज्ञा आत्मोत्कर्ष सम्पादिका है ।

सौधर्मेन्द्र :- आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वस्तिक पर, अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदृश रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभिराय एवं माता मरुदेवी के लिए, सर्वतोभद्र महल का निर्माण कर, सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से मण्डित स्थान पर निवास दीजिए और माता मरुदेवी की सेवार्थ, देवियों को नियुक्त कीजिए और आज से ही पन्द्रह महिनो तक, रत्नों की वर्षा राज्यभवन में कीजिए ।

सौधर्मेन्द्राणी (शची से) प्रिय शची तुम भी अपना परिकर लेकर, मध्यलोक के अयोध्या नगर में जावो और माता मरुदेवी के सुख साधन का इतना मन मोहक प्रबध करो, कि जिससे वह प्रसन्न रहे । उन्हें रच मात्र भी कष्ट न होने पावे ।

कुवेर :- धन्यनाथ जीवन मेरा, सुनकर हुआ है आज,

आज्ञा का पालन करूँ, जाकर के महाराज ।

(तत्काल देवियों को बुलाकर आदेश देता है षट्कुमारी देवियों को बुलाना और कार्यभार समर्पित करना)

श्री जिनमाता सेवनित, करत रहो सुखपाय,

पुण्यलाम हो जास में, पातक जाय पलाय ।

कुवेर रत्नवृष्टि करता है ।

इन्द्र शची एवं देवियों सहित आदिनाथ का स्तवन करते हैं ।

गायन

आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा,
 सब जग दुख के नाश करन का साधन होगा । टेक ।
 धनपति सुर मिल नगर बनाया, महलसर्वतोमद्र सुहाया,
 चारों दिशा मे बने जिन मंदिर, अर्चन वन्दन करते सब नर ।
 पुण्य बंध में कारण होगा, नगर अयोध्या ॥१॥
 इन्द्र इन्द्राणी हर्ष मनायें, मात-पिता के गुण मिल गायें,
 गर्भोत्सव सब करने आये, मांति-मांति वादित्र बजायें ।
 राजद्वार पर तोरण होगा - नगर अयोध्या ॥२॥
 सारे नगर की शोभा बनाये, रतन नृपति आंगन बरसायें,
 षट्कुमारिका सेवा करनें, मातामन को प्रमुदित करनें ।
 हर आंगन सुखपूरित होगा । नगर अयोध्या० ॥३॥

रत्नवृष्टिमंत्र^(१)

मासान्धडादौ परतो नवार्हद्गर्भवताराद्धनदो ववर्ष
 या रत्नवृष्टि जिनतातसौधे कुर्वे तदारोपणपुष्पवृष्टि
 ओं ह्री धनाधिपते अर्हत्प्रतिसौधेरत्नवृष्टिं मुंचतु मुंचतु स्वाहा । (कुचेर रत्नवृष्टि करें)

देवियों की कल्पना ^(२)

स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च ।
 उपास्वकत्येन्द्र नियोगतश्च श्रीदेवि विश्वेश्वरमातर त्वम् ॥१॥
 ओं महति महसां श्रीदेवि महादेवि ऐं ह्री श्री हैं श्री नित्यै स्वं सं क्ली इवीं स्वां लां
 झ्रों तीर्थकर सवित्री रनापय रनापय गर्भशुद्धिं कुरुकुरुवं मं हं सं तं पं श्री देव्यैस्वाहा
 (श्रीदेवी पर पुष्पक्षेपण करे) पूर्वदिशा मे खड़ी हो ।

स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च
 उपास्वक्येयेन्द्रनियोगतश्च ह्री देवि विश्वेश्वरमातर त्वम् ॥२॥
 ओं महति महसां ह्री देवि महादेवि ऐं ह्रीं श्री हैं ह्रीं नित्यै स्वं सं क्लीं इवीं स्वां लां झ्रों
 तीर्थकर सवित्री रनापय रनापय गर्भशुद्धिं कुरुकुरुवं मं हं सं तं पं ह्री देव्यैस्वाहा (ह्री
 देवी पर पुष्प क्षेपण करे) 'आग्नेय दिशा में खड़ी हो'

(१) श्री ने. देव, प्र. ति. पृष्ठ ३९०

(२) श्री ने. दे. प्र. ति. पृष्ठ ३९७ से ३९८

स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च ।

उपास्स्वक्येयेन्द्रनियोगतश्च घृत्याख्यदेवि त्वमिहार्हदंबाम् ॥३॥

ओं महति महसां धृति देवि महादेवि ऐं ह्री श्री है धृतिं नित्यै रवं सं क्ली इवी स्वां
लां इत्रौ तीर्थकर सवित्री स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु वं मं हं सं तं पं धृति
देव्यै स्वाहा (धृति देवी पर पुष्प क्षेपण करे) 'दक्षिण दिशा मे खड़ी हो'

स्वभोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च ।

उपास्स्वक्येयेन्द्रनियोगतश्च कीर्त्याख्यदेवि त्वमिहार्हदंबाम् ॥४॥

ओं महति महसां कीर्ति देवि महादेवि ऐं ह्री श्री है कीर्तिं नित्यै रवं सं क्ली इवी स्वां
लां इत्रौ तीर्थकर सवित्री स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु वं मं हं सं तं पं कीर्ति
देव्यै स्वाहा (कीर्ति देवी पर पुष्प क्षेपण करे) 'नैऋत्य दिशा मे खड़ी हो ।

स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च ।

उपास्स्व भक्येयेन्द्रनियोगतश्च बुद्ध्याख्यदेवि त्वमिहार्हदंबाम् ॥५॥

ओं महति महसां बुद्धि देवि महादेवि ऐं ह्री श्री है बुद्धिं नित्यै रवं सं क्ली इवी स्वां लां
इत्रौ तीर्थकर सवित्री स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु वं मं हं सं तं पं बुद्धि देव्यै स्वाहा
(बुद्धि देवी पर पुष्प क्षेपण करे) (पश्चिम दिशा मे खड़ी हो)

स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च ।

उपास्स्व क्येयेन्द्रनियोगतश्च लक्ष्म्याख्यदेवि त्वमिहार्हदंबाम् ॥६॥

ओं महति महसां लक्ष्मी देवि महादेवि ऐं ह्री श्री है लक्ष्मी नित्यै रवं सं क्ली इवी
स्वां लां इत्रौ तीर्थकर सवित्री स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु वं मं हं सं तं पं
लक्ष्मी देव्यै स्वाहा (लक्ष्मी देवी पर पुष्प क्षेपण करे) (वायव्य दिशा मे खड़ी हो)

स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च ।

उपास्स्वभक्येन्द्र नियोगतश्च शान्त्याख्यदेवि त्वमिहार्हदंबाम् ॥७॥

ओं महति महसां शान्ति देवि महादेवि ऐं ह्री श्री है शान्ति नित्यै रवं सं क्ली इवी
स्वां लां इत्रौ तीर्थकर सवित्री स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु वं मं हं सं तं पं
शान्ति देव्यै स्वाहा । (शान्ति देवी पर पुष्प क्षेपण करे ।) (उत्तर दिशा मे खड़ी हो)

स्वयोग्यसेवाकरणान्निजानुभावार्पणाद्गर्भविशोधनाच्च ।

उपास्स्व भक्येयेन्द्रनियोगतश्च पुष्ट्याख्यदेवि त्वमिहार्हदंबाम् ॥८॥

ओं महति महसां पुष्टि देवि महादेवि ऐं ह्री श्री है पुष्टिं नित्यै रवं सं क्ली इवी स्वां
लां इत्रौ तीर्थकर सवित्री स्नापय स्नापय गर्भशुद्धिं कुरु कुरु वं मं हं सं तं पं पुष्टि-
देव्यै स्वाहा । (पुष्टि देवी पर पुष्प क्षेपण करे) (ईशान मे खड़ी हो पुष्प क्षेपण करे)

याः श्रीजिनांवां सुखयन्ति नित्य सेवाविशेषैर्विविधैर्विनोदैः ।
 क्रीडाविशेषैर्बहुभक्तियुक्ता साक्षादिमास्ता वरदिककुमार्यः ।
 ओं दिक्कुमार्यो जिनमातरमुपेत्य परिचरत परिचरत इति स्वाहा (सब देवियों पर पुष्प
 क्षेपण करें)

देवियों का स्वरूप और कार्य (१)

१. चतुर्भुजा श्रीर्धृतपुष्पकुंभसच्चामरैर्मातरमुत्सहंती ।
 शोभां जगत्यामपुनर्भ विन्द्वी दध्ने चलत्कंकणचारुहस्तैः ॥
 (श्री देवी माता की सेवा के लिए चमर धारण करें)
२. लज्जाकुलोद्भूतनितंबिनीनामाभूषणं तां द्विगुणीचकार ।
 मातु पदांभोरुहसेवनानि छत्रेण चक्रे वरिवस्यमाना ॥
 (ह्री देवि माता की सेवा के लिए छत्र धारण करें)
३. धैर्यं विदध्ने धृतिनामदेवी सिंहासनस्यार्पणतः सवित्र्याः ।
 त्रैलोक्यनाथप्रसवेन लोके मान्यसि संसूचनताकरस्य ॥
 (धृतिदेवी माता की सेवा हेतु सिंहासन धारण करें)
४. विस्तारयामास यशोभिवृद्धि कीर्तिं. समासादितपुष्पकार्या ।
 जयस्तवौ मातुरुदीर्यं यष्टि द्वारोपकण्ठे स्थितिमादधौ सा ॥
 (कीर्ति देवी माता का यशगान करती हुई स्तुति करें)
५. स्वयं प्रबुद्धस्य जनुर्विधात्र्या मातु कुतश्चित्परिवृद्धबुद्धिः ।
 नेति स्वयं चास्तिदधार बुद्धिर्बुद्धिप्रकाशं जनतार्थनीयम् ॥
 (बुद्धि देवी माता की बुद्धि को प्रकाश करने वाली स्तुति करें)
६. रत्नावली यस्य गृहे पपात त्रिकालमाशार्थिजनस्य पूर्णा ।
 यत्रेति लक्ष्मीः स्वयमागतानामभ्यर्थितार्थादधिकं ददेऽर्थम् ॥
 (लक्ष्मी देवी त्रिकालरत्नवृष्टि के रत्नों को याचकों को देवे)
७. यस्योद्भवे नारकसंगतानां मुहूर्त्तमात्रा किलशांतिरासीत् ।
 तन्मातुरीशित्वविधा प्रपूर्तो शान्तिः स्वयं शान्तितति ततान ॥
 (शांति देवी जिनेन्द्र की उत्पत्ति समय नरक के जीवों को माता की
 भावनानुसार शांति विस्तारती है)
८. सर्वत्रजीवाभयदानदत्ते पुष्टिः स्वयं जीवगणस्य चासीत् ।
 चित्रं यतो ऽचेतनरत्नराशिः पुष्टीवभूवात्मगणेन सार्धम् ॥
 (पुष्टि देवी प्राणीमात्र को अभयदान देने में नियुक्त होती है)

९ रोगा क्षपायामपि यत्र लोकान्न प्रापुरेव स्वत एव तुष्टि ।
 परन्तु तुष्टि स्वनियोगसिद्धयै पादद्वय नैव जहौ जनन्या ॥
 (तुष्टि देवी माता के चरणों में रहकर तुष्ट होती है)
 एव कुमार्योऽ मरनाथशिष्टि विनैव मातुश्चरणार्चनायाम् ।
 प्रशक्तिभाजो हि बभूवुरीशप्रभाव एव प्रतिपत्तिहेतु ॥
 ताम्बूलदायीव परांग्रिसेवासवाहने कापि सुमज्जनेऽन्या ।
 महानसे कापि सुमगलार्थ गानेऽन्यका नृत्यविधौ नियुक्ता ॥
 प्रसाधनानि व्यजनं सुवस्त्र सौगध्यमुर्वी प्रतिमार्जन च ।
 आदर्शपात्राब्जविभूषणानि काप्यादधौ मातुरुद्ग्रभूम्याम् ॥
 छन्द कलागोष्ठीपुराणचर्चा मनोहरा याभिरहर्निशं तु ।
 प्रवर्तते यत्र सरस्वती हि स्वय प्रबुद्धा न जहाति पार्श्वम् ॥
 (दिवकुमारियां माता की सेवार्थ भोगोपभोग सामग्री से सेवा करे)
 कुत्रैः- श्री जिन माता सेवनित करत रहो सुखदाय,
 पुण्यलाभ हो जासमे पातक जाय पलाय ॥

देवियो । माता मरुदेवी की सेवा एव गर्भशोधन करते हुए माताश्री को निरतर प्रसन्न रखना और उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, उन्हे किसी प्रकार असुविधा न हो यह ध्यान रखना आवश्यक है । समय-२ पर मै एव शची गुप्त रूप से निरीक्षण करेंगे किसी प्रकार लापरवाही न होने पावे ।

(देवियां मस्तक नवा हाथ जोड़कर स्वीकार करती है)

इन्द्र की आज्ञा से देवियां माता की विविध प्रकार से सेवा करती है । माता को ताम्बूल देना, पाद मर्दन कराना, स्नान कराना, रसोई बनाना, मगल गान, नृत्य, श्रृंगार करना, पखा चलाना, वस्त्र समर्पण, सुगंध द्रव्य, बुहारी लगाना, दर्पण दिखाना, आभूषण धारण कराना, छन्द, शास्त्र, कला, चातुर्य, गोष्ठी, पुराण एवं तत्त्व चर्चा आदि कार्यों द्वारा माता की सेवा करती है ।

महारानी मरुदेवी का दरबार एवं तत्त्व चर्चा

स्टेज पर पलंग लगा दिया जाय । उस पर माता मरुदेवी विश्राम कर रही हों । देविया तलवार लेकर खड़ी हो । दो देवी चमर दुला रही हो कोई पखा हिला रही हो । तभी शेष देविया स्वागत सामग्री लेकर आती है और गीत गाती है ।

आई हैं सेवा करने स्वीकार करो मा
त्रैलोक्य की माता हो, भव दुख दूर करो मां
हे मां मरुदेवी हे मां मरुदेवी ॥टेका॥

अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए
जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए ।
दर्शन तुम्हारा पाया कल्याण करो माँ
त्रैलोक्य की माता हो भव दुख दूर करो माँ ॥१॥

दिविलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ
दर्पण इतर भोजन विविध स्वीकार करो माँ
भवसिधु से हमारा उद्धार करो माँ
त्रैलोक्य की माता हो भव दुख दूर करो माँ ॥२॥

हो धन्य माँ तुम धन्य भगवन् गर्भ मे आया
ससार के सब जीवो को यह हर्ष दिन आया
प्रमुदित करे गुनगान हम स्वीकार करो माँ
त्रैलोक्य की माता हो भव दुख दूर करो माँ ॥३॥

यह गर्भकल्याणक उत्सव सब मिलके मनाये
आशीष दो माँ अवसर तेरे जैसा हम पायें
कल्याण कर हमारा दुख दूर करो माँ
त्रैलोक्य की माता हो भव दुख दूर करो माँ ॥४॥

देवियां गायन एवं नृत्य करती हुई माता की सेवा करती हैं । छप्पन कुमारी देविया
क्रम से भेंट समर्पण करती है । वस्त्राभरण, दर्पण, इत्र, अंजन, मुकुट, माला, चमर,
छत्र, हार, मेंहदी, बिन्दी, रिबन, आदि भोगोपभोग की सामग्री भेंट करती हैं । उसी
समय देवियां आरती करती हुई नृत्य करती हैं ।

आरती गीत

मै तो आरती उतारू रे मरुदेवी माता की
जय जय मरुदेवी माता जय जय मा टेका
तीर्थकर की मात जग कल्याणी हो । जग०
पुत्र जगत विख्यात आत्म ज्ञानी हो । आत्म०
बार बार नमन करू चरणन मे शीश धरू
सेवा सम्हारू रे माता तेरी सेवा सम्हारू रे
मै तो आरती० जय जय मरुदेवी० ।१।

घर घर मे मगलगान बजत बधाई है । बजत०
गूज रही स्वरतान अरु शहनाई है । अरु०
हाथन मे दीप धरे झूम झूम नृत्य करे
चरणा निहारू रे माता तेरे चरणा निहारू रे
मै तो आरती उतारू रे जय जय मरुदेवी० ।२।

परदा गिरता है । पश्चात् माता मरुदेवी का राजमहल और देविया इन्द्राणिया
माता मरुदेवी के साथ धार्मिक चर्चा प्रश्नोत्तर के रूप मे प्रारभ करती है ।

माता पलग पर बैठी है देविया प्रश्न करती है ।

(१) प्रश्न देवी - मेरे मन में प्रश्न है, हे मरुदेवी माय,
मोक्ष प्राप्ति हो कौन विधि, दीजे हमें बताय ।

सौभाग्यशालिनी मातेश्वरी । ससार मे परिभ्रमण करने वाले प्राणी को, भवबधन से छूटने
और मुक्ति प्राप्ति के कौन से साधन है, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए ।

(१) उत्तर माता मरुदेवी - प्रिय देवी ध्यान से सुनना,
मानव की पर्याय मे, अल्प होय संसार,
संज्ञी पर्याप्ति कर्मयू, संयम मोक्ष का द्वार ।

देवी सुनो । मोक्ष प्राप्त कराने वाली यह चर्चा, जिस प्राणी का ससार परिभ्रमण
अत्यल्प रह गया हो वह कर्मभूमि का मानव, पर्याप्त, सज्ञी अवस्था प्राप्त कर, दिगम्बर
मुद्रा धारण कर, तेरह प्रकार का चारित्र पालन करता हुआ, शुद्धोपयोग के साधन
से कर्म सतति नाश करता हुआ, मोक्ष प्राप्त करता है लेकिन स्त्री पर्याय मे मोक्ष
नही होता ।

(२) प्रश्न सहेली- समझ नहीं पाई अभी इसका कारण माय,
मोक्ष न तिय पर्याय में दीजे हमें बताय ।

हेत्रिलोक शिरोमणि मां ! स्त्री की पर्याय से मोक्ष प्राप्त नहीं होने का कारण विशद रूपेण बतलाने की कृपा कीजिए ।

(२) माता मरु देवी - वज्रवृषभ नाराच को पाय न तिय पर्याय,
दृढ़ता ध्यान न बन सके मोक्ष कौन विधिपाय ।

हे सहेली ! इस आगम कथन की महानता को सुनो, स्त्री पर्याय में वज्रवृषभ नाराच संहनन नहीं होता और उसके बिना ध्यान में स्थिरता नहीं हो सकती, क्योंकि ध्यान एवं तपश्चरण के बिना मोक्ष मिलना सर्वथा असंभव है। यह योग्यता स्त्री पर्याय में नहीं हो सकती । (सहेलियां परस्पर चर्चा करती हैं)

हे सखि इससे भी विशेष बात सुनो -

(३) सहेली- नारी की पर्याय में, सम्यग्दृष्टि जीव,
जनम नहीं धारन करे, आगम रीत सदीव ।

सखि, स्त्री पर्याय से मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। अरे इस पर्याय में तो सम्यग्दृष्टि जीव भी जन्म नहीं लेता ।

(४) सहेली - सम्यग्दृष्टि जीव का, जनम न इसमें होय,
सत् दर्शन प्रगट करे, अवसर इसको सोय ।

प्रिय सखि नारी पर्याय में सम्यग्दृष्टि जन्म नहीं लेता, किंतु नारी को सम्यग्दर्शन पैदा करने का अधिकार सिद्धान्त कहता है । इसे इतना निंद्य मत कहो ।

(५) सहेली- चारों गति के जीव को, है समान अधिकार,
भेदज्ञान को प्राप्त कर, होवे भवदधिपार ।

विवेकशील सखि ! चारों गतियों में परिभ्रमण करने वाले जीवों को, सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का अधिकार आगम कहता है, तो स्त्री पर्याय में सम्यक्त्व प्राप्त होने में क्या बाधा आती है । अर्थात् नहीं ।

(६) सहेली - क्यो इसको निदित कहो, आगम कथन बताय,
पदवी धर को जन्म दे, बनती सबकी माय ।

सरल हृदय सखि । नारी पर्याय इतनी निद्य नहीं क्योकि आगम ने बताया है कि महापुरुषो को जन्म देने वाली यही पर्याय तो है ।

तीर्थकर बलभद्रहरि, प्रतिहरि श्रेष्ठपुमान,
गौतम जम्बू सुधर्म से, पुष्पभूतवलिमान ।
कुन्द कुन्द उमा शांति, विद्यासिधु महान,
प्रमदा जन पैदा करे, गौरव जग मे मान ।

स्त्री पर्याय की महानता भी सुनो सखी तीर्थकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, कामदेव आदि महापुरुषो को जन्म देती है समस्त आचार्यों के साथ वर्तमान मे आध्यात्म योगी युवासत बालब्रह्मचारी विद्यासागर जी इन्ही स्त्री रत्नो की देन है ।

(७) सहेली- सखियो बहुत क्या, तीर्थकर जैसे पुत्ररत्न को पैदा करने वाली यह महाभाग्यशालिनी मा हमारे बीच विराजमान है ।

भाग्यशालिनी मात यह, तीर्थकर प्रगटाय,
मां की शोभा पुत्र से, गौरव जग में पाय ।





तीर्थकर पुत्र को जन्म देनेवाली माता, त्रिलोक श्रेष्ठ एवं पूज्य होती है, किंतु ऐसा अवसर सबको प्राप्त नहीं होता ।


(८) सहेली - तीर्थकर को जन्म दे, जग में माता धन्य,
रवि को पूर्व दिशा धरे, यह सौभाग्य न अन्य ।

सखी, सूर्य को प्रगट करने वाली पूर्व दिशा ही है, उसी प्रकार तीर्थकर पुत्र रत्न को उत्पन्न करने का सौभाग्य माता मरुदेवी को प्राप्त हुआ है (बोलो मरुदेवी माता की जय) ३

निद्रा देवी की गोद मे, शयन करो सब जाय,
चर्चा अन्त करे यही, आलस्य सबको आय ।

(परदा गिरना सबका यथास्थान जाना माता मरुदेवी अपने शयनकक्ष मे लेट जाती है तथा रात्रि के अंतिम चतुर्थ पहर मे सोलह स्वप्नो का अवलोकन करती है ।)





सोलह स्वप्न

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| १. ऐरावत हाथी | ९. कमल पत्र से ढका स्वर्ण कलश |
| २. श्वेत बैल | १०. कमल सहित सरोवर |
| ३. सिंह | ११. लहराता हुआ समुद्र |
| ४. हाथी द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक | १२. रत्नजडित सिंहासन |
| ५. कल्पवृक्ष पर लटकती दो पुष्पमाला | १३. स्वर्ग से आता स्वर्ग विमान |
| ६. पूर्ण चन्द्रमा | १४. पृथ्वी से निकलता धर्मन्द्रभवन |
| ७. उदित होता सूर्य | १५. रत्नराशि |
| ८. क्रीड़ा करती हुई मछली | १६. निर्धूमअग्नि |

षोडशस्वप्नस्थापन (१)

माद्यत मिन्द्रकरिण शरदभ्र शुभ्रं पर्जन्यगर्जन निभोर्जित वृंहितं तम्
त्रैलोक्यपूज्यसुतलाभनिवेदक्षं जैनी निशांतसमये जननी निदध्यौ ।
स्वप्नदर्शनार्थं स्थापयामि (स्वप्नों पर पुष्प क्षेपण करें)

(रील द्वारा सोलह स्वप्न दिखलाये जाय) प्रातः काल होने को हं माता मरुदेवी को जगाने के लिए देवियां मंगल गीत प्रारंभ करती हैं ।)

गीत^१

अर्हन्त सिद्धाचार्य पाठक, साद्युपद वंदन करो,
निर्मल निजातम गुण मनन कर, पाप ताप शमन करो ।
अब रात्रितम विघटा सकल, यह प्रात होत सुकाल है,
अब भानु उदयाचल पै आयो, नभ कियो सब लाल है ॥१॥
पद्ये मनोहर शब्द बोलें, गव पवन चलात है,
चहुं ओर है भगवान सुमरण, वृक्ष प्रफुल्लित गात है ॥२॥
बाजे बजें रमणीक माता, गीत मंगल हो रहे,
तजिये शयन उठि जगत जननी, वीनती हम कर रहे ॥३॥
है समय सामयिक मनोहर, ध्यान आतम कीजिए,
है कर्म नाशन समय सुन्दर, लाभ निज सुख लीजिए ॥४॥

(माता शैय्या से उठकर णमोकार मंत्र का जाप करती हैं । माता रात्रि में देखे गये स्वप्नों की चर्चा देवियों से करती है ।)

(१)ने दे प्र. ति. पृष्ठ ३९८ (२)ब. शीतल प्रसाद, प्रतिष्ठा सार संग्रह, पृष्ठ ८१

मातागीत (दादरा)^(१)

मैने देखे सखी सोलह स्वप्ने, मैने देखे टिका
शुकल सुगज ऐरावत देखो ऐरावत देखो,
मेघसमान सुगरज घने । मैने देखे०

द्वितिय सफेद बैल दृढ़ देखा, बैल दृढ़ देखा
उन्नत कधा शब्द भने । मैने देखे०

तीजे सिंह धवल शुभ देखा, धवल शुभ देखा
कधालाल सुवर्ण बने । मैने देखे०

सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी हो लक्ष्मी देखी
नाग सूडघट न्हवन सने । मैने देखे०

पाचे फूलमाल है गधित, माल है गधित
भ्रमर भ्रमण गुण नाथ तने । मैने देखे०

छट्टे शशि पूरन तारायुत, पूरन तारायुत
अमृत झरता जगत तने । मैने देखे०

सप्तम सूर्य निशातमहारी, निशातमहारी
पूर्वदिशाते उदित ठने । मैने देखे०

सुवरण कलश द्योय जल पूरण, द्योयजल पूरण
कमल पत्रतें ढके सने । मैने देखे०

नवमे मीन युगल कर रमते, युगल कर रमते
देखे चचल भाव जने । मैने देखे०

दशवे भ्रमर रमणयुत सरवर, रमणयुत सरवर
कमलगधयुत लहर ठने । मैने देखे०

सागर दर्पणसम निर्मललख, सम निर्मललख
उठत उचुग तरग घने । मैने देखे०

बारम सिंहासन सुवरणमय, हा सुवरणमय
सिंह पीठ मणिजडित बने । मैने देखे०

तेरम स्वर्ग विमान रतनमय, विमान रतनमय
भेजत सुर अनुराग घने । मैने देखे०

चौदम नाग भवन भू उठते, भवन भू उठते
देखा कांति अपार बनें । मैंने देखे०

पन्द्रम रतन राशि द्युति पूरण, राशि द्युति पूरण
दुख दारिद्र संसार हनें । मैंने देखे०

सोलम धूमरहित अगनी शिख, हो अगनी शिख
कर्म बंधजलजात घनें । मैंने देखे०

उच्च वृषभ सुवरणमय आयो, सुवरणमय आयो
मुख प्रवेश करत अपनें । मैंने देखे०

ऐसे स्वप्न कभी नही देखे, कभी नहि देखे
अचरज होत, हृदय अपनें । मैंने देखे०

देवियों आज रात्रि के चतुर्थ पहर में, अत्यन्त सुखद एवं मनोहर स्वप्न जीवन में प्रथम बार देखने में आये हैं ।

(देवियां माता मरुदेवी की जय बोलती हैं एवं आनंद विभोर हो गीत गाती हैं)

माता सोलह स्वपने सखि देखे पिछली रैन

जन्मेंगे आदीश्वर स्वामी करने सब जग चैन । टेक ।

रतनं जड़ित अब कलश मंगावो, क्षीर समुद्र का नीर भरावो ।

माणिक मोंतिन चौक पुरावो, माता मरुदेवी नहवन करावो ।

यह गर्भकल्याणक उत्सव, मनावो दिन रैन । जन्मेंगे आदीश्वर स्वामी० ।१।

सखियो सबका भाग्य जगेगा, आदिनाथ का दर्श मिलेगा ।

तीन लोक का हित अब होगा, सब दुख हरने का मार्ग मिलेगा ।

दर्शन कर भगवन का, सफल होंगे नैन । जन्मेंगे आदीश्वर स्वामी० ।२।

देवियां आनंद मग्न हो गीत गाती हुई नृत्य करती हैं । और माता मरुदेवी की आज्ञानुसार सब अपने कार्य में लग जाती हैं । माता अपनी दैनिकचर्या को करती हैं । (परदा गिरता है)

गर्भकल्याणक का पूर्वरूप समाप्त!

चौबीस
तीर्थकर
वेवस्था

क्रमांक	तीर्थकर का नाम	चिह्न	नक्षत्र	राशि	पिता का नाम
१	ऋषभनाथ (आदिनाथ)	बैल	उत्तराषाढ	धनु	नाभिराय
२	अजितनाथ	हाथी	रोहणी	वृष	जितशत्रु
३	समवनाथ	घोड़ा	मृगासिर	मिथुन	जितारी
४	अभिनन्दननाथ	बन्दर	पुनर्वसु	मिथुन	स्वयवर
५	सुमतिनाथ	चकवा	मघा	सिंह	मेघराथ
६	पद्मप्रभ	लालकमल	चित्रा	कन्या	घरण
७	सुपार्श्वनाथ	साथिया	विशाखा	तुला	सुप्रतिष्ठ
८	चन्द्रप्रभ	चन्द्रमा	अनुराधा	वृश्चिक	महासेन
९	पुष्पदत्त (सुविघनाथ)	मगर	मूल	धनु	सुग्रीव
१०	शीतलनाथ	कल्मषकृक्ष	पूर्वाषाढ	धनु	दृढरथ
११	श्रेयाशनाथ	गेड़ा	श्रवण	मकर	विष्णु
१२	वासुपूज्य	भैसा	शतभिषा	कुम्भ	वासुपूज्य
१३	विमलनाथ	सूकर	उत्तराभाद्रपद	मीन	वृत्रवर्मा
१४	अनन्तनाथ	सेही	रेवती	मीन	सिंहसेन
१५	धर्मनाथ	वज्रदण्ड	पुष्य	कर्क	भानु
१६	शान्तिनाथ	हरिन	भरणी	मेष	विश्वसेन
१७	कुन्धुनाथ	वकरा	कृत्तिका	वृष	सूर्यसेन
१८	अरनाथ	मच्छ (मीन)	रेवती	मीन	सुदर्शन
१९	मल्लिनाथ	कलश	अश्विनी	मेष	कुम्भ
२०	मुनिसुव्रतनाथ	कछुआ	श्रवण	मकर	सुमित्र
२१	नमिनाथ	कमल	अश्विनी	मेष	विजय
२२	नेमिनाथ	शख	चित्रा	कन्या	समदविजय
२३	पार्श्वनाथ	सर्प	विशाखा	तुला	अश्वसेन
२४	वर्द्धमान (महावीर)	सिंह	उत्तराफाल्गुनी	कन्या	सिद्धार्थ

माता का नाम	गर्भावतरण से पूर्व स्थान	जन्मस्थान	वर्ण	यक्ष	यक्षिणी
मरुदेवी	सर्वार्थसिद्धि	अयोध्या	पीला	गोमुख	चक्रेश्वरी
विजयासेना	वैजयन्त	अयोध्या	पीला	महायक्ष	अजिता
सुसेना	अधोग्रैवेयक	श्रावस्ती	पीला	त्रिमुख	प्रज्ञप्ति
सिद्धार्था	वैजयन्त	अयोध्या	पीला	यक्षेश्वर	वज्रश्रखला
मगला	अधोग्रैवेयक	अयोध्या	पीला	तुम्बर	खगवरा
सुसीमा	वैजयन्त	कौसम्बी	लाल	पुष्पयक्ष	मनोनेमा
पृथ्वी	मध्यग्रैवेयक	वाराणसी	नील	मातग	काली
सुलक्षणा	वैजयन्त	चन्द्रपुरी	श्वेत	श्याम	ज्वालमलिनी
जयरामा	अपराजित	काकन्दी	श्वेत	अजित	महाकाली
सुनन्दा	आरण स्वर्ग	भद्रपुर	पीला	ब्रह्म	मानवी
नन्दा	अच्युत स्वर्ग	सिहपुरी	पीला	ईश्वर	गौरी
जयावती	महाशुक्र स्वर्ग	चम्पापुरी	लाल	कुमार	गाधारी
जयश्यामा	सहस्रार स्वर्ग	कम्पिला	पीला	चतुर्मुख	वैरोटी
सर्वयशा	अच्युत स्वर्ग	अयोध्या	पीला	पाताल	अनतमती
सुव्रता	सर्वार्थसिद्धि	रत्नपुर	पीला	किन्नर	मानसी
ऐरा	सर्वार्थसिद्धि	हस्तिनापुर	पीला	गरुड	महामानसी
श्रीकन्ता	सर्वार्थसिद्धि	हस्तिनापुर	पीला	गर्ध्व	जया
मित्रसेना	अपराजित	हस्तिनापुर	पीला	रवेन्द्र	तारावती
प्रभावती	प्राणत स्वर्ग	मिथला	पीला	कुवेर	अपराजिता
पद्मावती	अपराजित	राजगृह	श्याम	वरुण	बहुरूपिनी
विपला	जयन्त	मिथलापुरी	पीला	भृकुटी	चामुण्डा
शिवादेवी	प्राणत स्वर्ग	शीरीपुर	श्याम	गोमेद	अबादेवी
वामादेवी	अच्युत स्वर्ग	बनारस	नील	घरणेन्द्र	पद्मावती
त्रिसला	पुष्पोत्तर	कुण्डलपुर	पीला	मातग	सिद्धायिका

चौबीस तीर्थकरों की पंचकल्याणक तिथियां

क्रमांक	नामतीर्थकर	गर्भ कल्याणक	जन्म कल्याणक	तप कल्याणक	ज्ञान कल्याणक	निर्वाण कल्याणक
१	आदिनाथ	आषाढ वृ०२	चैत्र वृ० ९	चैत्र वृ० ९	फा वृ० ११	माघ वृ० १४
२	अजितनाथ	ज्येष्ठ वृ०३०	माघ शु० १०	मा०शु० ९	पौ०शु० ११	चैत्र शु० ५
३	सभवनाथ	फा०शु० ८	का०शु० १५	मार्ग०शु०१५	का०वृ० ४	चैत्र शु० ६
४	अभिनदननाथ	वैशाख शु० ६	मा०शु० १२	मा०शु० १०	पौ०शु० १४	वै० शु० ६
५	सुमतिनाथ	श्रा०शु० २	चैत्रशु०११	वै०शु०९	चै०शु० ११	चैत्र शु०११
६	पद्मप्रभ	माघ वृ० ६	का०वृ० १३	का०वृ०१३	चै०शु०१५	फा०वृ०४
७	सुपार्श्वनाथ	भा०शु०६	ज्ये०शु०१२	ज्ये०शु०१२	फा०वृ०६	फा०वृ०७
८	चन्द्रप्रभ	चैत्रवृ०५	पौ०वृ०११	पौ०वृ०११	फा०वृ०७	फा०वृ०७
९	पुष्पदत्त	फा०वृ०९	मार्ग०शु०१	मार्ग०शु०१	का०शु०२	भा०शु०८
१०	शीतलनाथ	चैत्रवृ०८	मा०वृ०१२	माघवृ०१२	पौ०वृ०१४	आश्वि०शु०८
११	श्रेयासनाथ	ज्ये०वृ०६	फा०वृ०११	फा०वृ०११	मा०वृ०३०	श्रा०शु०१५
१२	वासुपूज्य	आषा०वृ०६	फा०वृ०१४	फा०वृ०१४	माघशु०२	भा०शु०१४
१३	विमलनाथ	ज्येष्ठ वृ०१०	माघशु०४	मा०शु०४	मा०शु०६	आषा०वृ०८
१४	अनतनाथ	का०वृ०१	ज्ये०वृ०१२	ज्ये०वृ०१२	चैत्रवृ०३०	चैत्रवृ०४
१५	धर्मनाथ	वै०वृ०१३	मा०शु०१३	मा०शु०१३	पौ०शु०१५	ज्ये०शु०४
१६	शातिनाथ	भा०वृ०७	ज्ये०वृ०१४	ज्ये०वृ०१४	पौ०शु०१०	ज्ये०वृ०१४
१७	कुशुनाथ	श्रा०वृ०१०	वै०शु०१	वै०शु०१	चै०शु०३	वै०शु०१
१८	अरनाथ	फा०शु०३	मार्ग०शु०१४	मार्ग०शु०१०	का०शु०१२	चै०वृ०३०
१९	मल्लिनाथ	चै०शु०१	मार्गशु०११	मार्ग०शु०११	पौ०वृ०२	फा०शु०५
२०	मुनिसुव्रतनाथ	श्रा०वृ०२	वै०वृ०१०	वै०वृ०१०	वै०वृ०९	फा०वृ०१२
२१	नमिनाथ	आश्विन०वृ०२	आषा०वृ०१०	आषा०वृ०१०	मार्ग०शु०११	वै०वृ०१४
२२	नेमिनाथ	का०शु०६	श्राव०शु०६	श्रा०शु०६	आश्वि०शु०१	आषा०शु०७
२३	पार्श्वनाथ	वै०वृ०२	पौ०वृ०११	पौ०वृ०११	चैत्रवृ०४	श्रा०शु०७
२४	वर्द्धमान	आ०शु०६	चैत्रशु०१३	मार्ग०वृ०१०	वै०शु०१०	का०वृ०३०

नोट - पंचकल्याणक की तिथियां आचार्यों ने विभिन्न ग्रंथों में अलग-अलग दी हैं। यह तिथियां कल्याणकों की संस्कृत पूजा से ली हैं।

भगवान आदिनाथ के पूर्वभव

- १ राजपुत्र जयवर्मा - मुनिमुद्रा धारण करके तप करते हुए सर्प ने डसा, शांतिपूर्वक समाधि के साथ प्राण त्याग दिये ।
- २ महावल नरेश - मत्रियो से चर्चा स्वय बुद्ध मत्री द्वारा सबोधन एव मुनि मुद्रा गृहण की ।
- ३ ललितागदेव - देवागनाओ के भोग भोगते हुए आत्मदृष्टि एव स्वय प्रभा देवी से विरक्ति ।
- ४ राजा वज्रजघ - ललिताग देव स्वर्ग से आकर वज्रजघ हुआ और स्वयप्रभा श्रीमती हुई वन मे मुनिराजो को आहारदान दिया ।
- ५ उत्तमभोगभूमि मे उत्पन्न हुये एव स्वयबुद्ध मत्री मुनि हुए उन्होने युगल दपति को सबोधन दिया ।
- ६ दूसरे स्वर्ग मे श्रीघर देव एव श्रीमती का जीव भी स्वय प्रभदेव हुआ तत्त्वचर्चा करते हुए समय व्यतीत किया ।
- ७ श्रीघर देव सुसीमा नगर मे राजपुत्र हुआ और स्वयप्रभदेव केशव पुत्र हुआ मुनिमुद्रा धारण कर सल्लेखना धारण की ।
- ८ अच्युत स्वर्ग मे इन्द्र, केशव प्रतीन्द्र हुए। दोनो ने तत्त्व चर्चा करते हुए आयु पूर्ण की ।
- ९ वज्रनाभि चक्रवर्ती के वज्रसेन राजपुत्र हुआ और प्रतीन्द्र का जीव गृहपति धनदेव हुआ । वज्रसेन ने तीर्थकर के पादमूल मे १६ कारण भावनाओ का चितवन कर तीर्थकर प्रकृति का बध किया ।
- १० सर्वार्थसिद्धि मे अहमिन्द्र हुआ और तैतीस सागर तक तत्त्व चर्चा मे कार्त्त व्यतीत किया वहा से चलकर तीर्थकर आदिनाथ हुए ।

गर्भ क्रिया

(यह क्रिया मध्य रात्रि के समय की जावे)

मंगलाष्टक, दिग्बन्धन, रक्षा मंत्र, शांति मंत्र, एवं पंचकल्याणस्तोत्र एवं भक्तियां पढ़कर कार्य आरंभ करें ।

(सामग्री-सूची के अनुसार)

आकर शुद्धि विधि

कल्याणपंचकमनुक्रमतः सुरेन्द्राः कृत्वा स्वजन्मवहनं सफलं गणंत ।

तत्पंचकावतरणे विधृतिक्रियार्था घन्या भवाम इति तान्यनुभावयामः ॥^(१)

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं । ओं जय जय जय । नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु । नंद नंद नंद । अनुसाधि अनुसाधि अनुसाधि । पुनीहि पुनीहि पुनीहि । मांगल्यं मांगल्यं मांगल्यं । शान्तिरस्तु । (पुष्पांजलि क्षेपण करना)

दीपक स्थापन

त्रैलोक्यदीपस्य जिनेश्वरस्य बिम्बं निवेश्यो चितदर्भतल्पे ।

तस्याग्रतोऽहं प्रतिबोधयामि द्वौ जाज्वलज्ज्वालयुतौ प्रदीपौ ॥^(२)

ओं अज्ञानतिमिरहरं दीपद्वयस्थापनं करोमीति ।

श्रीवत्स लांछन स्थापन (टंकियारोपण) ^(३)

अत्रैव शैलानयन विधाय मुहूर्त्तवर्षे विधिवेदिशिल्पी

पद्मासनकाय विसर्जनांकं बिम्बं जिनेन्द्रस्य घटेत युक्त्या ।

ओं टंकियादूषण निर्नाशनाय सर्वायुधभिन्नदाय वज्रदेहाय जगन्नाथाय ह्मल्व्यू विघ्नविनाशकाय इत्रां इत्रीं इन्द्रां इन्द्रः क्षां क्षीं क्षूं क्षीं क्षः अप्रतिचक्रेफट् विचक्राय स्वाहा ।

(टंकी हथौड़ी द्वारा श्रीवत्सलांछन बनावें)

विधिनायक स्थापन मंत्र

ओं नमः श्री तीर्थेशाय सर्वविघ्न विनाशनाय नमोऽर्हते स्वाहा ।

(षट्कोण शिला पर विधिनायक प्रतिमा स्थापित करें)

(१) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ७१४ (२) श्री. ने. दे., प्र. ति. श्लोक १२ पृष्ठ

४२२ (३) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ३४३

दिव्ये द्रव्यविशुद्ध एव जठरे यो रत्नविष्टिक्षण -
 प्रीताया पयसीव पद्ममवसन्मातु स्वयशुद्धिमान्
 यन्नामापि विशुद्धयेऽस्ति जगतो ध्यायन्ति य योगिन-
 तस्याप्याकरशुद्धिमेष विधिरित्यातन्वता देवता ।^(१)
 ओ आकरशुद्धिविधाने पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।
 (विधिनायक और सब प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करे)

प्रतिमास्पर्शन क्रिया (२)

अनन्यसाधारणसद्गुणाना तव स्मरन्नस्तमितस्मरार्ते ।
 जिनेन्द्रसाक्षात्कृतसर्वतत्त्व त्वामात्मन सन्निहित करोमि ॥

ओउसहाय दिव्यदेहाय सज्जोजादाय महष्णाय अनंत चउठ्ठयाय परमसुहृपइठियाय
 गिम्मलाय स्वयंमवे अजरामर परमपद- पत्ताय मम हिदि अविसण्णिहिदाय स्वाहा ।
 (सौधर्मेन्द्र सात बार विधिनायक का स्पर्श करे)

प्रतिमा का स्नपन (३)

शिल्प्यादिसस्पर्शनदोषशुद्धये साक्षात्परब्रह्म च सन्निधातु ।
 जिनादिमन्त्रेण जिनेन्द्र बिम्ब सप्तैव वारानभि मन्त्रयामि ।

ओं अर्हद्म्योनमः केवललब्धिभ्यो नमः क्षीर स्वादुलब्धिभ्योनमः
 मधुरस्वादुलब्धिभ्यो नमः सभिन्नश्रोतृभ्यो नमः पादानुसारिभ्यो नमः
 कोष्ठबुद्धिभ्यो नमः वीजबुद्धिभ्यो नमः सर्वावधिभ्यो नमः
 परमावधिभ्यो नमः ओ ह्री वल्गु- वल्गु निवल्गु निवल्गु ओं वृषभादि
 वर्धमानान्तेभ्यो वषट् संवौषट् स्वाहा । (प्रतिमा पर पुष्प क्षेपण करे)

ओं क्षीरसमुद्र वारिपूरितेन मणिमय मंगलकलशेन भगवदर्हत्प्रतिकृतिं स्नपयामः ।
 सब प्रतिमाओ पर जल से धारा करे फिर इन्द्रानी उबटन लगावे ।

उबटन लगाना

पिष्टैश्च कल्कचूर्णैश्च गघद्रव्यसमुद्भवै
 जिनागसंगताज्याद्ये स्नेहपूत करोम्यहम् ।

ओं झं वं हः फः भ्वी क्ष्वी पवित्रतर कल्कचूर्णेन जिनांगोद्धर्तनं करोमीति स्वाहा ।
 (इन्द्राणी सब प्रतिमाओ पर उबटन लगावे)

(१) प आ. ध, प्र. सा अध्याय ४ श्लोक ३८ (२) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ४५७ श्लोक २२

(३) वही, पृष्ठ ४५८ श्लोक २३

सर्वोषधि अभिषेक^(१)

कत्कूलैलाजातिपत्रलवगश्रीखण्डोग्राकुष्ठसिद्धार्थमय्या ।

सर्वोषध्या वासितैस्तीर्थतोयै कुम्भोद्गीर्णे रनापयाम्यह मर्चाम् ॥

ओं णमो अरिहंताणं सब्ब शरीरा वच्छिदे महाभूय आय आय आय गिहण गिहण
गिहण स्वाहा ।

(सर्वोषधि से अभिषेक करे)

जलाभिषेक

ओं ह्री श्री भगवदर्हत प्रतिकृतिं रनपयामः ।

(विधिनायक एव सब प्रतिमाओ का जल से अभिषेक करें)

शान्तिधारा (२)

ज्वलितसकललोकालोकलोकोत्तरश्रीकलितललितमूर्ते कीर्तितेन्द्रैर्मुनीन्द्रै ।

जिनवरतव पादौ पान्ततः पातयाम भवदवशमनार्थामर्थत शान्तिधाराम् ॥

ओं ह्री श्री भगवदर्हत्प्रतिकृतिं शान्तिधारां गृहीध्वं गृहीध्वं अर्हं नमः भद्रं भवतु जगतां
शान्ति- धारां निःपातयामि शान्तिकृद्म्यः स्वाहा । (शान्तिधारा करें)

मंगलं जिननामानि मंगलं मुनिसेवन

मंगल श्रुत मध्येय मंगल बिम्बनिर्मितिः । (३)

ओं णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं णमो लोए
सब्बसाहूणं, ओ जय जय जय, नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु, नंद नंद नंद, अनुसाधि
अनुसाधि अनुसाधि, पुनीहि पुनीहि पुनीहि, मांगल्यं मांगल्यं मांगल्यं, शान्तिरस्तु ।

यह मंत्र पढकर समस्त प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करना । पश्चात् गर्भावधारण
की क्रिया करे । मजूषा को शुद्ध जल, सर्वोषधि के जल से शुद्ध कर फिर अष्टगंध
को जल में घिसकर मजूषा में लगावे (पश्चात् मजूषा में माता की कल्पना करें)

अम्बा सर्वा सवित्र्यस्त्रिजगदधिपति प्राप्त पूजाधिकारा,

अत्रागत्या ध्वरोर्व्या यजनकृत्तमिह स्वादरेण वृणंतु ।

अध्वर्यू पत्निका वाधृततनु कुलयोर्दोष हीना प्रकल्प्य,

वादित्रोद्धोषपूर्व विहित यमदमा भूषयेत्पुण्यमूर्तिम् ॥

कदाचिदेषा न भवेद् गुणाढ्या मजूषिकां कल्पतु मातृकार्ये,

एव चतुर्विंशतिजिनप्रसूना नामानि पुण्यानि कृत्ती वहेत । (४)

(१) प. आ. ध, प्र. सा अध्याय ४/७५ (२) श्री ने. दे, प्र. ति. पृष्ठ ४८९

(३) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक ७१५ (४) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ७१८, ७१९

चौबीस तीर्थकरों की माताओं के नाम (१)

मरुदेवीं वृषस्यांका विजयामजितस्य च ।
 सुषेणा संभवेशस्य सिद्धार्था नन्दनप्रभो ॥
 सुमगला हवा सुमते सुसीमा पद्मरोचिषः ।
 वसुन्धरा सुपार्श्वस्य लक्ष्मणा चन्द्र लक्ष्मणः ॥
 रामा श्री पुष्पदन्तस्य सुनन्दा शीतलार्हतः ।
 विष्णुश्रियं श्रेयसश्च वासुपूज्यप्रभोर्जयाम् ॥
 सुशर्मलक्ष्मी विमलार्हतोऽनन्तस्य सुव्रताम् ।
 एरिणीं धर्मनाथस्य कमलां शान्त्यधीशनः ॥
 सुमित्रां कुंभुनाथस्य अरभर्तु प्रभावतीम् ।
 मल्ले पद्मावतीं वप्रां सुव्रतस्य मुनीशिनः ॥
 विनतां नमिनाथस्य शिवा नेमि जिनेशिनः ।
 देवदत्तां च पार्श्वस्य वीरस्य प्रियकारणीम् ॥

ओ मरुदेव्यादि जिनेन्द्र मातरोऽत्र सुप्रतिष्ठिता भवंत्विति स्वाहा ।
 (मंजूषा पर पुष्प क्षेपण करें)

गर्भावतरण क्रिया (गर्भशोधन मंत्र)

ओं भूर्भुवः श्रीं अर्हं मातृगर्भाशयं पवित्रं कुरु कुरु इवी इवी क्ष्वी क्ष्वी ह्रां ह्री हूं ह्रौं
 ह्रः स्वाहा ।

(इन्द्राणी या देवियां मंजूषा मे केशर का लेपन कर शुद्ध करें ।)

(मंजूषा के अंदर बीच में स्वस्तिक बना दें और चादी का स्वस्तिक रखें उस पर भद्रासन
 रखकर मातृका यंत्र और सुरेन्द्र यंत्र की स्थापना करें)

१. मातृका मंत्र (१०८ वार जाप)

ओं नमोऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः, क ख ग घ ङ,
 च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष
 स ह ह्री क्लीं क्रौं स्वाहा ।

२. सुरेन्द्र मंत्र (१०८ वार जाप)

ओं ह्रां वषट् णमो अरिहंताणं संवोषट्ओं ब्रूं क्लीं त्रीं द्रां ह्रीं क्रौं आ सः
 ओं नमोऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः, क ख ग घ ङ,

च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब, भ म, य र ल व श ष
स ह ल क्षः क्ली ह्री क्रौं स्वाहा ।

नंद्यावर्त स्वस्तिक स्थापन मंत्र

ओ ह्री अर्ह नंद्यावृत वलयाय स्वाहा । (स्वस्तिक स्थापना)

भद्रासन स्थापन मंत्र (१)

भद्रासनं निवेश्यात्र विश्वकर्मसमक्षतः

गर्भावतारकल्याण स्थापया मीदमर्हताम् ।

ओं ह्री पूर्वस्यां पीठस्य पुरस्ताद् भद्रासनं निवेशयामि । (भद्रासन स्थापित करे तथा
भद्रासन पर मातृका एव सुरेन्द्र यत्रों को स्थापित करे)

ओं ह्रीं गर्भक्रिया समये मंजूषायां मातृकायंत्रं सुरेन्द्रयंत्रं च स्थापयामि ।

विधिनायक प्रतिमा पर केशर लगाने का मंत्र

ओं ह्रां ह्री हूं ह्रौं ह्रः भगवदर्हतप्रतिकृतिं सर्वागशुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ।
(विधिनायक और सब प्रतिमाओं को केशर लगावे)

प्रतिमा मंजूषा मे स्थापित करने का मंत्र (२)

योगंगाम्बुसुरत्नपुष्पवृक्षाभूपस्कारमिद्रासन

द्रक्कूपं प्रमदाकुक्लीवृक्तजगद्गर्भप्रविशोत्तमे ।

लगने वामतिरंजयन् रविरिह प्राची परानुग्रह -

ग्राहोद्यद्घृतिवर्द्धतेस्म सुदृशां सोऽयं जिनस्तन्मुदे ।

ओं नमोऽर्हते केवलिने परमयोगिने अनंतविशुद्ध परिणाम परिस्फुरच्छुक्लध्यानान्नि
निर्दग्ध कर्मबीजाय प्राप्तानंतचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलाय वरदाय
अष्टादशदोष- वर्जिताय स्वाहा । (गर्भावतारणार्थं पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्)

गर्भावतारण मंत्र

ओं ह्री सर्वार्थसिद्धि अहमिन्द्रमरुदेव्यां कुक्षौ अवतरणं कुरुकुरु । (यह मंत्र पढ़कर
विधिनायक को मंजूषा मे स्थापित करे प्रतिमा को वस्त्र न लगावे किंतु मंजूषा को
वस्त्र से आच्छादित करे प्रत्येक तीर्थकर के अवतरण का स्थान और माता के नाम
उच्चारण करना) (२५०-२५१ पृष्ठ के चार्ट के अनुसार)

मंजूषा को वस्त्र से आच्छादित करने का मंत्र (१)

ता मूलप्रतियातना सुरपतिर्गधात्तवर्ष्यप्रभा
मजूषानिहिता विधाय विनयान्मातु प्रसूतिस्थले ।
आनीयापि निधापयेत् शुचितरैर्वस्त्रैरहस्येरज -
न्यर्धेचाल्पतनौतु तत्र वसनाच्छन्ना क्रियान्मत्रवित् ।
इतिपठित्वा मंजूषा वस्त्रेण आच्छादयामि ।

(मंजूषा को कपड़ा से आच्छादित कर प्रसूतिस्थान में (गर्भगृह) स्थापित करें। यह क्रिया अर्धरात्रि में ही की जाती है)

(तत्पश्चात् सब प्रतिमाओं को वस्त्र से अलग-अलग आच्छादित करें)

माता मरु देवी को गर्भगृह में ही विराजमान करें। अर्थात् गर्भगृह में ही शयन कराने की व्यवस्था की जाय।

ओं धनाधिपते राजप्रासादे रत्नवृष्टि मुञ्चतु मुञ्चतु स्वाहा ।

(कुञ्चैर राजमहल में रत्नवृष्टि करें)

सर्वर्तुजानि फलपुष्पविलेपनानि गन्धासनोपकरणानि पवित्रतानि । (२)
सस्थापयत्वधिगृह जिनमातृकाया भोगोपभोगरुचिराणि मनोहराणि ॥
इदं पठित्वा जिनमातृसौधे वस्त्राभूषणमण्डनसर्वर्तुज-
फलपुष्पचन्दनमालादिमनोहरद्रव्याणि स्थापयेत् ।

गर्भगृह को अनेक शोभा सयुक्त करें और सुन्दर पदार्थों की स्थापना करें। तत्पश्चात् शान्ति भक्तिपढकर कार्य समाप्त करें।

देवियों द्वारा माता की सेवा (३)

ताम्बूलदायिन्यपराधिसेवा सवाहनेकापि सुमज्जनेऽन्या-
महानसे कापि सुमगलार्थं गानेऽन्यका नृत्यविधौ नियुक्ता ।
प्रसाधनानि व्यजन सुवस्त्र सौगन्ध्यमुर्वीप्रतिमार्जन च
आदर्शपात्राब्जविभूषणानि काप्यादधौ मातुरुदग्रभूम्याम् ॥
छन्द कलागोष्ठीपुराणचर्चा मनोहरा याभिरहर्निशतु ।
प्रवर्त्यते यत्र सरस्वतीहि स्वयं प्रबुद्धा न जहाति पार्श्वम् ॥

गर्भ की क्रिया पश्चात् देविया माता की सेवा अनेक प्रकार से करती हैं और अपना अहोभाग्य मानती हैं। अहर्निशि माता साथ में समय व्यतीत करती क्षणमात्र को भी माता से पृथक् नहीं रहना चाहती। विविध प्रकार तत्त्व चर्चा और मनोरजन करती हैं। (इस प्रकार गर्भावतरण क्रिया समाप्त हुई)

(१) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ७२९ (२) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ७२३

(३) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ७५० से ७५२

गर्भकल्याणक पूजा (संस्कृत)

स्थापना

(नित्यमह अभिषेक पूजा के पश्चात् गर्भकल्याणक पूजा करें)

विवु घपतिपदेसान्मासषट्पूर्वमेत्य धनदधनसुवृष्टि कारयामासयेषा

जनकसदनभूम्या दर्शस्वप्नान् यतस्तान् जननि विमलगर्भे संस्थितान् स्थापयामि

ओं ह्री गर्भकल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रा अत्र अवतर अवतर संवौषट् ।

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्

अष्टक

कनककुम्भगतै कमलै वरै कदलिगर्भगतेन सुवासितै ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृत्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो जलम् निर्वपामीति स्वाहा ।

मलयचन्दनचन्दनसद्भवैर्वरसुवर्णसुवर्णसुवर्णकैः ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृत्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यः चन्दनम् निर्वपामीति स्वाहा ।

कमलशालिजकंजसुवासितै सुवृत्तसुन्दरकैरिवतण्डुलैः ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृत्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो अक्षतम् निर्वपामीति स्वाहा ।

वरसुचपककेतिककजकैः जिनगुणैरिवजातजपुष्पकैः ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृत्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यः पुष्पम् निर्वपामीति स्वाहा ।

रसरसान्वितभोज्यशुभैर्वरैः सुरद्रुमोद्भवकैश्च सुधोपमैः ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृत्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो नैवेद्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

मणिसुवर्तिसुतैलप्रदीपकैः प्रवरबोधनिभैर्हतध्वान्तकैः ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृत्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो दीपम् निर्वपामीति स्वाहा ।

अगरचन्दनचन्द्रसुधूपकैः भ्रमरमण्डलमोहितविष्टपैः ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृत्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो धूपम् निर्वपामीति स्वाहा ।

क्रमुकलागलचारणमुख्यकैर्षफलैरिव मिष्टवरैर्फलै ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृक्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति जिनेम्यः फलम् निर्वपामीति स्वाहा ।

कनकपात्रगतैर्विविधार्धकैर् जननि सिधुजलाञ्जलिरूपकैर् ।

त्रिदशसुन्दरशोभितगर्भगान् त्रिदशनाथवृक्तोत्सवकान् यजे ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो अर्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रत्येक अर्घ

आषाढकृष्णपक्षे च द्वितीयाया जनोत्तम ।

मरु देवीगर्भजात पूजयाम्यष्टकार्चनम् ॥१॥

ओं ह्री आषाढ कृष्णपक्षे द्वितीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभदेवायार्घ्यम् ।

ज्येष्ठमासे त्वमावस्या रोहिणी सुनक्षत्रके ।

देव्या विजयसेनाया गर्भप्राप्त जिन यजे ॥२॥

ओ ह्री ज्येष्ठ कृष्णामावस्यायां गर्भकल्याणकप्राप्तअजितदेवायार्घ्यम् ।

फाल्गुने सितपक्षे च द्यष्टम्या सभव जिन ।

सुषेणाय महागर्भे यजेऽह जिनपुगवम् ॥३॥

ओं ह्री फाल्गुनशुक्लाष्टम्यां गर्भकल्याणकप्राप्तसंभवजिनायार्घ्यम् ।

वैशाखशुक्लपक्षे च तिथिषष्ठ्या जिनोत्तम ।

सिद्धार्था गर्भसजात यजेऽहमभिनन्दनम् ॥४॥

ओ ह्री वैशाखशुक्लाषष्ठ्यां गर्भकल्याणकप्राप्तअभिनन्दनदेवायार्घ्यम् ।

श्रावणे चार्जुनेपक्षे सुमति मतिदायक ।

द्वितीयाया मुदा गर्भे, मगलाया यजे सदा ॥५॥

ओ ह्री श्रावणशुक्लाद्वितीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तसुमतिदेवायार्घ्यम् ।

माघमासे शुभे कृष्णे, षष्ठ्या गर्भे यजाम्यह ।

सुसीमाया महादेव्या, पद्मप्रभजिनेशिन ॥६॥

ओं ह्री माघकृष्णाषष्ठ्यां गर्भकल्याणकप्राप्तपद्मप्रभायार्घ्यम् ।

पुण्ये भाद्रपदे मासे, शुक्ले षष्ठ्या सुपाश्वक ।

मातृवसुन्धरागर्भे यजामि नृपनायक ॥७॥

ओं ह्री भाद्रपदशुक्लाषष्ठ्या गर्भकल्याणकप्राप्तसुपाश्वदेवायार्घ्यम् ।

- चैत्रकृष्णे सुपचम्यां चन्द्राभ चन्द्रलाञ्छन ।
जातं सुलक्ष्मणागर्भे, महामि वसुद्रव्यकै ॥८॥
- ओ ह्री चैत्रकृष्णापंचम्यां गर्भकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रभायार्घ्यम् ।
नवम्या फाल्गुने कृष्णे, रमादेवि शुभोदरे ।
पुष्पदत्त यजे नित्यमष्टद्रव्यसमुच्चये ॥९॥
- ओं ह्री फाल्गुनकृष्णानवम्यां गर्भकल्याणकप्राप्तपुष्पदंतायार्घ्यम् ।
चैत्रमासे सुकृष्णे च, पक्षेऽष्टम्या सुशीतलं ।
यजामि विधिना गर्भे, सुनदा मातृसौख्यद ॥१०॥
- ओं ह्री चैत्रकृष्णाष्टम्यां गर्भकल्याणकप्राप्तशीतलायार्घ्यम् ।
ज्येष्ठकृष्णतिथौ षष्ट्यो, विमलोदरगर्भक ।
यजे महोत्सव कृत्वा, सुरासुरनमस्कृत ॥११॥
- ओं ह्री ज्येष्ठकृष्णाषष्ट्यां गर्भकल्याणकप्राप्तश्रेयांसनाथाऽर्घ्यम् ।
आषाढकृष्णपक्षे च, षष्ट्या गर्भे जिनेशिनं ।
जयावत्युदरे जात, चर्चे नृसुरसेवितं ॥१२॥
- ओ ह्री आषाढकृष्णाषष्ट्यां गर्भकल्याणकप्राप्तवासुपूज्यायार्घ्यम् ।
कपिलाया सुरामाया, सहस्त्रारात्समागत ।
ज्येष्ठकृष्णदशम्या च, यजे गर्भगत जिनं ॥१३॥
- ओं ह्री ज्येष्ठकृष्णदशम्यां गर्भकल्याणकप्राप्तविमलायार्घ्यम् ।
कार्तिके कृष्णपक्षे च, सुदिने प्रतिपत्तिथौ ।
जयश्यामोदरेऽनत, यजेऽह सुमहोत्सवै ॥१४॥
- ओ ह्री कार्तिककृष्णाप्रतिपदायां गर्भकल्याणकप्राप्तअनन्तनाथायार्घ्यम् ।
वैशाखस्यासिते पक्षे, त्रयोदश्यां सुधर्मकं ।
सुप्रभाया सुगर्भे च, यजे श्रीगुणसागर ॥१५॥
- ओं ह्री वैशाख कृष्णा त्रयोदश्यां गर्भकल्याणकप्राप्तधर्मनाथायार्घ्यम् ।
भाद्रे सुश्यामपक्षे च, सप्तम्या सुमहोत्सवै ।
ऐरादेव्युदरे जातं, यजेऽह गर्भसंगतं ॥१६॥
- ओं ह्री भाद्रकृष्णासप्तम्यां, गर्भकल्याणकप्राप्तशान्तिनाथायार्घ्यम् ।
श्रावणे कृष्णपक्षे च, दशम्या कुन्थुनाथक ।
श्रीकातागर्भसभूत, यजे कृत्वा महोत्सवं ॥१७॥
- ओं ह्री श्रावणकृष्णादशम्यां गर्भकल्याणकप्राप्तकुन्थुनाथायार्घ्यम् ।

- फाल्गुने शुक्लपक्षे च, तृतीयाया जिनोत्तम ।
मित्रसेनोदरे जात, गर्भ सपूजये मुदा ॥१८॥
- ओं ह्री फाल्गुनशुक्लातृतीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तअरनाथायार्घ्यम् ।
चैत्रमासे शुक्ल पक्षे, प्रतिपद्विसे शुभ ।
प्रजावत्युदरे जात, यजे गर्भोत्सव मुदा ॥१९॥
- ओं ह्री चैत्रशुक्लाप्रतिपदायां गर्भकल्याणकप्राप्तमल्लिजिनायार्घ्यम् ।
श्रावणे कृष्णपक्षे च, द्वितीयाया सुराधिपै ।
वृत्त गर्भोत्सव यस्य, त यजे मुनिसुव्रतम् ॥२०॥
- ओं ह्री श्रावणकृष्णाद्वितीयायां, गर्भकल्याणकप्राप्तमुनिसुव्रतनाथायार्घ्यम् ।
आश्विने कृष्णपक्षे च, द्वितीयाया जिनोत्तमम् ।
सुभद्रा गर्भसभूत, नमिनाथमह यजे ॥२१॥
- ओं ह्री आश्विनकृष्णाद्वितीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तनमिनाथायार्घ्यम् ।
कार्तिके शुभ्रपक्षे च, षष्ट्या श्री नेमिनाथक ।
शिवादेव्या सुत गर्भे, सयजामि जलादिकै ॥२२॥
- ओं ह्री कार्तिकशुक्लाषष्ट्यां गर्भकल्याणकप्राप्तनेमिनाथायार्घ्यम् ।
वैशाखकृष्णपक्षे च, द्वितीयाया जिनोत्तमम् ।
यजे वामोदरे पार्श्व, विश्वानदकर परम् ॥२३॥
- ओं ह्री वैशाखकृष्णाद्वितीयायां गर्भकल्याणकप्राप्तपार्श्वनाथायार्घ्यम् ।
आषाढे शुभ्रपक्षे च, षष्ट्या तिथौ सुसन्मतिम् ।
त्रिशला देव्युदरज, सयजे वसुद्रव्यकै ॥२४॥
- ओं ह्री आषाढशुक्लाषष्ट्यां गर्भकल्याणकप्राप्तमहावीरायार्घ्यम् ।

जयमाला

गीर्वाणी सुरप्रेरितामरमहा रूपागनाभि सुषट्-
पचाशत्सु प्रमाणकाभिरमला एषा जनन्या चिर ।
गर्भशोध्य च वस्त्रमण्डलभरै रनानादिभि सेविता-
स्तेमीगर्भगता जयन्तु सुजिना शक्रेभ्य सन्मानिता ॥१॥

भुक्तिस्वेदा. सदा जोगशोकाहरा, जल्लमुक्तागका निर्मलाशकरा ।

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका ॥२॥

क्षीरसिन्ध्वोज्ज्वल शुभ्र देहस्तका, गर्भदुःखत्यागया मद्य संस्थानका ।

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका. ॥३॥

वज्रसर्वागका वज्रसेव्यासदा, शुद्धसौरप्यगा सुन्दरा सौख्यका

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका ॥४॥

लक्षणो लक्षणा अष्ट युक्तै शते, व्यजनैर्शौभनैर्नागसख्यै शतै

ते जयन्तु जिनाभव्य हल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका ॥५॥

चन्द्रश्रीखण्डित श्रेष्ठगधाकिता, पुण्यपात्रा परापूति गंधोज्जिता

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका ॥६॥

निर्भया नोपमानतवीर्यापरा, भव्यभावाशुभा विश्वतत्त्व करा

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिकाः ॥७॥

सर्वलोकप्रिया भूततोषकरा., स्पष्टमिष्टाक्षरा दिव्यभाषोत्तरा.

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका. ॥८॥

मातृगर्भे महाबोधिनिभूषिता, श्रेष्ठसौख्याप्तका दुःखदोषोज्जिता ।

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका. ॥९॥

. सर्वदेवार्चिता पितृपादाब्जका, दिव्यदेवागणोपास्तसुमातृकाः ।

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका. ॥१०॥

रैदवृष्टैधनै पूर्णपितृगृहा, देवदेवै कृता गर्भपूजावहा

ते जयन्तु जिनाभव्यहल्लादिका, शुद्धगर्भस्थिता ये च बोधात्रिका. ॥११॥

भुवनजनशरण्या पापपकप्रमुक्ता विशदगुणगरिष्ठा देवनागेन्द्रवद्या ।

विमलजननिगर्भे बाकुल सस्थितायै वृषधनप्रतिवद्या सन्तु सौख्याय तेऽद्य ॥१२॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनाय अर्घ्यं स्वाहा ।

दशातिशयसम्पन्ना ज्ञानत्रितयविभूषिता

गर्भगागुणगम्भीरा कुर्वन्तु मगलं शतम् ।

इत्याशीर्वादः (पुष्पाञ्जलिंक्षिपेत्)

गर्भकल्याणक पूजन

दोहा -

माता गर्भ विषे चये तीर्थकर चौबीस ।

जगजीवन कल्याण हित पूजो नावत शीश ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतितीर्थकराः अत्र अवतर अवतर संवैषट्
आह्वाननम् ।

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतितीर्थकराः अत्र तिष्ठ ठ ठः स्थापनम् ।

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतितीर्थकराः अत्र मम सन्निहतो भव भव वषट्
सन्निधिकरणम् ।

चाली -

निजभाजन जल अविकारी, त्रय योग शुद्धता धारी ।

जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्यो जलम् निर्वपामीति स्वाहा ।

शीतल स्वभाव निज पावे, भव का आताप नशावें ।

जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्यः चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षय अखण्ड गुणधारी, अक्षत अक्षय सुखकारी ।

जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्योअक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

निज आत्म सुवासित कीना, मद काम अरी दुख छीना ।

जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

आतम अमृत रसनीना, क्षुधरोग निवारण कीना ।

जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणक प्राप्तवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मोहान्धकार नशजावे, आतम उद्योत सुहावे ।

जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कर्माष्टक धूप बनाऊँ, शुक्लध्यानाग्नि जलाऊँ ।

जिनमात गर्भ मे आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्री गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

दिविफल ले शिवफल पानें, आतम गुण निर्मल पानें ।
जिनमात गर्भ में आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्रीं गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादि चतुर्विंशतिजिनेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

समकित्त वसु गुण सुखकारी, आतम अनर्घ हितधारी ।
जिनमात गर्भ में आये, हम पूजत मंगल पाये ॥

ओं ह्रीं गर्भकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

२४ तीर्थकरों की गर्भकल्याणक तिथि के २४ अर्घ्य

सर्वरथ विमान से चयकर मरुदेवी के गर्भ में आय,
आषाढकृष्ण की द्वितीया प्यारी ता दिन नरनारी हर्षाय ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्रीं अषाढकृष्णपक्षे द्वितीयायां मरुदेविगर्भावतरिताय वृषभदेवायार्घ्यम् ॥१॥

विजय विमान से विजयामाता गरभ मांहि आये भगवान्,
जेठ अमावस दिन अवतारे करने को जन जन कल्याण ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णाऽमावस्यां विजयसेनागर्भावतरितायाजितदेवायार्घ्यं ॥२॥

मात सुषेणा गरभ पधारे त्रैवेयक विमान को त्याग,
फाल्गुन सित अष्टम दिन आये संभव पूजें नर बढ्भाग ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्रीं फाल्गुनशुक्लाष्टम्यां सुषेणागर्भावतरिताय संभवदेवायार्घ्यं ॥३॥

अभिनंदन विजय विमान से सिद्धार्था माता उर आन,
अष्टम सित वैशाख मास की पूजत नर सुर श्री भगवान ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्रीं वैशाखशुक्लाष्टम्यां सिद्धार्थागर्भावतरितायाभिनन्दनदेवायार्घ्यं ॥४॥

सुमति सुमति को देने आये मात मंगला गरभ मंझार,
श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन तीन लोक मंगल सुखकार ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्री श्रावणशुक्लाद्वितीयायां मंगलागर्भावतरितायसुमतिदेवायार्घ्यं ॥५॥

माघ वदी षष्टम सुखकारी मात सुसीमा गरभ में आय,
पद्मप्रभ जिनवर जग स्वामी पूजो भक्तिभाव मन लाय ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्रीं माघकृष्णाषष्ट्यां सुसीमागर्भावतरितायपद्मप्रभायार्घ्यं ॥६॥

श्री सुपारस पारस मणिसम पृथ्वीमहारानी जिनमात,
भादव सित षष्टम दिन आये सुप्रतिष्ठत जिनके तात ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्री माद्रपदशुक्लाषष्ट्यां पृथ्वीगर्भावतरितायसुपार्श्वदेवयार्घ्यं ॥७॥

पांचे असित चैत्र की जानो चन्द्रप्रभ जिन चन्द्र किरण,
महासेन पितु मात लक्ष्मणा गरभ पघारे चन्द्र वदन ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्री चैत्रकृष्णा पंचम्यां सुलक्षणागर्भावतरितायचन्द्रप्रभायार्घ्यं ॥८॥

अपराजित विमान से आये माता जिन की रामा जान,
नवमी कृष्णा फाल्गुन महिना गर्भ कल्याणक जिनका मान ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्री फाल्गुनकृष्णानवम्यां जय रामादेविगर्भावतरितायपुष्पदन्तायार्घ्यं ॥९॥

मात सुनंदा गरभ मे आये चैतवदी अष्टम सुखदान,
आरण दिव भूलोक पघारे शीतल प्रभु त्रिभुवन भगवान ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्रीं चैत्रकृष्णाअष्टम्यां सुनंदागर्भावतरितायशीतलायार्घ्यं ॥१०॥

जेठ वदी छठ गरभ में आये नंदा श्री जिनमाता जान,
पिता विष्णु श्रेयांसनाथ गृह रत्न वृष्टि करते सुर आन ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ह्रीं ज्येष्ठकृष्णाषष्ट्यां नन्दाश्रीगर्भावतरितायश्रेयांसनाथायार्घ्यं ॥११॥

चम्पापुर नगरी सुखकारी छठ आषाढ अंधियारी जान,
वसुपूज तात सुजया जिनमाता आये वासुपूज्य भगवान । सोलह..

ओं ह्रीं आषाढकृष्णाषष्ट्यां जयावतिगर्भावतरितायवासुपूज्यायार्घ्यं ॥१२॥

विमल विमलमति करने आये जेठ वदी दशमी तिथिमान,
जयश्यामा गरभ पधारे नगर कंजपिला अति सुख खान । सोलह..

ओं ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णादशम्यां जयश्यामागर्भावतरितायविमलायार्घ्यं ॥१३॥

एकम् कार्तिक कृष्ण पक्ष की सर्वयशा मों गर्भ में आय,
सिहसेन पितु नगर अयोध्या नमूं अनन्तनाथ प्रभु पाय । सोलह..

ओं ह्रीं कार्तिककृष्णाप्रतिपदायांसर्वयशागर्भावतरितायअनन्तायार्घ्यम् ॥१४॥

तेरस वदि वैशाख मास की मात सुव्रता मंगलदाय,
धर्मनाथ जिन धर्म प्रचारें तीन ज्ञानधारी सुखदाय । सोलह..

ओं ह्रीं वैशाखकृष्णात्रयोदश्यां सुव्रतागर्भावतरितायधर्मनाथायार्घ्यं ॥१५॥

शांतिनाथ जगशाति करन को सातें वदि भादव को आय,
ऐसा माता जिन की जानों नगर हस्तिनापुर सुखदाय । सोलह..

ओं ह्रीं भाद्रपदकृष्णासप्तम्यां ऐरादेविगर्भावतरितायशान्तिनाथायार्घ्यं ॥१६॥

श्रीकांता माता के गरभ मे आये कुन्थुनाथ भगवान,
कामदेव चक्री तीर्थकर सावन वदि दशमी तिथिमान । सोलह..

ओं ह्रीं श्रावणकृष्णादशम्यां श्री कान्तागर्भावतरितायकुन्थुनाथायार्घ्यं ॥१७॥

नगर हस्तिनापुर अति प्यारा माता मित्रा जगत प्रसिद्ध,
फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन स्वर्गलोक से आई ऋद्धि । सोलह..

ओं ह्रीं फाल्गुनशुक्लातृतीयायां मित्रसेनागर्भावतरितायारनाथायार्घ्यं ॥१८॥

एकम् शुक्ला चैत्रमास की प्रजावति माता उर आय,
मल्लिनाथ पद पूजत जो जन दारिद्र सभी टल जाय । सोलह..

ओं ह्रीं चैत्रशुक्लप्रतिपदायां प्रभावतीगर्भावतरितायमल्लिजिनायार्घ्यं ॥१९॥

अपराजित विमान तज आये श्रावण कृष्णा द्वितीया मान,
पद्मामाता गरभ पधारे पितु सुमित्र सुर पूजत आन ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ही श्रावणकृष्णाद्वितीयायां पद्मावतिगर्भावतरितायमुनिसुव्रतनाथायार्घ्यं ॥२०॥

विपला माता गरभ मे आये प्राणत स्वर्ग का छेड़ विमान,
अश्विन कृष्णा द्वितीया के दिन उत्सव किया स्वर्ग सुर आन ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ही आश्विनकृष्णापक्षे द्वितीयायां विपुलागर्भावतरितायनमिनाथायार्घ्यं ॥२१॥

नगर द्वारिका नगरी प्यारी, मात शिवा के गर्भ मे आय,
कार्तिक मास सुदी छठ मानो नेमिनाथ के पूजो पाय ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओ ही कार्तिकशुक्लाषष्ठ्यां शिवागर्भावतरितायनेमिनाथायार्घ्यं ॥२२॥

वैशाख मास की वदी द्वितीया आये पार्श्वनाथ भगवान,
माता वामा गरभ पधारे नगर बनारस उत्तम थान ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ही वैशाखकृष्णाद्वितीयायां वामागर्भावतरितायपार्श्वनाथायार्घ्यं ॥२३॥

सिद्धारथ पितु माता त्रिशला गर्भ में आये श्री वर्धमान,
सुरगण मिलकर हर्ष मनाया मास अषाढ़ सुदी छठ आन ।
सोलहकारण भाव पवित्र से तीर्थकर पद पाय महान,
सकल इन्द्र मिल गर्भकल्याणक उत्सव करते दिव से आन ॥

ओं ही आषाढशुक्लाषष्ठ्यां त्रिशलादेविगर्भावतरितायमहावीरायार्घ्यं ॥२४॥

जयमाल

दोहा :- त्रिभुवन मात शिरोमणी, शीलादिक गुणखान,
तीर्थकर सुत अवतरे, महिमा करें बखान ॥

जय धन्य धन्य जिन मात जान, इंद्रादि रची नगरी महान ।
छप्पन कुमारि सेवा करंत, स्वर्गीय विभव लाती तुरंत ।
धनपति पन्द्रह महिना निधान, रतनन वृष्टि करता महान ।
नाना प्रकार साधन प्रधान, अहिर्निश सेवा में सावधान ।
जय सुंदर तन है शीलखान, परमोज्ज्वल गुणधारी महान ।
आहार करें नित नहिं निहार, आगम में कथन किया विचार ।
जय पुण्यवान सुख की निधान, जयधर्म ज्ञान अद्भुत बखान ।
जय भेदज्ञान पायो महान, दर्शन करते मिथ्यात्व हान ।
सोलह स्वप्न देखे महान, जिनका फल पति से सुना आन ।
पितृ-मात पुण्य आया महान, तीर्थकर सुत रविसम प्रधान ।
किया गर्भकल्याणक देव आन, उत्सव विशिष्ट आगम बखान ।
हम सब मिल पूजा करें आज, पावें जासे सम्यक् समाज ।

गर्भ-कल्याणक होय मम, सकल अमङ्गल दूर ।

मुक्ति-मार्ग पावें महा, अष्ट-करम चकचूर ॥

ॐ ह्रीं गर्भ-कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्योः अर्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

हवन विधि (१)

होमार्थकुडानि पुरोत्तरस्या क्रियान्नवोत्कृष्टतया च पच ।
मध्याद्विधैर्वा त्रयमेव तत्र वृत्त त्रिकोण चतुरस्रमेव ॥

तन्मैखलाना त्रयमत्र कुडप्रशस्तमार्यै पृथुनोन्नतत्वे ।
वाणानुयोगाग्निमित वितस्तिप्रमावगाहा यतिरूढपक्षात् ॥

वेद्या कुडीयभूम्याश्चातर हस्तद्वयाधिक ।
तत्र पीठे छत्रचक्रत्रय पूजार्हमादिशेत् ॥

गार्हपत्याहवीयार्यौ दाक्षिणाग्निरुदाहृता ।
आहूतिकार्ये तीर्थेशान्यकेवलिंगणोद्धृतः ॥

शातिवृन्मनुभिस्तत्रान्नाहूतिव्याहृतीष्टिभिः ।
अग्निसस्कारपूर्व तत्प्रकारस्त्वग्रिमे विधौ ॥

वास्तुप्रमाणेन तु गात्रकेन वामेन शेते खलु नित्यकाल ।
त्रिभिस्तु कालौ परिवर्त्य भूमौ त वास्तुनाग प्रवदति सत ॥

भाद्रादिके वासवदिक्शिरस्को मार्गादिषु स्यात्त्रिषु याम्यमूर्धा ।
प्रत्यक् शिरस्क खलु फाल्गुनादौ ज्येष्ठादिमासेषु कुखेरदृश्यः ॥

मूलवेद्याविधानेऽपि मुख्याकालव्यवस्थितिः ।
यथार्हं शोधयेद् वास्तुशास्त्रं नोल्लघयेत् कदा ॥

अथवाऽपि मृदा सुवर्णभासा करमान चतुरंगुलोच्चमल्पे ।
हवने विदधीत कार्यमूल विबुध स्थडिलमेव वेदकोणे ॥

हवनकार्य

हवन स्थल पर टेबिल लगाकर विनायक यत्र स्थापित करे । मगलाष्टक, शान्त्यष्टक, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शातिमंत्र, पात्रो के दाहिने हाथ में रक्षा-सूत्र बाधना, यत्राभिषेक एव हवन स्थल, पात्र, कुण्ड, सामग्री शुद्धि, मगलकलश स्थापन, दीप स्थापन हेतु सामग्री की व्यवस्था करना चाहिये ।

विनायक यंत्र एव नवदेव पूजा कर कार्य प्रारंभ करे । सिद्धभक्ति नवदेव मंत्राहुति पीठकादि मंत्राहुति, शाति मंत्राहुति करके जाप मंत्र की दशाश आहुति करे । पश्चात् पुण्याहवाचन से शातिधारा, शातिभक्ति, शातिपाठ, विसर्जन, यज्ञदीक्षा समापन विधि कर शान्ति हवन का कार्य समाप्त करें ।

होम कार्यमें पुरुष शुद्ध धुली हुई धोती, दुपट्टा, बनियान पहनें, महिलाएं पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज पहनकर बैठें। अन्य वस्त्रों से हवन नहीं करें। वस्त्र सूती एवं शुद्ध हों एक वस्त्र से जप, पूजा, हवन और दान नहीं करना चाहिये।

वस्त्रों का उपयोग (१)

शान्तौ श्वेतं जये श्यामं भद्रे रक्तं भये हरित् ।
पीतं घ्यानादिसंलाभे पंचवर्णं तु सिद्धये ।

जैसा कार्य हो उसी अनुसार वस्त्र, माला एवं आसन भी वैसा ही होना चाहिये। जप, पूजा एवं हवन सबमें यह विधि है।

वस्त्रनिषेध (२)

खण्डिते गालिते छिन्ने मलिने चैव वाससि ।
दानपूजाजपो होमः स्वाध्यायो विफलं भवेत् ॥
कषायं घृम्रवर्णं च केशजं केशभूषितम् ।
छिन्नाग्रं चोपवस्त्रं च कुत्सितं ना चरेन्नरः ॥
दग्धं जीर्णं च मलिनं मूषकोपहतं तथा ।
खादितं गोमहिष्याद्यैस्तत्याज्यं सर्वथा द्विजैः ॥

वस्त्र विचार (३)

नीले वस्त्रे परमदुःखं हरिते मानभंगता श्वेतवस्त्रे यशोवृद्धिर्हारिद्रे हर्षवर्धनं ।
रक्तं वस्त्रं परंश्रेष्ठं प्राणायामविधौ ततः सर्वेषां धर्मसिद्ध्यर्थं दर्भासनं तु चोत्तमम्

दर्भ के भेद

कुशाः १ कासा २ यवा ३ दूर्वा ४ उसीराश्च ५ ककुन्दराः ६ गेधूमा ७ ब्रीहयो ८ मुंजा ९ दशदर्भा १० प्रकीर्तिता.

जप हवन में आसन (४)

वंशासने दरिद्रोस्यात्पाषाणे व्याधिपीडितः धरण्यां दुःखसंभूतिर्दीभाग्यं दारुक्रसने ॥
तृणासने यशोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः आजिने ज्ञाननाशः स्यात्क्वले पापवर्धनम् ॥

(१) उनास्वामीश्रावकाचार (२) धर्म रसिक ग्रंथ (३) धर्म रसिक ग्रंथ (४) धर्म रसिक ग्रंथ

साकिल्ल

शुद्ध धूप (बाजार की अशुद्ध धूप नहीं ले) तत्काल बनवाना, कपूर, शुद्ध घृत मिलाकर साकिल्ल बनाना चाहिए। धूप में घान्य, मेवा आदि का प्रयोग नहीं करे।

समिधा

आचार्यों ने समिधा में विशेष वृक्षों की लकड़ी लेना बताया है, परन्तु शुद्ध लकड़ी उपलब्ध न होने के कारण तथा लकड़ी में जीव हो जाने के कारण हिंसा हो सकती है। अतः मैं कपूर जलाकर हवन का कार्य कराता हूँ। जिससे जीवों की विराधना न हो।

भूमि शुद्धि मंत्र

ओं ह्रीं मही पूतां कुरुकुरुहूं फट् स्वाहा। (जल के छीटे लगावें)
ओं ह्रीं श्रीं क्षीं भूं स्वाहा। (पुष्प क्षेपण करे)

यंत्र स्थापन मंत्र -

अर्हं मंत्रं नमस्कृत्य रत्नत्रयं तपोनिधि,
सिद्धं यत्र स्थापयामि सर्वोपद्रवशान्तये।
ओ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं जगतां सर्वशान्तिं कुर्वन्तु।
श्रीपीठे विनायकं यंत्रं स्थापनं करोमि। (यंत्र स्थापित करे)

कुण्ड शुद्धि मंत्र

भो मेघकुमारधरां प्रक्षालय प्रक्षालय अं हं सं तं पं स्वं झं यं क्षीं क्षः भूः फट् स्वाहा।
(जल से भूमि शुद्ध करे)

भो वायुकुमारसर्वविघ्नविनाशनाय महीपूतां कुरुकुरुहूं फट् स्वाहा।
(वस्त्र से कुण्ड साफ करे)

भो अग्निकुमार हृत्स्वीं ज्वलय तेजः पतये अमित तेजसे स्वाहा।
(कपूर जलाकर कुण्ड शुद्ध करे)

कुण्डो पर मौली बंधन

ओं ह्रीं अर्हं पंचवर्णसूत्रेण त्रीन् वारान् वेष्टयामि। (कुण्डो की कटनी पर सूत बांधें)

आसन मंत्र -

ओं ह्रीं हुं हूं णिस्सहि आसने उपविशामि स्वाहा। (आसन पर बैठे)

पात्रशुद्धि मंत्र -

शोधये सर्वपात्राणि पूजार्थानपि वारिभिः ।

समाहितो यथाम्नाय करोमि सकलीक्रियाम् ॥

ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः नमोऽर्हते श्रीमते पवित्रतरजलेन पात्रशुद्धिं करोमि ।
(जल द्वारा पात्रों की शुद्धि करें)

मौली बंधन मंत्र -

ओं नमोऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ।

(हवन में बैठने वाले पात्रों के दाहिने हाथ में मौली बांधें)

मंगल कलश में जल भरने का मंत्र -

ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः नमोऽर्हते भगवते पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरिपुण्डरीक
महापुण्डरीक गंगा सिन्धुरोहिद्रोहितारस्याहरिद्धरिकांतासीतासीतोदानारीनरकान्ता
स्वर्णरूप्य कूलारक्तारक्तोदापयोधिशुद्ध जलसुवर्ण घट प्रक्षालित नव
रत्नगंधाक्षतपुष्पार्चितमामोदकं पवित्रं कुरु कुरु इं इं इं इं वं वं मं मं हं हं सं सं
तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हं सः स्वाहा । (कलश में जल भरें)

मंगलकलश स्थापन -

ओं ह्रीं अर्ह स्वस्ति विधानाय पुण्याहवाचनार्थं मंगलकलश स्थापयामि ।
(ईशान कोण में मंगलकलश स्थापित करें)

दीपक स्थापन मंत्र -

रुचिर दीप्तिकर शुभदीपकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलम् ।

तिमिरजालहरं प्रकर सदा किल धरामि सुमंगलकं मुदा ॥

ओं ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं स्थापयामि (दीपक स्थापित करें)
विनायक यंत्र पूजा करके हवन का कार्य प्रारंभ करें ।

सर्वशुद्धिमंत्र -

ओं ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकमान्यानन्यधर्म तीर्थकराय श्रीशांतिनाथाय परमपवित्राय
पवित्रजलेन होमकुण्ड शुद्धिं, स्थलशुद्धिं पात्रशुद्धिं, समिधाशुद्धिं, साकिरल्लशुद्धिं च
करोमि ।

(समयाभाव में विनायक यत्र पूजा के स्थान पर अर्घ चढावे)

ओ ह्री अर्ह नमः परमेष्ठिम्यः स्वाहा (जलम्)

ओ ह्री अर्ह नमः परमात्मेम्यः स्वाहा (चन्दनम्)

ओं ह्री अर्ह नमोऽनादिनिधनेम्यः स्वाहा (अक्षतम्)

ओं ह्री अर्ह नमो नृसुरासुरपूजितेम्यः स्वाहा (पुष्पम्)

ओं ह्री अर्ह नमोऽनन्तदर्शनेम्यः स्वाहा (नैवेद्यम्)

ओं ह्री अर्ह नमोऽनन्तज्ञानेम्यः स्वाहा (दीपम्)

ओ ह्रीं अर्ह नमोऽनन्त वीर्येम्यः स्वाहा (धूपम्)

ओं ह्री अर्ह नमोऽनन्त सुखेम्यः स्वाहा (फलम्)

द्रव्याणि सर्वाणि विधाय पात्रे ह्यनर्घ्यमर्घ्यं वितरामि भक्त्या ।

भवे भवे भक्तिरुदारभावाद् येषा सुखायास्तु निरन्तराय॥

ओं ह्रीं विनायक सिद्धयंत्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

मध्ये कर्णिकमर्हदार्यमनघ वाह्येऽष्ट पत्रोदरे

सिद्धान् सूरिवराश्च पाठकगुरुन्साधूश्च दिक्पत्रगान् ।

सद्धर्मागमचैत्यचैत्यनिलयान् कोणस्थदिक्पत्रगान्

भक्त्या सर्वसुरासुरेन्द्रमहितान् तानष्ट धेष्ट्या यजे ॥

ओं ह्री अर्हदादि नवदेवेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ओं ह्री समिधां (कर्पूरं) स्थापयामि होमद्रव्यमादधामीति च स्वाहा ।

(कुण्ड मे कपूर एव सामने पाटा पर साकिल्ल रखे)

अग्निस्थापन मंत्र

जिनेन्द्रवाक्यैरिव सुप्रसन्ने सशुष्कदर्भाग्रधृताग्निकीलै

कुण्डस्थिते सेंधनशुद्धवहनौ संधुक्षणं सप्रति संतनोमि ।

उसहायि जिणे पणमामि सया अमलो वरजोवर कप्पतरु ।

सअकामदुहा मम रक्खसया पुर विज्जुणुहीपुर विज्जुणुही ॥

ओं ह्री श्री ओं ओं ओं ओं रं रं रं रं.अग्नि स्थापयामि ।

(अग्नि प्रज्वलित करे)

श्रीतीर्थनाथ परिनिर्वृत्तिपूतकाले द्यागत्यवह्निसुरपामुवुष्टोल्लसद्भिः ।

वह्निवृजैर्जिनपदेहमुदारभक्त्या देहुरस्तदग्निमहमर्चयितुं दधामि ॥

ओं ह्रीं चतुरस्रे तीर्थकरकुण्डे गार्हपत्याग्नौ वृत्त संस्काराय तीर्थकर परमदेवाय अर्घ
निर्वपामीति स्वाहा । (चौकोर कुण्ड के पास अर्घ चढावे)

गणाधिपानां शिवयातिकालेऽग्नीन्द्रोत्तमागंस्फुरदुग्ररोचि ।

संस्थाप्य पूज्यश्च समाह्वनीयो विघ्नौघशान्त्यै विधिना हुताश ॥

ओं ह्री श्री वृत्ते द्वितीयगणधरकुण्डे आहवनीयाग्नौ वृत्त संस्काराय गणधरदेवाय अर्घ
निर्वपामीति स्वाहा । (गोल कुण्ड के पास अर्घ चढावे)

श्रीदक्षिणाग्निः परिकल्पितश्च किरीटदेशात् प्रणिताग्निदेवै

निर्वाणकल्याणकपूतकाले तमर्चये विघ्नविनाशनाय ।

ओ ह्री श्री त्रिकोणे तृतीय सामान्य केवलि कुण्डे दक्षिणाग्नौ वृत्त संस्काराय सामान्य
केवलिनेऽर्घ्यम् निर्वपामीति स्वाहा । (त्रिकोण कुण्ड के पास अर्घ चढावे)

नवदेव आहुतियां

ओं ह्रीं अर्हद्म्यः स्वाहा, ओं ह्रीं सिद्धेय्यः स्वाहा,

ओं ह्रीं सूरिम्यः स्वाहा, ओं ह्रीं पाटकेय्यः स्वाहा,

ओं ह्रीं साधुम्यः स्वाहा, ओं ह्रीं जिनधर्मेय्यः स्वाहा,

ओ ह्रीं जिनागमेय्यः स्वाहा, ओं ह्रीं जिनविम्बेय्यः स्वाहा,

ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेय्यः स्वाहा, ओं ह्रीं सम्यग्दर्शनाय नमः स्वाहा,

ओ ह्रीं सम्यग्ज्ञानाय नमः स्वाहा, ओं ह्रीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा ।

१. पीठिका मंत्र - (३६)

षट् त्रिशत्पीठकामंत्रैः काम्यमत्रावसानकैः

इज्यावशिष्टहव्याद्यैः कुर्ये तावत्तिथाहुतिः ॥१॥

१. ओं सत्यजाताय नमः स्वाहा

३. ओं परमजाताय नमः स्वाहा

५. ओ स्वप्रधानाय नमः स्वाहा

७. ओ अक्षयाय नमः स्वाहा

९. ओं अनंतज्ञानाय नमः स्वाहा

११. ओ अनंतवीर्याय नमः स्वाहा

२. ओ अर्हज्जाताय नमः स्वाहा

४. ओं अनुपमजाताय नमः स्वाहा

६. ओं अचलाय नमः स्वाहा

८. ओं अव्यावाधाय नमः स्वाहा

१०. ओं अनंतदर्शनाय नमः स्वाहा

१२. ओं अनंतसुखाय नमः स्वाहा

१३. ओ नीरजसे नमः स्वाहा
 १५. ओ अच्छेद्याय नमः स्वाहा
 १७. ओ अजराय नमः स्वाहा
 १९. ओ अप्रमेयाय नमः स्वाहा
 २१. ओ अक्षोभ्याय नमः स्वाहा
 २३. ओ परमघनाय नमः स्वाहा
 २५. ओं लोकाग्रवासिने नमो नमः स्वाहा
 २७. ओ अनादिपरमसिद्धेभ्यो नमो नमः
 स्वाहा
 २९. ओ केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा
 ३१. ओ परम्परसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा
 ३३. ओ परमार्थसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा
 ३५. ओ त्रिकालसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा
 ३६. ओ सम्यग्दृष्टे - सम्यग्दृष्टे, आसन्नमव्य आसन्नमव्य,
 निर्वाणपूजार्ह निर्वाणपूजार्ह अग्नीन्द्राय स्वाहा ।
 (आशीष मंत्र) सेवा फलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशन भवतु, समाधिमरणं
 भवतु । (हवन के सब पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे)

२ जातिमंत्राः (८)

अष्टभिर्जातिमत्रैश्च तावद् व्यग्रमानस ।

इज्यावशिष्टहव्याद्यै कुर्वतावतिथाहुति ॥२॥

१. ओ सत्यजन्मनः शरणं प्रपद्ये स्वाहा ।
 २. ओ अर्हज्जन्मनः शरणं प्रपद्ये स्वाहा ।
 ३. ओ अर्हन्मातु शरणं प्रपद्ये स्वाहा ।
 ४. ओ अर्हत्सुतस्य शरणं प्रपद्ये स्वाहा ।
 ५. ओ अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्ये स्वाहा ।
 ६. ओ अनुपमजन्मनः शरणं प्रपद्ये स्वाहा ।

नोट : आहुति मंत्र आचार्य जिनसेन वृत्त महापुराण, श्री नेमिचन्द्र देव
 वृत्त प्रतिष्ठातिलक एवं आचार्य जयसेन वृत्त प्रतिष्ठापाठ से लिए
 गये हैं ।

७. ओं रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्ये स्वाहा ।
 ८. ओ सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, ज्ञानमूर्ते ज्ञानमूर्ते, सरस्वति सरस्वति स्वाहा ।
 सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।
 (प्रतिष्ठाचार्य हवन करने वालो पर पुष्प क्षेपण करे)

३. निस्तारक मंत्राः (११)

निस्तारकादिभिर्मन्त्रै एकादशमितैरयम् ।
 इज्यावशिष्टहव्याद्यै कुर्वेतावतिथाहुति ॥३॥

- | | |
|---|----------------------------|
| १. ओ सत्यजाताय स्वाहा | २. ओं अर्हज्जाताय स्वाहा |
| ३. ओं षट्कर्मणे स्वाहा | ४. ओं ग्रामयतये स्वाहा |
| ५. ओं अनादिश्रोत्रियाय स्वाहा | ६. ओं स्नातकाय स्वाहा |
| ७. ओ श्रावकाय स्वाहा | ८. ओं देवब्राह्मणयो स्वाहा |
| ९. ओ सुब्राह्मणाय स्वाहा | १०. ओं अनुपमाय स्वाहा |
| ११. ओं सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, निधिपते निधिपते, वैश्रमण वैश्रमण स्वाहा ।
सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।
(पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे) | |

४ ऋषिमंत्राः (१५)

ऋषिमन्त्रैर्महव्युत्तैः पञ्चदशभिवैरथ ।
 इज्यावशिष्टहव्याद्यै कुर्वेतावतिथाहुति ॥४॥

- | | |
|--|----------------------------------|
| १. ओ सत्यजाताय नमः स्वाहा | २. ओं अर्हज्जाताय नमः स्वाहा |
| ३. ओ निर्ग्रथाय नमः स्वाहा | ४. ओ वीतरागाय नमः स्वाहा |
| ५. ओं महाव्रताय नमः स्वाहा | ६. ओं त्रिगुप्ताय नमः स्वाहा |
| ७. ओ महायोगाय नमः स्वाहा | ८. ओ विविधयोगाय नमः स्वाहा |
| ९. ओं विविर्द्धये नमः स्वाहा | १०. ओं अंगधराय नमः स्वाहा |
| ११. ओं पूर्वधराय नमः स्वाहा | १२. ओं गणधराय नमः स्वाहा |
| १३. ओं परमर्षिभ्योः नमो नमः स्वाहा | १४. ओं अनुपमजाताय नमो नमः स्वाहा |
| १५. ओं सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, भूपते भूपते, नगरपते नगरपते,
कालश्रमण कालश्रमण, स्वाहा ।
सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।
(हवन के सब पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे) | |

५. सुरेन्द्रमंत्राः (१३)

अथ त्रयोदशभिर्मन्त्रे सुरेन्द्रादिभिर्राजसै ।

इज्यावशिष्टहव्याद्यै कुर्वेतावतिथाहुति ॥५॥

- | | |
|--|------------------------------|
| १. ओं सत्यजाताय स्वाहा | २. ओ अर्हज्जाताय स्वाहा |
| ३. ओ दिव्यजाताय स्वाहा | ४. ओ दिव्यार्च्यजाताय स्वाहा |
| ५. ओ नेमिनाथाय स्वाहा | ६. ओ सौधर्माय स्वाहा |
| ७. ओ कल्पाधिपतये स्वाहा | ८. ओ अनुचराय स्वाहा |
| ९. ओ परम्परेन्द्राय स्वाहा | १०. ओ अहमिन्द्राय स्वाहा |
| ११. ओ परमार्हताय स्वाहा | १२. ओ अनुपमाय स्वाहा |
| १३. ओ सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, कल्पपते कल्पपते, दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्ते,
वज्रनामन् वज्रनामन् स्वाहा । | |

सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु अपमृत्युविनाशनं समाधिरणं भवतु ।

(हवन करने वालो पर पुष्प क्षेपण करे)

६. परमराजादि मंत्राः (९)

मन्त्रैर्परमराज्याद्यैरथनवसुसख्यकैः ।

इज्यावशिष्टहव्याद्यै कुर्वेतावतिथाहुति ॥६॥

- | | |
|---|------------------------------|
| १. ओं सत्यजाताय स्वाहा | २. ओ अर्हज्जाताय स्वाहा |
| ३. ओ अनुपमेन्द्राय स्वाहा | ४. ओ पिज्यार्च्यजाताय स्वाहा |
| ५. ओ नेमिनाथाय स्वाहा | ६. ओ परमजाताय स्वाहा |
| ७. ओं परमार्हताय स्वाहा | ८. ओं अनुपमाय स्वाहा |
| ९. ओ सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, उग्रतेजः उग्रतेजः, दिशाञ्जय दिशाञ्जय,
नेमि विजय नेमि विजय स्वाहा । | |

सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु अपमृत्यु विनाशनं भवतु समाधिमरणं भवतु ।
(हवन के पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे)

७ परमेष्टि मंत्राः (२३)

परमेष्ठ्यादिभिर्मत्रै त्रयोविशतिमितैरथ ।
इज्यावशिष्टहव्याद्यै कुर्वेतावतिथाहुतिः ॥७॥

- | | |
|--|---------------------------------|
| १. ओं सत्यजाताय नमः स्वाहा | २. ओं अर्हज्जाताय नमः स्वाहा |
| ३. ओं परमजाताय नमः स्वाहा | ४. ओं परमार्हताय नमः स्वाहा |
| ५. ओं परमरूपाय नमः स्वाहा | ६. ओं परमतेजसे नमः स्वाहा |
| ७. ओ परमगुणाय नमः स्वाहा | ८. ओं परमस्थानाय नमः स्वाहा |
| ९. ओ परमयोगिने नमः स्वाहा | १०. ओं परमभाग्याय नमः स्वाहा |
| ११. ओं परमर्द्धये नमः स्वाहा | १२. ओं परमप्रसादाय नमः स्वाहा |
| १३. ओं परमविज्ञानाय नमः स्वाहा | १४. ओं परमदर्शनाय नमः स्वाहा |
| १५. ओ परमवीर्याय नमः स्वाहा | १६. ओं परमसुखाय नमः स्वाहा |
| १७. ओं परमकांक्षिताय नमः स्वाहा | १८. ओ परम विजयाय नमः स्वाहा |
| १९. ओं परमसर्वज्ञाय नमः स्वाहा | २०. ओ परम अर्हते नमः स्वाहा |
| २१. ओं परमेष्टिने नमो नमः स्वाहा | २२. ओं परमनेत्रे नमो नमः स्वाहा |
| २३. ओं सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, त्रैलोक्यविजय त्रैलोक्यविजय, | |

धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते, धर्मनेमे धर्मनेमे, स्वाहा ।

सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु । अपमृत्यु विनाशनं भवतु समाधिमरणं भवतु ।
(हवन के सब पात्रो पर पुष्प क्षेपण करे)

वृहच्छांति मंत्राः

नव्येन गव्येन घृतेन सम्यक् सृवार्पिते नाहुतभिः कृताभिः ।

होमं विधास्यामि समित्समान्सख्याभिरत्यूर्जितशाति मंत्रै ॥

१. णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं । चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवल्लिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल्लिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवल्लिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि । ओं ह्री अनादिमूलमंत्रेभ्यः सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ॥१॥

२. ओं नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृच्छ्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षामडामर विघ्न विनाशनाय ओ ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ॥२॥
३. ओ ह्रूं क्षू फट् किरिटि किरिटि, घातय घातय, परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय, सहस्रखण्डान् कुरु कुरु, परमुद्रां छिन्द छिन्द, परमंत्रान् भिन्द भिन्द, क्षां क्षः वाः वाः ह्रूं सर्व शान्ति कुरु कुरु फट् स्वाहा ॥३॥
४. ओ ह्री श्री क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहत विद्यायै णमो अरिहंताणं ह्रौं सर्वविघ्नशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥४॥
५. ओ ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रै ह्रौं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो नमः सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ॥५॥
६. ओ ह्री क्ली श्री अर्ह श्रीवृषभनाथतीर्थकराय नमः सर्वशान्ति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु स्वाहा ॥६॥
७. ओ अ ह्रीं, सि ह्री, आ ह्रूं, उ ह्रौं, सा ह्रः जगदातप विनाशनाय ह्री शान्तिनाथाय नमः सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ॥७॥
८. ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय अशोकतरु सत्प्रातिहार्य मण्डिताय अशोकतरु सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय ह्र्मूर्त्यु बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥८॥
९. ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्यमण्डिताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार्य-शोभनपद प्रदाय ह्र्मूर्त्यु बीजाय सर्वोपद्रवशान्तिकराय नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥९॥
१०. ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्य मण्डिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्य- शोभन पदप्रदाय ह्र्मूर्त्यु बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१०॥
११. ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार्य मण्डिताय चामरोज्ज्वल- सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय ह्र्मूर्त्यु बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥११॥

१२. ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मण्डिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय छल्ब्यू बीजाय सर्वोद्भव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१२॥
१३. ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय दुन्दुभिसत्प्रातिहार्य मण्डिताय दुन्दुभि सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय इल्ब्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्व-शान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१३॥
१४. ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य मण्डिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय स्म्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्व-शान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१४॥
१५. ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथाय भामण्डल सत्प्रातिहार्य मण्डिताय भामण्डल सत्प्रातिहार्य शोभनपदप्रदाय ख्ब्ल्यू बीजायसर्वोपद्रव शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१५॥
१६. ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय बीजाष्ट मण्डन मण्डिताय सर्वविघ्न- शान्तिकराय नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१६॥
१७. तव भक्तिप्रसादाल्लक्ष्मी पुरराज्यगेह पदभ्रष्टोपद्रवदारिद्र्योद्भवोपद्रव स्वचक्र- परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचण्डपवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूतपिशाच - वृत्तोपद्रवदुर्भिक्षव्यापारवृद्धिरहितोपद्रवाणां विनाशनं भवतु स्वाहा ॥१७॥
१८. सम्पूर्णकल्याणमंगलरूपमोक्षपुरुषार्थश्च भवतु स्वाहा ॥१८॥
(तत्पश्चात् जप मंत्र की दशांश आहुतियां करे)

वृहच्छान्तिमंत्राः (विशेष कार्य हेतु)^(१)

आत्मपवित्रीकरणार्थ, सकलदोषनिराकरणार्थ, सर्वमलातिचारविशुद्ध्यर्थ, सर्वशान्त्यर्थ, कायोत्सर्ग करोम्यहं । (नौ बार णमोकार मंत्र पढ़ें)

१. ओं नमः सिद्धेम्यः । श्री वीतरागाय नमः । ओं ह्रीं णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्जायाणं, णमो लोए सब्बसाहूणं । चत्तारि मंगलं - अरिहंतामंगलं सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे

सरणं पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, फेव्वलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि । ओ ह्री अनादि सिद्ध मत्र पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१॥

२. ओ ह्री श्री क्ली अर्हं अ सि आ उ सा अनाहतविद्यायै णमो अरिहताणं हौ सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥२॥
३. ओ ह्री श्री क्ली ऐ अर्हं व म हं स तं पं वं व मं मं हं ह सं सं तं तं पं पं इं इं इवी इवी क्ष्वी क्ष्वी द्रां द्रा द्री द्री नमोऽर्हते भगवते सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥३॥
४. ओ ह्री श्री सिद्धचक्राधिपतये सर्वकर्मविमुक्ताय अष्टगुण समृद्धाय फट् सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥४॥
५. ओं ह्री अर्हन्मुखकमल निवासिनि पापमलक्षयंकरि श्रुतज्वाला सहस्र प्रज्ज्वलते सरस्वति तव भक्ति प्रसादात् मम पापविनाशनं भवतु स्वाहा ॥५॥
६. ओ क्षां क्षी क्षूं क्षौ क्षः क्षीरधवले अमृत संभवे व व हूं हूं सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥६॥
७. ओ ह्रां ह्री हूं हौ ह्रः सरस्वति तव भक्ति प्रसादात् सुज्ञानं भवतु स्वाहा ॥७॥
८. ओ णमो भयवदो वड्ढमाणस्सरिसहरस जरस चक्कं जलं तं गच्छइ आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जये वा विवादे वा रणांगणे वा थंभणे वा मोहणे वा सब्बजीवसत्ताणं अपराजिदो भवदु मे रक्ख रक्ख स्वाहा । वर्धमानमंत्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा ॥८॥
९. ओ क्षां क्षी क्षूं क्षे क्षौ क्षो क्षं क्षः नमोऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट् सर्वरक्षा भवतु स्वाहा ॥९॥
१०. ओ उसहाइ जिणं पणमामि सया अमलो विमलो विरजोवरया, कप्पतरुसकामदुहा मम रक्ख सहा पुरुविज्जणिही ।

अट्ठेवय अट्ठसया अट्ठसहरस्साय अट्ठकोडीओ ।

रक्ख तुम्मसरीर देवासुरपणमिया सिद्धा ॥

ओ ह्री श्री अर्हं नमः स्वधा सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१०॥

११. ओ ह्रां ह्री हूं हौ ह्रः अ सि आ उ सा नमः एतन्मंत्र प्रसादात् सर्वभूतव्यन्तरादि-बाधाविनाशनं भवतु सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥११॥
१२. ओ ह्री श्री क्ली महालक्ष्म्ये नमः स्वाहा ॥१२॥
१३. ओ नमोऽर्हते सर्व रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ॥१३॥

१४. ओं हां ही हूं हौं ह्रः सर्वदिशागत विघ्नविनाशनं भवतु स्वाहा ॥१४॥
१५. ओं क्षां क्षीं क्षूं क्षौ क्षः सर्वोपद्रव विघ्नं च विनाशनं भवतु स्वाहा ॥१५॥
१६. ओं सम्प्रतिकाल श्रेयस्कर स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्रमण केवलज्ञान-
निर्वाणकल्याणक विभूषित महाभ्युदयाः श्रीवृषभादि महावीरपर्यन्त परमदेवा
पूजनभक्ति- प्रसादात् सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिश्च भवतु स्वाहा ॥१६॥
१७. ओं ही लोकोद्योतनकरा, अतीतकालसंजाताः निर्वाणसागरादि श्रीमद्रशान्ताश्चेति
चतुर्विंशति भूतपरमदेवाः पूजनभक्ति प्रसादात् सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिश्च
भवतु स्वाहा ॥१७॥
१८. ओं भविष्यत्कालाम्युदय प्रभवा महापद्मादि अनंतवीर्याश्चेति चतुर्विंशति
भविष्यत परमदेवापूजन भक्ति प्रसादात् सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिश्च भवतु
स्वाहा ॥१८॥
१९. ओं त्रिकालवर्ति परमधर्माभ्युदयाः सीमंधरादि अजितवीर्याश्चेति पंचविदेह क्षेत्र
विद्यमान विंशतिपरमदेवपूजनभक्तिप्रसादात् सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिश्च
भवतु स्वाहा ॥१९॥
२०. पूजिता भरताद्यैश्च भूपेन्द्रैर्भूरिभूतिभिः ।
चतुर्विधस्य संघस्य शान्तिं कुर्वन्तु शाश्वतीम् ॥
विघ्नौघाः प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः ।
विषं निर्विषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥
दुर्भिक्षादिमहादोषनिवारणपरम्पराः ।
कुर्वन्तु जगतः शान्तिं जिनश्रुतमुनीश्वराः ॥
यत्संस्मरणमात्रेण विघ्ना नश्यन्ति मूलतः ।
कुर्वन्तु जगतः शान्तिं जिनश्रुतमुनीश्वराः ॥
यदार्थान् लभते प्राणी यत्प्रसादात्प्रसादतः ।
कुर्वन्तु जगतः शान्तिं जिनश्रुतमुनीश्वराः ।
ओं हां ही हूं हौं ह्रः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥२०॥
२१. ओं ही णमो अरिहंताणं णमो जिणाणं अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय इत्रो इत्रो
विशूचिका-ज्वरादि रोग विनाशनं भवतु स्वाहा ॥२१॥

२२. ओं ह्री अर्ह णमो ओहि जिणाणं शिरोरोगविनाशनं भवतु स्वाहा ॥२२॥
२३. ओ ह्री अर्ह णमो परमोहि जिणाणं नासिकारोगविनाशनं भवतु स्वाहा ॥२३॥
२४. ओं ह्री अर्ह णमो सबोहि जिणाण अक्षिरोगविनाशनं भवतु स्वाहा ॥२४॥
२५. ओ ह्री अर्ह णमो अणतोहि जिणाणं कर्णरोगविनाशनं भवतु स्वाहा ॥२५॥
२६. ओ ह्री अर्ह णमो कोट्ठ बुद्धीणं ममात्मनि विवेकज्ञानं भवतु स्वाहा ॥२६॥
२७. ओं ह्री अर्ह णमो वीजबुद्धीणं हृदयरोगविनाशनं भवतु स्वाहा ॥२७॥
२८. ओं ह्री अर्ह णमो पादानुसारीण परस्परविरोधविनाशनं भवतु स्वाहा ॥२८॥
२९. ओं ह्री अर्ह णमो संभिण्ण सोदाराणं श्वासरोगविनाशनं भवतु स्वाहा ॥२९॥
३०. ओं ह्री अर्ह णमो सयं बुद्धीणं कवित्वं पाण्डित्वं च भवतु स्वाहा ॥३०॥
३१. ओ ह्री अर्ह णमो पतेय बुद्धीणं प्रतिवादविद्याविनाशनं भवतु स्वाहा ॥३१॥
३२. ओ ह्री अर्ह णमो बोहिय बुद्धीणं अन्यगृहीतंश्रुतज्ञानंभवतु स्वाहा ॥३२॥
३३. ओं ह्री अर्ह णमो उजुमदीण सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥३३॥
३४. ओ ह्री अर्ह णमो विउलमदीणं बहुश्रुतज्ञानं भवतु स्वाहा ॥३४॥
३५. ओ ह्री अर्ह णमो दशपुव्वीणं सर्ववादिनो भवतु स्वाहा ॥३५॥
३६. ओ ह्री अर्ह णमो चउदशपुव्वीणं स्वसमयपरसमयवादिनो भवतु स्वाहा ॥३६॥
३७. ओ ह्री अर्ह णमो अट्ठांगमहानिमित्तकुसलाणं जीवितमरणादिज्ञानं भवतु स्वाहा ॥३७॥
३८. ओं ह्री अर्ह णमो विउव्वणपत्ताणं कामितवस्तु प्राप्तिर्भवतु स्वाहा ॥३८॥
३९. ओ ह्री अर्ह णमो विज्जाहराणं उपदेशप्रदेशमात्र ज्ञानं भवतु स्वाहा ॥३९॥
४०. ओ ह्री अर्ह णमो चारणाणं नष्टपदार्थचिन्ताज्ञानं भवतु स्वाहा ॥४०॥
४१. ओ ह्री अर्ह णमो पण्ण समणाणं आयुष्यावसानज्ञानं भवतु स्वाहा ॥४१॥
४२. ओं ह्री अर्ह णमो आगासगामीणं अन्तरीक्षगमनं भवतु स्वाहा ॥४२॥
४३. ओं ह्री अर्ह णमो आसीविषाणं विद्वेषप्रतिहतं भवतु स्वाहा ॥४३॥
४४. ओं ह्री अर्ह णमो दिट्ठिविसाणं रथावर जंगमकृत्विघ्नविनाशनं भवतु स्वाहा ॥४४॥
४५. ओं ह्री अर्ह णमो उग्गतवाणं वच.स्तंभनं भवतु स्वाहा ॥४५॥

४६. ओ ह्री अर्ह णमो दित्ततवाणं सेनास्तंम्भनं भवतु स्वाहा ॥४६॥
४७. ओ ह्री अर्ह णमो तत्ततवाणं अग्निस्तंम्भनं भवतु स्वाहा ॥४७॥
४८. ओ ह्री अर्ह णमो महातवाणं जलस्तंम्भनं भवतु स्वाहा ॥४८॥
४९. ओ ह्री अर्ह णमो घोरतवाणं विषरोगादिविनाशनं भवतु स्वाहा ॥४९॥
५०. ओं ह्री अर्ह णमो घोरगुणाणं दुष्टमृगादिभयविनाशनं भवतु स्वाहा ॥५०॥
५१. ओं ह्री अर्ह णमो घोरपरक्कमाणं लूतागर्भान्तिका बलिविनाशनं भवतु स्वाहा ॥५१॥
५२. ओ ह्री अर्ह णमोऽघोरगुणवभंचारिणं भूतप्रेतादिभयविनाशो भवतु स्वाहा ॥५२॥
५३. ओं ह्री अर्ह णमो सब्बोसहिपत्ताणं मनुष्यामरोपसर्ग विनाशो भवतु स्वाहा ॥५३॥
५४. ओ ह्री अर्ह णमो खेलो सहिपत्ताणं सर्वापमृत्युविनाशो भवतु स्वाहा ॥५४॥
५५. ओ ह्री अर्ह णमो जल्लोसहिपत्ताणं जन्मान्तरवैरभावविनाशो भवतु स्वाहा ॥५५॥
५६. ओं ह्री अर्ह णमो आमोसहिपत्ताणं अपस्मारप्रलापनचिन्ताविनाशो भवतु स्वाहा ॥५६॥
५७. ओ ह्री अर्ह णमो विट्ठोसहिपत्ताणं गजमारीविनाशनं भवतु स्वाहा ॥५७॥
५८. ओ ह्री अर्ह णमो सब्बोसहिपत्ताणं मनोवांछितसिद्धि भवतु स्वाहा ॥५८॥
५९. ओ ह्री अर्ह णमो मणवलीणं गोमारीविनाशो भवतु स्वाहा ॥५९॥
६०. ओ ह्री अर्ह णमो वचिवलीणं अजमारी विनाशो भवतु स्वाहा ॥६०॥
६१. ओ ह्री अर्ह णमो कायवलीणं महिषमारी विनाशो भवतु स्वाहा ॥६१॥
६२. ओं ह्री अर्ह णमो खीरसवीणं अष्टादशकुस्टगण्डमालादिकविनाशनं भवतु स्वाहा ॥६२॥
६३. ओं ह्री अर्ह णमो सप्पिसवीणं सर्वशीतज्वरविनाशनं घृतश्रावि ऋद्धिर्भवतु स्वाहा ॥६३॥
६४. ओ ह्री अर्ह णमो महुसवीणं समस्तोपसर्गविनाशनं मधुरश्रावि ऋद्धिर्भवतु स्वाहा ॥६४॥
६५. ओ ह्री अर्ह णमो अमइसवीणं सर्वव्याधि विनाशनं अमृतश्रावि ऋद्धिर्भवतु स्वाहा ॥

६६. ओ ह्री अर्हं णमो अक्खीणमहाणसाणं अक्षीणऋद्धिर्भवतु स्वाहा ॥६६॥
६७. ओ ह्री अर्हं णमो वड्ढमाणबुद्धिरिसरस्स राजपुरुषादिभयविनाशनं भवतु स्वाहा ॥६७॥
६८. ओं ह्री अर्हं णमो सब्बसिद्धायदणाणं धनधान्यसमृद्धिर्भवतु रत्नत्रयं भवतु स्वाहा ॥६८॥
६९. ओ ह्री अर्हं णमो भगवदो महति महावीर वड्ढमाण बुद्धिरिसीणं समाधिसुखं भवतु स्वाहा ॥६९॥
७०. ओं ह्री अर्हं णमो अक्खर धणप्पयालं विउव्वगपत्ताणं सर्वज्वरादिरोग विनाशनं भवतु स्वाहा ॥७०॥
७१. ओं ह्री अर्हं णमो सब्बराजवशीकरणकुसलाणं श्रीजिणाणं सर्वराज्यप्रजावशीभूतं भवतु स्वाहा ॥७१॥
७२. ओं ह्री अर्हं णमो दुस्सहकट्ठनिवारयाणं श्री जिणाणं सर्व दुख निवारणं भवतु स्वाहा ॥७२॥
७३. ओं ह्री अर्हं णमो इत्थितरो अविणासयाण विट्ठोसहिपत्ताणं समस्त स्त्रीरोग विनाशनं भवतु स्वाहा ॥७३॥
७४. ओ ह्री अर्हं णमो तक्खरभय पणासयाणं श्री जिणाणं समस्त चौरादिभयविनाशनं भवतु स्वाहा ॥७४॥
७५. ओं ह्री अर्हं णमो अपुव्वल पठाइयाणं बलद्धिपत्ताणं समस्तमनोवाछित्त सिद्धिर्भवतु स्वाहा ॥७५॥
७६. ओ ह्री अर्हं णमो मृगीरोग वारयाणं सब्बोसहिपत्ताणं सर्वमृगीरोगविनाशनं भवतु स्वाहा ॥७६॥
७७. ओं ह्री अर्हं णमो वंदिओ अप्पाणं सब्बसिद्धापदणाणं समस्तबन्धन भय विनाशनं भवतु स्वाहा ॥७७॥
७८. ओं ह्री अर्हं णमो दक्कराए सर्वार्थ सिद्धिर्भवतु स्वाहा ॥७८॥
७९. ओं ह्री अर्हं णमो धम्मराए जपतिए गर्भपत्तन निवारणं भवतु स्वाहा ॥७९॥
८०. ओं ह्री अर्हं णमो धणवड्ढिकराए धनगोधन लाभं भवतु स्वाहा ॥८०॥
८१. ओ ह्री अर्हं णमो पुत्त इत्थिकराए सन्तानवर्धनं भवतु स्वाहा ॥८१॥
८२. ओ ह्री अर्हं णमो उण्हगदहारिए सर्वेषां रोग विनाशनं भवतु स्वाहा ॥८२॥

८३. ओ ह्री अर्ह णमो आगालभववज्जणाए अग्निभयनिवारणं भवतु स्वाहा ॥८३॥
८४. ओ ह्री अर्ह णमो इक्खवज्जणाए मधुरजलं भवतु स्वाहा ॥८४॥
८५. ओं ह्री अर्ह णमो णगभयपणासए वन नगमेदिनीकृत्तोपद्रवविनाशनं भवतु स्वाहा ॥८५॥
८६. ओ ह्री अर्ह णमो पासे सिद्धासुणंतिए सर्पविष विनाशनं भवतु स्वाहा ॥८६॥
८७. ओं ह्री अर्ह णमो अक्खिगदनासए नेत्र पीडा निवारणं भवतु स्वाहा ॥८७॥
८८. ओ ह्री अर्ह णमो पुक्कियतरुपत्ताए सर्ववृक्षलतामारीनिवारणं भवतु स्वाहा ॥८८॥
८९. ओ ह्री अर्ह णमो जयदेव पासे पत्ताए राज्यसन्मानं भवतु स्वाहा ॥८९॥
९०. ओं ह्री अर्ह णमो जावित्ता परिवत्ताए दुर्भिक्षकृत्तोपद्रवविनाशनं भवतु स्वाहा ॥९०॥
९१. ओं ह्री अर्ह णमो इट्ठि मिट्ठि भक्ख कराए सर्वांग पीडा निवारणं भवतु स्वाहा ॥९१॥
९२. ओं ह्री अर्ह णमो चतुः षष्टिऋद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् चतुःसंधानां सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिः पुष्टिश्च भवतु स्वाहा ॥९२॥
९३. ओ ह्री अर्ह णमो हां ह्री हूं ह्रौ ह्रः धनधान्यसमृद्धिर्भवतु रत्नत्रयं भवतु स्वाहा ॥९३॥
९४. ओ नमोऽर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थकराय श्रीमद् रत्नत्रयरूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामण्डलमण्डिताय द्वादशगण सहिताय अनंतचतुष्टय सहिताय समवसरण केवलज्ञान - लक्ष्मीशोभिताय अष्टादशदोषरहिताय षट्चत्वारिंशद्गुणसंयुक्ताय परमेष्ठिपवित्राय सम्यग्ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमहिताय अनंतसंसारचक्रपरिमर्दनाय अनंतज्ञान दर्शनवीर्य सुखारूपदाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घातिकर्मक्षयंकराय अजराय अमवाय ऋष्यार्यिका श्रावक-श्राविका प्रमुखचतुः संघोपसर्ग विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय देवाधिदेवाय नमो नमः स्वाहा ॥९४॥
९५. पूर्वोक्त मंत्राणां पूजन भक्ति प्रसादात् ऋष्यार्यिका श्रावक-श्राविकाणां सर्वक्रोध मान-माया लोभ हारयरत्यरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्रीपुरुषनपुंसक वेद विनाशनं भवतु स्वाहा ॥९५॥

९६. मिथ्यात्व रागद्वेष मोहमत्सरासूयेर्ष्या विभावविकारविषादप्रमादकषाय विकथा विनाशनं भवतु स्वाहा ॥९६॥
९७. सर्वपंचेन्द्रिय विषयेच्छस्नेहाशा रौद्राकुलताव्याधिदीनता पाप दोष विरोधविनाशनं भवतु स्वाहा ॥९७॥
९८. सर्वममकार विकल्प निद्रा तृष्णाधितापदुःखवैराहंकार संकल्प विनाशो भवतु स्वाहा ॥९८॥
९९. सर्वाहारभयमैथुनपरिग्रह संज्ञा विनाशो भवतु स्वाहा ॥९९॥
१००. सर्वोपसर्ग विघ्न गज चोर दुष्ट मृगेहलोक परलोकाकरमान्मरण वेदनाशरणान्त्राणभय विनाशो भवतु स्वाहा ॥१००॥
१०१. सर्वक्षयरोग कुष्ठरोग ज्वरातिसारादिरोग विनाशनं भवतु स्वाहा ॥१०१॥
१०२. सर्वनरगज गोमहिषधान्य - वृक्षगुल्मपत्रपुष्प - फलमारी, राष्ट्रदेशमारी, विश्वमारी विनाशो भवतु स्वाहा ॥१०२॥
१०३. सर्वमोहनीय ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय नाम गोत्रायु अन्तरायकर्म विनाशनं भवतु स्वाहा ॥१०३॥
१०४. ओ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा नमः मंत्रभक्ति प्रसादात्सर्वेषां यजमानानां शान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१०४॥
१०५. ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय जगच्छांतिकराय सर्वोपद्रव शान्ति कुरु कुरु स्वाहा ॥१०५॥
१०६. ओं णमो अरिहंताणं ओं णमो जिणाणं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ओं ह्री अर्हं अ सि आ उ सा इत्रौ इत्रौ नमः सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१०६॥
१०७. ओं ह्रीं ह्रौं श्री ह्री क्ली शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरुकुरु अ सि आ उ सा इवी क्ष्वी हं सं तं पं द्रां द्री द्रावय द्रावय श्री ह्री सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा ॥१०७॥
१०८. ओ ह्री अर्हं अ सि आ उ सा संपूर्ण कल्याण मंगलरूप मोक्षपुरुषार्थश्च भवतु स्वाहा ॥१०८॥

इति शान्तिमंत्राः

पुण्याहवाचन (शांतिधारा) (१)

शांति हवन का कार्य करने के पश्चात् प्रमुख इन्द्र कुण्ड पर या कुण्ड के समीप थाली रखे। फिर मंगलकलश से पुण्याहवाचन के मंत्रों द्वारा शांतिधारा करे और हवन करने वाले सब पात्र णमोकार मंत्र का शांतिपूर्वक मन में स्मरण करते रहें।

ओं पुण्याहं पुण्याहं लोकोद्योतनकरा अतीतकालसंजातानिर्वाणसागर प्रमृतयश्चतुर्विंशति भूत परमदेवाश्च वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा)

ओं सम्प्रतिकाल संभवावृषभादिवीरान्ताश्चतुर्विंशति परमदेवाश्च वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा)

ओं भविष्यतिकालाम्युदय प्रभवामहापद्मादि चतुर्विंशति भविष्यत्परमदेवाश्च वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा)

ओं त्रिकालवर्ति परमधर्माभ्युदयाः सीमंधर प्रमृतयोविदेहगतविंशति परमदेवाः वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा)

ओं वृषभसेनादिगणधरदेवाः वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा)

ओं सप्तर्द्धि विशोमिताः कुन्दकुन्दाद्यनेक दिगम्बर साधु चरणाः वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां (धारा)

इह वान्य नगर ग्राम देवता मनुजाः सर्वगुरुभक्ता जिनधर्मपरायणा भवन्तु । दान तपो वीर्यानुष्ठानं नित्यमेवास्तु सर्वजिनभक्तानां धनधान्यैश्वर्यबलद्युतियशः प्रमोदोत्सवाः प्रवर्धन्ताम् । तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्मसिद्धिरस्तु इष्टसम्पत्तिरस्तु । काम मांगलोत्सवाः सन्तु, पापानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पुण्यवर्धताम् धर्मो वर्धताम् श्रीवर्धताम् कुल्लगोत्रं चाभिवर्धताम् । स्वस्ति मद्रं चारस्तु इवी क्ष्वीं हं सः स्वाहा । श्रीमज्जिनेन्द्र चरणारविन्देष्वानंद भक्तिः सदाऽस्तु । (इति शांतिधारा)

पुण्याहवाचन (२)

ओ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्ताम् प्रीयन्ताम् भगवदोऽर्हन्त सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः
त्रैलोक्यनाथाः त्रिलोकप्रद्योतनकराः वृषभादिवर्द्धमानांताश्चतुर्विंशति परमदेवाः
शान्ताः शान्तिकराः सकलकर्मरिपुविजयकान्तारदुर्गविषमेषु रक्षन्तु वो जिनेन्द्राः ।

सर्वविदश्च नित्यमर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधवश्च भगवन्तो न प्रीयन्तां प्रीयन्ताम् ।
इह चान्यग्रामनगरादिषु सर्वे देवताश्चतेसर्वे गुरुभक्ताः अक्षीणकोषकोष्ठागारा
भवेयुर्दानतपोवीर्यनित्यमेवास्तु नः ।

मातृ पितृ भ्रातृ सुहृत्सुजन संबंधि बन्धु वर्ग सहितानां धनधान्यैश्वर्यद्युति बल
यशोवृद्धिरस्तु । प्रमोदोऽस्तु शान्तिर्भवतु । पुष्टिर्भवतु । सिद्धिर्भवतु ।
काममंगलोत्सवाः सन्तु । शाम्यन्तु घोराणि । शाम्यन्तु पापानि । पुण्यंवर्धताम्
धर्मोवर्धताम् । श्चायुषी वर्द्धताम् । कुलं गोत्रं चाभिवर्द्धताम् । स्वस्तिभद्रं चास्तु नः ।
हस्ताते परिपंथिनः । शत्रवः समं यान्तु । निस्पृतिघमस्तु । शिवमतुलमस्तु । सिद्धा
सिद्धं प्रयच्छंतु नः स्वाहा । ओ कर्मणः पुण्याहं भगवतो ब्रुवन्तु । इति प्रार्थयेत् । पुण्याहं
कर्मणोऽस्तु । इति ब्रुयुः । अनेन प्रकारेण ओं कर्मणि स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ।
स्वस्तिकर्मणोऽस्तु च । कर्म सिद्धि ऋद्धि च भवन्तो ब्रुवन्तु ।
एतद्वाक्यत्रयोच्चारणान्ते त्रिवार पात्रान्तर पातित पूर्णकलशजलेन समां शान्ति
मंत्रेण सिंचेत् ।

शातिधारा पश्चात् शान्त्यष्टक, शातिभक्ति, शातिपाठ व विसर्जन करे ।

सीमन्तनी क्रिया

मध्याह्न - सभी महिला पात्र (इन्द्राणियों) माता मरुदेवी के राजमहल में जाकर गीत,
नृत्य पूर्वक यह क्रिया करती है ।

इसमें प्रथम गर्भधारण करने के मागलिक अवसर पर प्रायः ८ वे माह में रिस्तेदार
स्वजनो (महिलाओ) द्वारा गोद भरने, भेट (वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान्न आदि) समर्पित
करने की क्रिया की जाती है । जिसे क्षेत्रीय (जहाँ पंचकल्याणक हो रहा हो) प्रथा
के अनुसार उत्साहपूर्वक सम्पन्न किया जावे ।

गर्भकल्याणक का उत्तररूप

रात्रि में आरती, प्रवचन पश्चात् यज्ञवेदिका पर गर्भकल्याणक उत्तर रूप किया जाय ।

महाराजा नाभिराय का दरबार

अयोध्या के राजप्रासाद में राजदरबार लगा हो ।

महाराजा नाभिराय सिंहासन पर आसीन है दक्षिण की ओर प्रधानमंत्री और बाईं ओर सेनापति बैठे हैं दोनो तरफ सभासद बैठे हो ।

महाराज नाभिराय राज्य व्यवस्था समझने के लिए मंत्री से ज्ञात करना चाहते हैं ।

महाराजा नाभिराय:- मंत्री महोदय, अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार असुविधाये तो नहीं हैं । क्योंकि राजा का धर्म है कि, प्रजा का पुत्रवत् ध्यान रखे । अतएव राज्य की स्थिति का निर्भय अवलोकन कराइये । नीति शास्त्र का कथन है-

विनश जाय वह मंत्री जो मन शंकाखाय,
विनश जाय वह कामनी आज्ञा से टल जाय ।

अतएव राज्य स्थिति को स्पष्ट कीजिए ।

१. प्रधानमंत्री:- महाराजा, दीनबधु, प्रजावत्सल, नीतिनिपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्मप्रतिपालक आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दण्डनीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं ।

राज्य में कही भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती । राज्य में प्रजाजन सदा ही भगवद्भक्ति अर्चना, व्रत नियम से संयम साधना, अनेकात सिद्धान्त तत्त्वचर्चा, साधुवन्दना करके जीवन पवित्र करते हैं । अतएव चरितार्थ है कि 'यथा राजा तथा प्रजा' ।

राज्य में सुख शान्ति एवं समृद्धि निरंतर निर्बाधरूपेण पाई जाती है । महाराज राज्य की व्यवस्था अति सुन्दर है । रहेगी ऐसी कामना है ।

महाराजा नाभिराय:- अत्युत्तम मंत्री जी, राज्यव्यवस्था का निरंतर ध्यान रखना । भोग भूमि की समाप्ति पर प्रजाजनों को अशांति न हो, प्रजा कर्तव्य परायण रहे आप मार्गदर्शन समुचित देते रहिये ।

(बाई ओर देखकर) कहिए सेनापति महोदय, राज्य मे शाति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति को नियत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है, यथाशीघ्र अवगत कराइये ।

सेनापति:- महाराजाधिराज, प्रजापालक, नरोत्तम, अवध नरेश आप सैन्य व्यवस्था से निरन्तर निश्चित रहिए। कारण कि सेना की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है, जिसमे, गजसेना, अश्वसेना, रथसेना, पैदलसेना, जलसेना के साथ सभी प्रदेशों की अनेक सेनाये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रो से सुसज्जित की गई है जिनके नाम सुनते ही अन्य राजागण दातो के नीचे अगुली दबा लेते है । महाराजा एक तो आकस्मिक ऐसी स्थिति ही असभव है और यदि कदाचित् कोई अवसर ही आ जाय तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ एव सतर्क है आप निश्चित रहिए ।

महाराजनाभिराय:- बहुत ही प्रसन्नता है सेनापति, निरन्तर सावधानी रखना अपना कर्तव्य है । आप लोग राज्य के असीम शुभचिन्तक हो । अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है । प्रत्येक नगर निवासी सानद जीवनयापन करे ऐसी कामना है ।

१. **सभासद:-** श्रीमान् की अत्यधिक अनुकम्पा से अभी तक तो शान्ति है । परन्तु भारत निवासियों का भविष्य समुज्ज्वल दिखाई नहीं दे रहा है ।

१. **महाराज नाभिराय:-** महानुभाव इसका कारण क्या प्रतीत होता है निसकोच कहिये?

२. **सभासद:-** नरपुगव । कारण स्पष्ट है तृतीय काल के केवल चौरासी लाख पूर्व तीन वर्ष साढे आठ महिना शेष रह गए है, अतएव कल्पवृक्षो का अभाव क्रमश होने लगा है । अन्न और वस्त्र के अभाव मे जीवन सकटापन्न हो रहा है ।

२. **महाराज नाभिराय:-** सज्जनो । स्थिति अवगत होते ही मै भी अत्यधिक चिन्तित था । किंतु धनाधिप द्वारा सुनाये गए शुभ सन्देश एव रत्नवृष्टि से समस्याये आसानी से सुलझ जावेगी ।

३. **सभासद:-** प्रजापालक नरोत्तम । हम सब वह सन्देश सुनने को अत्यन्त उत्सुक है । आप दया कर विस्तारपूर्वक जानकारी देकर हमारी अभिलाषा पूर्ण करिये ।

३. **महाराज नाभिराय:-** यह विषम सकट काल हमारे जीवन मरण की समस्या बना है। उस विषमता को मिटाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि कल्पातीत विमान से आदि ब्रह्मा अवतार लेने वाले है ।

४. सभासद:- अवसर अब आया निकट सुना सुखद संदेश,
पुण्य पुरुष का अवतरण होगा अपने देश ।

आर्य श्रेष्ठ । आपके इस अभूतपूर्व सन्देश से हम समस्याओ को विधिवत् समाप्त करने वाले पुरुषोत्तम के स्वागत हेतु पलक पावड़े बिछा प्रतीक्षारत हैं । महाराजा नाभिराय की जय ३ बार । आदिब्रह्मा आदिनाथ की जय ३ बार । (द्वारपाल महारानी मरुदेवी के आगमन की सूचना देता है। देवियो सहित माता मरुदेवी राजदरबार मे प्रवेश करती है ।)

सभासद खड़े होकर स्वागत करते हैं और महाराजा नाभिराय एवं महारानी मरुदेवी की जय बोलते है ।

महाराज नाभिराय:- स्वागत महादेवी स्वागत महारानी,
मरुदेवी: प्रणाम करती हूँ प्राणनाथ !

नाभिराय (अर्द्धसन बिठाते हुए) कारण जानना चाहते हैं अकस्मात् आगमनका,
हो प्रसन्न मुद्रा प्रिये पुलकित वदन दिखाय,
कारण क्या आगमन का दीजे शीघ्र बताय ।

प्रिये प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ ।

महारानी मरुदेवी:- माननीय आर्यसत्तम, आज मैं अपने शयन कक्ष मे निद्रा मग्न थी अचानक रात्रि के अतिम चतुर्थ पहर मे मुझे एक से एक सुंदर सोलह स्वप्न दृष्टि गोचर हुए । उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे मुख मे एक दिव्य वृषभ प्रवेश कर रहा है ।

गीता -

हे नाथ पिछली रात में हम स्वप्न सोलह देखिया ।

गज, बैल, सिंह, सुदेविकमला न्हवन करता पेखिया ।

द्वय पुष्पमाल, सुचन्द्रपूरण, सूर्य, सुवरन कलश दो
युग मीन सरवर कमलयुत, सागर, सुसिहासन भलो ।

रमणीक स्वर्ग विमान उत्तरत नागभवन सु आवतो
सुरतन राशि सुक्राति पूरन अगनि धूम न पावतो ।

तब अत मे इक वृषभ मेरे मुख प्रवेश करता भया
इनका सुफल कहिए प्रभू मुझ दीन पर करके दया ।

माननीय प्राणेश्वर । यह सोलह स्वप्न देखे है कृपया यथाशीघ्र स्वप्नो का फलादेश बतलाकर मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए ।

महाराज नाभिराय:- धन्य हो प्रिये, एक साथ सोलह स्वप्न उसी सौभाग्यवती को आते हैं जिसकी विशाल कुक्षि को पावन करने वाले तीर्थकर अवतार लेने आते हैं । आनन्द स्वरूप स्वप्नो का फलादेश सुन लीजिए ।

महाराजा नाभिराय (स्वप्नफल गीत)

सुनो प्रिये मैं तुम्हें सुनाऊँ स्वप्नो का फल प्यारा है,
धर्ममूर्ति तीर्थकर सुत हो जागा भाग्य हमारा है ।

गज देखन से सुत उत्तम हो वृषभ से जगगुरु होवेगा
सिंह देखने से पराक्रमी माला तीर्थकर होवेगा
कमला न्हवन से गिरि न्हवन करे देव मिल प्यारा है

धर्ममूर्ति तीर्थकर सुत हो० १ ।

शशि पूरण बतलाता ऐसा सर्वजगत में शांति भरे,
सूर्यप्रतापी कुम्भयुगल से निधिपति वन भण्डार भरे ।
सरवर अवलोकन से होगा सर्वगुणी भण्डारा है,

धर्ममूर्ति तीर्थकर सुत हो० २ ।

मीन युगल को देखा तुमने आनन्दकारक होवेगा,
सागर का फल यह प्रिय जानो सर्वज्ञानमय होवेगा।
सिंहासन से प्रजापालक बन नीतिवन्त जग प्यारा है,

धर्ममूर्ति तीर्थकर सुत हो० ३ ।

स्वर्गविमान स्वर्गरो आये नागेन्द्र अवधिज्ञानी होगा
रत्नराशि से सर्वगुणो का अधिकारी वह सुत होगा।
निर्धूम अग्नि से कर्मजला किया शुद्ध चिदानन्द प्यारा है,

धर्ममूर्ति तीर्थकर सुत हो० ४ ।

वृषभप्रवेश से वृषभनाम सर्वार्थ सिद्धि तजकर आये,
करे महोत्सव सुरसुरपति मिल निधिपति रतन सुवरषाये।
धन्य दिवस तीर्थकर जननी यह धनभाग्य हमारा है,

धर्ममूर्ति तीर्थकर सुत हो० ५ ।

प्रिय महादेवी आपने एक दो नहीं किंतु सोलह स्वप्न देखे हैं उनका फलादेश बतला रहा हूँ कि आपकी पावन कुक्षि को आलोकित करता हुआ एक महाभाग्य विश्व का उद्धार करने वाला अवतरित होगा ।

सोलह स्वप्नो का फलादेश

१. ऐरावत हाथी	पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा
२. श्वेत बैल	धर्माधिकारी जगत पूज्य
३. सिंह	अनन्तशक्ति धारण करने वाला
४. लक्ष्मी अभिषेक	इन्द्रो द्वारा पाण्डुक शिला पर अभिषेक
५. दो पुष्पमाला	तीर्थ प्रवर्तन करने वाला
६. पूर्णचन्द्रमा	तीन लोक में शांति करने वाला
७. उदित सूर्य	सर्वजगत में प्रतापवान
८. क्रीडारतमच्छली	अनुपम आनंद करने वाला
९. स्वर्णकलश	अनेक अमूल्य निधियों का स्वामी
१०. सरोवर	एक हजार आठ लक्षण सहित
११. समुद्र	संपूर्णज्ञानी (केवलज्ञानी)
१२. रत्नसिंहासन	तीन लोक का अधिपति
१३. देव विमान	सर्वार्थसिद्धि विमान से अवतरण
१४. धर्मेन्द्र भवन	जन्म से तीन ज्ञान का धारी
१५. रत्नराशि	संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला
१६. निर्धूम अग्नि	आठ कर्मों का नाश करने वाला

मरुदेवी:- कुशल मार्गदर्शक प्राणनाथ ! आज मेरी नारी पर्याय सफल हो गई, आप के द्वारा स्वप्नों का फलादेश सुनकर मेरा अन्तर्मानस हर्ष विभोर हो गया, धन्य हो महापुरुष! आप जयवन्त हो । (रील द्वारा पृथक् पृथक् स्वप्न दिखलाकर स्वप्नों का फल बतलाना चाहिए)

(देवियों द्वारा गीत)

सुनकर प्रभु का अवतार, मन मे आनंद अपार.

उत्सव अवधमझार, सब ही मनावो अति प्यार से । टेक ।

धन पिता मात तुम धन हो शुभदिन धन तन अरुमन हो ।

सुना फल सुखकार, मन में आनंद अपार । सब ही.. १

धनपति ने नगर सजाया निज जीवन सफल बनाया ।

रत्नवरषेँ मूसलधार मन में आनंद अपार । सब ही.. २

क्या महिमा तुम्हारी गावे कब जिनवर दर्शन पावें ।

वोलें प्रभु की जयजयकार, मन में आनंद अपार । सब ही.. ३

(सब मिलकर बोलती है महाराजा नाभिराय की जय, माता महारानी मरुदेवी की जय) पुन सौधर्मेन्द्र, इन्द्रानी स्वर्ग से अनुपम भेट लाते है और महाराजा नाभिराय एव महारानी मरुदेवी को समर्पित कर आनंद विभोर स्तुति करते है ।

इन्द्र, इन्द्रानी स्तुतिकर महाराजा नाभिराय एव माता महारानी मरुदेवी की जयजयकार करते है। कुम्भेर देवियों को सेवा करने एव गर्भशोधन करते हुए माता को निरतर प्रसन्न रखने का आदेश देता है (देविया आज्ञा शिरोधार्य करती है)

इन्द्र यथारस्थान प्रस्थान करता है । महारानी माता मरुदेवी देवियों सहित महल मे आती है । देविया सेवा एव नृत्य करती हुई गीत गाती है ।

(राजदरबार समाप्त कर माता को पलग पर बिठाया जाय तब देविया गीत के साथ सेवा करती हुई नृत्य करती है)

सब मिल मनाये खुशियां, ललन माता को मिलेगे "टेक"

जब प्रभु गरभमांहि आवेगें नभ से रतन बरसेगे ॥१॥

तीन ज्ञानधारी जन्मेगे जग अज्ञान हरेगे । ललन० ॥२॥

प्रथमदरशइन्द्रानी कर है गोद मे मोद भरेगे ॥३॥ ललन०

ललना जी की छवि हरि देखन नेत्र हजार धरेगे ॥४॥ ललन०

ऐरावत पर बैठा प्रभु को पाण्डुक वन में चलेंगे ॥५॥ ललन०

एक हजार आठ कलशों से ललना का न्हवन करेंगे ॥६॥ ललन०

पुनः सौपकर मातपिता को ताण्डव नृत्य करेगे ॥७॥ ललन०

राज्यभोग वैभव त्यागेंगे गेषदिगम्बर धरेगे ॥८॥ ललन०

पांच महाव्रतधारी होंगे वन मे जाय बसेंगे ॥९॥ ललन०

चारघातिया नाश करेगे ज्ञान के दीपक जलेगे ॥१०॥ ललन०

आठ करम को नाश प्रभु जी मोक्ष महल मे बसेगे ॥११॥ ललन०

इस प्रकार माता की सेवा, नृत्य, गीत, वाद्य बजाकर मनोरंजन कर देवियां प्रश्नोत्तर करती है।

देवियों द्वारा प्रश्न, माता द्वारा उत्तर

- १ प्रश्न - पूज्य महादेवी मामेरा समाधान कीजिए, ससार मे किसकी शरण लेना चाहिए ?
- १ उत्तर - देवी सुनिये, ससार मे पंच परमेष्ठी की शरण लेना चाहिए।
- २ प्रश्न - हे त्रिजगोत्तमे ! संसार मे उत्तम रत्न कौन है?
- २ उत्तर - ससार में सम्यग्दर्शन ही उत्तम रत्न है।
- ३ प्रश्न - हे जगत्पूज्य मां ! तपस्या करते हुए ससार किसका नहीं मिटता?
- ३ उत्तर - आत्मज्ञान बिना जो तपस्या करते है उनका संसार नहीं मिटता।
- ४ प्रश्न - त्रिलोकचूड़ामणि मा ! मनुष्य पशु समान कैसे कहलाता है?
- ४ उत्तर - धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु समान कहलाता है।
- ५ प्रश्न - हे पुरन्धिश्चेष्टे ! किसको नाश करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता है ?
- ५ उत्तर - मोह, रागद्वेष, विषय-कषाय को नाश करने वाला ही त्रिलोक पूज्य हो जाता है।
- ६ प्रश्न - हे जगत्पूज्यजननी ! ससार मे गृहस्थ दुखी क्यों रहता है?
- ६ उत्तर - विषय कषाय रापत्ति की तीव्र अगिलाषा से ही गृहस्थ ससार मे दुखी रहता है।
- ७ प्रश्न - मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है?
- ७ उत्तर - विरोध रहित पुरुषार्थों के पालन करने से मानव पुरुष कहा जाता है।
- ८ प्रश्न - पुत्र को मृतक समान क्यों कहा जाता है?
- ८ उत्तर - विद्या, विनय, सदाचार से रहित पुत्र को मृतक समान कहा जाता है।
- ९ प्रश्न - जीव को किसकी भक्ति करना चाहिए?
- ९ उत्तर - जीव को पंचपरमेष्ठी की भक्ति निरंतर करना चाहिए।
- १० प्रश्न - मानव अपनी उन्नति कैसे कर सकता है?
- १० उत्तर - विषय - कषाय से अनुरजित विचार रहित आत्मानुभूति करने वाला मानव अपनी उन्नति कर सकता है।


- ११ प्रश्न - प्रातः समय मे मनुष्य को क्या करना चाहिए ?
- ११ उत्तर - प्रातः काल शुद्ध वस्त्रो से सामायिक करते हुए आत्म चितवन करना चाहिए ।
- १२ प्रश्न - संसार मे कौन स्त्रिया सुमति बढ़ाती है ?
- १२ उत्तर - जो स्त्रिया मधुर वचन के साथ सबका आदर करती है वे सुमति बढ़ाती है ।
- १३ प्रश्न - ससार मे सबसे उत्तम कार्य कौन है ?
- १३ उत्तर - निरन्तर बुद्धिपूर्वक आत्मचितवन करना ही ससार मे उत्तम कार्य माना गया है ।
- १४ प्रश्न - कौन सी कथाये पाप नाश करती है ?
- १४ उत्तर - ससार मे धर्मकथाये ही सब पापो का नाश करती है ।
- १५ प्रश्न - उत्तमधर्म किसे कहा गया है ?
- १५ उत्तर - अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ एव सर्वमान्य उत्तम धर्म कहा गया है ।
- १६ प्रश्न - कौन धनवान ससार मे सुखी रहता है ?
- १६ उत्तर - जिस धनवान को सदा सन्तोष रहता है और निरन्तर दान मे सपत्ति का उपयोग करता है वह ससार मे सुखी रहता है ।
- १७ प्रश्न - समस्त ससार किसके आधीन रहता है ?
- १७ उत्तर - जो सत्य वचन बोलता है परधन का अपहरण नही करता ससार की समस्त स्त्रियो को मा, बहिन, बेटी मानता है समस्त ससार उसके आधीन रहता है ।
- १८ प्रश्न - मन को बदलने का क्या उपाय है ?
- १८ उत्तर - अनेकात सिद्धान्त का पठन, मनन, चितन एव धारण करना ही मन को बदलने का उपाय है ।
- १९ प्रश्न - कर्मो का अंत कैसे हो सकता है ?
- १९ उत्तर - आत्म स्वभाव मे स्थित, शुक्लध्यानी साधु अवस्था से ही कर्मो का अंत हो सकता है ।
- २० प्रश्न - अविरति का अभाव कैसे हो सकता है ?
- २० उत्तर - पचेन्द्रियो के विषयो का दमन, छहकाय के जीवो की रक्षा के साथ समता परिणाम से अविरति का अभाव हो सकता है ।

- २१ प्रश्न - गृहस्थ का उत्तम धन कौन है?
- २१ उत्तर - न्याय के साथ कमाया गया धन ही गृहस्थ का उत्तम धन माना है।
- २२ प्रश्न - कौन सा जीव रोगी नहीं होता?
- २२ उत्तर - जो विवेक पूर्वक सदाचार के साथ प्रकृति अनुकूल आहार विहार करता है वह जीव रोगी नहीं होता।
- २३ प्रश्न - संकट में साथ देने वाला कौन है?
- २३ उत्तर - ससार में धर्म, धैर्य और तत्त्वचितन ही संकट में साथ देने वाला है।
- २४ प्रश्न - मरण समय क्या करना चाहिए?
- २४ उत्तर - ससार शरीर भोगों से विरक्त होकर समता भाव धारण कर पंच परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिए।
- २५ प्रश्न - संसार में सच्चा मित्र कौन माना जाता है?
- २५ उत्तर - जो कुर्मार्ग से निकलकर आत्मकल्याण के मार्ग में लगाता है वही सच्चा मित्र है।
- २६ प्रश्न - ससार में शत्रु कौन माना जाता है?
- २६ उत्तर - आत्मोद्धारक मार्ग से हटाकर कुर्मार्ग की ओर लगाने वाला ही बड़ा शत्रु माना जाता है।
- २७ प्रश्न - कौन की शरण सुख देने वाली है?
- २७ उत्तर - पंच परमेष्ठी एवं अपनी आत्मा की शरण ही शाश्वत सुख देने वाली है।
- २८ प्रश्न - जीव को शाश्वत सुख कब मिल सकता है ?
- २८ उत्तर - जिस समय जीव रत्नत्रय प्राप्त कर तपश्चरण पूर्वक कर्मों का अभाव करता है उस समय उसे शाश्वत सुख मिल सकता है।
- २९ प्रश्न - हमारा सच्चा पिता कौन है?
- २९ उत्तर - सन्मार्गोपदेशक, वीतरागी, विश्व के समस्त पदार्थों को जानने वाला, अनन्त चतुष्टय वाला अरहंत परमात्मा ही हमारा सच्चा पिता है।
- ३० प्रश्न - हमारी सच्ची माता कौन है?
- ३० उत्तर - वीतराग भगवान के सर्वांग से निकलकर सन्मार्ग बतलाने वाली जिन वाणी ही हमारी सच्ची माता है।


- ३१ प्रश्न - हमारा सच्चा बन्धु कौन है?
- ३१ उत्तर - रत्नत्रय मार्ग पर चलने एव चलाने वाला आरभ, परिग्रह रहित साधु ही हमारा सच्चा बंधु है।
- ३२ प्रश्न - हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है?
- ३२ उत्तर - अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एव चर्चा ही हमारा सच्चा कर्तव्य है।
- ३३ प्रश्न - ससार में अहित करने वाला कौन है?
- ३३ उत्तर - तीनलोक और तीन काल में मिथ्यात्व अर्थात् आत्मा की श्रद्धा नहीं होना ससार में सबसे अधिक अहित करने वाला है।
- ३४ प्रश्न - ससार में हित करने वाला कौन है?
- ३४ उत्तर - तीन लोक और तीन काल में आत्मविश्वास (श्रद्धा) ही सबका हित करने वाला है।
- ३५ प्रश्न - ससार में दुख देने वाला कौन है?
- ३५ उत्तर - हमारी विषय - कपाय पूर्ण अभिलाषाये ही ससार में दुख देने वाली है।
- ३६ प्रश्न - ससार में सुख देने वाला कौन है?
- ३६ उत्तर - सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप ही ससार में यथार्थ सुख देने वाले हैं।
- ३७ प्रश्न - मेरा शाश्वत स्थान कौन है?
- ३७ उत्तर - समस्त जन्म - मरण की आवृत्तता रहित नित्य अविनाशी मोक्ष घाम ही शाश्वत स्थान है।
- ३८ प्रश्न - यह आत्मा ससार परिभ्रमण क्यों कर रहा है?
- ३८ उत्तर - अपने ज्ञायक स्वभाव को भूलकर विकारी भावों को अपना मानने वाला आत्मा ससार परिभ्रमण करता है।
- प्रश्न ३९ - आत्मा का स्वरूप क्या है?
- उत्तर ३९ - बन्धरहित स्पर्शरहित, द्रव्यकर्म, भावकर्म, नो कर्म से रहित चैतन्यस्वरूपी होना आत्मा का स्वरूप है।
- ४० प्रश्न - ससार परिभ्रमण मिटाने का उपाय क्या है?
- ४० उत्तर - परभावों का स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व परिणामों से हटकर अपने ज्ञायक शुद्ध स्वरूप का आश्रय करने से ससार परिभ्रमण मिटता है।

- ४१ प्रश्न - संसार में उत्तम गति कौन है?
- ४१ उत्तर - जहा जाने के बाद फिर न आना पड़े अर्थात् जन्म मरण का अभाव करने वाला पद अरहत सिद्ध गति ही संसार मे उत्तम गति है।
- ४२ प्रश्न - संसार मे जीव सुखी कैसे बन सकता है?
- ४२ उत्तर - संसार की व्यवस्था मे अहकार ममकार का सबध तोड़कर कर्मों से नाता छोड़कर ज्ञायक स्वभाव से बुद्धि जोड़कर समता भाव वाला जीव संसार मे सुखी बन सकता है ।
- ४३ प्रश्न - जीवो के साथ किस प्रकार वचन प्रयोग करे?
- ४३ उत्तर - समस्त प्राणियो के हित करने वाले, मर्यादित और मधुर वचनों का प्रयोग जीवो के साथ करना चाहिए ।
- ४४ प्रश्न - भोजन कैसे करना चाहिए?
- ४४ उत्तर - अभक्ष्य पदार्थों को छोड़ शरीर को निरोग रखने एव धर्मसाधन के लिए उपयोगी सात्विक भोजन करना चाहिए।
- ४५ प्रश्न - शरीर निरोग कैसे हो सकता है?
- ४५ उत्तर - प्रकृति के अनुकूल शुद्ध भूख से कम समयानुसार आहार करने वाला शरीर निरोगी रह सकता है।
- ४६ प्रश्न - संसार मे किस प्रकार चलना चाहिए?
- ४६ उत्तर - भूमि को देखते हुए जीवो की विराधनारहित सावधानी पूर्वक चलना चाहिए ।
- ४७ प्रश्न - आत्मा अबध कैसे रह सकता है?
- ४७ उत्तर - संसार को अजायबघर जैसा मान लो इसमें जो पदार्थ है उनमे न राग करो न द्वेष करो किंतु ज्ञायक बनकर रहने वाला आत्मा अबध रह सकता है।
- ४८ प्रश्न - आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है?
- ४८ उत्तर - अनादि काल से हम शरीर को आत्मा मान रहे है उसे आत्मा से पृथक मान ले और आत्मा के स्वभाव में स्थिर हो जावे पश्चात् आत्म स्वभाव की निर्विकल्प दशा से आत्मा परमात्मा बन सकता है ।
- ४९ प्रश्न - यह जीव नरकगति मे कैसे जाता है?
- ४९ उत्तर - बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह की भावना (परिणाम) करने वाला जीव नरक गति जाता है।


- ५० प्रश्न - यह जीव तिर्यच गति मे कैसे जाता है?
- ५० उत्तर - कुटिलता की भावना अर्थात् कहना कुछ और करना कुछ ऐसा जीव तिर्यच गति मे जाता है।
- ५१ प्रश्न - मनुष्य गति मे जीव कैसे जाता है?
- ५१ उत्तर - परिणामो की सरलता रखने वाला जीव मनुष्यगति मे जाता है।
- ५२ प्रश्न - देवगति मे यह जीव कैसे जाता है?
- ५२ उत्तर - ब्रताचरण करने वाला, मिथ्यात्वसहित तप करने वाला कषाय की मदत वाला जीव देवगति मे जाता है।
- ५३ प्रश्न - श्रावक का कर्तव्य क्या है?
- ५३ उत्तर - देवदर्शन व पूजा, गुरुवदना, स्वाध्याय समय, तपश्चरण एव दान करना, पानी छनकर पीना, रात्रि भोजन नही करना सामायिक करना श्रावक का कर्तव्य है।
- ५४ प्रश्न - जीव नीच कुल मे कैसे जाता है?
- ५४ उत्तर - परकी निन्दा और अपनी प्रशसा करने वाला जीव नीच गोत्र मे जाता है।
- ५५ प्रश्न - जीव ऊच कुल का बध कैसे करता है?
- ५५ उत्तर - अपनी निन्दा और परकी प्रशसा करने वाला जीव ऊच गोत्र का बध करता है।
- ५६ प्रश्न - भोगोपभोग की सामग्री होते हुए भी उन्हे भोग क्यो नही पाता?
- ५६ उत्तर - जिस जीव ने दूसरे प्राणी के भोगोपभोग करते देखकर ईर्ष्या की है वह साधन पाकर भी भोग नही सकता।



पडाल वेदी




सत शिरोमणि श्रमण सूर्य आचार्य श्री १०८ विद्यासागरजी महाराज



एक
बुद्ध
सागर
को

श्रमण परम्परा के सूर्य सत शिरोमणि
आचार्य श्री १०८ विद्यासागरजी महाराज
की रजत जयंती के पुण्य प्रसंग पर
उनके अमृतमय सारश्वत वरद हस्ती में
“शत शत नमन”

गोविन्द चन्द्र गुप्त




गुरु आशीष




मिला ऐसे...



पूज्य उपाध्याय श्री गुप्तिसागरजी महाराज



पावन अवसर—नव निर्माण एव पच कल्याणक महोत्सव श्री महावीर जिनालय, प्रीत विहार



पंडाल पूजा



गर्भ कल्याणक



जन्म कल्याणक



जन्माभिषेक




बालक वर्धमान महावीर के धैर्य और बल की परीक्षा




तप कल्याणक



भगवान् महावीर का पूर्व भव



ज्ञान कल्याणक



मोक्ष कल्याणक

जन्म
कल्याणक

जन्म कल्याणक

- मंत्र - (१) मातृका मंत्र
(२) सुरेन्द्र मंत्र
(३) वर्धमान मंत्र
- मण्डल - चौबीस तीर्थकर मण्डल
- यंत्र - (१) मातृका यंत्र
(२) सुरेन्द्र यंत्र
(३) वर्धमान यंत्र
- भक्तियों - (१) सिद्ध भक्ति
(२) तीर्थकर भक्ति
(३) चारित्र्य भक्ति
(४) शान्ति भक्ति
- सामग्री - (१) अर्धचन्द्राकार शिला
(२) पूजा सामग्री
(३) विधिनायक के वस्त्राभूषण
(४) घंटा, झालर, शंख, तुरही
(५) ऐरावत हाथी
(६) जुलूस व्यवस्था
(७) पालना (तैयार)
(८) बाल क्रीड़ा के खिलौना
(९) वाद्य घोष
-

जन्मकल्याणक

गर्भकल्याणक के पश्चात् प्रातः (सूर्योदय के बाद) नित्यमहपूजा करके शुभलग्न में जन्म क्रिया होना चाहिए। राजभवन (गर्भगृह) में आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सूची अनुसार करे।

- १ राजभवन (यज्ञवेदी) के ईशान कोण में कल्पवासी देव की स्थापना करे। (उस दिशा से घण्टा की ध्वनि होना)
२. आग्नेय कोण में ज्योतिषी देव की स्थापना करे। (सिहनाद की ध्वनि होना)
- ३ नैऋत्य कोण में व्यन्तरदेव की स्थापना करे। (पटह, ढोल की ध्वनि होना)
- ४ वायव्य कोण में भवनवासी देव की स्थापना करे। (शख की ध्वनि होना)
- ५ चारों दिशाओं में चार देवियां सफेद ध्वजाएँ लेकर खड़ी हों, जो तीर्थकर कुमार के जन्म की सूचना ध्वजा को ऊपर उठाकर दे, जिससे सबको ज्ञात हो जावे। जयकारा हो, वादित्रों की ध्वनि एवं महाराजा नाभिरायजी के राजभवन में इन्द्र-इन्द्रानी एवं मनुष्यों द्वारा बधाइया, नृत्य महाराजा द्वारा जन्मोत्सव, जिसमें याचकों को दान दिया जाय। कुम्भर द्वारा रत्नवृष्टि की जाय। आनन्दोत्सव मनाया जाय।

मातृका मंत्र, सुरेन्द्र मंत्र, वर्धमान मंत्र का जाप करना।

१. मातृका मंत्र:-

ओं नमोऽर्ह अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ष स ह क्लीं ह्रीं क्रीं स्वाहा। (मंत्राराधन १०८ बार)

२. सुरेन्द्र मंत्र

ओं ह्रां वषट् णमो अरहंताणं संवौषट् ओं ब्लूं क्लीं त्रीं त्रां ह्रीं क्रीं आ सः ओ नमोऽर्ह अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह, ल क्षः क्लीं ह्रीं क्रीं स्वाहा। (मंत्राराधन १०८ बार करे)

३. वर्धमान मंत्र

ओं णमो भयवदो वड्डमाणस्स रिसहस्स जरस्स चक्कंजलं तं गच्छइ आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जये वा विवादे वा रणांगणे वा थंमणे वा मोहणे वा सब्बजीवसत्ताणं अपराजिदो भवदु मे रक्ख रक्ख स्वाहा। (मंत्राराधन १०८ बार करे)

मंगलाष्टक, दिग्बंधन, रक्षामंत्र, शांतिमंत्राराधन पात्रशुद्धि, नित्यमह पूजन विसर्जन के पश्चात् पंचकल्याणकस्तोत्र पाठ एवं भक्तियां पढ़कर जन्म की क्रिया करना चाहिए ।

प्रथम चारो इन्द्राणी, कुबेर इन्द्राणी, अष्टदेविया थालियो में पूजा सामग्री पीले सरसो, अष्टगध, सर्वौषधि, आरती आदि लेकर माता की तीन प्रदक्षिणा करें। देविया माता की सेवा कर रही हो । इन्द्राणिया माता की आरती करें और जल द्वारा स्थान की शुद्धि करे ।

देवियो मे जातिकर्मस्थापना (१)

भृगाराब्दातपत्रोज्ज्वलचमरु हाण्युद्धहत्योष्टशो या

द्वात्रिंशद्विकुमार्यो जिनवपुषिभजत्यविकायाश्चतस्र ।

गेह विद्युत्कुमार्यो रुचकवरनगा ग्रास्पदाद्योतयते

या चाष्टौ जातकर्मादधति तदनुगास्ता स्फुरत्वत्रघरन्या ॥

ओं रुचिकवर गिरीन्द्र शिखरनिवासिन्यो विजयादिदेव्यो यथास्वमर्हत्प्रभुमिहेदानी
परिचरंत्विति स्वाहा । (मजूषा और देवियो पर पुष्प क्षेपण करे)

‘वस्त्रापनयन क्रिया’ (२)

यस्मिन्नुत्पद्यमाने सकल मघवता मुत्तमागानि नेमुः

चेलुश्चित्तानि पीठान्यपिचलदचलाभूतघात्रीचक्रे ।

अभोधिश्चोज्जृभे सुरकुजनिकर सववर्षप्रसूनम्

मत्वार्हन्त तमेना प्रतिवृत्ति मधुनावस्त्रमुत्सारयामि ॥

ओ नमोऽर्हते भगवते श्रीमते त्रिभुवन तिलकोत्तमांगाय दिगंवरायज्योतिर्मण्डलाय
देवेन्द्रवरमुकुटमणिगणकिरण सलिलधारावृत्तपदामिषेकायद्वादशगणसमन्वितसमग्र
समवसरणसंपत्सहितायवृषभादिवर्द्धमानपर्यन्त तीर्थकराय, उर्ध्वमुख मोक्षनायकत्रय नमः
(इति पठित्वा प्रतिमाच्छादित वस्त्रमपनयेत्)

मजूषा के ऊपर का वस्त्र अलग करे ।

कि ता सवित्रीमिह वर्णयामि कि चर्चये लग्नमथास्पदं तत् ।

यदेषदेवो भुवनत्रयैकगुरु स्वय स्वप्नसवेधिचक्रे ॥

पुण्याहमद्याद्य मनोरथा नः पूर्णा जगत्यद्य सनायकानि

प्रमोदते कोऽद्य न चेतनोस्मिन्नुजेपिजन्मात्यमिद प्रपन्ने ॥

जिनजन्म स्थापनाय तस्या अन्यासां च प्रतिष्ठेय - प्रतिमानामुपरि पुष्पाक्षतं क्षिपेत् (३)
(जन्मकल्याणक स्थापन हेतु सब प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करें)

(१) प आ ध., प्रतिष्ठा सारोद्धार ४/९१/३७ (२) श्री जे. दे, प्रतिष्ठा तिलक पाठ ४४३ श्लोक
५ (३) प. आ. ध., प्रतिष्ठा सारोद्धार ४/९०/३३ एव ३४

जन्म क्रिया

(मंजूषा से प्रतिमा निकालने की विधि)

शुभे विलग्ने सुनवाशके वा जिनेन्द्रजन्मप्रबभूवयद्वत् ।
मंजूषकान्तर्गतमाशुबिम्बनिष्काशयेदार्यवरं कराभ्या ॥^(१)

आचार्य सावधानी पूर्वक दोनो हाथो से विधिनायक को मंजूषा से बाहर निकाले एवं भद्रासन मातृकायत्र सुरेन्द्रयत्र भी निकालकर मंजूषा पर दोनो यत्र रखकर प्रतिमा स्थापित करे । देविया सफेद ध्वजाये ऊपर उठाये और चतुर्निकाय देव वादित्रो की ध्वनि करे । तीन दीपक जलाकर जन्म से तीन ज्ञान की कल्पना करे ।

(समस्त प्रतिमाओं के वस्त्रापनयन)

देवानां नमयन् शिरसि समनास्याकपयन्नासना -
न्यभ्र निर्मलयन् सदिक् सुमनसो देवद्वुमैर्वर्षयन् ।
जन्यन् शीत सुगधिमदमनिल य सिन्धुमुद्वेलप -
न्नाघुन्वन् स घराघरा च निरगात् कुक्षे शुभेहनोषस ॥

ओं प्रतिष्ठेय प्रतिमायां वस्त्रापनयनम्^(२) (समस्त प्रतिमाओ के वस्त्र निकाल दें)

विधिनायक और समस्त प्रतिमाओ की जन्म की क्रिया करे ।

ओं ह्री श्री क्षी भूः स्वाहा (भूमि शुद्धि करे)

ओं ह्री अर्हं क्ष्मं ठः ठः स्वाहा (पीठ स्थापन करे)

ओं ह्रां ह्री हूं ह्रीं ह्रः नमोऽर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन पीठ प्रक्षालनं करोमि
(पीठ प्रक्षालन करे)

नाकेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रभास्वत्कोटीरघृष्टोज्ज्वलपादपीठ
आरोपये लोकजित जिनेन्द्र श्रीवर्णकीर्णक्षतमध्यपीठ ॥

ओं ह्री अर्हं श्रीलेखनं करोमि (पीठ पर श्री लिखे)^(३)

वादित्रनालोत्वणनद नद जयेति शब्दप्रभृतीनुदीर्य ।

भद्रासने स्थाप्यसुसिद्धमत्रै पुष्पप्रकीर्णावलिमुत्क्षिपेत् ॥

ओं ह्री त्रैलोक्योद्धरणधीरं जिनेन्द्रस्यप्रतिकृति भद्रासने उपवेशयामि^(४)

(विधिनायक को भद्रासन पर स्थापित करे)

अनन्यसाधारणसद्गुणाना तव स्मरन्नस्तमितस्मरार्ते ।

जिनेन्द्रसाक्षात्कृतसर्वतत्त्व त्वमात्मन सन्निहित करोमि ॥

(१) आ. ज. से, प्रतिष्ठा पाठ श्लोक ७५८ (२) प आ ध, प्रतिष्ठा सारोद्धार ४/९०/३२

(३) श्री ने. दे प्रतिष्ठा तिलक पृष्ठ ४८ (४) आ ज से, प्रतिष्ठा पाठ श्लोक ७५९

ओं उसहाय दिव्य देहाय सज्जोजादाय महष्णाय अणंत चउट्टाय परमसुह
पड्टयाय गिम्मलाय सयंभवे अज्जरामर परमपदपत्ताय परमपदाय मम इत्यविसण्णि
हिदाय स्वाहा^(१) (इन्द्र विधिनायक का सात बार स्पर्श करें)

ओं ह्रीं क्षीरसमुद्रवारिपूरितेनमणिमयमंगलकलशेन भगवदर्हत्प्रतिकृतिं स्नपयामः
(सब प्रतिमाओं का अभिषेक करें)

इन्द्रो जिनेन्द्र स्नपनावसाने दिव्यागरागेणयमालिलेष ।

कर्पूरकालागुरु कुकुमाद्यं श्रीचन्दनेनास्य समालभेऽगम् ॥^(२)

ओ ह्रीं सहजसौगन्ध्यबंदुरांगस्यगंवलेपनं करोमि

(इन्द्राणी सब प्रतिमाओं को उदटन लगावें)

ओं ह्रीं श्रीं भगवदर्हत्प्रतिकृतिं शांतिधारां गृह्णीध्वं गृह्णीध्वं अर्हं नमः मद्रं भवतु जगतां
शान्तिधारां निःपातयामि । शांतिकृद्म्यः स्वाहा (सौवर्म इन्द्र अभिषेक एवं शांतिधारा
करें)

सत्यजाताय स्वाहा ।	अर्हज्जाताय स्वाहा ।	दिव्यजाताय स्वाहा ।
दिव्यार्चजाताय स्वाहा ।	नेमिनाथाय स्वाहा ।	सौवर्माय स्वाहा ।
कल्पाधिपतये स्वाहा ।	अनुचराय स्वाहा ।	परम्परेन्द्राय स्वाहा ।
अहमिन्द्राय स्वाहा ।	परमार्हजाताय स्वाहा ।	अनुपमाय स्वाहा ।

सम्यादृष्टेः कल्पपते २ दिव्यमूर्तेः वज्रनामनः स्वाहा ।

सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु अपमृत्युविनाशनं भवतु समाधिमरणं भवतु ।^(३)

(मंत्र पढ़ते हुये पुष्प क्षेपण करें)

क्रियाकलाप संवेतुरीश्वरस्येश्वरक्रियाः ।

स्स्कारयानास पुनर्मंत्रप्राशुभिरुत्तमैः ॥^(४)

ओं ह्रीं इक्ष्वाकुकुले - नाभिभूपतेर्मरुदेव्यामुत्पन्नस्यादि - देवपुरुषस्य
ऋषभदेवस्वामिनोऽत्रविम्बे वृषभांकितत्वात्तद् गुणस्थापनं तेजोमयं करोमि ।

(प्रत्येक तीर्थंकर के कुल, नाता पिता का नानोच्चारण करना चाहिये ।)

ओ ऋषभादि दिव्यदेहाय सद्योजाताय महाप्रज्ञाय अनंतचतुष्टयाय
परमसुखप्रतिष्ठिताय निर्मलाय स्वयंभुवे अजरामर पदप्राप्ताय
चतुर्मुखपरमेष्ठिनेऽर्हते त्रैलोक्यनाथाय त्रैलोक्यपूज्याय अष्टदिव्यनागप्रपूजिताय
देवाधिदेवाय परमार्थ सन्निहितोऽसि स्वाहा ।

(आम्यां प्रतिमाया अंगानि संस्पृशन् गुणाधिरोपणं कुर्यात् ।)

विधिनायक आर समस्त प्रतिमाओं पर नुण आरोपण के लिए पुष्प क्षेपण करें ।
पश्चात् सब प्रतिमाओं को स्पर्श करते हुये गुणों की स्थापना करें एवं दश दीपक
क्रम से जलावे ।

(१) श्री वे दे. प्रतिष्ठा तिलक पृष्ठ ४५७ (२) वही, पृष्ठ ५१३ (३) आ. न. से., प्रतिष्ठा पाठ
पृष्ठ १३७ (४) वही. श्लोक ७९०

जन्मातिशय संस्कारारोपण

नि स्वेदत्वमनारत विमलतासस्थानमाद्य शुभ ।
 तद्वत्सहनन भृश सुरभिता सौरूप्यमुच्चै परम् ॥
 सौलक्षण्यमनतवीर्यमुदिति पथ्यप्रियासुक्य य ।
 शुभ्र चातिशया दशेह सहजा सन्त्वर्हदंगानुगा ॥
 सनवव्यजनशतैरष्टाग्रशतलक्षणै ।
 विचित्र जगदानदि यज्जिनाग तदस्त्विद ॥ (१)

१. ओं अस्मिन् बिम्बे निःस्वेदत्वगुणो विलसतु स्वाहा ।
२. ओं अस्मिन् बिम्बे मलरहितत्वगुणो विलसतु स्वाहा ।
३. ओं अस्मिन् बिम्बे क्षीरवर्णरुधिरत्वगुणो विलसतु स्वाहा ।
४. ओं अस्मिन् बिम्बे समचतुरस्रसंस्थानगुणो विलसतु स्वाहा ।
५. ओं अस्मिन् बिम्बे वज्रवृषभनाराचसंहननगुणो विलसतु स्वाहा ।
६. ओं अस्मिन् बिम्बे अद्भुतरूपगुणो विलसतु स्वाहा ।
७. ओ अस्मिन् बिम्बे सुगंधितशरीरगुणो विलसतु स्वाहा ।
८. ओं अस्मिन् बिम्बे अष्टोत्तरसहस्रलक्षणव्यंजनत्वगुणो विलसतु स्वाहा ।
९. ओ अस्मिन् बिम्बे अतुलबलवीर्यत्वगुणो विलसतु स्वाहा ।
१०. ओ अस्मिन् बिम्बे हितमितप्रियवचनत्वगुणो विलसतु स्वाहा । (२)

इन्द्र समस्त प्रतिमाओ का स्पर्श कर पुष्प क्षेपण करे और समीप मे एक एक मंत्र पढकर दीपक की स्थापना करे । गुणारोपण क्रिया प्रत्येक प्रतिमा मे होना चाहिये । (एवं दशातिशयान् संस्थाप्य तदनंतरं मंत्राम्यां अंगानि संस्पृशेत् ।^१)

ओं अर्हद्भ्यो नमः, नवकेवललब्धिभ्यो नमः, क्षीरस्वादुलब्धिभ्यो नमः, मधुरस्वादुलब्धिभ्यो नमः, संभिन्नश्रोतृभ्यो नमः, पादानुसारिभ्यो नमः, कोष्ठबुद्धिभ्यो नमः, बीजबुद्धिभ्यो नमः, सर्वावधिभ्यो नमः, परमावधिभ्यो नमः ।

ओं ह्रीं वल्गु वल्गु निवल्गु निवल्गु सुश्रवणे ओं ऋषभादिवर्धमानांतेभ्यो वषट् वषट् स्वाहा । (इति मंत्राम्यां अंगानि संस्पृशेत् ।)

ओंणमो भयवदो वड्ढमाणस्स रिसहरस्स जस्स चक्कंजलंतं गच्छ्छ आयासंपायालं लोयाणं भूयाणं जये वा विवादे वा रणांगणे वा थंभणे वा मोहणे वा सब्बजीवसत्ताणं अपराजिदो भवदु मे रक्ख रक्ख स्वाहा । (इति वर्धमानमंत्रेण चांगानि संस्पृशेत् ।)

इस वर्धमान मंत्र द्वारा वर्धमान यत्र पर धारा करे और प्रतिमाओ का स्पर्श करे तथा वर्धमान यत्र प्रतिमा के सामने स्थापित करें ।

(१) प आ ध, प्रतिष्ठा सारोद्धार ४/९१/३५, ३६

(२) आ ज. से, प्रतिष्ठा पाठ पृष्ठ - २५५-५६

नामकरण

गृह्णन्ति यस्य समयामृतघृतचित्ता नामानि कोटिमृषयः कलुषक्षयाय ।
मेरौ महेन्द्र इव संव्यवहारहेतोस्तव्याहरेहमिहयष्टमतेन नाम्ना ॥ (१)

(नामकरणार्थप्रतिमोपरि पुष्पाक्षतंक्षिपेत्)

ओं अयं महानुभावः परमेश्वरो यजमानामि मतेन नाम्ना वृषभेश्वरो भवतु (इन्द्रेण वक्तव्यम्)
वृषभेश्वरो भवतु । इति सर्वैः प्रति वक्तव्यम् ।

(वृषभनाथ नाम रखा गया यह घोषणा करे) (२)

तदनंतर शांतिभक्ति पढकर कार्य समाप्त करे । महाराज नाभिराय द्वारा जन्मोत्सव किया जाय । याचकों को दान दिया जाय, इन्द्र इन्द्राणियो द्वारा बधाइयां एवं गीत नृत्य किए जायें । सामूहिक बधाइया होना चाहिए । शांतिहवन करके कार्य समाप्त करें । प्रातः या मध्याह्न भोजनोपरांत सौधर्मेन्द्र इन्द्र परिवार सहित ऐरावत हाथी पर आरूढ होकर अयोध्या नगर (मण्डप) की तीन प्रदक्षिणा बैण्ड बाजो के साथ करे । पश्चात् सौधर्मेन्द्र व इन्द्राणी, हाथी से उतर कर राजमहल (यज्ञवेदी) में आयें । राजमहल में सौधर्मेन्द्र विचार मग्न होता है कि तीर्थकर कुमार के प्रथम दर्शन करने का मुझे सौभाग्य इसलिए नहीं कि प्रसूति-गृह में पुरुष का जाना निषेध है । अतएव विवश होकर इन्द्राणी को आज्ञा देता है ।

देवी जाहु प्रसूतिगृह, लावो तीर्थकुमार ।

माता को दुख होय ना, रखना यही विचार ॥

देवी शीघ्र प्रसूतिगृह में जाकर, माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर और एक मायामयी बालक माता के पास लिटाकर, तीर्थकर कुमार का दर्शन करावो । शची, आज्ञानुसार कार्य होगा यह कहती हुई कुमार तीर्थकर को लाती है । इन्द्र हाथ बढाता है इन्द्राणी पीछे हट जाती है । बहुत प्रतीक्षा के बाद तीर्थकर कुमार के हजार नेत्रों से दर्शन कर आनंदविभोर होता हुआ, शची सहित तीर्थकर कुमार को ऐरावत हाथी पर बैठा पाण्डुक वन की ओर प्रस्थान करता है । पाण्डुक शिला की तीन प्रदक्षिणा कर उसके ऊपर मध्य के सिंहासन पर विराजमान कर जन्माभिषेक की तैयारी करता है ।

(१) प. आ. ध., प्रतिष्ठा सारोद्धार ४/९८/७७

(२) किन्हीं आचार्यों ने नामकरण पाण्डुक शिलापर अभिषेक पश्चात् लिखा है ।

जन्माभिषेक

(पाण्डुक शिला की क्रियाएँ)

मगलाष्टकपाठ, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शातिमंत्राराधन करे। सिद्ध, चारित्र, तीर्थकर एव शाति भक्तिया पढे।

पाण्डुक शिला की क्रियायें

यस्यार्थं क्रियते कर्म स प्रीतो नित्यमस्तु मे।

शान्तिक पौष्टिक चैव सर्वकार्येषु सिद्धिद ॥

(पाण्डुक शिला स्थल पर पुष्प क्षेपण करे)

श्रीभद्राशालकसौमनसमुरुवननन्दनपाण्डुकारख्य

यस्योच्चैरतरीयपरिवृत्तरसनामुत्तरीयक्रमेण।

उष्णीषचानुकुर्यान्नवनवति सहस्रोन्नतिर्योजनाना

ख्यातो मेरु स साक्षान्मणिकनकमयोस्त्वेतदेवोच्चपीठम्।^(१)

(महामेरु भाव स्थापनाय तन्मण्डपे सर्वतः पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्)

यो योजनानिशतमायतिमेतदर्धव्यासविभर्ति विशदाष्टतदुच्छ्रयच

अर्धेन्दुबिबसदृशीसुरभिःसुरम्यासापाण्डुकाव्हयशिलेयमिहास्तुवेदी।^(२)

(पाण्डुका शिला स्थापनार्थं पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्)

पाण्डुक शिलाशुद्धिमंत्र

ओ क्षां क्षी क्षूं क्षौ क्षः पाण्डुक शिलाशुद्धिं करोमि।

(जल से पाण्डुक शिला की शुद्धि करे)

ओं जन्माभिषेक प्रतिज्ञायै पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्

ओं ह्री पवित्रतर जलेन पीठ प्रक्षालनं करोमि।

ओं ह्री श्री अर्ह श्री लेखनं करोमि

(पाण्डुक शिला पर श्री लिखे)

ओं त्रैलोक्योद्धरणधीरजिनेन्द्रस्यप्रतिकृतिः पाण्डुक शिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ
(विधिनायक प्रतिमा अर्धचन्द्राकार शिला पर विराजमान करे)

कुन्देन्दुहारधवलोत्तमदुग्धपूरतत्पचमाम्बुनिधिभूरिपयप्रपूर्णा।

ये योजनारस्य ततयोष्ट च तानि निम्नास्तेमी भवन्तु कलशा कलधौतजाताः।

स्वस्तये कलशस्थापनं करोमि (कलश स्थापन करे)

(१) श्री ने. दे, प्रतिष्ठा तिलक पृष्ठ ४५५, श्लोक १८ (२) वही, श्लोक १९

(३) वही पृष्ठ ४५९ श्लोक २५

ओं ह्री श्री वं मं हं सं तं पं इवी क्ष्वी हं सः नमोऽर्हते मणिमय मंगल कलशेन
भगवदर्हत्प्रतिकृतिं सुगंधजलेन स्नपयामः

(जल से अभिषेक करे) तत्पश्चात् निम्न मंत्र द्वारा १००८ कलशों से अभिषेक करें

ओं ह्री मणिमय मंगल कलशेन भगवदर्हत्प्रतिकृतिं सुगंधजलेन स्नपयामि (स्नपयामः)

गंधलेपनमंत्र (यहा से क्रिया परदा लगाकर करे)

इन्द्रोजिनेन्द्रस्नपनावसाने दिव्यागरागेणयमालिलेप

कर्पूरकालागुरुकुक्कुमाढ्य श्रीचन्दनेनास्य समालभेऽगम्^(१)

ओं ह्री सहजसौगन्ध्य बंधुरांगस्यगंधलेपनं करोमि ॥

(इन्द्राणी केशरयुक्त उबटन करे)

ओं ह्री श्री वं मं हं सं तं पं इवी क्ष्वी हं सः नमोऽर्हते स्वाहा

(इन्द्र जल से अभिषेक करे)

इन्द्रानी द्वारा प्रक्षालन एवं वस्त्राभरण पहनाना

अतिशयिशरीरे तीर्थभर्तु पवित्रे जलकणलवलेशो नांगलग्नो बभूव ।

स्फटिक इव तथापि स्वामिसेवात्तचित्ता क्रतुपतिललनांग मार्जयामास भर्तु ॥ (२)

ओं शुद्धांशुकेन मार्जनं करोमि (इन्द्रानी मार्जन करे)

विभूषयामास जगत्त्रयस्य विभूषणं दिव्यविभूषणाद्यै ।

पुरदरोऽय जिनचन्द्रबाल स एव देवो जिन बिम्ब एष ॥ (३)

ओं श्री जिनांगं वस्त्रेण विभूषयामि (वस्त्र पहिनावे)

यस्योन्मील्य निसर्गजे श्रवणयो वज्रेण रन्ध्रे हरिः ।

शच्या सेचनकं वपुस्त्रिजगता भवत्याभि संस्कारयेत् ॥

त्रैवर्ण्योज्ज्वलसूत्र दृश्यवमत्सिद्धार्थरत्नश्रिय ।

श्चर्याचारुभुजेऽस्य भूषणमयं बध्नन्तु ताः कंकणम् ॥ (४)

सद्गंधैरनुलिप्य मूर्ध्नि मुकुटं चूडामणि कौशिके ।

भाले सत्तिलकं श्रुतौ मणिचिते सत्कुण्डले लंबिकाम् ॥

मुक्तावलयथ कण्ठिका गलतटेष्वाबापकाश्चागदः ।

.

केयूर भुजयो पदेऽस्तु कटके मजीरयुग्मादिका ।

आभूषा परघापने नवमहामूलेसुरेन्द्रालयात् ॥

आनीतानि दधाति न क्षिति भवानीन्द्र प्रियेत्यादरा ।

दाविर्भूतिमतिर्नतोत्तमतनुर्भूषा चकार स्वय ॥ (५)

(१) श्री ने दे, प्रतिष्ठा तिलक पृष्ठ ५१३ श्लोक ७ (२) आ ज. से., प्रतिष्ठा पाठ श्लोक - ७६९

(३) श्री ने दे, प्रतिष्ठा तिलक पृष्ठ ५०० (४) प. आ. ध. प्रतिष्ठा सारोद्धार ४/९८/७६

(५) आ ज. से., प्रतिष्ठा पाठ पृष्ठ २५० श्लोक ७७० - ७७१

इन्द्राणी तीर्थकर कुमार को कुण्डल, ककण, मुकुट, चूडामणि, तिलक, माला, बाजूबद, कटि-मेखला, कटक आदि आभूषण पहिनावे, तिलक करे, अजन लगावे ।
 आरार्तिकेषु मणिरत्नशिखोच्चयेषु, पुष्पाजलिप्रकर इन्द्रमखाधिराङ्ग्या ।
 निक्षिप्यमाण उदभात् कनकाचलेषु स्नानीयनीर निकरोऽथ जिनागकातौ । (१)
 (इन्द्राणी आरती करे)

आरती

सुरपति ले अपने शीश, जगत के ईश गये गिरराजा,
 जा पाण्डुक शिला विराजा टिका

शिल्पी कुचेर वहा आकर के, क्षीरोदधि मेरुलगाकर के
 रचि पैड ले आये सागर का जल ताजा,
 फिर नहवन कियो जिनराजा ॥१॥

नीलम पन्ना वैडूर्यमणि, कलशा लेकर के देवगणी
 इक सहस आठ कलशा लेकर नभ राजा,
 फिर नहवन कियो जिनराजा ॥२॥

वसुयोजन गहराई वाले, वऊ योजन चौड़ाई वाले
 इक योजन मुख के कलशा ढरे शिशुनाथा,
 नहि जरा डिगे शिशुनाथा ॥३॥

सौधर्म इन्द्र अरुईसाना प्रभु कलश करे घर युगपाना,
 अरुसनत कुमार महेन्द्र दोई दिविराजा
 शिर चवर दुरावे साजा ॥४॥

शेष दिविज जयकार किया इन्द्राणी प्रभुतन पौछ लिया,
 शुभ तिलक दृगाजन शची कियो जिनराजा
 नाना भूषण से साजा ॥५॥

ऐरावत पुनि प्रभु लाकर के, माता की गोद बिठाकर के
 अति अचरज ताण्डव नृत्य कियो दिविराजा
 स्तुति करके जिनराजा ॥६॥

चाहत मन 'मुन्नालाल' शरण, वसु कर्म जाल दुख दूरकरन
 शुभ आशिषमय वरदान देहु जिनराजा,
 मम नहवन होय गिरिराजा ॥७॥

इन्द्र द्वारा स्तवन^१

त्वदेववीतरागोऽसि नार्थं स्तवनं निन्दने । तथापिभक्तिवशगः स्तवीमि कतिचित्पदैः ॥१॥
 मगलशरणलोकोत्तमोऽर्हन्जिनराङ्गजिन । सिद्धआचार्यसंपूज्यसाधुसाधुपितामह ॥२॥
 प्राग्यः पापहरोऽधीशोनिः कषायोगुणाग्रणी । पावनपरमं ज्योतिपरमेष्ठीसनातनः ॥३॥
 अव्यक्तोव्यक्तमूर्तिस्वमलक्ष्योलक्षणातिगः । सुलक्ष्योलक्षणज्ञेयपापशत्रुरुदारधीः ॥४॥
 प्रणीतार्थः प्रमाणात्मा सुनयो नयतत्त्ववित् । प्रणधिप्रणवो नाद्योज्ञानदर्शननायक ॥५॥
 पुराणपुरुषोऽहार्यरूपोरूपातिगो कामहा । कमनो काम्यकामगामी कलानिधिः ॥६॥
 कम्प्रकामयिता कान्तकामनातीतकामुक । कालुष्यहन्ताकामारिकोपावेशहरोहरः ॥७॥
 स्वयभूर्विधिरुत्साहोधीरसुवृत्तभावन । स्रष्टाभूतपतिः साक्षी त्रैलोक्यपरमेश्वरः ॥८॥
 प्रभूष्णुरधिदेवात्मा विश्वराड् विश्वतोमुख । विश्वयोनिर्जिष्णुरीश संवदपुण्यनायक ॥९॥
 धर्माबुवाहो धर्मज्ञो वेदविद्वदतांवर । भव्यभानुर्मखज्येष्ठस्त्वंहि ब्रह्मपदेश्वरः ॥१०॥
 भूष्णुस्थिरतरस्थाष्णुरचलोविमलोविभुः । महीयान्जातिसस्करः वृत्तवृत्त्योमहस्पतिः ॥११॥
 वाग्मी वाचस्पतिः प्राज्ञो गुणरत्नाकरोनिधिः । शास्ता सर्वज्ञईशान आप्त सर्वत्रलोचनः ॥१२॥
 वृत्स्थो निर्विकारोऽस्ति नस्त्यवाच्य गिरापति । स्याद्वादनायकेनेता मोक्षमार्गोपदेशक ॥१३॥
 निरीहः सुगतोभास्वान् लोकलोकविभावसुः । अन्तगुणसंपूज्योनित्ययज्ञोऽसि विश्वराड् ॥१४॥
 एवमष्टोत्तरशता नाम्नां पातु बधनात् । मोचय स्वात्मसंभूति देहि देहि महेश्वर ॥१५॥
 निर्गलत्प्रेमधारांबुक्षालितांघ्रिसरोरुह । मागल्यपावनत्वादिलुब्धोविधिनिपाकमः ॥१६॥
 ॥ इति स्तवन ॥

भाषा स्तवन^२

पद्धरी-जय वीतराग हत रागद्वेष, क्षायिक दर्शन क्षायिक अदोष ।
 तुम पार हरन हो नि कषाय, पावन परमेष्ठी गुण निकाय ॥
 तुम नय प्रमाण ज्ञाता अशेष, श्रुतज्ञान सकल जानो विशेष ।
 तुम अवधिज्ञानधारी विशाल, मतिज्ञान धरण सुखकर वृपाल ॥
 तुम काम रहित हो काम जीत, तुम विद्या निधि हो कर्मजीत ।
 तुम शांत स्वभावी स्वयंबुद्ध, तुम करुणानिधि धर्मी अक्रुद्ध ॥
 तुम वदतावर वृत्तवृत्त्यईश, वाचस्पति गुण निधि गिराईश ।
 तुम मोक्षमार्ग उपदेशकार, महिमा तुम्हरी को लहे पार ॥
 दोहा-
 नाम लिए थुति के किए, पातक सर्वपलाय ।
 मगल होवे लोक में स्वात्मभूति प्रगटाय ॥

(१) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक ७७४ से ७८९ (२) ब्र. शी. प्र., प्रतिष्ठा सार संग्रह पृष्ठ १०१

अमृत स्थापन (१)

अंगुष्ठयोरमृतदुग्धविधि प्रक्लृप्य बालार्यमप्रतिभुव सविधे कुमारान् ।
संयोज्य पचशतकान् वसनान्नपान - भूषाफलादिभिरुपास्य जगाम काम ॥
ओं ह्री श्री तीर्थकरकुमारांगुष्ठेऽमृतं स्थापयामि ।

इन्द्र तीर्थकर कुमार के दाहिने पाव के अगुठे में इक्षुरस द्वारा अमृत स्थापन करे ।
यदि समयभाव से समस्त इन्द्र एव इन्द्राणियो सहित पूजा पाण्डुक शिला पर
जन्माभिषेक के समय न हो सके, तो दूसरे दिन सामूहिक पूजा जन्मकल्याणक की
करना चाहिए । जन्माभिषेक के समय सौधर्मेन्द्र इन्द्राणी द्वारा पूजा करा लेना
आवश्यक है ।

जन्मकल्याणक-पूजा

स्वस्वरस्थानकवन्दिता सुरवरैर्गत्वा स्वपक्षै सम-
मागत्यामर-वाहनै सुविमलैर्मैरोर्मु मुदा मस्तके ।

नीत्वा मातृगृहात् सुक्षीरसलिलैर्येनाप्य सपूजिताः,
जन्माप्तान् वृषभादिवीरजिनपान् सस्थापयामो वय ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रा अत्र अवतर अवतर संवौषट् ! अत्र
तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

मदाकिनीजातसुनीरपूरै शीताप्तमोदागतभृगवृन्दै ।
ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् सयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचन्दनैश्चन्दनसद्रवैश्च, वरेन्द्रयोग्याप्तसुवर्णवर्णै ।
ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् सयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

नरेन्द्रभोगादिषु शालिजातैरभगकोट्याक्षतपुजकैश्च ।
ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् सयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

सहस्रपद्मै सितपर्णकाभि श्रीसगकुन्दादिसुकेतकीभि ।
ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् सयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

- सद्योऽत्र पक्वान्नसुमोदकैश्च, शताज्यमुद्गंधसुव्यंजनैश्च ।
 ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् संयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥
 ओं ह्रीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 दशैघने दर्शितविश्वसार्थैस्तमो विनाशैर्वरदीपकैश्च ।
 ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् संयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥
 ओं ह्रीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 श्रीखण्डकालागुरुधूपधूम्रैः सामोदिताशेषसुरेन्द्रलोकैः ।
 ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् संयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥
 ओं ह्रीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 घोटाभद्राक्षार्चफलावलीभिः रेवारुकर्कारिसुमोचचोचैः ।
 ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् संयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥
 ओं ह्रीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 नीराक्षतैश्चंदनपुष्पदीपैर्नैवेद्यधूपैश्च फलार्घ्यकैश्च ।
 ये स्नाप्य शक्रैर्महिता सुमेरौ तान् संयजे हृत्पदजन्मजातान् ॥
 ओं ह्रीं जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रत्येक अर्घ्यं

- पवित्रे चैत्रमासे च कृष्णे सुनवमी दिने ।
 जातमादिजिनं चर्चे शुद्धधर्मप्रकाशकम् ॥
 ओं ह्रीं चैत्रकृष्णानवम्यां जन्मकल्याणकप्राप्तवृषभदेवायार्घ्यम् ॥१॥
 माघमासे शुचौ पक्षे पवित्रे दशमीदिने ।
 सुलग्ने ह्यजितं देव पूजयामि सुजन्मजम् ॥
 ओं ह्रीं माघशुक्लादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्तअजितदेवायार्घ्यं ॥२॥
 शोभने कार्तिके मासे पूर्णिमायां तु संभवं ।
 पूजयामि जिनाधीशमष्टद्रव्यसमुच्चकैः ॥
 ओं ह्रीं कार्तिकशुक्लापूर्णिमायां जन्मकल्याणकप्राप्तसंभवजिनायार्घ्यं ॥३॥
 माघमासे शुभ्रपक्षे विशुद्धे द्वादशीदिने ।
 पूजयाम्यहमर्घेण चाभिनदनस्वामिनम् ॥
 ओं ह्रीं माघशुक्लाद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तअभिनंदनायार्घ्यं ॥४॥

- चैत्रमासे शुक्लपक्षे विशुद्धैकादशीदिने ।
सुमति बुद्धिदातार यजामि जन्मसगतम् ॥
- ओं ह्रीं चैत्रशुक्लाएकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तसुमतिदेवायार्घ्यं ॥५॥
कार्तिके श्यामपक्षे च त्रयोदश्या सुवासरे ।
पद्मप्रभ महादेव जगत्सर्वसुखास्पदम् ॥
- ओ ह्रीं कार्तिककृष्णात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तपद्मप्रभायार्घ्यं ॥६॥
ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले, द्वादशे दिवसे शुचौ ।
मेरौ शक्रवृत्तस्नान यजे सुपार्श्वदेवकम् ॥
- ओ ह्रीं ज्येष्ठशुक्लद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तसुपार्श्वनाथायार्घ्यं ॥७॥
पौषकृष्णे शुभेघस्रे चैकादश्या जिनोत्तम ।
महासेनात्मज चर्चे स्नापित क्षीर सज्जलै ॥
- ओ ह्रीं पौषकृष्णैकादाश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रमजिनायार्घ्यं ॥८॥
शुभ्रमार्गशिरे मासे पवित्रे प्रतिपदिने ।
पुष्पदन्त यजे नित्यमिक्ष्वाकुकुलसभवम् ॥
- ओ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणकप्राप्तपुष्पदन्तायार्घ्यं ॥९॥
माघकृष्णे सुद्वादश्या जयजन्मजिनेशिन ।
सुनदादृढरथावासे वृत्तोत्सवसुराधिपे ॥
- ओं ह्रीं माघकृष्णाद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तशीतलनाथायार्घ्यं ॥१०॥
फाल्गुने कृष्णपक्षे च द्वादश्या सुतोत्तम ।
यजे स्वर्णगिरौ स्नान विमलाख्यनृपालये ॥
- ओं ह्रीं फाल्गुनकृष्णैकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रेयोजिनायार्घ्यं ॥११॥
फाल्गुने श्यामले पक्षे चतुर्दश्या यजे मुदा ।
स्नापित मेरुशिखरे जन्मजात नृपालये ॥
- ओ ह्रीं फाल्गुनकृष्णाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तवासुपूज्यायार्घ्यं ॥१२॥
माघार्जुनचतुर्थ्यां च वृत्तवर्मनृपालये ।
जन्मोत्सव वृत्त देवै मेरौ चर्चे जिनाधिपम् ॥
- ओं ह्रीं माघशुक्लाचतुर्थ्यां जन्मकल्याणकप्राप्तविमलनाथायार्घ्यं ॥१३॥
ज्येष्ठकृष्णे सुद्वादश्या सिंहसेननृपालये ।
जन्मोत्सव वृत्त शक्रैश्चर्चेऽ नन्तजिनेश्वरम् ॥
- ओ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णाद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तनन्तनाथायार्घ्यं ॥१४॥

पवित्रे माघमासे च शुक्ले त्रयोदशीदिने ।

धर्मनाथ यजे मेरौ जन्मस्नान सुरैः कृतम् ॥

ओं ह्री माघशुक्लात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तधर्मनाथायार्घ्यं ॥१५॥

ज्येष्ठमासे सुकृष्णेऽह चतुर्दश्यां जिनोत्तमं ।

विश्वसेनालये जन्मप्राप्त शांति यजे मुदा ॥

ओं ह्री ज्येष्ठकृष्णाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तशान्तिनाथायार्घ्यं ॥१६॥

वैशाखार्जुनपक्षे च प्रतिपदिवसे शुभे ।

सूर्यराजगृहे जन्मप्राप्त चर्चे हरिप्रियम् ॥

ओं ह्री वैशाखशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणकप्राप्तकुंतुनाथायार्घ्यं ॥१७॥

मार्गशीर्षे सुशुक्लाया चतुर्दश्या सुराधिपैः ।

मेरौ जन्मोत्सव यस्य तमर संयजेऽनिशम् ॥

ओं ह्री मार्गशीर्षशुक्लाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तअरनाथायार्घ्यं ॥१८॥

मार्गशीर्षे शुचौ पक्षे विशुद्धैकादशीदिने ।

कुम्भराजगृहे यस्य जन्मोत्सवं यजे मुदा ॥

ओं ह्री मार्गशीर्षशुक्लैकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तमल्लिनाथायार्घ्यं ॥१९॥

वैशाखे कृष्णपक्षे च दशम्या जन्मजातक ।

पद्मावती सुमित्रस्य गृहे श्रीसुव्रतं यजे ॥

ओं ह्री वैशाखकृष्णादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्तमुनिसुव्रतनाथायार्घ्यं ॥२०॥

आषाढे कृष्णपक्षे च दशम्यां विजयालये ।

नमिनाथसुजन्मान यजेऽह सज्जलादिवैः ॥

ओं ह्री आषाढकृष्णादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्तनमिनाथायार्घ्यं ॥२१॥

श्रावणे शुक्लपक्षे च सुषष्ठ्यां जन्मजातकं ।

स्नान सुराधिपैर्मेरौ कृतमर्चे सुहर्षतः ॥

ओं ह्री श्रावणशुक्लाषष्ठ्यां जन्मकल्याणकप्राप्तनेमिनाथायार्घ्यं ॥२२॥

पौषमासे सुकृष्णे च विशुद्धैकादशी दिने ।

विश्वसेनालये जन्म यजे जात महोत्सवम् ॥

ओं ह्री पौषकृष्णैकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तपार्श्वजिनायार्घ्यं ॥२३॥

चैत्रशुक्ले त्रयोदश्यां जन्मप्राप्त महोत्सवैः ।

यजे जिन महावीरं सिद्धार्थं च नृपागणे ॥

ओं ह्री चैत्रशुक्ला त्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तमहावीरायार्घ्यं ॥२४॥

जयमाला

जन्मकाल पर प्राप्य येषा सुरा, सागना. सेन्द्रकाश्चागता सत्वर ।

पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥

प्रेक्ष्य भक्त्यावर पाणिनाचोद्धता, देवराजस्य याने सुख स्थापिता ।

पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥

देवशैलस्य पाडुकवने स्थापित पाडुकाविष्टरे स्थापिता वा वने ।

पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥

स्वर्णकुम्भैश्च ये क्षीरसिधुभृतैर्दशशताष्टसख्याचितै क्षीरका ।

पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥

स्वर्गजैर्भूषणै शृंगशच्याशुकैर्भूषिता पूजिताश्चन्द्रश्रीखडकैः ।

पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥

अष्टसहस्रकैर्देवनामस्तुता, इन्द्रदत्ताख्यका सहस्त्रनेत्रेक्षिता ।

पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥

मातापित्रो करे मेरुतो नीनुता शक्रवाद्यादिकै सोत्सवे चर्चिता ।

पान्तु ते तीर्थपा जन्मजातावरा, जन्मदु खहरा जन्मसौख्याकरा ॥

घन्ता- अमरनिकरनारीपालितादेवबालै, विविधशिशुर्विनोदै क्रीडिताबुद्धिमाप्ता ।

दिविजतरुजभोग्यभोजकाश्चाष्ट मेदे, भजतगुणगतासा सन्तु मेदै शशिक्षै ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्योऽर्घ्यम् ।

ये मेरौ स्नापिता शक्रै जन्मजातीनपुगवा ।

पूजिता पातु वो नित्य शमसौख्याय सस्तुवे ॥

इत्याशीर्वादः

जन्मकल्याणक पूजा (हिन्दी)

जिननाथ चौबिस चरण पूजा करत हम उमगाय,
जग जन्म लेके जग उधारो जजे हम चित लाय ।
तिन जन्म कल्याणक सु उत्सव इन्द्र आय सुकीन,
हम हूँ सुमरता समय को पूजत हिये शुचि कीन ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतितीर्थकरा अत्र अवतर अवतर संवौषट् ।
ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतितीर्थकरा अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् ।
ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतितीर्थकरा अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्
सन्निधिकरणम् ।

जल निर्मल धार कटोरी, पूजँ जिन निज कर जोड़ी ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओ ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेभ्योजलं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

चन्दन केशरमय लाऊ, भव की आताप शमाऊ ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओ ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेभ्यो चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥

अक्षत शुभ धोकर लाऊ, अक्षय गुण को झलकाऊँ ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुन्दर पुहपनि चुनि लाऊ, निज काम व्यथा हटवाऊ ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओ ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेभ्योपुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

पकवान मधुर शुचि लाऊँ, हनि रोग क्षुधा सुख पाऊँ ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपक करके उजियारा, निज मोह तिमिर निरवारा ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओ ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ।

धूपायन धूप खिवाऊ, निज अष्ट करम जलवाऊ ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओ ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

फल उत्तम उत्तम लाऊ, शिवफल जासे उपजाऊ ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओ ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं नर्व ० स्वाहा ।

सब आठो द्रव्य मिलाऊ, मै आठो गुण झलकाऊ ।
पद पूजन करहुँ बनाई, जासे भवजल तर जाई ॥

ओ ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेम्यो अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

२४ तीर्थकरो की जन्मकल्याणक तिथि के २४ अर्घ्य

वदि चैत नवमि शुभ गाई, मरुदेवि जने हरषाई ।
श्री वृषभनाथ युग आदी, पूजै भव मेट अनादी ॥

ओ ह्री चैत्रकृष्णानवम्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीवृषभनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१॥

दशमी शुभ माघ सुदी की, विजया माता जिनजी की ।
उपजे श्री अजित जिनेशा, पूजै मेटो सब क्लेशा ॥

ओ ह्री माघशुक्लादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीअजितनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥२॥

कार्तिक सुदि पूरणमासी, गाता सुसैन हुल्लासी ।
श्री सम्भवनाथ प्रकाशे, पूजत आपा पर भासे ॥

ओं ह्री कार्तिकशुक्ला पूर्णमास्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीसंभवनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥३॥

शुभ बारस माघ सुदी की, अभिनन्दननाथ विवेकी ।
उपजे सिद्धार्था माता, पूजै पाऊँ सुख साता ॥

ओ ह्री माघशुक्ला द्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीअभिनन्दनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥४॥

ग्यारस है चैत सुदी की, मगला माता जिनजी की ।
श्री सुमति जने सुखदाई, पूजै मे अर्घ्य चढ़ाई ॥

ओं ह्री चैत्रशुक्ला एकादश्यां श्री जन्मकल्याणकप्राप्तसुमतिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥५॥

- कार्तिक वदि तेरसि जानो, श्री पद्मप्रभ उपजानो ।
है मात सुसीमा ताकी, पूजै ले रुचि समता की ॥
- ओं ही कार्तिककृष्णात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥६॥
- शुचि द्वादश जेठ सुदी की, पृथ्वी माता जिनजी की ।
जिननाथ सुपारस जाए, पूजे हम मन हरषाए ॥
- ओं ही ज्येष्ठशुक्लाद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीसुपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥७॥
- शुभ पूस वदी ग्यारस को, है जन्म चन्द्रप्रभ जिनको ।
धन्य मात सुलखनादेवी, पूजै जिनको मुनिसेवी ॥
- ओं ही पौषकृष्णा एकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥८॥
- अगहन सुदि एकम जानी, जिन जयरामा सुख दानी ।
श्री पुष्पदंत उपजाए, पूजतहूँ ध्यान लगाये ॥
- ओं ही अगहनशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणप्राप्तश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥९॥
- द्वादश वदि माघ सुहानी, सुनदा मां सुखदानी ।
श्री शीतल जिन उपजाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥
- ओं ही माघकृष्णाद्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१०॥
- फागुन वदि ग्यारस नीकी, जननी नन्दा जिनजी की ।
श्रेयांसनाथ उपजाए, हम पूजत ही सुख पाये ॥
- ओं ही फाल्गुनकृष्णा एकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥११॥
- वदि फाल्गुन चौदसि जानी, जयवति माता सुखदानी ।
श्री वासुपूज्य भगवाना, पूजै पाऊँ निज ज्ञाना ॥
- ओं ही फाल्गुनकृष्णाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१२॥
- शुभ चतुर्थी माघ सुदी की, श्यामा माता जिनजी की ।
श्री विमलनाथ उपजाए, पूजत हम ध्यान लगाए ॥
- ओं ही माघशुक्लाचतुर्थ्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीविमलनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१३॥
- द्वादशि वदि जेठ प्रमाणी, सर्वयशा मात सुखदानी ।
जिननाथ अनन्त सुजाए, पूजत हम नाहि अघाए ॥
- ओं ही ज्येष्ठकृष्णा द्वादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१४॥
- तेरसि सुदि माघ महीना, श्री धर्मनाथ अघ छीना ।
माता सुव्रता उपजाए, हम पूजत ज्ञान बढाए ॥
- ओं ही माघशुक्लात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१५॥

- वदि चौदस जेठ सुहानी, ऐरा देवी गुन खानी ।
श्री शान्ति जने सुख पाए, हम पूजत प्रेम बढाए ॥
- ओं ह्री ज्येष्ठकृष्णाचतुर्दश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१६॥
- पडिवा वैसाख सुदी की, श्रीकान्ता माता नीकी ।
श्री कुन्थुनाथ उपजाए, पूजत हम अर्घ्य बढाए ॥
- ओ ह्री वैशाखशुक्लाप्रतिपदायां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१७॥
- अगहन सुदि चौदस मानी, मित्रा देवी हरषानी ।
अर तीर्थकर उपजाये, पूजे हम मन वच काये ॥
- ओ ह्री अगहनशुक्लाचतुर्दश्या जन्मकल्याणकप्राप्त अरनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१८॥
- अगहन सुदि ग्यारस आए, श्री मल्लिनाथ उपजाए ।
है मात प्रभावति प्यारी, पूजत अघ विनशे भारी ॥
- ओं ह्री अगहनशुक्ला एकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥१९॥
- दशमी वैसाख वदी की, पद्मावती माता जिन की ।
मुनिसुव्रत जिन उपजाए, पूजत हम ध्यान लगाए ॥
- ओ ह्री वैसाखकृष्णादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥२०॥
- दशमी आषाढ वदी की विपुला माता जिनजी की ।
नमि तीर्थकर उपजाए, पूजत हम ध्यान लगाए ॥
- ओं ह्री आषाढकृष्णादशम्यां जन्मकल्याणकप्राप्त श्रीनमिजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥२१॥
- श्रावण शुक्ला छठि जानो, उपजे जिन नेमि प्रमाणो ।
जननी सुशिवा जिनजी की, हम पूजत है थल शिवकी ॥
- ओं ह्री श्रावणशुक्लाषष्ठ्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥२२॥
- वदि पूस एकादशि जानी, वामादेवी हरषानी ।
जिन पार्श्व जने गुणखानी, पूजे हम नाग निशानी ॥
- ओ ह्री पौषकृष्णा एकादश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥२३॥
- शुभ चैत्र त्रयोदश शुक्ला, माता गुणखानी त्रिशला ।
श्री वर्द्धमान जिन जाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥
- ओं ह्री चैत्रशुक्लात्रयोदश्यां जन्मकल्याणकप्राप्तश्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अर्घ्य ॥२४॥

जयमाल

(भुजगप्रयात)

नमो जै नमो जै नमो जै जिनेशा, तुम्ही ज्ञान सूरज तुम्ही शिव प्रवेशा ।
तुम्हे दर्श करके महामोह भाजे, तुम्हे पर्श करके सकल ताप भाजे ॥१॥

तुम्हे ध्यान मे धारते जो भी भाई, परम आत्म अनुभव छटा सार पाई ।
तुम्हे पूजते नित्य इन्द्रादि देवा, लहे पुण्य अद्भुत परम ज्ञान मेवा ॥२॥

तुम्हारो जनम तीन भू दुख निवारी, महा मोह मिथ्यात हिय से निकारी ।
तुम्ही तीन बोध धरे जन्म ही से, तुम्हे दर्शन क्षायिक जन्म ही से ॥३॥

तुम्हे आत्मदर्शन रहे जन्म ही से, तुम्हे तत्त्व बोधं रहे जन्म ही से ।
तुम्हारा महा पुण्य आश्चर्यकारी, सु महिमा तुम्हारी सदा पापहारी ॥४॥

करा शुभ न्दवन क्षीरसागर जु जल से, मिटी कालिमा पाप की अग पर से ।
हुआ जन्म सफल करी सेव देवा, लहूँ पद तुम्हारा इसी हेतु सेवा ॥५॥

दोहा - श्री जिन चौबीस जन्म की, महिमा उर मे धार ।

पूज करत पातक टले बढे ज्ञान अधिकार ॥

ओं ह्री जन्मकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेभ्यो महार्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

पश्चात् शातिभक्ति, शातिपाठ, और विसर्जन करे और पाण्डुकशिला पर क्रियाए
समाप्त कर हाथी पर तीर्थकर कुमार को बैठाकर राजभवन को प्रस्थान करे ।

राजभवन मे इन्द्राणी मोती के चूर्ण से माडना (चौक) बनावे ।

तत्रागतौ प्रवरमौक्तिकचूर्णपूर्ण, रगातलीलिखितपुष्पकमण्डनानि ।

राजागणप्रथमतोरणयोरधस्तात् शच्या पुरघ्नियु पुरस्कृतया कृतानि ^(१)

(इन्द्राणी रत्नो के चौक बनावें)

श्रीमातर लसितवक्त्रसरोरुहा च राजानमुद्भट महासुकृतानुभाव ।

नत्वा शताध्वरपतिर्जिनराजमके सरथाप्य ताण्डवमकाण्डभव ततान ॥ ^(२)

(इन्द्र तीर्थकर कुमार को माता पिता की गोद में सौपें)

सौधर्म इन्द्र कुमार को गोद मे सौपकर ताण्डव नृत्य करे समस्त इन्द्र इन्द्राणी
एव दर्शक बधाइया नृत्य पूर्वक जन्मोत्सव मनावे ।

(१) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक ७९३ (२) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक ७९५

सवृद्धहर्षफलिताविव तौ स्ववशमुच्चेर्धृतं यदधिजन्म जिनाधिभर्त्रा ।
भूपावृते सदसि तुष्टुवतु प्रमोद पूर्व कृतार्चनविधिश्च ननर्त शक्र ॥ (१)
इति ताण्डवानन्तरं जिनं वेद्यामारोप्यजन्मकल्याणक चतुर्विंशति तिथीनुद्दिश्य सपर्या
कर्तव्या ।

अत्र मातापित्रोरंक निवेश स्थानीय पूर्व प्रकल्पित मण्डोपरकृत वेदिकायां भद्रासने
मूलविम्बरथापनं विदध्यात् (२)
माता पिता की गोद से तीर्थकर कुमार को गर्भ ग्रह मे भद्रासन पर स्थापित करे

पालना एवं बाल क्रीड़ा

पश्चात् रात्रि मे आरती एव शास्त्र प्रवचन के बाद दोलना क्रीडा (पालना) का
कार्यक्रम करना चाहिए ।

दोलनारूढक्रीडां च विदध्यु पुरंध्रयस्तथा त्रैवान्या अपि प्रतिष्ठेयाः प्रतिकृतय
स्थाप्या इतिदिक् (३)

पालना के पश्चात् बाल क्रीडा की क्रिया की जाय देवकुमार तीर्थकर कुमार
के साथ सुन्दर सुन्दर खिलौनो के साथ क्रीडा करे ।

देवकुमार स्थापना (४)


मनोनुकूल च वयोनुकूल नानाविधी क्रीडनमाचरन्ति ।
ये शक्रपुत्रा जिनबालकेन ते सन्तु चामी कुलजा कुमारा ।
ओं त्रायस्त्रिंशदेवभावस्थापनार्थं कुमारेषु पुष्पाक्षतं क्षिपेत्

भोगोपभोगवस्तु स्थापना (५)

भोगोपभोगोचितवस्तु सर्व दिव्य च सपादयतिस्म काले ।
काले धनेशो भगवज्जिनेशो य सोयमेवास्तु विशिष्टयष्टा ॥
भोगोपभोगार्थसंपादकधनेशस्थापनाय तत् संपादनीययजमाने पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ।
बालक्रीडा के लिए सुन्दर खिलौना मंगाना चाहिये ओर देवकुमार बनकर खेलने
वाले बच्चो को एक एक खिलौना देकर बालक्रीडा का कार्यक्रम समाप्त करे ।

॥ ओ शान्तिः ॥

(१) आ ज से, प्र पा श्लोक ७९६ (२) (३) आ ज से, प्र पा. पृष्ठ २५९
(४) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५०१/१३ (५) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५००/१४



तप
कल्याणक



तपकल्याणक

- मंत्र - (१) गणधर वलय मंत्र,
(२) चौसठ ऋद्धि मंत्र
- मण्डल - चौवीस तीर्थकर मण्डल
- यंत्र - (१) गणधर वलय यंत्र
(२) चौसठ ऋद्धि यंत्र
(३) वर्धमान यंत्र
- भक्तियां - (१) सिद्ध भक्ति
(२) तीर्थकर भक्ति
(३) चारित्र्य भक्ति
(४) योगि भक्ति
(५) शान्ति भक्ति
- सामग्री - (१) सर्वतोभद्र स्वस्तिक
(२) गोल शिला
(३) पिच्छी एवं कमंडलु
(१) पूजा सामग्री
(२) विधिनायक के वस्त्राभूषण
(३) भेंट सामग्री
(४) असि मसि कृषि की सामग्री
(५) मंच व्यवस्था
(६) वाद्य द्योष

तीर्थकर राज्याभिषेक (सामग्री सूची अनुसार)

तपकल्याणक के दिन प्रातः अभिषेक, शातिघारा, नित्यमह, जन्मकल्याणक पूजा एवं शांति हवन करे। मध्याह्न यज्ञ वेदी पर राजमहल की सजावट कर महाराजा नाभिराय का दरबार लगाना।

महाराजा नाभिराय सिंहासन पर विराजमान हो मगलाष्टक पाठ, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शातिमंत्राराधन के साथ कार्य प्रारंभ करना चाहिए।

अभिषेक व पूजा सामग्री की व्यवस्था हो। भगवान को राज्य योग्य वस्त्राभरण खड्ग शस्त्र आदि की व्यवस्था हो। यदि बालब्रह्मचारी तीर्थकर की प्रतिष्ठा हो रही हो तो केवल युवराज पद की घोषणा करे। यदि अन्य तीर्थकरो की प्रतिष्ठा हो रही हो तो राज्याभिषेक कराने की व्यवस्था करे। राज्य सिंहासन पर विराजमान महाराजा नाभिराय के दरबार में सर्वोत्तम वस्त्राभूषण माणिक्य-मोती आदि रत्न एक थाली में सजाकर सौधर्मन्द्र दरबार में आकर भेट समर्पण कर नमस्कार कर के जयघोष करता है (महाराजा नाभिराय की जय तीन बार बोले) महाराजा नाभिराय सौधर्मन्द्र के सहयोग से आदिकुमार का पाणिग्रहण संस्कार कच्छ एवं महाकच्छ की बहिन नंदा सुनदा से सपन्न करते हैं। सौधर्मन्द्र से महाराजा ने अपने विचार प्रगट किए :-

तन धन यौवन राज मे, विषम वेदना याहि ।
त्याग सकल कल्याण पथ, गृहण करन की चाह ।

देवेन्द्र! मानव पर्याय की आयु विषय भोगो में व्यतीत हो रही है इन्हे त्यागकर आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। तीर्थकर आदिकुमार योग्य है। अतएव राज्य का पूर्ण वैभव उन्हे समर्पण कर जिनमुद्रा धारण करके आत्मशांति चाहता हूँ। तब सौधर्मन्द्र मस्तक नवाकर अनुमोदना करता है-

श्री तीर्थकर राज्यपद, देने का उत्साह ।
किया आपने नाभिजी, है यह उत्तम राह ॥^१
प्रभु समर्थ पालन प्रजा, न्याय मार्ग में आज ।
राज्यार्पण की सकल विधि, करना है सुखसाज ॥^२

महाराज तीर्थकर आदिकुमार इस योग्य हो गए हैं आपने सर्वोत्कृष्ट विचार किया धन्य है आप ।

तब महाराज नाभिराय कहते हैं :-

राजतिलक अर्पण विधि कीजे हे दिविराज ।
होय सुखी सारी प्रजा होय अटल यह राज ॥^(१)

दिविराज राज्याभिषेक एवं राज्यतिलक के लिए आदिकुमार को लाइये । और सब व्यवस्था कीजिए । (राज्याभिषेक के लिए ऊँची आसन बनाई जावे जिससे समस्त नर-नारी अच्छी तरह देख सकें)

सौधर्मेन्द्र राजभवन से तीर्थकर आदिकुमार को राजदरवार में ले आते हैं, सब स्वागत करते हैं और पुष्पवर्षा करते हुए महाराजा नाभिराय एवं आदिकुमार की जय बोलते हैं । इन्द्र राज्याभिषेक करने के लिए सिंहासन पर थाली में विराजमान करते हैं ।
ओं ह्रीं अस्मिन् बिम्बे राज्याभिषेकं आरोपयामि (प्रतिमा के आगे पुष्पक्षेपण करें)
विशेष-वासुपूज्य - मल्लि - नेमि - पार्श्व - वर्धमान तीर्थकराणां कुमार दीक्षाभिषेकक्रियां कुर्यात् ।

- (१) तीर्थकर वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर ने राज्य नहीं किया है अतः इनकी प्रतिमा का राज्याभिषेक नहीं करना । इनका केवल दीक्षाभिषेक ही होगा
- (२) तीर्थकर शान्तिनाथ, कुथुनाथ एवं अरनाथ ने चक्रवर्ती के रूप में राज्य किया है अतः इनकी प्रतिमा का चक्रवर्ती अभिषेक होगा राज्याभिषेक नहीं ।

चक्रवर्तिराज्याभिषेक

उद्यद्रत्ननिधीश्वरः स्वजनतो यश्चक्रलाभ क्रियां ।
लेभे सर्वदिशा जयं नृपवरैश्चक्राभिषेकोत्सवं ॥

पंच क्षत्रिय वृत्तदेशनपरः साम्राज्यरूढक्रियां ।

षट्खण्डक्षिति शासनेद्धविभवः साक्षात्स एवास्त्वयम् ^(२) ॥

चक्रलामादिचतुष्टयस्थापनाय प्रतिमोपरि पूर्ववच्चतुपुष्पीमावपेत् । शांतिवृंश्वर-
तीर्थकराणां चक्रलामादिचतुष्टयपर्यन्तं अभिषेकविधिं विदध्यात् ।

तब अष्ट कुमारियां देवी राज्याभिषेक के लिए जलपूर्ण मंगलकलश पीले वस्त्र से ढके श्रीफल सहित पाण्डाल के प्रमुख द्वार से लाती हैं और गीत गाती हैं ।

शुचिनाथ हम जल शुद्ध लाये क्षीरसागर से भला ।

गंगा महानद सिन्धु आदि कुण्ड गंगा से भला ॥ ^(३)

(१-३) ब्र. शी. प्र., प्र. सा. सं. पृष्ठ ११२-११३ (२) श्री ने. दे, प्र. ति. पृष्ठ ५०४

शुचि द्वीप नन्दी वापिका सागर स्वयंभू से भला
अभिषेक कारण राजपट हो तीर्थनायक के भला ॥

अभिषेक के लिए कलशो की स्थापना करे । इन्द्र, तीर्थकर आदि कुमार के वस्त्राभूषण शरीर से अलग कर ले एव राज्यभिषेक करे ।

कुमारकाले किलयस्य पट्ट बधाभिषेकाचित यौवराज्यम्
वितेनिरे स्वीयनृपा सुरेन्द्रा स एव साक्षादयमस्तुबिम्ब
ओं ह्री श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि ^(१) ।

सौधर्मेन्द्र अभिषेक करके शरीर प्रक्षालन कर वस्त्राभरण पहिनावो देविया आरती करती हुई गीत गाती है ।

चौ० जय जय तीर्थकर अविकारी, जय जय मुक्त वधु वर भारी
जय जय प्रजा न्याय विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकारी
जय जय शस्त्र शास्त्र गुणधारी, जय जय विद्या निपुण अपारी
जय जय पन्द्रहवे मनुभारी, जय जय जगत करन उद्धारि
जय जय कर्मभूमि विस्तारी जय जय आदिजिन भवतारी ^(२)

आरती के पश्चात् इन्द्र राज्यतिलक करे । तब महाराज नाभिराय अपना मुकुट समर्पण करते समय कहते है ।

सर्वराज महाराज के पालक दीन दयाल ।
तुम ही हो जगपूज्य प्रभु, वृषभदेव जगपाल ^(३) ॥

महाराज अपना मुकुट समर्पण करते है । सब महाराजा आदिकुमार की जय बोलते है ।

इन्द्र प्रतिमा के पास राज्योचित सामग्री की स्थापना करे ।

यस्याधिराज्याभिषव वितेनुर्भूत्या सुरेन्द्रा सकला नरेन्द्रा ।
य सागरान्ता पृथिवी शशास क्षात्रेण धर्मेण स एष देव ॥

ओं पुण्यविपाकसंपादितस्वराज्यसंपदुपभोग स्थापनाय पुष्पाणि प्रतिमोपरि विकिरेत्
(पुष्प क्षेपण करे) ^(४)

और राज्योचित सामग्री की स्थापना करे । (यौवराज्य स्थापनाम्)

इन मंत्रो को पढता हुआ पुष्प क्षेपण करे ^(५)

ओ सत्यजाताय स्वाहा

ओ अर्हज्जाताय स्वाहा

ओ अनुपमेन्द्राय स्वाहा

ओ विजयार्च्यजाताय स्वाहा

(१) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५०३ (२) ब्र शी प्र, प सार स पृष्ठ ११३ (३) ब्र शी प्र, प्र सार स पृष्ठ ११३ (४) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५०३ (५) आ ज से, प्र पा. पृष्ठ १३७

ओं नेमिनाथाय स्वाहा

ओं परमजाताय स्वाहा

ओं परमार्हताय स्वाहा

ओं अनुपमाय स्वाहा

ओं सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, उग्रतेजः उग्रतेजः, दिशांजय दिशांजय, नेमि विजय, नेमिविजय स्वाहा ।

(सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु समाधिमरणं च भवतु)

पश्चात् इन्द्र देवादि अपने स्थान पर बैठ जावे । महाराजा नाभिराय आत्मकल्याणार्थ प्रस्थान करे और महाराजा आदिकुमार को महामण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर एव मुकुटबद्ध राजाओ द्वारा भेट समर्पण की व्यवस्था हो ।

राज्यव्यवस्था, राजाओ द्वारा भेंट समर्पण

१ कुरुदेश महाराजा अभिचन्द्र	२ मगधदेश के महाराजा चाणूर
३ काश्मीरदेश रतिवल्लभ	४ कामरूपदेश वेणुधारी
५ कच्छदेश महायश	६. कालदेश स्वरूप
७ कलिगदेश उद्यत	८. कुरुजांगलदेश मकरध्वज
९ किष्किन्धादेश मयूरकठ	१० मल्लदेश अजितजय
११ काशीदेश धर्मरथ	१२. बगदेश कीर्तिधर
१३ अगदेश यशोधर	१४. आंध्रदेश ज्ञानमति
१५ उलिकदेश सूर्याभ	१६ उसीनरदेश मौर्यविजय
१७. मलयदेश पीतकर	१८ विदर्भदेश पद्मानन
१९ गौड़देश मृगेन्द्रराज	२० सुसह्यदेश क्षेमधर
२१ पाचालदेश हरिवाहन	२२ केरलदेश सीमंधर
२३ मन्द्रदेश ज्ञानबाहु	२४ चेदीदेश शुद्धाभ
२५ दशार्ण देश मजुलि	२६ पुन्नाट देश विजय
२७ चौलदेश अपराजित	२८ मौर्यदेश कुन्दाभ
२९ सौराष्ट्रदेश विपुलमति	३० मध्यदेश आनंद
३१ किरातदेश श्रीधर	३२ कौशलदेश चन्द्राभ

भेट समर्पण के पश्चात् महामण्डलेश्वर राजाओ में वंश स्थापना

१. राजा हरिकांत - आपको हरिवंश का अधिपति नियुक्त करते हैं । (मस्तक नवाकर स्वीकार करना)

२. राजा सोमप्रभ - आपको कुरुवंश का अधिपति नियुक्त करते हैं ।

३. राजा काश्यप - आपको उग्रवश का अधिपति नियुक्त करते हैं ।
 ४. राजा अकंमन - आप को नाथ वश का अधिपति नियुक्त करते हैं ।

मण्डलेश्वर राजाओं की राज्य व्यवस्था

- १ मण्डलेश्वर को कच्छ का अधिकारी बनाते हैं ।
 २ मण्डलेश्वर को महाकच्छदेश का अधिकारी बनाते हैं ।
 ३ मण्डलेश्वर को तुलुव देश का अधिकारी बनाते हैं ।
 ४. मण्डलेश्वर को तजोर देश का अधिकारी बनाते हैं ।

पश्चात् सेनापति सलामी करते हैं उन्हें सेनानायक नियत करते हैं, कल्पवृक्षों की समाप्ति से पीड़ित प्रजाजनो को जीवनयापन करने के लिये असि, मसि, कृषि, शिल्प विद्या एव वाणिज्य की क्रिया बताते हैं ।

ब्राह्मी सुन्दरी द्वारा व्रत संकल्प

(यदि कोई बहिनें ब्रह्मचर्य व्रत लेनें को तैयार हो या कोई ब्रह्मचारिणी बहिने हो तो यह दृश्य प्रस्तुत करें)

ब्राह्मी एवं सुन्दरी का दरबार में प्रवेश

दोनों - प्रणाम पिताजी ।

आदिनाथ - आओ बेटी, सदा प्रसन्न रहो ।

दोनों - हमें क्यों याद किया है पिताजी ?

आदिनाथ - बेटी, मैं तुम्हें विद्या देना चाहता हूँ, जिनके द्वारा तुम स्वयं का एव समाज का कल्याण करो ।

दोनों - जो आज्ञा पिताजी, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है ।

आदिनाथ - बेटी सुन्दरी । आपको अक विद्या ग्रहण करना है, अतः तुम्हें गणित का पूर्ण अभ्यास कर उसमें पारंगत होना है ।

सुन्दरी - मैं पूर्ण लगन पूर्वक यह विद्या ग्रहण करूंगी ।

आदिनाथ - बेटी ब्राह्मी । आपको लिपि विद्या ग्रहण करना है अतः आपको समस्त लिपियों का अध्ययन करना होगा ।

ब्राह्मी - आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताजी ।

सुन्दरी - पिताजी यह राजा महाराजा आपके दरबार में क्यों आये हैं?

आदिनाथ - बेटी, यह हमारे अधीनस्थ राजा है, यह सब राज्य व्यवस्था की जानकारी देने आये है।

ब्राह्मी - पिताजी, यह आपको भेंट समर्पित करके प्रणाम क्यों कर रहे है?

आदिनाथ - बेटी यह लोकरीति है कि अपने शासक के पास जब भी जाते हैं बहुमूल्य सामग्री भेंट करके प्रणाम करते है।

सुन्दरी - पिताजी आप तो सर्वोच्च शासक है आपके दरबार में सभी राजा महाराजा भेंट समर्पित करते है।

आदिनाथ - नहीं बेटी,

दोनों एक साथ (आश्चर्य पूर्वक) - क्यों पिताजी?

आदिनाथ - लोक व्यवहार के अनुसार, जब हम तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार से करेगे वह मेरा पूज्य होगा और मैं उस राजा को यथा शक्ति भेंट समर्पित करके प्रणाम करूंगा।

ब्राह्मी - नहीं पिताजी नहीं, कदापि नहीं, मेरे कारण आप अपने अधीनस्थ राजा को प्रणाम करे, यह कभी नहीं हो सकता।

सुन्दरी - हाँ पिताजी हमारे कारण आपको किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा।

दोनों (एक साथ) - हम आज प्रतिज्ञा करते है कि हम कभी विवाह नहीं करेंगी तथा आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करती है।

आदिनाथ - धन्य हो बेटियो !! पिता के मान के लिये इतना बड़ा त्याग ! धन्य हो गया मैं, कितना भाग्यशाली हूँ मैं। जाओ पुत्रियो जाओ तुम्हारा जीवन धर्ममय हो, मंगलमय हो, मोक्षमार्ग पर चलकर अविनाशी सुख प्राप्त करो।

दोनों (प्रणाम कर) जो आज्ञा पिताजी।

(दोनों दरबार से जाती है)

वैराग्य

महाराजा आदिकुमार की राज्यनीति एव दण्ड व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाय। इसी समय सौधर्मेन्द्र विचार करता है कि महाराज का अत्यधिक समय राज्य करते २ निकल गया। वैराग्य की ओर परिणाम कैसे आवे, अतः जिसकी आयु अन्तर्मुहूर्त की शेष थी, उसी नीलाजना देवी को नृत्य करने राज दरबार में प्रस्तुत करता है। आयुपूर्ण होते ही नीलाजना का शरीर विलीन हो जाता है इन्द्र तत्काल वैसी ही दूसरी नीलाजना भेज देता है। आदिकुमार जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी थे अवधिज्ञान

द्वारा सब ज्ञात करते हैं, और वैराग्य भावना अन्तर मे प्रगट होती है, तत्काल पाण्डाल के प्रमुख द्वार से लौकान्तिक देव आ जाते हैं और वैराग्य स्तवन प्रारंभकर विराग भावना को सुदृढ बनाते हैं ।

लौकान्तिक देवो द्वारा स्तवन (१)

स्वामिन्नद्य जगत्त्रये प्रसरता मागल्यमालायत,
सर्वेभ्य सुवृत्त भविष्यति भवतीर्थामृताभोधरात् ।
घोरापज्ज्वलनापनोदनमितो भव्यात्मना जायता,
वैराग्यावगमस्त्वया परिचितस्तरुमै नमस्ते पुन ॥

ससारदु खविनिवृत्तिपरायणः स्वय, बुद्ध्वा भवस्थितिमिमां स्वंपरात्मना शिव ।
कर्तव्यसावभिमत्स्वनियोगभावुकानस्मान्प्रपचयति नि क्रमणोत्सवस्तव ॥
के वा वय त्वद्गुपदेश विधानदक्षा, स्वायभवस्य सकलागमपूतदृष्टे ।
आत्मैव केवलमथो प्रतिबुद्धमार्ग, नीत स्वय न खलु भव्यगणोऽपि तात ॥

अय पितेय जननीतवेति लोकामुधार्थं व्यवहारयति ।

विश्वेशिता विश्वपितामहस्त्व माताऽसि सर्वप्रतिपालनेच्छु ॥

अवाप्तससारतट स्वलब्ध्या निमित्तमन्यत्समुपस्थितोऽसि, ।

स्वयं प्रबुद्ध प्रभविष्णुरीश कदापि नास्मत्स्तवनेन बुद्ध ॥

प्रकाशित सूर्य मुदीक्ष्य दीप स्वय स्वदीप्त्या किमुभासयेत्, ।

गगास्वय शीतलतोयदात्री कि पल्लवेन स्वतृषा भनक्ति ॥

जयकल्याणपरपर मदनमयकर जय जय जय निजशक्तिपते, ।

जय शाश्वतसुखकरत्रिभुवनमहिधर जय जय जय गुणरत्नपते ॥

इति स्तुत्वा जिनेशाना नतमस्तकमौलय ।

मन्दारकुसुमोद्दाममालयार्चा व्यधु सुरा ॥

इति बिम्बोपरि लौकान्तिकदेवर्षिकृत- पुष्पाञ्जलिः ।

लौकान्तिक स्तवन

तन धन यौवन नाशवान राब, जगत रैन का सपना
है ज्ञायक भाव ही अपना । टेक ।

सब ही अनित्य अशरण जग मे, जनम मरण दुख भरना,
यह शरीर भी नही हमारा किससे मतलब सरना ।
सुख दुख भोगे जीव अकेला तन है मल का झरना
है ज्ञायक भाव ही अपना -१-

आश्रव जग निर्माण कराता, संवर शिव सुख देता,
कर्म निर्जरा जब हो जाती, लोकवास तज देता ।
आत्म बोध पा रमन धर्म से करे कर्म का खपना
है ज्ञायक भाव ही अपना -२-

जग आडम्बर छोड़ दिगम्बर, मुद्रा जब धर लेता
चिदानंद का शास्वत सुख, तबही 'पुष्प' पा लेता ।
मुक्ति नगर का पा स्वराज सब मिटता जग का सपना
है ज्ञायक भाव ही अपना -३-

१- हे महाभाग्य :-

आपने ससार शरीर भोगो से विरक्त होने का विचार किया वह सर्वोत्तम है ।

२- हे त्रिलोकीनाथ भगवान :-

संसार मे समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है ।

३- हे महानपुण्यपुरुष :-

आप स्वयंबुद्ध है, आपको कौन समझाये, किन्तु वीतराग मुद्रा के बिना मुक्ति नही
आप उसे धारण कर रहे हैं इसलिए आप धन्य हो ।

४- हे आत्मोद्धारक प्रभुवर :-

आपकी त्यागभावना सर्वोत्कृष्ट एव अनुकरणीय है ।

५- हे मोक्षमार्ग प्रवर्तक :-

ससार बंधन से मुक्तिप्रदायिनी दिगम्बर मुद्रा ही परमावश्यक है। जिसे आप स्वीकार
करने वाले हैं ।

६- हे तीन ज्ञान युक्त भगवन् :-

आत्मा निर्विकार दोष मुक्त है, किन्तु ससारावस्था मे-मोह भ्रमण करा रहा है । आप उसे नाश करने को तत्पर है, आप धन्य हो ।

७- हे स्वयंबुद्ध :-

आप तो जन्म से ही विज्ञ है, आपको मार्ग-दर्शन की आवश्यकता नहीं, शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है ।

८- हे कर्मविजयी सुभट :

ससार की अनेक विषमताएँ ही आत्मोत्थान मे बाधक है । उनके अभाव करने की क्षमता आप में है, आप महान सुभट है, आपकी भावना प्रशसनीय है ।

इस प्रकार स्तवन करके लौकान्तिक देव अपने स्थान पर जाते है । तब चतुर्णिकाय के देव दीक्षाविधि करने के लिए शिविका लेकर पाण्डाल के अंदर आ जाते है ।

बुद्ध्वा स्वस्वनियोगेन तप कल्याणमूर्जितम् ।

चतुर्णिकाया देवेन्द्रा आजग्मु कृत्तरसंस्तवा (१) ॥

इन्द्र और देवगण दीक्षा की सामग्री एव पालकी लाते है ।

दृढेरुवैराग्यभर स्वराज्य पुत्राय वा भूपतिसाक्षि दत्त्वा ।

य क्षात्रधर्म श्रितपंचभेदं दिदेश साक्षाच्च स एष बिम्ब ॥

(स्वराज्यत्यागस्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्) (२)

दीक्षाभिषेक

आचार्य या सौधर्मेन्द्र भरत और बाहुबलि का तिलक करके भगवान का मुकुट इन्हे प्रदान करे, और भरत को अयोध्या नगर व बाहुबलि को पौदनपुर का शासन देने की घोषणा करें (एक टेबिल पर चौका लगाकर इतनी ऊंची करके कि सब दर्शक अपने स्थान से देख सके) थाली मे स्वस्तिक बनाकर रख दे पश्चात् मंत्र पढ़कर आदि कुमार की स्थापना करे ।

ओं ह्रीं अर्हं तीर्थकरप्रतिकृतिः स्नपनपीठे तिष्ठ तिष्ठ ।

(दीक्षाभिषेक के लिए प्रतिमा विराजमान करे) ।

दीक्षोद्यम मोक्षसुखैकसक्त य स्नपन चक्रुरशेषशक्रा ।

समेत्य सद्य परया विभूत्या त स्नपयाम्यष्टशतैश्चकुम्भै ॥

ओं जय जय जय तीर्थकरप्रतिकृतिं स्नपयामि । (३)

(जल से अभिषेक करे) पश्चात् गंधलेपन करे।

(१) आ. ज्ञ से, प्र पा. श्लोक ८३१ (२) श्री ने. दे, प्र ति पृष्ठ ५१२ श्लोक ५

(३) श्री ने. दे, प्र. ति पृष्ठ ५१२ श्लोक ६

इन्द्रो जिनेन्द्रस्नपनावसाने दिव्यांगरागेण यमालिलेप ।

कर्पूरकालागुरुकुङ्कुमाद्य श्रीचन्द्रनेनास्य समालभेऽगम् ॥

ओं ह्रीं सहज सौगन्ध्यबंधुरांगस्य गंधलेपनं करोमि ^(१) ।

(गंध लेपन करें) (पश्चात् जल से अभिषेक करें)

ओं ह्री श्रीमन्तं तीर्थकरप्रतिकृतिं शुद्धोदकेन स्नपयामि ।

(जल से अभिषेक कर प्रक्षालन करें, वस्त्राभरण पहिनावे)

विभूषयामास जगत्त्रयस्य विभूषण दिव्यविभूषणाद्यैः ।

पुरंदरोऽय भगवज्जिनेन्द्रं स एव देवो जिनबिम्ब एषः ॥

(ओं ह्री जिनांगं विविधवस्त्राभरणैः विभूषयामि) ^(२)

श्रीवर्द्धमानाह्वयदिव्यमंत्रसजप्तपुष्पैर्जिनराजबिम्बं ।

नि शेषविघ्नप्रतिघातनार्थं सप्तैव वारानधिवासयामि ॥ ^(३)

ओं णमो भयवदो वड्ढणमाणरस रिसहरसजरस चक्कंजलं तं गच्छ्इ आयासं पायालं
लोयाणं भूयाणं जयेवा विवादेवा रणांगणेवा थंमणेवा मोहणेवा सब्ब जीव सत्ताणं अपराजिदो
भवद्दु मे रक्ख रक्ख स्वाहा ।

सात बार वर्धमान मंत्र पढकर प्रतिमा को स्पर्श करते हुये पुष्प क्षेपण करें ।

सुदुर्गम मुक्तिपुरं त्रिलोकीसार सुखाभोधिमनन्यसाध्यं ।

सद्यः प्रभो साधयितुं प्रवृत्तस्तीर्थकरत्वं विजयस्व देव ॥१॥

आत्यन्तकी दुःख निर्वृत्तिरुच्चैरन्तमात्मोत्थसुखं च यत्र ।

तां दुर्लभां मुक्तिपुरी प्रयातः पथा शिवस्ते जिननाथ भूयात् ॥२॥

यस्यामुपाधेः परिहारसिद्धिश्चैतन्यमात्रानुभवप्रवृद्धेः ।

प्रतिक्षण सा मनसो विशुद्धिरामुक्तिलाभादभिवर्द्धतां ते ॥३॥

यैर्भूषितस्यैवहि मुक्तिलक्ष्मीर्वशंप्रयाति प्रणयेन देवं ।

सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्च तेऽमी भवन्तु तेद्याभिमुखाः प्रसन्नाः ॥४॥

जिनप्रभोर्द्वादशभिस्तपोभिः स्वमोघशरत्रैरथ य क्षतानाम् ।

कषायनाम्ना द्विषता जयरते भूयाच्च्वभूयो जितकर्मशत्रोः ॥५॥

मुमुक्षवो ये सह दीक्षितास्ते क्षमामया रक्षितजीवलोकाः ।

अपेक्ष्यमाणा भवदीयलक्ष्मीमुपासतां त्वामुचितोपचारैः ॥६॥

गुप्ति गुप्तित्रयं तज्जिन तव तनुतां शर्म तन्वन्तु घर्माः ।

कर्मारतिप्रघातं दधतु समितयस्तुभ्यमभ्यर्हितास्ताः ॥७॥

(१) श्री ने. दे., प्र. ति पृष्ठ ५१३ श्लोक ७ (२) श्री ने. दे., प्र. ति पृष्ठ ५१३ श्लोक ८

(३) श्री ने. दे. प्र. ति पृष्ठ ५१४

देवानुप्रेक्षणान्यक्षयपदपथिकाभीक्ष्णरक्षाविदद्यु-
र्माभूत्यारीषहार्ति सपदि भवतु ते मोक्षलक्ष्मीविवाह (१) ॥

(तपकल्याणकरथापनार्थं पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्)

दीक्षोन्मुखस्तीर्थकरो जनेभ्य किमिच्छक दानमहो ददौ य ।
दान च मुक्त्यगमितीव वक्तु स एव देवो जिनबिम्ब एष ॥

(निष्क्रमणादौ तीर्थकरवृत्तमहादानस्थापनाय प्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्) (२)

महीतलायातदिनेशबिम्बशकावहादीप्रमणिप्रभाद्या ।
जिनेन या श्रीशिवकाधिरूढा दिव्यात्रसाक्षादियमस्तुसैव ॥

दिव्यशिविकास्थापनायान्त्र शिविकायां पुष्पं क्षिपेत् (३)

(पालकी को जल से शुद्ध कर पुष्प क्षेपण करे और केशर से स्वस्तिक बनावे)

मरु देवी आशीष

(आदि नाथ के वैराग्य के समय, पालकी ले जाने के पूर्व माँ मरुदेवी का आशीष)

माता का आशिष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले,
जिस पद के लिये ये भेष धरा, उस पद का सब अधिकार मिले ।

तीर्थकर बनकर के जन्मे, मुक्ति पद तुमको पाना था,
इक्ष्वांकु कुल मे जन्म लेकर, माता का मान बढ़ाना था
नारी का मान बढ़ाया है, तुम्हे जन जन का सम्मान मिले ॥१॥

यह मोह का बन्धन है हम पर, तुमको उस पथ से रोक रहे,
हम भी जायेगे उस पथ पर, यह अवसर कब से देख रहे ।
जीवन ये तुम्हारा उज्ज्वल हो, सब जग को इसका ज्ञान मिले ॥२॥

माता की गोद हुई सूनी, तुम्हे कैसे अब मै भूलूंगी,
जब याद तुम्हारी आयेगी, तब कहा मै तुमको ढूँढूंगी,
सूनी आंखो मे अब आदि, केवल समय की धार मिले ॥३॥

सबोध्य पितृन् स्वकुटुम्बलोकान् पौरास्तथान्त पुरमाशु याने ।
विनिर्मित वा शिविकादिरूपे समास्रोह प्रतिपन्नमूर्ति ॥

अत्रैवान्यासां प्रतिमानामुपरि पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् (४)

(विधिनायक प्रतिमा एव सब प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करे)

(१) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५१४ (२) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५१६

(३) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५१६ (४) आ ज से, प्र पाठ श्लोक ८३२

आपृच्छ्य बध्नुचित महेच्छ किमिच्छकं दानविधि विधाय ।

निष्क्रामति स्मावस्थाध्वनो य स एव देवो जिनबिम्ब एषः ^(१)॥

ओं ह्री अर्ह श्री धर्मतीर्थाधिनाथ भगवन्निह शिविकायां तिष्ठ तिष्ठेति स्वाहा ।

विधिनायक प्रतिमा को पालकी मे विराजमान करें ।

वादित्रगधर्वजयेति शब्दै स्तब्धीकृताशानिचये मुहूर्ते ।

शुभे दिनार्धोत्तरभाजि जिष्णोर्नैग्रथ्यकाल शुभदो विधेयः ^(२) ॥

पालकी मे बैठाते समय वादित्र बजावे, जय जय शब्द बोले दिनार्द्ध के अपर भाग मे ही दीक्षा विधि करें ।

यदाश्रिता श्रीशिविका धुरीणा स्वच्छे समारोप्य पदानि सप्त ।

जग्मु पृथिव्यां प्रथम नरेन्द्रा स एव देवो जिनबिम्ब एषः ॥ ^(३)

नरेन्द्रोऽशिविकास्थितजिनस्थापनायप्रतिमाग्रे पुष्पं क्षिपेत् ।

यदाश्रिता श्रीशिविका धुरीणा स्वच्छे समारोप्य पदानि सप्त ।

जग्मु पृथिव्यामथखेचरेन्द्रा स एव देवो जिनबिम्ब एषः ^(४) ॥

विद्याधरराजोऽशिविकास्थितजिनस्थापनाय पुष्पं क्षिपेत्

(अपरेऽपि केचिद्भव्याः शिविकां धृत्वा सप्तपदानि गच्छेयुः)

यस्य प्रभो श्रीशिविका प्रमोदात् स्वच्छे समारोप्य वियत्पथेन ।

तपोवन निन्दुरथामरेन्द्रा स एव देवो जिन बिम्ब एषः ^(५) ॥

सुरेन्द्रोऽशिविकास्थितजिनस्थापनाय पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

(सभी इन्द्र शिविकां पालकी को दीक्षावन की ओर ले जाते हैं)

(१) श्री ने दे, प्र. ति पृष्ठ ५१७ (२) आ. ज से., प्र. पा. श्लोक ८३३

(३-४-५) श्री ने दे, प्र. ति पृष्ठ ५१८

दीक्षावन क्रिया (सूची अनुसार सामग्री)

तत्रैव पूर्वत्र दिशासु दीक्षावन विशाला गणकल्पशाख ।
दीक्षातरुस्तत्र शिलाप्रदेश सस्कारवाटीवृक्षगूढमध्या (१) ॥

गणधरचलय मंत्र

- (१) ओं ह्रीं इवीं श्रीं अर्हं अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय इग्रीं इग्रीं नमः
(२) ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय इग्रीं इग्रीं नमः
(दोनो मे से एक १०८ बार पढे)

चौसठ ऋद्धि मंत्र

ओं, ह्रीं चतुः षष्ठीं ऋद्धिसमृद्धगणधरेभ्यो नमः (१०८ बार पढे)

तप कल्याणक विधि -

मंगलाष्टक, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शातिमंत्र पंच कल्याणकस्तोत्र एव भक्तियापदकर पाण्डाल से पूर्वदिशा या पाण्डाल के पूर्वदिशा में दीक्षावन की व्यवस्था करना । वट वृक्ष के नीचे दीक्षा स्थान बनाया जाय । स्टेज इतनी ऊंची हो, कि जनता शातिपूर्वक देख सके । षट्कोण पत्थर की शिला जल से शुद्ध करके रखे, उस पर सर्वतोभद्र स्वस्तिक बनावे। मंत्र द्वारा स्थानशुद्धि, पात्र शुद्धि करे ।

श्रीगणधरदेवस्तवन (२)

जिनान् जितारातिगणान् गरिष्ठान् देशावधीन् सर्वपरावधीश्च ॥
सत्कोष्ठबीजादिपदानुसारीन् स्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥१॥
संभिन्नश्रोतान्चितसन्मुनीन्द्रान् प्रत्येकसबोधितबुद्धधर्मान् ॥
स्वयं प्रबुद्धाश्च विमुक्तमार्गास्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥२॥
द्विधामनपर्ययचित्प्रयुक्तान् द्वि पंच सप्तद्वय पूर्वसक्तान् ॥
अष्टाग नैमित्तिकशास्त्रदक्षान् स्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥३॥
विकुर्वर्णाख्यर्द्धिमहाप्रभावाद् विद्याधराश्चारणऋद्धिप्राप्तान् ॥
प्रज्ञाश्रितान् नित्यं खगामिनश्च स्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥४॥

(१) आ ज से, प्र पा श्लोक ३६७ (२) आ स की ग व वि

आशीर्विषान् दृष्टिविषान् मुनीन्द्रानुग्रातिदीप्तोत्तमतप्ततप्तान् ॥
महातिघोर प्रतप प्रसक्तान् स्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥५॥

वन्द्यान् सुरैर्घोरगुणाञ्च लोके पूज्यान्बुधैर्घोरपराक्रमाश्च ॥
घोरादिससद्गुणब्रह्मयुक्तान् स्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥६॥

आमर्द्धिखेलर्द्धिप्रजल्लविट्प्रसर्वर्द्धिप्राप्ताश्च व्यथादिहन्तृन् ॥
मनो वच कायवलोपयुक्तान् स्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥७॥

सत्कीरसर्पिमधुरामृतार्द्धीन् यतीन् वराक्षीणमहानसांश्च ॥
प्रबर्धमानास्त्रिजगत्सुपूज्यान् स्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥८॥

सिद्धालयान् श्री महतोऽतिवीरान् श्रीवर्धमानर्द्धिविबुद्धिदक्षान्
सर्वान् मुनीन् मुक्तिवरानृषीन्द्रान् स्तुवे गणेशानपि तद् गुणाप्त्यै ॥९॥

नृसुरखचरसेव्या विश्वश्रेष्ठर्द्धिभूषा
विविधगुणसमुद्रा मारमातगसिहा ॥

भवजलनिधिपोता वन्दिता मे दिशन्तु
मुनिगणसकलान् श्रीसिद्धदा सदृषीन्द्राः ॥१०॥

पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्

दीक्षा वृक्षो के नाम (१)

न्यग्रोधो मदगधिसर्जमशन श्यामे शिरीषोर्हता -
मेते ते किल नागसर्जजटिनः श्रीस्तिदुक पाटलाः ॥

जब्वश्वत्थकपित्थनदिकविटाम्राबंजुलश्चंपको
जीया सर्वकुलोऽत्र वाशिकधवौ शालश्च दीक्षाद्रुमाः ॥

तीर्थकरों के दीक्षा प्रधान वृक्ष

१. वट २. सप्तच्छद ३. साल ४ साल ५. प्रियंगु ६ प्रियंगु ७ श्रीखंड (सिरस) ८.
नागवृक्ष ९. साल १० पलास ११ तिन्दुक १२. पाटल १३. जम्बू १४. पीपल १५. दधिपर्ण
१६. नंदी १७ तिलक १८. आम्र १९. अशोक २०. चंपा २१. मौलसरी (बकुल) २२.
बांस २३. धव २४ साल अनुक्रम से जानना।

दीक्षा पालकी

१ सुदर्शन २ सुप्रभा ३. सिद्धार्था ४ हस्तचित्रा ५ अभयकारी ६. निर्वृत्तकारी
७ सुमनोगति ८ विमला ९. सूर्यप्रभा १० शुक्रप्रभा ११ विमलप्रभा १२. पुष्पभा १३.
देवदत्ता १४ सागरदत्ता १५ नागदत्ता १६ सिद्धार्था १७ विजया १८ वैजयन्ति १९
जयन्ति २०. अपराजिता २१ उत्तरकुरु २२ देवकुरु २३. विमला २४. चन्द्रप्रभा

(१) आ. ज. से., प्र. या श्लोक ८३५

दीक्षावन

१. सिद्धार्थ २. सहेतुक (सहस्राग्र) ३. सहेतुक ४ उग्रोद्यान ५ सहेतुक ६. मनोहर
७. सहेतुक ८. सर्वार्थ ९. पुष्पक १० सहेतुक १२. मनोहर १३ सहेतुक १४. सहेतुक
१५. शाल १६. आम्रवन १७. सहेतुक १८. सहेतुक १९ श्वेत २०. नील २१. चित्र २२.
सहकार २३. अश्व २४. ज्ञान (नाथ)

दीक्षा विधि

वटवृक्षस्थापना^(१)

शाखाच्छ्रयेन योऽ सौ हरति खलु सता कर्मधर्माश्रुतापं
यः सौख्योदारसारं फलति शुभफलं मोक्षनाकादिभेद ।

सेवन्ते यं तदर्थं विवुधजनखगा यस्य चैवं प्रभाव

संगाजातो हि तस्य त्रिभुवनमहितः सोस्तु दीक्षाद्रुमोऽयं ॥

ओंहीणमोअरिहंताणंवृषभजिनस्यवटाख्यदीक्षावृक्षअत्रअवतरअवतरपुष्पाक्षतंक्षिपेत्

एवं विनिष्क्रम्य यमाससाद पुण्याश्रमं तीर्थकरः प्रशान्तः ।

स एव चायं जिनमण्डपोऽस्तु श्रीमूलवेद्या विहितप्रतीच्या ॥ ^(२)

तपोवनपुण्याश्रमस्थापनाय दीक्षाग्रहणमंडपे पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ।

स्वचित्तकल्पे विपुले विशुद्धे शिलातले यत्र तु चन्द्रकांते ।

सुरेन्द्रकल्पे भगवान्निविष्टरतदेव पीठ दृढमेतदस्तु ॥ ^(३)

सुरेन्द्ररचितचन्द्रकांतशिलारथापनाय पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्

जिनबिम्बं समुत्तार्य पाषाणे वाथ पट्टके

दीक्षातरोरघोभागे प्राङ्मुखं चोत्तरोन्मुख ॥ ^(४)

ओं ह्रीं धर्मतीर्थाधिनाथभगवन्निह सुरेन्द्रविरचितचन्द्रकांतशिलोपरि तिष्ठ तिष्ठ ।

शिला पर प्रतिमा विराजमान करे ।

तपोवनं यत्तदिहास्तु दीक्षा वृक्षोऽपि सोय च शिलापि सेयं ।

स पुण्यकालोऽप्ययमेव यद्यदीक्षोचित तत्तदिहास्तु सर्व ॥ ^(५)

दीक्षोचितसामग्रीरथापनाय पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

(यहां तपकल्याणक की भक्तियों और मंत्रों का जाप करना चाहिए) ।

नोट - दीक्षा की क्रिया परदा लगाकर करना चाहिए ।

(१) श्री ने. दे, प्र. ति. पृष्ठ ५११ (२) श्री ने. दे, प्र. ति. पृष्ठ ५१९ (३) वही,

(४) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ८३७ (५) श्री ने दे प्र. ति. पृष्ठ ५२०

य सर्वसिद्धान्पणिपत्यकेशानुत्पाट्यदिव्याम्बरमालभूषाः ।

त्यक्त्वा प्रवद्राज निजात्मलब्धै स एव देवो जिन बिब एष ॥ (१)

ओं णमो भगवतेऽर्हते सद्यः सामायिक प्रपन्नाय वस्त्राभूषणमपनयामि ।
(वस्त्राभरण उतारकर थाली मे रखे) ।

विधिनायक प्रतिमा के सिर पर घिसी हुई गाढी केशर या पिसी हुई लवंग लगाकर फूल अलग कर लवंग लगा देवे ।

अत्र बिम्बरस्याचेतनत्वाज्जिन कार्य केशलोचादि आचार्येणैव विधातव्यं तथा च अहं सर्वसावद्यविरतोऽस्मीति प्रतिज्ञायार्हद्भक्ति, सिद्धभक्ति, पाठो जिनोद्देशेनाचार्येण कार्यः । विधिमुद्दिश्यत्वाचार्यश्रुतभक्तिपाठः कर्तव्यः । अत्र कमंडलुपिच्छिकादानं तीर्थकरस्य शौचक्रियाजीवघाताभावाच्च न कर्तुं प्रभवति केवलं साधुत्वेव उपयोगि न तु प्रतिमायामर्हति च इत्याम्नायविदः ।

यदि साधु है तो केशलुच उनसे ही करावे । यदि मुनिराज न हो तो प्रतिष्ठाचार्य सर्वपाप्मं से रहित हू ऐसी कल्पना के साथ अर्हत्, सिद्ध, श्रुत भक्ति करता हुआ केशलुचन का कार्य करें ।

तत्र "नमः सिद्धेभ्यः" । इति मंत्रेण केशोत्पाटनं ।

ओं ह्री श्री अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः शिरप्रक्षालनं करोमि (सिर पर लगी केशर घोना चाहिए)

पिच्छिका प्रदान मंत्र

ओं णमो अरिहंताणं षट्जीवनिकाय रक्षणाय क्षमा- मार्दवादि गुणोपेतमिदं पिच्छिकोपकरणं गृहाण गृहाण ।

कमण्डलु प्रदान मंत्र

ओं णमो अरिहंताणं रत्नद्वयपवित्राय वृत्तोत्तमंगाय बाह्याभ्यन्तरमल विशुद्धाय नमः इदं शौचोपकरणं गृहाण गृहाण । जनता को धर्मोपदेश दिया जाय ।

नामकरणमंत्र

ओं ह्रीं दिगम्बराम्नाये तव वृषभनाथान्नाम भवसि ।

तत्रोपदेशविधिना तु सभार. गचार्यकृतश्रुतवराग्रिमवाक्यपुष्टाः ।

शील यम शमदमेन्द्रियरोधनाः णीयुरिगितफलेषु यतो निपातः ॥ (२)

एवं सभासद्भ्यो धर्मोपदेशं दत्त्वा तत्रापवरकेन जिनबिम्बं केषुचिदेव जनेषु योग्येषु दीक्षाविधिं नियुञ्ज्यात् ।

य सर्वसावद्यनिवृत्तरूप चारित्रमाद्य विगतप्रमाद ।

आसेदिवान्सिद्धगुणानुरक्त स एव देवो जिन बिम्ब एष (१) ॥

ओं सामायिकचारित्रातिशयस्थापनाय पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्

मनः पर्ययज्ञानोत्पत्ति ।

तस्मिन्क्षणे त्वर्थ विबोधमुद्गमन्निव स्मरप्राणहरो जिनाधिप, ।

उत्तार्यते यज्वभिरूढदीपकज्योतिर्भिरारद्युगसख्यसत्फलै ॥(२)

ओं ह्री अर्हं णमो अ सि आ उ सा ज्योतिर्मयाय मनः पर्ययज्ञान प्राप्ताय नमः

(चार दीपक या कपूर की चार डली जलाकर प्रतिमा के सामने रखे और मन पर्ययज्ञानोत्पत्ति बतावे ।)

केश विसर्जन

यस्य प्रभो केशकलापमिन्द्र सपूज्य निक्षिप्य च रत्नपात्रम् ।

निक्षेपयामास पयः पयोधौ स एव देवो जिन बिम्ब एष ॥(३)

भगवत्केशकलापस्येन्द्रवृत्तार्चनरत्नपात्रस्थापनक्षीराखिनिक्षेपणस्थापनाय प्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

अंकन्यास

सालोकलोकत्रितयैकनित्यज्योति परब्रह्ममहोदयस्य ।

साक्षादभिव्यजनमेव शब्दब्रह्मेति मत्रानिह तान्यसामि ॥(४)

इति मंत्रन्यासप्रतिज्ञापनाय प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

तत्र तावदंकन्यासविधि । कर्पूरचन्दनकाश्मीरादि सुगन्धद्रव्यै सुवर्णशलाकया प्रतिमाया अंगेअकन्यासो विधेय ।

तत्र तावदाचार्यः स्वशरीरे मातृकामंत्रं जपन् अंकानिष्कंस्यस्य तदुत्तरं प्रतिमायां लेखनद्वारा कार्यो विधिः ।

तथाहि -

ओ अ नम ललाटे,

ओ इ नम दक्षनेत्रे,

ओ उ नम दक्षकर्णे,

ओ ऋ नम दक्षनसि,

ओ लृ नम दक्षगण्डे

ओ ए नम अधओष्ठे

ओ आ नम मुखवृते

ओ ई नम वामनेत्रे

ओ औ नम वामकर्णे

ओ ऋ नम वामनसि

ओ लृ नम वामगण्डे

ओ ऐ नम उर्ध्वओष्ठे

(१) श्री ने दे, प्र. ति पृष्ठ ५२४ (२) आ ज से, प्र पाठ श्लोक ८४१

(३) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५२३ (४) श्री. ने. दे, प्र ति पृष्ठ ५५२

ओ ओ नम अघोदन्ते
 ओ अ नम मूर्ध्नि
 ओ क नम दक्षिणबाहुदण्डे
 ओ ग नम दक्षबाहुनाडी सधौ
 ओ ङ नम दक्षकराग्रे
 ओ छ नम वामबाहु मध्य सधौ
 ओ झ नम हस्तागुलि सधौ
 ओ ट नम दक्षपाद मूले (जघा)
 ओ डं नम दक्ष पाद गुल्फे
 ओ ण नम दक्ष पदाग्रे
 ओ थ नम वाम पाद मूले (जघा)
 ओ ध नम वाम पाद गुल्फे
 ओ प फ नम दक्ष पार्श्व दिवुक्ष्यत,
 ओ म नम उदरे
 ओ र नम दक्ष स्कन्धे
 ओ व नम वाम स्कन्धे
 ओ ष नम हृदयादि वाम करे
 ओ ह नम हृदयादि वाम पादे
 न्यसेत् स्थापयेच्च।

ओ औ नम उर्ध्व दन्ते
 ओ अ नम जिह्वाग्रे
 ओ ख नम दक्षबाहुमध्य सधौ
 ओ घ नम दक्षकरागुलि सधौ
 ओ च नम वामबाहुदण्डे
 ओ ज नम वामहस्व नाडी सन्धौ
 ओ ञ नम वाम हस्ताग्रे
 ओ ठ नम दक्ष पाद मूले (जंघा)
 ओ ढ नम दक्ष पाद गुल्फे
 ओ तं नम वाम पाद मूले (जघा)
 ओ द नम वाम पाद गुल्फे
 ओ न नम वाम पदाग्रे
 ओ ब भ नम वाम पार्श्व दिवुक्ष्यंत
 ओ य नम हृदि
 ओ ल नम ग्रीवाया
 ओ श नम हृदयादि दक्षिण करे
 ओ स नम हृदयादि दक्षिण पादे
 ओ क्ष नम हृदयादि जठरे

हिन्दी

अ ललाट मे
 इ दाहिन नेत्र
 उ दक्षिण कान
 ऋ दक्षिण नाक
 लृ दक्षिण गाल
 ए नीचे होठ
 ओ नीचे दात
 अ मस्तक पर
 क दाहिनी भुजा
 ग दाहिने हाथ की नाडी सधी

आ मुखवृत्त मे
 ई वाम नेत्र
 ऊ वाम कान
 ऋ वाम नाक
 लृ वाम गाल
 ऐ ऊपर होठ
 औ ऊपर दात
 अ जिह्वा के अग्र भाग पर
 ख दाहिनी भुजा मध्य सधी
 घ दाहिने हाथ की अगुली सधी

ङं दाहिने कराग्रे	च वाम भुजा
ः नाम भुजा मध्य सधी	ज वाम हाथ नाड़ी सधी
झ वाम हाथ अगुली सधी	ञ वाम कराग्रे
ट दक्षिण पाद मूल (जघा)	ठ दक्षिण पाद मूल (जघा)
ड दक्षिण पाद गुल्फ	ढ दक्षिण पाद गुल्फ
ण दक्षिण पादाग्रे	त वाम पाद मूल (जघा)
थ वाम पाद मूल (जघा)	द वाम पाद गुल्फ
ध वाम पाद गुल्फ	न वाम पादाग्रे
पफ दक्षिण कुक्षि के पार्श्व मे	बभ वाम कुक्षि के पार्श्व मे
म नाभि पर	य हृदय पर
र दाहिना कंधा	ल गला पर
व बायां कंधा	श हृदय एव दाहिने हाथ के मध्य
ष हृदय एव बाये हाथ के बीच	स हृदय एव दाहिने पाव के बीच
ह हृदय एवं बाये पाव के बीच	क्ष हृदय एव नाभि के बीच

संस्कारमालारोपणम्

तत अनादिसिद्धमत्र जपेत् ।

णमो अरिहंताणं इत्यादि धम्मं सरणं पव्वज्जामि इति अन्तं स्वाहा । इत्यष्टोत्तरशतं जपः ततः पुष्पाणि सुवर्णं लवंगं जात्यादि भवानि संगृह्यैकैकं संस्कारमंत्रमुच्चार्य प्रतिमोपरि क्षेपः । (१)

सद्दृष्टिलाभाद्यपवर्गलक्ष्मीपर्यततत्तत्पदसभवतीम् ।
संस्कारमाला निदधेष्ट चत्वारिंशन्मितामत्र जिनेन्द्रबिम्बे ॥^(२)
(संस्कारमालारोपणप्रतिज्ञायै प्रतिमोपरि पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् ।)

प्रवर्द्धमानामलदर्शनस्य निर्बाधबोधस्य सदासमीच ।
पवित्रचारित्रविधे क्रमेण संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥^(२)

१. ओ ह्रीं इहार्हति सद्दर्शनसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
२. ओं ह्री इहार्हति सज्ज्ञानसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
३. ओ ह्री इहार्हति सच्चारित्रसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।

द्विषट्प्रकारोग्रतपोभरस्य वतुर्विधाराधनगोचरत्वात् ।
विशिष्टवीर्यस्य चतुर्विधस्य संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ।

(१) आ ज से, प्र पा पृष्ठ २७२ (२) श्री ने दे, संस्कार माला पृष्ठ ५४४ से ५५१

४. ओं ह्रीं इहार्हति सत्तपः संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
५. ओं ह्रीं इहार्हति सद्दीर्यचतुष्टयसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
गुप्तित्रयास्याथ स पचभेदसमित्युपेतस्य विशुद्धिहेतो ।
मतेऽत्र मात्राष्टकसञ्ज्ञितस्य संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
६. ओं ह्रीं इहार्हति अष्टप्रवचनमातृकारसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
भैक्षेर्यकावान् शयनासनागव्युत्सर्गचेतो विनयेषु सम्यक् ।
शुद्धे विशुद्ध्यष्टकसचिताया संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
७. ओं ह्रीं इहार्हति शुद्धयष्टकावष्टमं संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
परीषहाद्योर्जितनिर्जयस्य त्रियोगजा संयमवर्जनस्य ।
कृत्वादिजासंयमसहृतेश्च संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
८. ओं ह्रीं इहार्हति परीषहजयसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
९. ओं ह्रीं इहार्हति त्रियोगेन संयमाच्युतिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
१०. ओं ह्रीं इहार्हति कृत्कारितानुमोदनैरतिचारनिवृत्तिः संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
प्राणेन्द्रिया संयमशीलनस्य दशप्रकारस्य तु शीलनस्य ।
पञ्चेन्द्रियाणा दृढनिश्चयस्य संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ।
११. ओं ह्रीं इहार्हति दशसंयमो परमः संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
१२. ओं ह्रीं इहार्हति पंचेन्द्रियजयः संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
अनादिसंवृत्तदुरन्तसंज्ञा चतुष्टयस्याति विनिग्रहस्य ।
दशप्रभेदोत्तमधर्मवृत्त्या संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ।
१३. ओं ह्रीं इहार्हति संज्ञानचतुष्टयनिग्रहसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
१४. ओं ह्रीं इहार्हति दशविधिधर्मधारणसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
अष्टादशाश्लिष्टसहस्रमानशीलावलेर्लक्षचतुष्कभाजां ।
अशीतिलक्षामितसद्गुणाना संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
१५. ओं ह्रीं इहार्हति अष्टादशसहस्रशीलपरिशीलनसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
१६. ओं ह्रीं इहार्हति चतुरशीतिलक्षोत्तरगुणसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
ध्यानस्य धर्मस्य सतोऽप्रमत्तवृत्तस्य चैकांततयायुतस्य ।
श्रुतोपयोगस्य दृढस्य बाढं संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
१७. ओं ह्रीं इहार्हति अतिशयविशिष्टधर्मध्यानसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।

१८. ओं ही इहार्हति अप्रमत्तसंयमसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
१९. ओं ही इहार्हति अतिदृढश्रुतोपयोगसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
अथारखलत्सत्परिणामजाल समुल्लसच्छ्रेण्यधिरोहणस्य ।
शुद्धेस्त थानतगुणात्मिकाया सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥
२०. ओं ही इहार्हति अप्रकंमक्षपकश्रेण्यारोहणसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
२१. ओं ही इहार्हति अनंतगुणशुद्धिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
अध प्रवृत्तादिवृत्ते पृथक्त्ववितर्कत्रीचारमहासमाधे ।
अपूर्वसम्यक्करणस्य तस्य सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ।
२२. ओ ही इहार्हति अधःप्रवृत्तिकरणप्राप्तिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
२३. ओं ही इहार्हति पृथक्त्ववितर्कत्रीचारशुक्लध्यानसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
२४. ओ ही इहार्हति अपूर्वकरणप्राप्तिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
ततोऽनिवृत्त्याधिवृत्तेश्च तस्या कषायकाणामथबादराणां ।
निःसारिता किट्टिकृतेश्च तस्याः संस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ।
२५. ओ ही इहार्हति अनिवृत्तिकरणप्राप्तिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
२६. ओं ही इहार्हति वादरकषायकिट्टिकरण संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
तत पर सूक्ष्मकषायकिट्टिकृतेश्च तेषामथबादराणाम् ।
तत्किट्टिनिर्लेपनसंविधेश्च सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ।
२७. ओं ही इहार्हति सूक्ष्मकषायकिट्टिकरण संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
२८. ओ ही इहार्हति वादरकषायकिट्टिकानिर्लेपनसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
तत क्रमात्सूक्ष्मकषायकिट्टिनिर्लेपनसूक्ष्मकषायवृत्तम् ।
इत्येतयो क्षीणकषायताया सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ।
२९. ओं ही इहार्हति सूक्ष्मकषायकिट्टिकानिर्लेपनसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
३०. ओ ही इहार्हति सूक्ष्म साम्परायचारित्रसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
३१. ओ ही इहार्हति प्रक्षीणमोहरसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
क्रमाद्यथाख्यातचरित्रमैक्य-श्रुताद्यवीचारकशुक्लयोग ।
नि शेषघातिक्षयइत्यमीषा सस्कार एषोऽत्र चकास्तु बिम्बे ॥
३२. ओं ही इहार्हति यथाख्यातचारित्रप्राप्तिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
३३. ओं ही इहार्हति एकत्ववितर्कत्रीचारशुक्लध्यानसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।

३४. ओं ह्रीं इहार्हति घातिकर्मनिर्मूलनसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
श्रीकेवलज्ञानदृग्दुद्भवस्य तीर्थप्रवृत्त्याख्यविधेः समाधेः ।
सूक्ष्मक्रियाद्यप्रतिपातिनश्च संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ।
३५. ओं ह्रीं इहार्हतिकेवलज्ञानदर्शनोद्भवसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
३६. ओं ह्रीं इहार्हतिधर्मतीर्थप्रवृत्तिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
३७. ओं ह्रीं इहार्हति सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिशुक्लध्यानपरिणत्व संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
शैलेश्यनुख्यातवृत्ते प्रकर्षवृत्तसवरस्यापि च योगकिट्टेः ।
वृत्तेश्च निर्लेपनसद्विधेश्च संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
३८. ओं ह्रीं इहार्हति शैलेषीकरणसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
३९. ओं ह्रीं इहार्हति परमसंवरसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
४०. ओं ह्रीं इहार्हति योगकिट्टिकाकरणसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
४१. ओं ह्रीं इहार्हति योगकिट्टिकानिर्लेपनसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
ततः समुच्छिन्नमुखक्रियानिवृत्त्याख्ययोगस्य सुनिर्जरायाः ।
निशेषकर्मप्रकरक्षयस्य संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
४२. ओं ह्रीं इहार्हति समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिशुक्लध्यानप्राप्तिसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
४३. ओं ह्रीं इहार्हति परमनिर्जरासंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
४४. ओं ह्रीं इहार्हति सकलकर्मक्षयाप्ति संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
अनंतदुर्वारदुरतदुःखससारपर्यायपरक्षयस्य ।
अनंतसिद्धत्वसुपर्यायाप्ते संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
४५. ओं ह्रीं इहार्हति अनादिभवपरावर्तनविनाशसंस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
४६. ओं ह्रीं इहार्हति अनंतसिद्धपर्यायोपलब्धि संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
अदेहसम्यक्सहजाद्वितीयज्ञानोपयोगैश्वर्योपलब्धेः ।
तद्वत्सुदृष्टैश्वर्यस्य साक्षात् संस्कार एषोऽत्र चकारस्तु बिम्बे ॥
४७. ओं ह्रीं इहार्हति अदेहसहज ज्ञानोपयोगैश्वर्य संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
४८. ओं ह्रीं इहार्हति अदेह सहजदर्शनोपयोगैश्वर्य संस्कारः स्फुरतु स्वाहा ।
एवमष्ट चत्वारिंशत्संस्काराधारित्वं प्रतिपाद्य एतदर्थारोपणान्तःकरणेन आचार्येण
सर्वप्रतिमासु पुष्पाञ्जलिःक्षेप्यः
नोट-प्रतिष्ठा तिलक एवं प्रतिष्ठासारोद्धार में अकन्यास और संस्कार मालारोपण केवल
ज्ञानकल्याणक में लिखे है । संस्कारारोपण के पश्चात् तपकल्याणक पूजा करना ।

तपकल्याणक पूजा

अथासिधाराव्रतमद्वितीय, निर्वाणदीक्षाग्रहण दधानं ।

यमर्चयामासुरशेषशक्रारस्तमर्चयामो जगदर्चनीयम् ॥

ओं ह्री तपकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्राः अत्रावतरावतर संवौषट् ।

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

सारशान्तरसनिर्जितात्मवत्त्वत्पदाग्रप्रति तेन वारिणा ।

तीर्थवृन्मुनिललाम तावकं, यायजीमि पदपंकजद्वयम् ॥

ओं ह्रीं तीर्थवृन्मुनिललामं जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

सद्गुणप्रणुतचन्दनेन ते, कीर्तिवत्सकलतोषपोषिणा ।

तीर्थवृन्मुनिललाम तावकं, यायजीमि पदपंकजद्वयम् ॥

ओं ह्री तीर्थवृन्मुनिललामं संसारतापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥

त्वन्मुखेदुभाजनार्थमागतैर्भ्रजैरिव वलक्षकाक्षतैः ।

तीर्थवृन्मुनिललाम. तावकं, यायजीमि पदपंकजद्वयम् ॥

ओं ह्री तीर्थवृन्मुनिललामं अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥

सुप्रसादसुकुमारतादिभि त्वद्वचोभिरिव नव्यपुष्पकैः ।

तीर्थवृन्मुनिललाम तावकं, यायजीमि पदपंकजद्वयम् ॥

ओं ह्री तीर्थवृन्मुनिललामं कामवाणविध्वंशनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

चारुणाथ चरुणामृताशुवद्वय जनेरपि तदकशकिभि ।

तीर्थवृन्मुनिललाम तावकं, यायजीमि पदपंकजद्वयम् ॥

ओं ह्री तीर्थवृन्मुनिललामं क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥

धर्मदीपक न ते वय समा भक्तुमित्यमितवत्प्रदीपकैः ।

तीर्थवृन्मुनिललाम तावक, यायजीमि पदपंकजद्वयम् ॥

ओं ह्री तीर्थवृन्मुनिललामं मोह अंधकारविनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥

सेव्यपाद न पथेद्वभृगवत् स्यान्मतोपमसुधूपधूमकैः ।

तीर्थवृन्मुनिललाम तावक, यायजीमि पदपंकजद्वयम् ॥

ओं ह्री तीर्थवृन्मुनिललामं अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥७॥

नम्रभव्यसुकृत्तानुकारिभि सारभूत सहकारकादिभि ।

तीर्थवृन्मुनिललाम तावकं, यायजीमि पदपंकजद्वयम् ॥

ओं ह्री तीर्थवृन्मुनिललामं मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥

गुणमणिगणसिन्धुन्भव्यलौकैकबधून् । प्रकटितजिनमार्गान्ध्वरस्तमिथ्यात्वमार्गान् ॥
परिचित निजतत्त्वान्पालिताशेषसत्वान् । समरसजितचन्द्रानर्घ्ययामोमुनीन्द्रान् ॥

ओं ह्री तीर्थकृन्मुनिललामं अनर्घपदप्राप्तये अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥९॥

श्री मद्बोधत्रयाद्दयप्रविमलचरितस्वात्मसद्दयाननिष्ठ ।

स्याद्वादांभोजभानो त्रिजगदुपकृतिव्यग्रयोगीश्वर त्वां ॥

अर्घ्य चानर्घ्यनानाविधविधिविहितं द्रव्यमुद्धार्य वर्य ।

प्रक्षिप्योदारपुष्पांजलिमलिकलित भूरि भक्त्या नमामः ॥

ओं ह्री तीर्थकृन्मुनिललामं अनर्घ्यपदप्राप्तये महार्घ ॥१०॥

प्रत्येक अर्घ

शोभने चैत्रमासे च कृष्णे सुनवमी दिने ।

सर्वोपाधीन्परित्यज्य धारित चोत्तम तप ॥

ओं ह्री चैत्रकृष्णानवम्यां तपकल्याणकप्राप्ताऋषभायार्घ ॥१॥

माघमासे शुक्लपक्षे विशुद्धे नवमी दिने ।

अजित जितकर्मौघ महाभिषवसारथि ॥

ओं ह्री माघ शुक्ला नवम्यां तपकल्याणकप्राप्ताजितनाथायार्घ ॥२॥

मासे मार्गशिरे शुभ्रे शोभने पूर्णिमातिथौ ।

संभव व्रतदातार यजे चारित्रभूषण ॥

ओं ह्री मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमायां तपकल्याणकप्राप्तसंभव जिनायार्घ ॥३॥

निर्मले माघमासे च विशुद्धे दशमी दिने ।

यजेऽभिनन्दन देव लोकालोकप्रकाशक ॥

ओं ह्री माघ शुक्ला दशम्यां तपकल्याणकप्राप्ताभिनन्दननाथायार्घ ॥४॥

वैशाखशुभ्रपक्षे च पवित्रे नवमी दिने ।

यजामि सुमति देव, तपोभारविभूषित ॥

ओं ह्री वैशाख शुक्ला नवम्यां तपकल्याणकप्राप्तासुमतयेऽर्घ ॥५॥

कार्तिकेमेचके पक्षे त्रयोदश्यां दिने वरे ।

तपोलक्ष्मीसुभर्तार ससाराबुधितारक ॥

ओं ह्री कार्तिककृष्णात्रयोदश्यां तपकल्याणकप्राप्तपद्मप्रभायार्घ ॥६॥

ज्येष्ठमासार्जुने पक्षे, सुलग्ने द्वादशी दिने ।

श्रीसुपार्श महादेव, तपोऽधीश समर्चये ॥

ओं ह्री ज्येष्ठशुक्लाद्वादश्यां तपकल्याणकप्राप्तसुपार्श्वनाथायार्घ ॥७॥

- पौषे च श्यामले पक्षे चैकादश्या तपोर्जित ।
चन्द्रप्रभ यजे नित्य कर्माष्टकविनाशक ॥
- ओ ह्री पौषकृष्णैकादश्यां तपकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रभायार्घ ॥८॥
मासे मार्गशिरे शुक्ले शोभने प्रतिपत्तिथौ ।
श्री सुविधि यजे नित्य सच्चारित्रमहोदधि ॥
- ओ ह्री मार्गशीर्षशुक्लाप्रतिपदायां तपकल्याणकप्राप्तपुष्पदन्तायार्घ ॥९॥
माघमासे श्यामपक्षे द्वादश्या सुतपोर्जित ।
शीतलेश मुदा चर्चे सुद्रव्ये तपसेऽधुना ॥
- ओं ह्री माघकृष्णाद्वादश्यां तपकल्याणकप्राप्तशीतलजिनायार्घ ॥१०॥
फाल्गुने श्यामले पक्षे त्रैकादश्या जिनेशिन ।
तपस्तप्त द्विधा सम्यक् बाह्याभ्यन्तरशुद्धिद ॥
- ओ ह्री फाल्गुनकृष्णाएकादश्यां तपकल्याणकप्राप्तश्रेयोजिनायार्घ ॥११॥
फाल्गुने कृष्णपक्षे च, चतुर्दश्या जिनेशिन ।
अर्चे महातपस्तप्त कर्माष्टक सुहानये ॥
- ओं ह्री फाल्गुनकृष्णाचतुर्दश्यां तपकल्याणकप्राप्तवासुपूज्यायार्घ ॥१२॥
माघशुक्ले चतुर्थ्या वै द्विधा सगपरित्यजन ।
नानाभेद तपस्तप्त चर्चे श्रीविमलेश्वर ॥
- ओं ह्री माघशुक्लाचतुर्थ्या तपकल्याणकप्राप्तविमलदेवायार्घ ॥१३॥
ज्येष्ठस्य श्यामले पक्षे, द्वादश्या कर्महानये ।
द्वादशधा तपस्तप्त यजेऽनन्ततपोनिधि ॥
- ओं ह्री ज्येष्ठ कृष्णाद्वादश्यां तपकल्याणकप्राप्तानन्तजिनायार्घ ॥१४॥
माघशुक्ले त्रयोदश्या द्विधा सग परित्यजन् ।
यजे भक्त्या शुभैर्द्रव्यै धर्मनाथ तपोभर ॥
- ओं ह्री माघशुक्लात्रयोदश्यां तपकल्याणकप्राप्तधर्मनाथायार्घ ॥१५॥
ज्येष्ठ कृष्ण सुपक्षे च चतुर्दशी दिने मुदा ।
द्विधा परिग्रह त्यक्त शातिचर्चेतपोर्जित ॥
- ओं ह्री ज्येष्ठकृष्णाचतुर्दश्यां तपकल्याणकप्राप्तशांतिनाथायार्घ ॥१६॥
वैशाखे शुक्ले प्रतिपद्दिने तपोर्जित महत् ।
द्विधा मूर्च्छं परित्यज्य सयजामि दिगम्बरम् ॥
- ओं ह्री वैशाखशुक्लाप्रतिपदायां तपकल्याणकप्राप्तकुन्थुनाथायार्घ ॥१७॥

- मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे दशम्यां च जिनोत्तमं ।
कर्माष्टकविनाशाय तमरं पूजये त्वहं ॥
- ओं ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लदशम्यां तपकल्याणकप्राप्तारनाथायार्घ ॥१८॥
मार्गशीर्षे शुचौ पक्षे विशुद्धैकादशी दिने ।
द्विधा तपो घृतं सगंत्यक्तं चार्चे जिन मुदा ॥
- ओं ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लैकादश्यां तपकल्याणकप्राप्तमल्लिनाथायार्घ ॥१९॥
वैशाखे मेचके पक्षे दशम्या सुव्रतं जिनं ।
तपस्तप्तं महाघोरं सयजे कर्महानये ॥
- ओं ह्रीं वैशाखकृष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्तमुनिसुव्रतनाथायार्घ ॥२०॥
आषाढे कृष्णपक्षे च दशम्यां शुभवासरे ।
द्विधातप्तं तपो येन नमिनाथमहं यजे ॥
- ओं ह्रीं आषाढकृष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्तनमिनाथायार्घ ॥२१॥
नभसि श्वेतपक्षे च षष्ट्यां तपोऽर्जितं महत् ।
द्विधा संगं विमुच्याशु संयमाप्तं यजे मुदा ॥
- ओं ह्रीं श्रावणशुक्लाषष्ट्यां तपकल्याणकप्राप्तनेमिनाथायार्घ ॥२२॥
पौषमासे सुकल्याणे, मेचकैकादशी दिने ।
द्विधा तप्तं तपो येन संयजे तं तपोनिधि ॥
- ओं ह्रीं पौषकृष्णैकादश्यां तपकल्याणकप्राप्तपार्श्वनाथायार्घ ॥२३॥
मार्गशीर्षदशम्यां च कृष्णपक्षे तपोगतं ।
द्विधातप्तं तपो येन संयजे भवहानये ॥
- ओं ह्रीं मार्गशीर्षकृष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्तमहावीरायार्घ ॥२४॥

जयमाला

वनभवनपतीनां दिव्यसार्ध किरीटं मनुजविशदभाश्चंदश्चसंघातशुद्धः ।
सलिलसुभगधाराधौतपादारविन्दचरणघृतिगृहीततुर्यज्ञानाय जन्तुः ॥१॥

छन्दस्त्रिविणी

राज्यभोगाहितं मानसाकारणं, किचिदाप्य परित्यचराजादिकं
ते पुनंतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्रसंभूषिता भासुराः ॥२॥
ब्रह्मलौकान्तिकैर्बोधिताः सत्सुरैः, सद्ब्रह्मचोभिर्नतिपूर्वकैः भाषितैः ।
ते पुनंतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्रसंभूषिता भासुराः ॥३॥

स्वर्णभौमे सरैनाथनाथैररं, सोत्सव स्नापये संस्तुता सादरौ ।

ते पुनतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्रसंभूषिता भासुरा ॥४॥

भूचरै खेचरै- सर्वशक्रैर्घनै, धृत्यकञ्चे सुरै वने संस्थापितै ।

ते पुनंतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्रसंभूषिता भासुरा ॥५॥

सिद्धदेव नमस्वृत्त्य यैर्मूर्धजा, लुंचिता पाणिना मुक्तिसगत्रजा ।

ते पुनंतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्रसंभूषिता भासुरा ॥६॥

लुंवकेशादि ये स्वर्णपात्रैर्मलै, स्थाप्य शक्रैर्धृता क्षीरशुद्धैर्जलै ।

ते पुनतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्रसंभूषिता भासुरा ॥७॥

शुद्धपंचव्रतगुप्तित्रयधारका, पचसमितिधरा मानमुक्ताधिका ।

ते पुनंतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्रसंभूषिता भासुरा ॥८॥

गुणै सुमूलैर्युता अष्ट विशंकै, तेन्यसर्वैर्गुणैर्युक्तिरसंख्यादिकै ।

ते पुनतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्र संभूषिता भासुरा ॥९॥

शुद्धशीला महातुर्यज्ञानादिका, नग्नरूपा महासंयमैर्भूषिता ।

ते पुनतु जिनाभूजना हितकराश्चारुचारित्र संभूषिता भासुरा ॥१०॥

ग्रीष्मप्राव्रड् हिमे निश्चले ये स्थिता योगससाधिका शुक्लध्यानेरता ।

ते पुनंतु जिना भूजना हितकराश्चारुचारित्र संभूषिता भासुरा ॥११॥

शुद्धवृत्तैर्महायोगभिर्ये नुता, इत्यनेकैर्गुणैर्दीक्षता. शोभिताः ।

ते पुनतु जिना भूजना हितकराश्चारुचारित्र संभूषिता भासुरा ॥१२॥

घत्ताघंद्- परमगुणगरिष्ठं स्वात्मज्ञानप्रविष्टा प्रहतसकलदोषा जन्मदुखातिभीताः ।

भुवनपतिजपुष्टा सर्वकार्येषु तुष्टा. धनपतिवृत्तिवंध्या पान्तु भव्यान्सदैव ॥१३॥

ओं ह्री तपकल्याणक प्राप्तेभ्यः चतुर्विंशततीर्थकरेभ्यः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चतुर्विंशतितीर्थेशा अनेकगुणरत्नकाः ।

चारित्रमतिकोपाराः पान्तु यस्मान् सदैव ते ॥१४॥ इत्याशीर्वादः।

तपकल्याणक पूजन

गीता- श्री रिषभदेव सु आदि जिन श्रीवर्द्धमान जु अंत हैं ।

वन्दुहुं चरण वारिज तिन्होंके जयत तिनको संत हैं ॥

करके तपस्या साधु व्रत ले मुक्ति के स्वामी भए ।

तिन तपकल्याणक यजनको द्रव्य आठों हैं लए ॥

ओं ह्रीं श्रीऋषभादि वर्धमानजिनाः अत्रावतरावतर संवौषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

अत्रमम सन्निहितो भव भव वषट् ।

(चाली)

शुचि गंगाजल भर झारी, रुज जन्म गरण क्षयकारी ।

तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥

ओं ह्रीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रम्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

शीतल चंदन घसि लाऊँ, भवका आताप शमाऊँ ।

तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥

ओं ह्रीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रेभ्यः चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षत ले शशि दुतिकारी, अक्षयगुण के करतारी ।

तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥

ओं ह्रीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

बहूपूल सुवर्ण चुनाऊँ, निज काम व्यथा हटवाऊँ ।

तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥

ओं ह्रीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

चरुताजे स्वच्छ बनाऊँ, निज रोग क्षुधा मिटवाऊँ ।

तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥

ओं ह्रीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपक ले तम हरतारा, निज ज्ञानप्रभा विस्तारा ।

तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥

ओं ह्रीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूपायन धूप खिवाऊँ, निज आठों कर्म जलाऊँ ।

तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥

ओं ह्रीं तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

फल सुन्दर ताजे लाऊँ, शिवफल ले चाह मिटाऊँ ।
 तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥
 ओं ह्री तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 शुभ आठो द्रव्य मिलाऊँ, करि अर्घ्य परम सुख पाऊँ ।
 तपसी जिन चौबिस गाए, हम पूजत विघ्न नशाए ॥
 ओं ह्री तपकल्याणकप्राप्त ऋषभादिवर्द्धमानजिनेन्द्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

२४ तीर्थकरो की तपकल्याणक तिथि के २४ अर्घ्य

नौमी वदि चैत प्रमाणी, वृषभेश तपस्या ठानी ।
 निज मे निज रूप पिछना, हम पूजत पाप नशाना ॥
 ओं ह्रीं चैत्रकृष्णानवम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीवृषभजिनेन्द्राय अर्घं ॥१॥
 नवमी शुभ माघ सुदी को, अजितेश लियो तप नीको ।
 जग का सब मोह हटाया, हम पूजत पाप भगाया ॥
 ओं ह्री माघ शुक्ला नवम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीअजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घं ॥२॥
 मगसिर सुदि पूरणमासी, सभव जिन होय उदासी ।
 केशलोच महातप धारो, हम पूजत भय निरवारो ॥
 ओं ह्रीं अगहनशुक्लापूर्णायां तपकल्याणकप्राप्त श्रीसंभवनाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥३॥
 दशमी शुभ माघ सुदी की, अभिनदन वन चलने की ।
 चित ठान परम तप लीना, हम पूजत है गुण चीन्हा ॥
 ओं ह्री माघशुक्लादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीअभिन्दननाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥४॥
 नौमी वैसाख सुदी मे, तप धारा जाकर वन मे ।
 श्री सुमतिनाथ मुनिराई, पूजै मे ध्यान लगाई ॥
 ओं ह्री वैशाखशुक्लानवम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्राय अर्घं ॥५॥
 कार्तिक वदि तेरसि गाई, पद्मप्रभ समता भाई ।
 वन जाय घोर तप कीना, पूजे हम सम सुख भीना ॥
 ओ ह्री कार्तिककृष्णात्रयोदश्यां तपकल्याणप्राप्त श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अर्घं ॥६॥
 शुदि द्वादश जेठ सुहाई, बारह भावन प्रभु भाई ।
 तप लीना केश उखाड़े, पूजै सुपार्श्व यति ठाड़े ॥
 ओ ह्री ज्येष्ठशुक्लाद्वादश्या तपकल्याणकप्राप्त श्रीसुपार्श्वजिनेन्द्राय अर्घं ॥७॥

- एकादश पौष वदी को, चन्द्रप्रभ धारा तप को ।
वन मे जिन ध्यान लगाया, हग पूजत ही सुख पाया ॥
- ओ ही पौषकृष्णाएकादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अर्घ ॥८॥
अगहन सुदि एकम जाना, श्री पुष्पदत्त भगवाना ।
तप धार ध्याय निज कीना, पूजै आतम गुण चीन्हा ॥
- ओं ही अगहनशुक्ला प्रतिपदायां तपकल्याणकप्राप्त श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय अर्घ ॥९॥
द्वादशि वदी माघ महीना, शीतल प्रभु समता भीना ।
तप राखो योग सम्हारो, पूजे हम कर्म निवारो ॥
- ओ ही माघकृष्णाद्वादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१०॥
वदि फाल्गुन ग्यारस गाई, श्रेयासनाथ सुखदाई ।
हो तपसी ध्यान लगाया, हम पूजत है जिनराया ॥
- ओ ही फाल्गुनकृष्णाएकादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥११॥
वदि फाल्गुन चौदसि स्वामी, वासुपूज्य शिवगामी ।
तपसी हो समता साधी, हम पूजत धार समाधी ॥
- ओ ही फाल्गुनकृष्णा चतुर्दश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय अर्घ ॥१२॥
शुदि माघ चौथ हितकारी, श्री विमल सुदीक्षा धारी ।
निज परिणति मे लय पाई, हम पूजत ध्यान लगाई ॥
- ओ ही माघशुक्लाचतुर्थ्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१३॥
द्वादशि वदि जेठ सुहानी, वन आए जिन त्रय ज्ञानी ।
धर सामायिक तप साधा, हम पूजै अनत हर बाधा ॥
- ओं ही ज्येष्ठ कृष्णाद्वादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीअनंतनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१४॥
तेरस सुदि माघ महीना, श्री धर्मनाथ तप लीना ।
वन मे प्रभु ध्यान लगाया, हम पूजत मुनिपद ध्याया ॥
- ओं ही माघशुक्लात्रयोदश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१५॥
चौदस शुभ जेठ वदी मे, श्री शाति पधारे वन में ।
तह परिग्रह तज तप लीना, पूजै आतमरस भीना ॥
- ओ ही ज्येष्ठ कृष्णाचतुर्दश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१६॥
करि दूर परिग्रह सारी, वैसाख शुदी पड़िवारी ।
श्री कुन्थु स्वात्मरस जाना, पूजन से हो कल्याणा ॥
- ओं ही वैसाखशुक्लाप्रतिपदायां तपकल्याणकप्राप्त श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१७॥

अगहन शुदि दशमी गाई, अरनाथ छोड़ गृह जाई ।

तप कीना होय दिगबर, पूजे हम शुभ भावो कर ॥

ओं ही अगहनशुक्लादशम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीअरनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१८॥

अगहन सुदि ग्यारस कीना, सिर केशलोच हित चीन्हा ।

श्रीमल्लि यती व्रतधारी, पूजे नित साम्य प्रचारी ॥

ओं ही अगहनशुक्लाएकादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१९॥

वैसाख वदि दशमी को, मुनिसुव्रत धारा व्रत को ।

समतारस मे लौ लाए, हम पूजत ही सुख पाए ॥

ओं ही वैसाखकृष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय अर्घ ॥२०॥

दशमी आषाढ वदी की, नमिनाथ हुए एकाकी ।

वन मे निज आतम ध्याये, हम पूजत ही सुख पाये ॥

ओं ही आषाढकृष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥२१॥

छठि श्रावण शुक्ला आई, श्री नेमिनाथ वन जाई ।

करुणा घर पशु छुड़ाए, धारा तप पूजें ध्याये ॥

ओं ही श्रावणशुक्लाषष्ठ्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥२२॥

लखि पौष इकादशि श्यामा, श्री पार्श्वनाथ गुणधामा ।

तप ले वन आसन आना, हम पूजत शिवपद पाना ॥

ओं ही पौषकृष्णाएकादश्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीपार्श्वजिनेन्द्राय अर्घ ॥२३॥

अगहन वदि दशमी गाई, बारह भावन शुभ भाई ।

श्री वर्द्धमान तप धारा, हम पूजत हो भव पारा ॥

ओं ही अगहनकृष्णादशम्यां तपकल्याणकप्राप्त श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अर्घ ॥२४॥

जयमाल (भुजंगप्रयात)

नमस्ते नमस्ते नमस्ते मुनिन्दा । निवारें भली भौंति से कर्म फन्दा ॥

संवारे सुद्वादश तपं वन मझारी । सदा हम नमत है तिन्हें मन सम्हारी ॥१॥

त्रयोदश प्रकारं सु चारित्र धारा । अहिंसा महा सत्य अस्तेय प्यारा ॥

परम ब्रह्मचर्य परिग्रह तजाया । सु धारा महा संयमं मन लगाया ॥२॥

दया धार भू को निरखकर चलत हैं । सुभाषा महाशुद्ध मीठी वदत हैं ।

करैं शुद्ध भोजन सभी दोष टालें । दया को धरे वस्तु लें मल निकालें ॥३॥

वचन काय मन गुप्ति को नित्य धारे । धरम ध्यान से आत्म अपना विचारें ।

घरें साम्य भाव रहें लीन निज में । सुचारित्र निश्चय धरे शुद्ध मन में ॥४॥

ऋषभ आदि श्री वीर चौबिस जिनेशा । बड़े वीर क्षत्री गुणी ज्ञान ईशा ।

खड्ग ध्यान आतम कुबल मोह नाशा । जजें हम यतन से स्व आतम प्रकाशा ॥५॥

दोहा - धन्य साधु सम गुण धरें, सहें परीषह धीर ।

पूजत मंगल हो महा, टलें जगतजन पीर ॥


ओं ह्रीं तपकल्याणकप्राप्तवृषभादिवीरान्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्योमहार्घं निर्वपामीति
स्वाहा ।

पश्चात् पूर्णार्घं चढाकर शांतिभक्ति, शांति पाठ पढ़ कर विसर्जन करें ।

ततः समा विसर्जनं वादित्राद्युपरकरविसर्जनं च कृत्वा एकाकी आचार्यो वा इन्द्रश्च
प्रतिमां वेदिकायां नयेत्

सभा विरार्जन कर आचार्य या इन्द्र गुप्त रीति से प्रतिमा को वेदिका पर विराजमान
करें ।

(नौ बार णमोकार मंत्र पढ़े)



ज्ञान कल्याणक

मंत्र	-	(१) मातृका मंत्र
		(२) वर्धमान मंत्र
		(३) बोधि समाधि मंत्र
		(४) तिलकदान मंत्र
		(५) सिद्धचक्र मंत्र
		(६) नयनोन्मीलन मंत्र
		(७) सूर्यकला मंत्र
		(८) चन्द्रकला मंत्र
		(९) प्राण प्रतिष्ठा मंत्र
		(१०) सूरि मंत्र
		(११) मोक्षमार्ग मंत्र
मण्डल	-	चौवीस तीर्थकर मण्डल,
यंत्र	-	(१) मातृका यंत्र
		(२) वर्धमान यंत्र
		(३) बोधिसमाधि यंत्र
		(४) सिद्ध चक्र यंत्र
		(५) नयनोन्मीलन यंत्र
		(६) श्रुतस्कंध यंत्र
		(७) सर्व सम्पत्तिकर यंत्र
		(८) मोक्ष मार्ग यंत्र
भक्तियां	-	(१) सिद्ध भक्ति
		(२) श्रुत भक्ति
		(३) तीर्थकर भक्ति
		(४) चारित्र्य भक्ति
		(५) योगि भक्ति
		(६) शान्ति भक्ति
अन्य	-	(१) चोकोर शिला

ज्ञान कल्याणक

ज्ञान कल्याणक के दिन प्रातः काल यज्ञ वेदिका पर प्रतिष्ठा पात्रो द्वारा अभिषेक शातिधारा, नित्यमह एव तपकल्याणक पूजा शातिहवन पुण्याहवाचन, शातिपाठ, विसर्जन करे।

यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा में आहारगृह की पूर्ण तैयारी करे ऊपर चन्दोवा लगा हो। आहार देखने वालों को बैठने की व्यवस्था हो एव आहार देने वाले दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा सोम व श्रेयास की व्यवस्था बोली द्वारा नहीं करे। वह आहार दान के उपलक्ष्य में जो दान दे वह ग्रहण करे। अन्य दातार भी आहार देने के लिए शक्ति अनुसार राशि अवश्य दे। तीर्थकर को आहार देने की महानता सबको नहीं मिलती महान पुण्योदय से यह अवसर मिलता है। आहार वाली स्टेज ऊंची हो कि देखने वाले शाति के साथ आहार क्रिया देख सकें। सिद्ध भक्ति पाठ पढ़कर नौ बार णमोकार मंत्र पढ़े पश्चात् विधिनायक प्रतिमा जो मुनिराज के रूप में है। सिर पर रखकर ईर्यासमिति से धीरे धीरे चले। आहार को जाते समय या आहार लेते समय जयकारा न लगावे। शाति के साथ शुद्ध वस्त्र पहन कर एव समय पालन योग्य प्रतिज्ञा लेकर आहार दान दे। राजा सोम व श्रेयास पत्नी सहित पड़गाहन क्रिया करे। उच्चासन पर विराजमान कर नवधा भक्ति पूर्वक पूजा करे।

आहार क्रिया

पूजा (आहार समय)

गीता- श्री ऋषभदेवसु आदि जिन युग आदि के तीर्थेश है
वन्दहु चरण वारिज जिन्हो के जपत तिनहि सुरेश है
यह साधुव्रत लेकर तपस्या ध्यान घर मौनी भये
लघु शक्ति मुनि के हेतु विधि आहार आचरते भये।

दोहा - धन्य धन्य ऋषभेश मुनि धन्य धन्य तप साज।
गृह पवित्र तुम चरण से हुआ नाथ यह आज ॥

ओ ह्री श्रीवृषभनाथमुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर, तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, सन्निधिकरणम्
पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्।

अष्टक (चाल छन्द)

सुन्दर शुभ नीर सुल्याये, मुनि चरणन पास चढाये।

तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मगल गाये ॥

ओं ह्री श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा।

- वुंमुम चन्दन घिसलाऊ, भव का आताप नशाऊं ।
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मंगल गाये ॥
- ओं ह्री श्रीवृषभनाथमुनीन्द्राय संसारतापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।
शशि सम अक्षत सुखकारी, अक्षय गुण के करतारी ।
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मंगल गाये ॥
- ओं ह्री श्रीवृषभनाथमुनीन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।
शुचि सुन्दर पुष्प सुल्यायो, शरवाण तुरत नशायो ।
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मंगल गाये ॥
- ओं ह्री श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।
चरु ताजे मिष्ट बनाये, निजरोग क्षुधा विनशाये ।
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मंगल गाये ॥
- ओं ह्री श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
दीपक तम नाशनहारा, सत ज्ञानप्रभा विस्तारा ।
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मंगल गाये ।
- ओं ह्री वृषभनाथमुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
दश गंध सु धूप खिवाऊ, निज आठों कर्म जलाऊं ।
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मंगल गाये ॥
- ओं ह्री श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
फल सुंदर सुखद अनूपा, पाऊं शिवथल निज रूपा ।
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मंगल गाये ॥
- ओं ह्री श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
वसु द्रव्य मिलाकर लाऊं, कर अर्घ परम सुखपाऊं ।
तपसी वृषभेश सुहाये, हम पूजत मंगल गाये ॥
- ओं ह्री श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय अनर्घपदप्राप्तये अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाल (सृग्विणी छंद)

- जय मुदा रूप तेरे सदा दोषना ज्ञान श्रद्धान पूरित धरें शोकना ॥
राज्य को त्याग वैराग्य धारी भये मुक्ति का राज्य लेने परम मुनि भये ॥१॥
आत्म को जानके, पाप को भानके तत्त्व को पायके ध्यान उर आन के ।
क्रोध को हान के मान को हान के लोभ को जीत के मोह को भान के ॥२॥

धर्म मय होय के साधते मोक्ष को बाधते मोक्ष को जीतते द्वेष को ॥
शातता धारते साम्यता पालते आप पूजन किए सर्व अघ बालते ॥३॥

धन्य है आज हम दान सम्यक् करे पात्र उत्तम महापाप के दुख हरे ॥

पुण्य सपत्ति भरे काज हमरे सरे आप सम होयके जन्म सागर तरे ॥४॥

ओ ह्री श्री वृषभनाथमुनीन्द्राय जयमालार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पश्चात् आहार मुद्रा अजुली बनाकर प्रतिष्ठाचार्य इक्षु रस लेकर थाली में छोड़ते जाये, प्रतिमा पर कोई क्रिया न करे । प्रतिमा के सामने विधि करे । आहार के बाद प्रतिमा शिर पर रखकर पुन वन स्थान में विराजमान करे । मध्याह्न में ज्ञानकल्याण की क्रिया करे । वन में ध्यानस्थ मुद्रा से निर्विकल्प अवस्था को प्राप्तकर घातिया कर्मों के अभाव करने का मार्ग चल रहा है, ऐसा ज्ञान दर्शको को कराया जावे ।

मगलाष्टक, दिग्बंधन, पात्रशुद्धि, रक्षा मंत्र, शांति मंत्र, पूजा प्रस्तावना, विनायक यत्र, नवदेव अर्घ चढाकर पत्रकल्याणक स्त्रोत एव भक्तिया पढ़ने के पश्चात् कार्य आरम्भ करें । निम्न मंत्रों की जाप करे । इन मंत्रों की समस्त इन्द्र इन्द्राणी णमोकार मंत्र की जाप करे ।

मातृका मंत्र

ओं नमोऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः । क ख ग घ
ङ् । च छ ज झ ञ । ट ठ ड ढ ण । त थ द ध न । प फ ब भ म । य र ल व ।
श ष स ह । क्ली ह्री क्रीं स्वाहा (१०८ बार जाप करना)

वर्धमान यंत्र

ओं णमो भयवदो वड्ढमाणस्स रिसहरस्स जस्स चक्कंजलंतं गच्छई, आयासं पायालं
लोयाणं भूयालं जयेवा विवादेवा रणाण्णेवा थंभणेवा मोहणेवा सब्बजीव सत्ताणं अपराजिदो
भवदु मे रक्ख रक्ख स्वाहा (१०८ बार जाप करना)

वन स्थापन (१)

शाखाच्छ्रयेन योऽसौ हरति खलु सता कर्म धर्माशु ताप
य सौख्योदारसार फलति शुभफल मोक्षनाकादिभेदम् ।

सेवते य तदर्थं विबुधजनखगा यस्य चैव प्रभाव

सगाज्जातो हि तस्य त्रिभुवनमहित सोऽस्तु बोधित्वमोऽय ॥

वन स्थापनार्थं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

(१) श्री. वे. दे, प्र. ति पृष्ठ ५७३

मातृका यत्र का अभिषेक करके बाजौटा पर चौकोर शिला रखे और उसके ऊपर मातृका यत्र की स्थापना कर विधिनायक प्रतिमा को यागमडल की वेदी पर विराजमान करे ।

बिम्ब स्थापन मंत्र

ओं णमो सिद्धाणं भगवान् स्वयंभू रत्न सुनिविष्टो भवत्विति स्वाहा ।

विधिनायक एव प्रतिष्ठेय प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करे । उनको ध्यानमग्न मुद्रा की कल्पना करे ।

ध्यानस्थमुद्रा एवं स्तवन (मोतियादाम)^(१)

नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु मुनीश, परम तप के करतार मुनीश ।

न मोह न मान न क्रोध न लोभ, न हास्य न खेद न द्रोह न क्षोभ ॥१॥

ममत्त्व न राग पदास्थ सर्व, चिदात्म वेदत छोड़त गर्व ।

सुभेद विज्ञान जग्यो जग बीच, सु आत्म अनुभव लावतखीच ॥२॥

स्वतत्त्व रमन्त करत निज काज, कषाय रिपू दलने को आज ।

लियो सतध्यान मई असिधार, नमू जिनको तुम कर्म निवार ॥३॥

बाह्याभ्यतरभेदतो द्विविधता तत्रापि षट्भेदक

बाह्यावान्तरमेधितस्वविभवप्रत्यूहनिर्णाशनात् ।

भक्ष्याभावतदूनताव्रतपरीसख्यानषट्स्वादना-

मोहैकान्तशयासनागकदनान्येव तु बाह्य तप ॥

ओ ह्री अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्यागैकान्त शय्यासनकायक्लेशषट् प्रकार बाह्यतपोधारक जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

अन्त्ये दोषविसगतो न भवति प्रायश्चित्ताना क्रमो

नो वा यत्र विनेयता व्युपरमादौपाधिकस्योद्भवः ।

नान्यत्र स्थितिमत्सु साधुषु तथा वैयावृत्ते प्रक्रमो

नो वा शास्त्रसुशीलन त्विति पर पार्येण बोध्य जिने ॥

व्युत्सर्ग प्रतिवारार प्रसरतो ध्यान स्वमाध्यायत

आख्यामात्रमुपाचरत्प्रतिकृत्तेर्मार्गप्रलभावनात् ।

गाढोत्कृष्टसुसहनस्य जिनपरस्यास्येति संरूढितः

क्लृप्त तच्छुचिनामतत्फलगाणै सपूजयाम्यादरात् । (२३)

ओं ह्री प्रायश्चित्त विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान षट् प्रकारांतरंगतपोनिष्ठाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

विधिनायक प्रतिमा के सामने थाली में बोधिसमाधि यत्र स्थापित कर अभिषेक करे ।

(१) ब. शी. प्र., प्र. सा स पृष्ठ १३४ (१) आ ज से, प्र. पा. श्लोक ८४४

(२-३) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ८४५-४६

बोधिसमाधि मंत्र

ओं हां ही हूं हौं ह्रः अ सि आ उ सा श्री ह्रं ममेष्टं शुभं कुरु कुरु अ आ इ ई उ
ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः । क ख ग घ ङ । च छ ज झ ञ । ट ठ
ड ढ ण । त थ द ध न । प फ ब भ म । य र ल व । श ष स ह क्ष पं वं क्षिं स्वाहा ।
(१०८ बार जाप करे)

गुणस्थान आरोहरण^(१)

धर्मध्यानप्रभावेन तेषु स्थानेषु वा क्वाचित्, मिथ्यात्वप्रकृतीरन्नेधा चतस्रो दुःकषायजा ।
देवायुर्नारकायुश्च पश्वायु पापकारण, दशैता प्रकृतीर्हत्वा पूर्वमेव मुनीश्वर ॥
ओं ही अप्रमत्तगुणस्थानारूढधःकरण - प्रवृत्तिमिथ्यात्वादिदशकर्मसत्तारहिताय
जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अष्टमे च गुणस्थाने क्षपकश्रेणिमाश्रित, अपूर्वकरणो भूत्वा स्थित्वा च नवमे सुधी. ।
शुक्लध्यानस्य पूर्वेण पादेन परमार्थवित्, नाम्ना पृथक्त्ववीतर्कवीचारेण विचारवान् ॥
ओं ही अपूर्वकरणगुणस्थानारूढय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

समातपचतुर्जातित्रिनिद्राश्वभ्रयुग्मक, स्थावरत्व च सूक्ष्मत्व पशुद्वयुद्योतक तथा ।
अनिवृत्तगुणस्थानपूर्वभागे च षोडश, क्षय नीत्वाद्वितीये च कषायाष्टकमुच्चकै ॥
क्लैव्य परे तत स्त्रैण चतुर्थे भागके तत, परे हास्यादिषट्क च षष्ठे पुवेदक तथा ।
क्रोधमान च माया च त्रिभागेषु पृथक्पृथक्, षट्त्रिंशत्प्रकृतीर्हत्वा नवमे चैवमादिकम् ॥
ओं ही अनिवृत्तिकरणगुणस्थानारूढषट्त्रिंशत्प्रकृतिविदारणाय श्री जिनाय अर्घं ।

सूक्ष्मसांपरायकेऽपि सूक्ष्मलोभ निहत्य च ।

क्षीणमोहगुणस्थाने द्वितीयशुक्लमाश्रित ॥

ओं ही सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानारूढलोभप्रकृतिविदारणाय श्रीजिनाय अर्घं ।

निद्रा सप्रचला हित्वा चोपान्त्यसमये सुधी ।

अतिमे समये तत्र चतस्रो दृष्टिघातिका ॥

पञ्चधा ज्ञानहा पञ्चप्रकृती पञ्चविघ्नका ।

इत्येवं प्रकृती प्रोक्तास्त्रिषष्टि घातिकर्मणाम् ॥

ओं हीं क्षीणकषाय गुणस्थानारूढैकत्ववितर्कवीचारशुक्लध्यानधारकाय
श्रीजिनाय अर्घं ।

यस्याश्रयेण सकलाघतृणौघदाहशक्तित्वमाप चरित चरित जनेन ।

तच्चारूपंचतयरूपमपास्य चारमत्य यथाख्यमगमत्परि पूर्णताग ॥^(२)

ओं ही यथाख्यातचारित्रधारक जिनाय अर्घं ।

(१) श्री विद्यानन्दि, सुदर्शन चरित्र ११/१९८/४७-५७

(२) आ ज से, प्र पा श्लोक ८४७

तिलक दान विधि

आचार्य इन्द्रानी द्वारा तिलकदान की सामग्री बनाने हेतु व्यवस्था करावें। सिल, लोड़ी, दीपक, तिलक सामग्री को मंत्रों द्वारा स्थापित करें।

शिला स्थापन (१)

वितानमाल्यांबरपूर्णकुम्भरगावलीचारुचतुष्कमध्ये ॥

संस्थापयाम्यत्र शिलां विशालां जिनप्रतिष्ठा तिलकार्थपिष्ट्यै ॥

ओं ह्रीं ह्रं क्ष्मं ठः ठः शिला स्थापनं करोमि ।

शिलाशुद्धि दीपक स्थापन विधि (२)

कोणोज्ज्वलदीपचतुष्कदीप्रा चतुष्कमध्यस्थशिलां विशालां ।

जाबूनदोच्चै कलशप्रपूर्णे प्रक्षालयाम्युत्तमतीर्थवारिभिः ॥

शिलाशुद्धिं दीपकस्थापनं च करोमि ।

तिलक द्रव्य (३)

पिगाप्रियंगुफलदध्यमृतप्रदूर्वा सिद्धार्थका हिममहागुरुरत्नसित्तं ।

तीर्थाम्बुकानकघटोद्घृतदुग्धधारा संपन्नमाशु विदधीत निजाभिषिक्त्यै ॥

स्नात्वा कुसुभवसनाघृतहेमभूषा सन्मौक्तिकोद्घृतचतुष्कविराजभाना ।

मंत्रं ह्यनादिनिघनं परिजप्यशुद्धा यष्टीसुचन्दनरसं परिषेचयेत् ॥

भर्त्र चलाक्तवसनायुगकोणभासि दीपावलीद्युति विशालशिलोपरिष्ठात् ।

संघृष्य चन्दनमनर्थसमूहनष्ट्यै भाले विधातु सवितुः कृतमण्डितस्य ॥

ओं ह्रीं णमो अरिहंताणं इत्यादि पठित्वा याजक पत्नी वादित्रनाद पुरस्सरं जय जय

शब्दाकुलं सुमंगलगानरम्य प्रकाशं तिलकं आचार्य मूर्ध्नि कुर्यात् । तत्र आचार्योऽपि

चारित्रमर्क्तिं पाठित्वा सुलग्ने सेवक स्वरोदये विशुद्धमना परिहृत सकल संकल्पामुख

जिनबिंबनाभौ ह्रं बीजं स्थापयेत् ।

तेजोस्त्रिमूर्तीश्वरदेशकानु, जनिप्रिया स्नातकबीजपूर्व ।

सस्यादिकः सार्हतनाम नाममन्त्रेण बिम्बे तिलकं न्यसामि ॥^(७)

ओं ह्रीं श्रीं ह्रं अ सि आ उ सा ऽर्हतां वृषमनाथस्य नामौ तिलकं न्यसामि ।

ओं ह्रीं श्रीं अर्ह अ सि आ उ सा अप्रतिहतशक्तिर्भवतु ह्रीं स्वाहा ।

तिलक दान मंत्र १०८ बार जपना ।

इति मंत्र अष्टोत्तर शतं लवंगकैर्जप्त्वा पुनरप्येकवारमिममेव मंत्र मुच्चरन

स्वर्णशलाकया 'ह्रं' इति बीजं स्थापयेत् इदमेव तिलकदानं प्रकृतो बोध्यं । (५)

(१) श्री ने. दे., प्र. ति. पृष्ठ ५५९ (२) श्री ने. दे., प्र. ति. पृष्ठ ५५९ (३) आ. ज. से., प्र. पा. श्लोक ८४९ से ८५१ (४) श्री. ने. दे., प्र. ति. पृष्ठ ५६२ (५) श्री. शि. र. प्र. चं.

आचार्य तिलक मंत्र का स्मरण करता हुआ सब प्रतिमाओ की नाभि मे "ह्रं" ऐसा बीजाक्षर लिखे । यह तिलकदान प्रतिष्ठा का मुख्य कार्य है । केशर द्वारा प्रत्येक प्रतिमा मे यह क्रिया करना चाहिए ।

मंत्रन्यास विधि (१)

आवाहनादिक कृत्वा सम्यगेव समाहित ।

स्थिरात्माष्टप्रदेशाना स्थाने बीजाक्षर न्यसेत् ॥१॥

ओं ह्रां ललाटे, ओ ह्री वामकर्णे, ओं ह्रूं दक्षिणकर्णे, ओ ह्रौ शिरः पश्चिमे, ओं ह्रः मस्तकोपरि, ओं क्ष्मां नेत्रयोः, ओं क्ष्मी मुखे, ओं क्ष्मूं कण्ठे, ओं क्ष्मौ हृदये, ओं क्ष्मः वाह्यौ, ओं क्रौ उदरे, ओं ह्री कट्यां, ओं ब्लूं जंघयो, ओ क्षूं पादयोः, ओ क्षः हस्तयोः श्रीखण्ड कफूरिण प्रतिमांगे बीजाक्षराणि विन्यसेत् ।

अधिवासना विधि (२)

गघाक्षतस्रग्वस्त्रान्नयवाली कक्कणेषुभि

चरुधूपारार्तिकफलै विरुद्धकयवारकै ॥१॥

सवर्णपूरेक्षुबलिवर्तिभृगारकैरिभै

मन्त्राभिमन्त्रितैश्चितै सार्ध स्वस्त्ययनै क्रमात् ॥२॥

एष निष्प्रतिघो देष्यत्केवलज्ञाननिर्वृति ।

प्रतिष्ठितमहार्चाया जिनेन्द्रं अधिवासये ॥३॥

अधिवासना के लिए गघ, अक्षत, पुष्प, परदा, सप्तधान्य, जुबाली, चरु, दीप, धूप, फल, दीपक, स्वर्णकलश, पूजा सामग्री एकत्रित कर पुष्पक्षेपण करे । प्रतिमाओ को नमस्कार करे ।

नूत्न निरावृत्तिचमत्कृतिकारितेजो नोशक्यमीक्षितवतामपि भावुकाना ॥

इत्येवमर्पितनयानयनेन शम्भो रग्रे मुखाग्र महवस्त्रमुपाकरोमि । (३)

ओ श्री ह्री ह्रं श्री णमो अरिहंताणं इत्रौ नमः स्वाहा ।

(वेदिकायामतर्गृहेमुखवरस्त्रमेव कुर्यात्)

अर्थ- नवीन और निरावरण चमत्कार करने वाला प्रभु का तेज है भव्यो को देखने की शक्ति नहीं है । ऐसे भगवान के आगे परदा करता हूं ।

बिम्ब स्थापन

तत्प्रतिमां भद्रासनोपरि मातृकायंत्रे स्थापयित्वाऽष्टोत्तर शतवारं तीर्थजलधारा निपातिनेनाभिमंत्र अग्रेविधिं कुर्यात् ।

(१) आ व न, प्र पा (२) प आ ध, प्र सा अध्याय ४ श्लोक १५५ से १५६

(३) आ ज से, प्र पा श्लोक ८५५

प्रतिमा को (भद्रासन पर मातृकायत्र रख) विराजमान करना और तीर्थजल से धारा करना । प्रतिमा के सामने वर्धमान यत्र एव बोधि समाधि यंत्रों को रखकर मन्त्रों को पढ़कर धारा करके पुष्प क्षेपण करे ।

अधिवासनामंत्र (१)

प्रतिष्ठेय प्रतिमाओ पर पुष्पक्षेपण करे ।

- (१) ओ सत्यजाताय नमः (२) ओ अर्हज्जाताय नमः (३) ओ परमजाताय नमः
 (४) ओ परमार्हताय नमः (५) ओ परमरूपाय नमः (६) ओ परमतेजसे नमः
 (७) ओ परमगुणाय नमः (८) ओ परमस्थानाय नमः (९) ओ परमयोगिने नमः
 (१०) ओ परमभाग्याय नमः (११) ओ परमर्द्धये नमः (१२) ओ परमप्रसादाय नमः
 (१३) ओ परमकाक्षिताय नमः (१४) ओ परमविजयाय नमः (१५) ओ परमविज्ञानाय नमः
 (१६) ओ परमदर्शनाय नमः (१७) ओ परमवीर्याय नमः (१८) ओ परमसुखाय नमः
 (१९) ओ परमसर्वज्ञाय नमः (२०) ओ परमार्हते नमः (२१) ओ परमेष्ठिने नमो नमः
 (२२) ओ सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे त्रिलोकविजय त्रिलोकविजय, धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते स्वाहा ।
 सेवाफलं षट् परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु समाधिमरणं च भवतु ।

प्राणप्रतिष्ठाप्याधिवासना च सस्कारनेत्रोच्छ्रति सूरिमन्त्राः ।

मूल जिनत्वाऽधिगमे क्रियाऽन्याभक्तिप्रधाना सुवृत्तोद्भवाय ॥२॥

प्राणप्रतिष्ठा अधिवासना मत्र सस्कार नेत्रोन्मीलन एवं सूरि मत्र,
 सभी क्रियायें प्रत्येक प्रतिमा पर करना आवश्यक है ।

अधिवासना पूजा - विधि ३

आहूताभवनामरैरनुगता य सर्वदेवास्तथा

तस्थौ यस्त्रिजगत्सभातर-महापीठाग्र-सिंहासने ।

य हृद्य हृदि सन्निधाप्य सततं ध्यायन्ति योगीश्वराः

तं देव जिनमर्चितं वृत्ताधियामावाहनाद्यैर्भजे ॥

ओं ह्रां हीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा एहि संवौषट् । एहि तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।
 एहि मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

(१) आ. ज. से, प्र. पा. पृष्ठ १३७ (२) आ. ज. से, प्र. पा. श्लोक ३४९

(३) श्री. ने. दे., प्र. ति. पृष्ठ ५६१

अष्टक

सुगन्धशीतलै स्वच्छै साधुभिर्विमलैर्जलै ।

अनंतज्ञानदृग्वीर्यं सुखरूपं जिनं यजे ॥१॥^(१)

ओं ह्रीं नमः परमेष्ठिभ्यः जलं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

काश्मीरचन्दनरसेन विलुब्धशुम्भत्सौरभ्यमत्तमधुपावलिङ्गकृतेन ।

पीठस्थली जिनपतेरधिपादपद्मसंचर्चयामि मुनिभिः परितः पवित्रां ॥२॥^(२)

ओं ह्रीं अर्हते सर्वशरीरावस्थिताय पृथु पृथु चन्दनं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

मुक्ताफलच्छवि पराजित कामकाति प्रोद्भूतमोहतिमिरैकफलौघहेतु

शाल्यक्षतार्थपरिपूर्णपवित्रपात्रमुत्तारयामि भवतो जिनपस्य पार्श्वे ॥३॥

ओं ह्रीं अर्हते सर्वशरीरावस्थिताय पृथु पृथु अक्षतं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

सौरभ्यसान्द्रमकरदमनोऽभिरामपुष्पै सुवर्णहरिचन्दनपारिजातै ।

श्रीमोक्षमानिवनितापरिलभनाय माल्यादिभिश्चरणघोरणिमुत्सृजामि ॥४॥

ओं ह्रीं अर्हते शरीरावस्थिताय पृथु पृथु पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

षष्ठोपवासविधये नवसर्पिषाक्तनैवेद्यभाजनमिदं परिवर्त्य सप्त ।

वारं तदीयं परिहृत्यभिधा प्रसिद्धयै सस्थापयेज्जिनवराग्रिमभूतधात्र्यां ॥५॥

ओं ह्रीं अर्हते सर्वशरीरावस्थिताय पृथु पृथु नैवेद्यं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

स्फूर्जन्मयूखविततिप्रहताघकारदीपघृतादिमणिरत्नविशातशोभ ।

उद्भिन्नयुगलान्तिमभागभाजो देहद्युतिद्विगुणकोटियुता करोमि ॥६॥

ओं ह्रीं प्रज्ज्वल प्रज्ज्वल अमिततेजसे दीपं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

कर्पूरचन्दनपरागसुरम्यधूपक्षेपोऽस्तु मे सकलकर्महतिप्रधान ।

इत्येव भावमभिधाय हसतिकायामुत्क्षेपयामिकिलधूपसमूहमेन ॥७॥

ओं ह्रीं सर्वतो दह दह तेजोऽधिपतये समूहमूताय धूपं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

कर्माष्टकापहरणफलमस्ति मुख्यतत्प्राप्तिसम्मुखतयास्थितवानसि त्वं ।

यस्मादनेकगुणलारस्यकलानिधान-धाम्नस्तव स्थलमदभ्रफलैर्यजामि ॥८॥

ओं ह्रीं आश्रितजनायाभिमतफलानि ददातु ददातु स्वाहा ।

त्रैलोक्याभयदत्रिकालपतिताशेषार्थपर्यायजानतानतविकल्पनस्फुटकरससारचक्रोत्तर ।

ज्योतिर्वेद्यलनामचक्रमवतोऽध्यानावतानप्रभोर्योऽयत्तूर्यविशानक्षणमहःकोषेष जीयात्सुन ॥९॥

ओ ह्रीं नमोऽर्हतेमगवतेद्वितीयशुक्लध्यानोपान्तसमयप्राप्त्याय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

(१) श्री वे दे, प्र ति ५६५ (१) आ ज से, प्र पा पृष्ठ २७९ से २८२

यस्याश्रयेण सकलाघतृणौघदाहशक्तित्वमाप चरित चरितं जनेन ।
तच्चारु पचतयरूपमयास्यचारमन्थ यथाख्यमगमत्परिपूर्णतांगम् ॥
ओं ह्री यथाख्यातचारित्रधारकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा । (१)

यवमालारोपण (२)

मदनफललसन्त्या मालयैषा यवाना सुखफलगुणमाला मार्हती सूचयन्त्या ।
विगलदखिलदोष प्रार्चयामो जिनेन्द्र जनयतु जनताना क्षेमवृद्धि सुभिक्षम् ॥
मदनफल यवमाला च जिनपादाग्रतः स्थापयेत्

सप्तधान्यस्थापन^(३)

जिनेश्वरश्रीचरणाबुजाग्रे सप्तोद्धधान्यानि समुच्चितानि ।
अनतधर्मेष्वपि सभवन्ती अर्हन्तु दिव्यध्वनिसप्तभंगीम् ॥
ओ जिनपादाग्रतः सप्तधान्यं स्थापनं करोमि ।

मुखोद्घाटन

सर्वान् जनानपसृत्य दिगंबरत्वावगत आचार्यः "ओं नमः सिद्धेभ्यः" ॥ इति मंत्र
मुच्चारयन् भृंगारधारां विष्वग्निपात्य डामरादिक्षुद्रोपद्रवशान्त्यै सिद्धचक्र यंत्राम्यर्णं
सन्निधाय प्रथमतः स्वस्त्ययनं पठेत् (प्रतिष्ठाचार्य को यहां वस्त्र उतारने को कहा
है किंतु कब वस्त्र पहिने यह नहीं लिखा)

सिद्धचक्रमंत्राराधन (वृहत्)

(१) ओं अ सि आ उ सा ह हा हि ह्री हु हू हे है हो हौ हं हः णमो अरिहंताणं
णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं ।
सम्यग्दर्शनाय नमः सम्यक्ज्ञानाय नमः सम्यक्चारित्राय नमः सम्यक्त्तपसे नमः ठः
ठः ओं ह्री अनाहतविद्यायै अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण तथ द ध न प फ ब भ म य र ल
व श ष स ह क्षः ठः ठः नमः स्वाहा ।

(२) आं ह्री अर्ह अनाहत विद्यायै णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं
णमो उवज्झायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यः सम्यक्त्तपसे
नमः स्वाहा ।

(१) आ ज. से., प्र पा श्लोक ८४७ (२) श्री ने दे., प्र. ति. पृष्ठ ५६३ (३) वही, पृष्ठ ५६४

(३) ओं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रः श्री सिद्धचक्राधिपतये अष्टगुणसमृद्धाय फट् स्वाहा ।

इन तीनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र को १०८ बार जपना चाहिये ।

स्वस्त्ययन १

स्वस्ति श्री वृषभो देवोऽजित स्वस्त्यस्तु सभवा ।

अभिनन्दननामा च स्वस्ति श्री सुमति प्रभु ॥

पद्मपत्र स्वस्ति देव सुपार्श्व स्वस्ति जायता ।

चन्द्रप्रभ स्वस्तिनोऽस्तु पुष्पदतश्च शीतल ॥

श्रेयान् स्वस्ति वासुपूज्यो विमल स्वस्त्यनतजित् ।

धर्मो जिन सदा स्वस्ति शान्ति कुशुश्च स्वस्त्यर ॥

मल्लिनाथ स्वस्ति मुनिसुव्रत स्वस्ति वै नमि ।

नेमिर्जिन स्वस्ति पार्श्वो वीर स्वस्ति च जायता ॥

भूतभाविजिना सर्वे स्वस्ति श्री सिद्धनायका ।

आचार्य स्वस्त्युपाध्याय साधव स्वस्ति सतु न ॥

पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्

सर्वोपद्रव शांति के लिए सिद्धचक्रयत्र कोथाली में स्थापना कर "ओनमः सिद्धेभ्यः" मंत्र द्वारा १०८ बार धारा करे ।

अथाख्यात प्रान्तोदय धरंणिघृन्मूर्धनि

प्रकाशोल्लासाभ्या युगपदुपयुजस्त्रिभुवन

दधज्ज्योति स्वाय भवमपगता वृत्यपपथो

मुखोद्धाट लक्ष्म्या व्रजतु यवनीं दूरमुदयेत् ।^(२)

ओं अट्ठविह कम्ममुक्को तिलोय पुजोय सथुवोभयव ।

अमरण रणाह महिओ अणाहिणिहणो सिवदिसओ ॥ ^(३)

ओं उसहादि वड्ढमाणं पंचमहा कल्लाण संपण्णाणं महइ महावीर वड्ढमाणसामीणं सिज्जउ मे महइ महाविज्जा अट्ठमहापाडिहेर सहियाणं सयल कलाधराणं सज्जोजादरूवाणं चउतीसातिसय विसेस संजुत्ताणं वतीस देवेद मणिमत्थय महियाणं सयललोयस्स संति पुट्ठिकल्लाणाउ आरोग्ग करणं वलदेव वासुदेव चवकहर रिसि मुणि जदि अणगारेव गूढाणं उहयलोय सुहफल यराणं थुइसय सहस्सणिलयाणं परापर परमप्पाणं अणाहि णिहणाणं वलि वाहुवलि सदाणं वीरे वीरे ओ हां कां सेणवीरे

(१) आ. ज. से., प्र पा पृष्ठ २८२ (२) वही, पृष्ठ २८३ श्लोक ८६६

(३) प आ ध, प्र सा ४/१०९

वङ्गमाणवीरे णह संजयं तवराईए वज्जसिल थंमयाणं सरस्सदवंमपइट्ठियाणं
उसह्णइ वीर मंगल महापुरिसाणं णिच्चकालपइट्ठियाणं इत्य संणिहिया मे भवंतु मे
भवंतु ठः ठः क्षं क्षं स्वाहा^(१) ।

इति मंत्रेण मुखादग्रे वस्त्रयवनिकां दूरमुत्सारयेत्
परदा अलग कर दे ।

ओं सत्तक्खर गव्भाणं अरिहंताणं णमोत्थिभावेण
जो कुण्णइ अणण्णमणो सो गच्छइ उत्तमं ठाणं^(२)

इति पादाग्रस्थापितयववलयपसरणं कुर्यात् (यवमालादि अलग कर दें)

नयनोन्मीलन

विधिनायक प्रतिमा के सामने नयनोन्मीलन यंत्र की स्थापना कर नयनोन्मीलन
मंत्र से धारा करें ।

तटंनतरमेवरुक्मपात्रस्थित कर्पूरयुक्तस्वर्णशलाकां दक्षिणपाणौ विधृत्य सोऽहंस इति
ध्यायन्नाचार्यो नयनोन्मीलनयंत्रे प्रदर्श्य श्लोकमिमं पठेत् -

येनाबद्धनिरुद्धकर्मविकृतिप्रालंबिका निर्घृणं ।

छिन्नात्मानमजं स्वयंभुवमपूर्वीयं स्वयं प्राप्तवान् ।

सो ऽ यं मोक्षरमाकटाक्षसरणिप्रेमास्पदः श्रीजिनः ।

साक्षादत्र निरूपतः स खलु मां पायादपायात्सदा ॥^(३)

ओं णमो अरिहंताणं णाण दंसण चक्खुमयाणं अमियरसायणं विमल तेयाणं संति
तुट्ठि पुट्ठि वरद सम्मादिट्ठीणं वं झं अमिय वरसीणं स्वाहा ।
(१०८ बार जाप करना) (इति स्वर्णशलाकया नेत्रोन्मीलनं कुर्यात् ।)

चांदी के पात्र में कपूर, केशर, चंदन घिसकर रख लें और स्वर्ण सलाई से दाहिने
हाथ द्वारा रेचक स्वर में "सोऽहंस" ऐसा ध्यान करता हुआ समस्त प्रतिमाओं के नेत्रों
में लगावे यह नेत्रोन्मीलन क्रिया है । पश्चात् सूरिमंत्र की विधि करें ।

प्रतिष्ठा तिलक और प्रतिष्ठासारोद्धार में सूरि मंत्र विधि न लिखकर अनंतचतुष्टय
की स्थापना के लिए श्लोक एवं मंत्र लिखे हैं । सूरिमंत्र नहीं लिखा ।

जयसेन प्रतिष्ठापाठ में भी विधितो नहीं लिखी गई किंतु इतना उल्लेख किया
है नयनोन्मीलन के बाद "ततः सद्यैव सूरिमंत्रेण सर्वज्ञत्वोपलंभनं विदध्यात् ।

इसके नीचे नयनोन्मीलन वाला ही मंत्र लिखा है वचनिका में लिखा यह मंत्र पढ़ें
ता पीछे तत्काल सूरिमंत्र है उसकर सर्वज्ञपना प्राप्त करें ।

(१) आ. ज. से., प्र. पा. पृष्ठ २८३-८४ (२) आ. ज. से., प्र. पा., पृष्ठ २८५

(३) आ. ज. से., प्र. पा. पाठ श्लोक ८६७

पश्चात् केवल ज्ञानोत्पत्ति की विधि लिखी और अनन्त चतुष्टम देवकृत चौदह अतिशय और समवसरण की रचना एवं अष्टप्रातिहार्यो की स्थापना की विधि है।

सूर्यकला मंत्र

ओं ह्रीं स्म्रां स्म्रीं ओं वं झ्रौं सं श्रीं एहि एहि अस्मिन् बिम्बे सूर्य कलां स्थापय स्थापय श्रुः नमः । (१०८ बार जाप करना)

चन्द्रकला मंत्र

ओं ह्रीं श्रीं अर्हं पुनीहि पुनीहि ओं श्रीं क्लीं अस्मिन् बिम्बे चन्द्रकलां स्थापय स्थापय ह्रीं झ्रौं नमः । (१०८ बार जाप करना)

प्राणप्रतिष्ठा मंत्र

ओं आं क्रौं ह्रीं य र ल व श ष स ह अ सि आ उ सा क्षों सः हं सः आयुष्य प्राणा इह प्राणा आयुष्य जीवः इह स्थितः सर्वेन्द्रियाणां काय वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं मुख घ्राण जिह्वान् स्थापय स्थापय शब्द स्पर्श वर्ण रस गंधान् अस्य आत्मघटं वायुं च पूरय - पूरय संवैषट् तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः चिरकालं नन्दतु । (१०८ बार जाप करना)

सूरिमंत्र (प्रथम)

ओं ह्रीं णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्जायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं । चत्तारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केव्वळि पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केव्वलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि अरिहंते सरणं पव्वज्जामि सिद्धे सरणं पव्वज्जामि साहूसरणं पव्वज्जामि केव्वलि पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि क्रौं ह्रीं स्वाहा ।

सूरिमंत्र (द्वितीय)

ओं परमब्रह्मणे नमोनमः स्वरित् स्वरित् जीव जीव नन्द नन्द वर्धस्व वर्धस्व विजयस्व विजयस्व अनुसाधि अनुसाधि पुनीहि पुनीहि पुण्याहं पुण्याहं मांगल्यं मांगल्यं वर्धयेत् वर्धयेत् एवं जिन बिम्बे आत्मघटं वायुं पूरय पूरय आगच्छ आगच्छ संवैषट् तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः चिरकालं नन्दतु वज्रमयां प्रतिमां कुरु कुरु ग्रौं ग्रौं स्वाहा स्वधा ।

इन दो मंत्रों में से एक का जाप १०८ बार करें तथा आचार्य वही मंत्र प्रतिमा को देवे। सूर्यकला मंत्र, चंद्रकला मंत्र, प्राणप्रतिष्ठा मंत्र, सूरिमंत्र सभी पं. मन्मूलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य की हस्तलिखित डायरी से उद्धरित किये हैं।

शुक्लद्वयेन परिहृत्य तपोवितान
मात्मानमाशु परिकल्प्य कृत्वावकाश- ।
ज्ञानावलोकनसमत्ययनाशमाप-
न्मोहस्य पूर्वदलनेन समस्तभावात् ॥ (१) .

ओं ह्रीं मोहनीयज्ञानदर्शनावरणान्तराय निर्णासकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

केवलज्ञानोत्पत्ति^(२)

ओ केवलणाण दिवायर किरण कलावप्प णासि अण्णाणो ।
णव केवललद् धुग्गमसुजणिय परमप्पव वएसो ॥
असहाय णाण दंसण सहिओ इदि केवलीऽजोयेण ।
जुत्तोत्ति सजोग जिणो अणाडि णिहणारिसे उत्तो ॥

इत्येषोऽर्हन् साक्षादवतीर्णो विश्वं पातु इति स्वाहा ।

अयं महानुभावः परमेश्वरो वृषभेश्वरो भवतु । इति प्रतिमाग्रे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

केवल ज्ञानोत्पत्ति क्रिया मे पाँच दीपक जलावें या कपूर की पाँच डली जलाकर प्रकट करे कि भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया । वादित्रो की ध्वनि हो ।
ओं णमो अरिहंताणं रत्नत्रय पवित्र कृत्तोन्तमाङ्गाज्योतिर्मयाय मतिश्रुतावधिमनः पर्यय केवलज्ञानाय अ सि आ उ सा नमः स्वाहा ।

पाँच दीपक से आरती एवं अर्घ (पाँच दीपक रखें)

कैवल्यसूचिशरसंख्यकवर्तिकाभि सरार्तिकं बहुलवाद्यनिनादपूर्वम् ।
श्रीमज्जिनप्रतिकृत्ते शतयज्ञयज्वा चार्या विदध्युरमलं जयघोषणाग्रं ॥^(३)

ओं ह्रीं ज्ञानकल्याणकप्राप्तजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पंचवर्तिका द्योतनं च कुर्यात् अत्रैव चतुर्विंशति तीर्थकृज्ज्ञान कल्याणक तिथीनुद्दिश्य अर्घं पाद्यानि कार्याणि ॥

केवल ज्ञान स्तुति (पद्धरी छन्द)^(४)

जय केवलज्ञानप्रकाशधरं, ज्ञानावरणीयविनाशकरं ।
जय केवलदर्शननायक हो, दर्शन आवरणी घातक हो ॥

जय वीर्य अनत प्रकाशक हो, जय अंतराय अघनाशक हो ।
तुम मोहबली क्षय कारक हो, क्षायिक समकित के धारक हो ॥

(१) आ. ज. से., प्र. पा श्लोक ८४८ (२) आ. पु. द, ध. पु. प्रथम पृष्ठ १९२- ९३ एवं आ. ज. से. प्र. पा. पृष्ठ २८७ (३) वही, श्लोक ८६८ (४) व. शी. प्र. प्र., सा. सं. पृष्ठ १४०

क्षायिक चारित्र विशालघर, आनन्द अनन्त प्रकाशकर ।
जगमाहि अपूरब सूरज हो, विकसन भविजीवन नीरज हो ॥
मिथ्यात्व महातमटालन हो, शिवमग उत्तम दरशावन हो ।
तुम तारण तरन तरण्ड वर, सुखकारण रत्नकरडवर ॥

गुणाधारोपणम्^(१)

सहजान्घातिनाशोत्थान् दिव्याश्चातिशयान् शुभान् ।
स्वर्गावतार सज्जन्म नि क्रमज्ञान निर्वृतौ ॥

कल्याणपचक चैतत्प्रातिहार्याष्टक तथा ।
सध्याया रोपयेत्तरया प्रतिमाया बहिर्भवम् ॥

अनन्तदर्शन ज्ञान सुख वीर्य तथान्तरम् ।
सम्यग्ध्यात्वाऽर्हता बिम्ब मनसाऽऽरोपयेत्तत ॥

प्रध्वसतो द्याति चतुष्टयस्य प्रजायतेऽनन्तचतुष्टय यत् ।^(२)
प्रमाणसिद्ध त्रिजगत्सुमार प्रादुर्भवत्वत्र जिने स्फुट तत् ॥

ओं अनन्तचतुष्टयस्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पं क्षिपेत् ।

जानाति नित्य युगपत्स्वतोऽन्यत् सर्वार्थसामान्यविशेषसर्वं ।
निर्बाधक स्पष्टतर यदेतदनन्त - विज्ञानमिहास्तु बिम्बे ॥१॥

ओं अनन्तज्ञानस्थापनार्थं पुष्पं क्षिपेत् ।

स्वात्मोत्थसामान्यविशेषसर्वं साक्षात्करोत्येव सम सदा यत् ।
सुनिश्चितासभवबाधक तदनतसद्दर्शनमत्र भातु ॥२॥

ओं अनन्तदर्शनस्थापनार्थं पुष्पं क्षिपेत् ।

अनन्तविज्ञानमनतदृष्टि द्रव्येषु सर्वेषु च पर्ययेषु ।
व्यापारयन्नित्यमसकरादिस्तादत्र बिम्बे तदनतवीर्यम् ॥३॥

ओं अनन्तवीर्यस्थापनार्थं पुष्पं क्षिपेत् ।

आत्मैकजातं गतबाधजात व्यपेतमान विगतोपमान ।
अचिन्त्यसार जगदेकसार बिम्बेत्रभूयात्तमनतसौख्यम् ॥४॥

ओं अनन्तसुखस्थापनार्थं पुष्पं क्षिपेत् ।

सत्तामान्त्रग्राहक दर्शनं च तद्भेदानां ग्राहक ज्ञानमुक्तं ।^(३)
ताभ्यां स्वास्थ्यं पूर्णमुक्तं सुखं तच्छक्तव्यक्तिर्वीर्यमत्रार्चयामि ॥

ओं ह्रीं नमो ऽर्हते भगवते ऽनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यविभ्राजते जिनाय अर्घं निर्वपामीति
स्वाहा ।

(१) आचार्य वसुनदी प्रतिष्ठा पाठ से (२) श्री ने दे, प्र ति पृष्ठ ५७४-५७५

(३) आचार्य ज से., प्रतिष्ठा पाठ, पृष्ठ २८६

प्रतिमा के सामने मोक्षमार्ग यत्र की स्थापना करे ।

मोक्षमार्ग मंत्र

ओं ह्री णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए
सव्वसाहूणं अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र तपेभ्यः स्वाहा (१०८
बार जपना)

नवकेवललब्धि (१)

सम्यक्त्व चरित सुबोधनदृशी वीर्य ददिर्लाभको
भोगोपादि भुजीहि यस्य नवक लब्धे सदाक्षायिक ।

सपन्न खलु केवलोद्गमनतस्त साम्प्रत ध्यायतो
विघ्नाना निवय प्रणाशन मियात्तत्सस्मृति प्रार्थनात् ॥

ओं ह्री नमोऽर्हते भगवते नवकेवललब्धिभ्योऽर्घम् स्वाहा ।

केवलज्ञानातिशय (२)

सौभिक्ष्य मुकुरोपमक्षितिरथो व्योमक्रमप्रक्रम
प्राण्याघातविनिर्गमश्च कवलाहारव्यपाय परै ।

अक्लेशोपचयश्चतुर्मुखदृशिर्विद्येश्वरत्व तनो
रच्छायत्वमकेशवृद्धिरिति वै दिक् सख्यकाः केवले ॥

ओं ह्री नमो ऽर्हते भगवते दशकेवलातिशयेभ्योऽर्घम् निर्वपामीति स्वाहा ।

चतुर्दशदेवकृतातिशय (३)

दिव्यावाग्जनसौहृद प्रतिपद सर्वान्ह गोत्रारुहा ।

भूरादर्शतलामृदुस्वसनसन्मोदौतु भू शालिनी ॥

सौरभ्याबुधरी सुवृष्टिरमला पादक्रमाधोतले ।

स्वच्छाभोरुहनिर्मिति खममल दिग्समदश्चक्रकं ॥

धर्माख्या पुरतश्च सज्जनमनो मिथ्यात्वसंस्फेदनं ।

देवाह्वानपरस्पराधिकमुदा सन्मगलाष्टाविति ॥

दिव्यातीशयसयुतो जिनपति शक्राज्ञयारैमुचा ।

क्लृप्ते श्रीसमवादिससृतिपदे सतिष्ठवास्तान्मुदे ।

ओं ह्री नमोऽर्हते भगवते चतुर्दशदेवकृतातिशयसम्पन्नाय जिनाय अर्घनिर्वपामीति स्वाहा ।

ततः समवसरणमण्डले प्रतिमां नीत्वा तत्र पूजां कुर्यात्
(समवसरण मे प्रतिमा स्थापित कर पूजा करे)

(१) आ ज से , प्र पा श्लोक ८७० (२) वही, श्लोक ८७१ (३) वही, श्लोक ८७२-७३

यज्ञवेदी पर इन्द्र के आदेशानुसार कुम्भेर द्वारा सुदर समवसरण की रचना हो। ऊपर सुदर चदोबा लगाना तीन कटनी वाली गधकुटी, तीन छत्र, सिंहासन, चमर भामण्डल, धर्मचक्र, अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल द्रव्यो से सुसज्जित हो। गधकुटी पर अर्हन्त परमात्मा (विधिनायक) को विराजमान करें। और चारो दिशाओ मे मानस्तम्भ लगावे। बारह सभा के समस्त जीव दिव्यध्वनि सुनते हुए दिखलाये जावे। तीन छत्र इस प्रकार हो - नीचे बड़ा, बीच में उससे छोटा तथा ऊपर उससे छोटा।

समवसरण रचना

केवल ज्ञान प्राप्त होते ही सौधर्म इन्द्र की आज्ञा से कुम्भेर समवसरण की रचना करता है। आदिनाथ तीर्थकर का समवसरण १२ योजन विस्तार का था जो क्रमश आधा आधा योजन कम होते होते महावीर तीर्थकर तक एक योजन विस्तार का रहा। सक्षिप्त रचना वर्णन निम्न है -

पहली चैत्य प्रासाद भूमि :- जिसमे एक-एक जिनभवन के बीच मे पाच पाच प्रासाद बने होते है जिनकी ऊचाई तीर्थकर की ऊचाई से १२ गुनी होती है।

दूसरी खातिका भूमि :- स्वच्छ जल से भरी जिसमे विभिन्न प्रकार के सुगंधित कुमुद कमल आदि के फूल खिले रहते है तथा हंस आदि पक्षी क्रीडा करते है।

तीसरी लता भूमि :- यह सुन्दर सुन्दर लताओ से सजी रहती है जिसमे कई रंगो के पुष्प सुगन्धी बिखेरते है।

चौथी उपवन भूमि :- इसमे क्रमश पूर्वादिकदिशाओमे अशोकवन, सदापर्णवन, चम्पक वन एवं आम्रवन होते है चारो दिशाओ मे चार चैत्यवृक्ष जिन प्रतिमा सहित शोभायमान होते है।

पांचवी ध्वजा भूमि :- इसमे दस प्रकार के चिन्हो वाली दिव्य ध्वजाये होती है। जिनका ध्वजदण्ड स्वर्णमय रत्नो से जडा होता है।

छठवी कल्पवृक्ष भूमि :- इसमे दस प्रकार के कल्पवृक्ष होते है जिनके बीच - बीच मे रमणीक बावड़ी, प्रासाद, क्रीडा शालाये, तथा चारो दिशाओ मे चार सिद्धार्थ वृक्ष होते है। जिन पर सिद्ध प्रतिमा शोभायमान रहती है।

सातवी भवन भूमि :- इसमे रत्नो से जडित ध्वजापताका एव उन्नतद्वार तथा तोरण युक्त भवन होते है, जिनमें दिव्य रत्नमई सिद्ध भगवान की प्रतिमाये होती है।

आठवी श्रीमण्डप भूमि :- इसमे गधकुटी होती है। जिसकी तीसरी कटनी पर कमल से ४ अगुल ऊपर केवली तीर्थकर पद्मासन मुद्रा मे विराजमान रहते है। यहाँ बारह सभाये होती है वहा सब प्राणी भगवान के दिव्य उपदेश को श्रवण करते है।

- पहली सभा - इसमे गणधर एवं मुनिराज विराजते है ।
दूसरी सभा - इसमे कल्पवासी देवियां विराजती है ।
तीसरी सभा - इसमे आर्यिकाये एव श्राविकाये विराजती हैं ।
चौथी सभा - ज्योतिष देविया विराजमान होती हैं ।
पांचवी सभा - इसमे व्यन्तर देविया विराजमान होती है ।
छठवी सभा - भवन वासी देविया विराजमान होती है ।
सातवी सभा - भवन वासी देव विराजमान होते है ।
आठवी सभा - व्यतर देव विराजमान होते हैं ।
नवमी सभा - ज्योतिषी देव विराजमान होते हैं ।
दसवी सभा - कल्पवासी देव विराजमान होते है ।
ग्यारहवी सभा - चक्रवर्ती एव मनुष्य विराजमान होते हैं ।
बारहवी सभा - तिर्यचप्राणी विराजमान होते है ।







मानस्तंभसर. सुपुष्पविपन सत्खातिका चाभितः
प्राकारादिसुनाट्यभूमिविपने नाकालयक्षमारुहाः ।
स्तूपाहर्म्यततिर्ध्वजावतिसभेसद्गघवेदिक्रमो
ऽशोकोर्वीरुहसिहपादनभसि स्थायी जिन. पातु. नः ॥^(१)

ओं ह्री नमोऽर्हते भगवते सकल समवसरण विभूति संपन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

अष्ट प्रातिहार्य (२)

- वनस्पतित्वेऽपि गतप्रशोको ऽशोकोबभूवातिमद प्रसून. ।
अनेकसदर्शकशोकहारी वृक्षो जिनेन्द्राश्रयणप्रभावात् ॥
ओ ह्री अशोकवृक्ष प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
श्रेयस्तरु फलति नो ऽमरसौरव्यमुच्चैर्हर्षोत्सुकत्वपरिलभनसन्मिषेण ।
देवै कृता सुमनसा परिवृष्टिरेषा मोदं ददातु भवदुःखजुषां जनानां ॥
ओं ह्री देवकृत्पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
त्रैलोक्यवस्तु हृदयस्मरणावबोधो येन स्वयं श्रवणगोचरतां गतेन ।
संजायते मुखरदौष्टविघातशून्यो भूयाद् ध्वनिर्भवगदप्रसरार्ति हर्ता ॥
ओं ह्री दिव्यध्वनिप्रातिहार्यसंपन्नाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

(१) आ. ज. से., प्र. पा श्लोक ८७४ (२) आ. ज. से., प्र. पा श्लोक ८७५ से ८८४



यक्षेशपाणिलतिकांकुरसगतानि तुर्याधिषष्टिगणनान्यपि देवनद्याः ।
वीचिप्रमाणभवतोद्विकपार्श्वयोस्ते सच्चामराण्यघचयमम निर्दलन्तु ॥

ओं ह्री चतुःषष्टिचामरप्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सिंहासने छविरिय जिनदेवताया. केषा मनोवधृतपाप्महरी न वा स्यात् ।
स्याद्वादसंस्कृतपदार्थगुणप्रकाशो ऽस्या मेस्तु निर्हतमदाविलजातशक्ते ॥

ओं ह्री सिंहासनप्रातिहार्यसंपन्नाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

भामण्डलेऽवयवपृष्टिविभागरश्मिक्लृप्ते जनस्य भवसप्तकदर्शनेन ।
श्रद्धानमाप्तगुरुधर्मपरंपराणां गाढभवेत्तदितदेवपतिर्नमस्यः ॥

ओं ह्री भामण्डलप्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

देवस्य मोहविजय परिशंसितु द्राक् देवा. स्वहस्ततलत परिवादयन्ति ।
वाद्यानि मंगलनिवासकराणि सद्यो मिथ्यात्वमोहजयिनः शुभगानि च स्युः ॥

ओं ह्रीं दुंदुभिप्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

छत्रत्रय जिनपमूर्धनि भासमान त्रैलोक्यराजपतितामभिदर्शयद् वा ।
सोमार्कवह्निप्रतिम सितपीतरक्तरत्नादिरजितमिदं मम मंगलाय ॥

ओं ह्री छत्रत्रयप्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

तालातपत्रचमरध्वजसुप्रतीकभृगारदर्पणघटा प्रतिवीथिचारं ।
सन्मगलानि पुरतो विलसति यस्य पादारविदयुगलं शिरसा वहामि ॥

ओं ह्री अष्टमंगलद्रव्यसम्पन्नाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

बुद्धीशामरनायिकार्यमहती ज्योतिष्कसद्व्यंतर -
नागस्त्रीभवनेश किंपुरुष सज्ज्योतिष्ककल्पामराः ।

मर्त्या वा पशवश्च यस्य हि सभा आदित्यसंख्या वृष -
पीयूषं स्वमतानुरूपमखिल स्वादति तस्मै नमः ॥

ओं ह्रीं द्वादशसभासंपत्तिसम्पन्नाय जिनाय अर्घं स्वाहा ।

ज्ञानकल्याणक पूजा

प्रवरचरणवीर्यप्राप्तकैवल्यबोध समवसृत्तिसुसस्था प्रातिहार्याचितश्च ।
 नृसुरपशुखगान् ये बोधकादिव्यवाण्या प्रवरविधभरेण तानऽहं स्थापयामि ॥
 ओं ह्रीं केवलज्ञानकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्राः अत्र अवतर अवतर सर्वौषट्
 आह्वाननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्
 सन्निधिकरणं ।

अष्टक

गगनद्वीपसरोवरजीवनैः कनककुम्भगतैर्विधुवासितैः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्रीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 मलयशैलजचन्दनचन्द्रकैः जननतापहरैः वरहेमभैः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्रीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।
 विधुप्रभासमतदुलपुजकैः अक्षयशर्मप्रदैः शुभशालिजैः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्रीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।
 प्रवरचपककेतुकीकेतुकैः सरसपुष्पभरैरतिरजितैः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्रीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।
 वटकमडकसर्पिसितादिकैश्चरुवरैर्वरव्यजनसयुतैः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्रीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 मणिसिताभ्रसुतैलजदीपकैः श्वरमबोधनिभामलज्योतिभिः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्रीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अगुरुमुख्यदशागसुधूपकैः मधुरगधसुगधित अलिगणैः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्रीं केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

क्रमुकलागलिवारणमुख्यकैर्मधुसुपक्वसुगधतरैर्फलैः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्री केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जलप्रमुख्यफलान्तसुसर्वकैः कनकपात्रगतैः प्रवरादिकैः ।
 विमलकेवलबोध्यमलान् चिदे भुवननाथनुतान् प्रयुजे मुदा ॥
 ओं ह्री केवलज्ञानप्राप्तचतुर्विंशति जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रत्येक अर्घ

फाल्गुने कृष्णपक्षे च शोभनैकादशीदिने ।
 वृषम वृषदातार सयजे ज्ञाननायकम् ॥१॥
 ओं ह्री फाल्गुनकृष्णैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय वृषभदेवायार्घं ।
 पौषमासे शुचौ पक्षे विशालैकादशीदिने ।
 अजित जितमोहारि पूजयामि गुणोदधिम् ॥२॥
 ओं ह्री पौषशुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अजितदेवाय अर्घं ।
 कार्तिके कृष्णपक्षे च चतुर्थ्यामुत्तमे दिने ।
 सभव भवहन्तार सयजे भुवनोत्तमम् ॥३॥
 ओं ह्री कार्तिककृष्णचतुर्थ्याज्ञानकल्याणकप्राप्ताय संभवनाथायार्घं ।
 पौषमासे परे शुक्ले चतुर्दश्या दिने शुभे ।
 अभिनन्दनमर्चेऽह ज्ञानसाम्राज्यनायकम् ॥४॥
 ओं ह्री पौषशुक्लचतुर्दश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अभिनन्दनदेवायार्घं ।
 चैत्रे विशद पक्षे च परमैकादशी दिने ।
 सयजे बुद्धि वार्राशि सुमति ज्ञान नायकम् ॥५॥
 ओं ह्री चैत्र शुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय सुमति देवायार्घं ।
 चैत्रमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां सुवासरे ।
 केवलज्ञानसंप्राप्त लोकालोकप्रकाशकम् ॥६॥
 ओं ह्री चैत्रशुक्लपूर्णिमायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय पद्मप्रभदेवायार्घं ।
 फाल्गुने कृष्णपक्षे च सुषष्ट्या ज्ञाननायकम् ।
 श्रीसुपार्श्व यजे नित्य लोकालोकप्रकाशकम् ॥७॥
 ओं ह्री फाल्गुनकृष्णषष्ट्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय सुपार्श्व नाथायार्घ्यम् ।

फाल्गुने कृष्णपक्षे च सप्तम्यां ज्ञाननायकम् ।

यजे चन्द्रं शुभैर्द्रव्यैः परमस्थानसप्तदम् ॥८॥

ओं ह्रीं फाल्गुनकृष्णसप्तम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय चन्द्रप्रमजिनायार्घ ।

कार्तिके चार्जुने पक्षे शोभने द्वितीया तिथो ।

पुष्यदन्तं महाशान्तं चर्चे केवलिनं परं ॥९॥

ओं ह्रीं कार्तिकशुक्लद्वितीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय पुष्यदन्तजिनायार्घ ।

पौषमासे चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे जिनेशिनम् ।

प्राप्तं च केवलज्ञान यजे ऽहं ज्ञानलब्धये ॥१०॥

ओं ह्रीं पौषकृष्णचतुर्दश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय शीतलनाथायार्घ ।

माघकृष्णे ह्यमावस्यां ज्ञानावरणसंक्षयात् ।

प्राप्तं च केवलज्ञानं संयजे ज्ञाननायकम् ॥११॥

ओं ह्रीं माघकृष्णामावस्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय श्रेयांसनाथायार्घ ।

माघे शुक्ले द्वितीयायां संप्राप्तं ज्ञानमुत्तमम् ।

लोकालोक प्रकाशाय संयजेज्ञान नायकम् ॥१२॥

ओं ह्रीं माघशुक्लद्वितीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय वासुपूज्य जिनायार्घ ।

माघशुक्ले सुषष्ट्यां च लोकालोकप्रकाशकम् ।

बोधं सुकेवलं प्राप्तं यजे ऽहं ज्ञाननायकम् ॥१३॥

ओं ह्रीं माघशुक्लषष्ट्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय विमलदेवायार्घ ।

चैत्रकृष्णे ह्यमावस्यां लोकालोकविलोचनम् ।

कृत्वां च येन ज्ञानेन चर्चे तं ज्ञानस्वामिनम् ॥१४॥

ओं ह्रीं चैत्रकृष्णामावस्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अनन्तनाथदेवायार्घ ।

पौषमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां जिनोत्तमम् ।

केवलज्ञानसम्प्राप्तं चर्चे सज्ज्ञानदायकम् ॥१५॥

ओं ह्रीं पौषशुक्लपूर्णिमायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय धर्मनाथजिनायार्घ ।

पौषशुभ्रदशम्यां तु लोकालोकप्रकाशकम् ।

यजे शान्तिजिनेशं च केवलज्ञाननायकम् ॥१६॥

ओं ह्रीं पौषशुक्लदशम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय शान्तिनाथायार्घ ।

चैत्रशुक्लतृतीयायां द्विधाधर्मप्रकाशकम् ।

कुन्थुनाथमह वन्दे घातिकर्मविनाशकम् ॥१७॥

ओं ह्रीं चैत्रशुक्लतृतीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय कुन्थुनाथजिनायार्घ ।

- कार्तिके शुक्लपक्षे च द्वादश्यां स्वामिनं ह्यरम् ।
केवलज्ञानभानुं च चर्चे विश्वप्रकाशकम् ॥१८॥
- ओं ह्रीं कार्तिकशुक्लद्वादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय अरनाथदेवायार्घ ।
पौषमासे कृष्णपक्षे विशुद्धे द्वितीयादिने ।
लोकालोकप्रकाशाय यजे ज्ञानदिवाकरम् ॥१९॥
- ओं ह्रीं पौषकृष्णपक्षेद्वितीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय मल्लिनाथायार्घ ।
वैशाखे श्यामले पक्षे नवम्यां सुव्रतं जिनम् ।
केवलज्ञानभानुं च चर्चे विश्वप्रकाशकम् ॥२०॥
- ओं ह्रीं वैशाखकृष्णनवम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय मुनिसुव्रतदेवायार्घ ।
मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे विशुद्धैकादशीदिने ।
केवलज्ञानसं प्राप्तं नमिनाथ समर्चये ॥२१॥
- ओं ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय नमिनाथजिनायार्घ ।
अश्विने शुक्ल पक्षे च प्रतिपत्सुदिने यजे ।
केवलज्ञानयुक्तं च नेमि विश्वप्रकाशकम् ॥२२॥
- ओं ह्रीं आश्विनशुक्लप्रतिपदिज्ञानकल्याणक प्राप्ताय नेमिनाथायार्घ ।
चैत्रमासे सुकृष्णे च चतुर्थीशुद्धवासरे ।
पंचमबोधसंप्राप्तं चर्चे तं ज्ञानवारिधिम् ॥२३॥
- ओं ह्रीं चैत्रकृष्णचतुर्थ्यां ज्ञानकल्याणकपार्श्वनाथजिनायार्घ ।
वैशाखशुक्लपक्षे च दशम्या वर्द्धमानकम् ।
केवलज्ञानसंयुक्तं संयजे ज्ञानलब्धये ॥२४॥
- ओं ह्रीं वैशाखशुक्लदशम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय महावीरजिनायार्घ ।
घातिकर्मक्षयाद्बोधं प्राप्त प्राणकबोधकाः ।
पूर्णाधिः पूजितास्ते ये. कुर्वन्तु मंगलं सदा ॥२५॥
- ओं ह्रीं ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय चतुर्विंशतिजिनायार्घ्यम् ।

जयमाल

क्षुत्तृष्णामदमोहविस्मयभयं चिन्तारतीरागता
मृत्युंखेदविषादशोकजननं प्रस्वेदनिद्राजरा ।
रुग्दोषैर्बहुदुःखदैर्भव हरेरष्टादशासंख्यकै
येभिर्ये च विवर्जिता बहुगुणा नन्दन्तु ते ज्ञानिनः ॥१॥

धनदविहित समसृतौ या स्थिता धर्मवचनावलितोषिता सज्जना ।
 सन्तु बोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥२॥
 यत्प्रभावा भवि या जनैकेशतै याति सौभिक्ष्यमानदभुवि सभृता
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥३॥
 स्वागणे चारणे ये च मुक्ताश्रमा जन्तुमृत्पीडिता ध्वस्तऽविश्वभ्रमा
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥४॥
 चोप सर्गातिगारस्त्यक्त लेपावरा, ये चतुस्तुण्डिका सर्वविद्येश्वरा
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥५॥
 योगछायातिगा स्पदपक्षोदिता यलषादिव्यकुस्तुल्य भावस्थिता
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥६॥
 अर्धसुरमागधी दिव्यभाषावदा, मागधैर्विसृताधर्मगर्भासिदा ।
 सन्तु बोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥७॥
 सर्वभुनि गोचरा मित्रताभूद्धरा, यद्गुणादर्पणे वामलोऽस्युधरा ।
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥८॥
 रत्नप्रभावादुमा द्विर्णकै सुन्दरा पुष्पपत्रै फलैर्नम्रशाखाकरा ।
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥९॥
 पृष्ठगामी भवेद्वायु येषा गति सद्बुधा मार्ग सशोधकास्युर्ध्व ।
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥१०॥
 यत्प्रभावाद्धरा योजनैकप्रभा अन्तरिक्षाकरो धूलिकण्टकच्युता ।
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥११॥
 मेघदेवाय सासद्भूम्या सदा गद्यतोयोद्भवा वर्षण चक्रदा
 सन्तु बोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥१२॥
 यत्पदश्चारणे पादन्यास कृत्तै निर्जरैर्भक्ति भिर्भूषितै ।
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥१३॥
 क्षेत्रशाल्योपि यान्त्रेक्षनाम्न फलैस्त नमन्ति च स्युर्भृगयुक्तैर्दलै ।
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥१४॥
 चतु प्रभावाद्धिर्भुर्त्तु दिशो निर्मल व्योम तत्पाजसमभावमत्यद्भुता ।
 सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिना सदगुणैर्निर्जरै सेव्यसत्शासना ॥१५॥

यत्सभायां सुरा आह्वयन्ति जनान् स्वर्गस्थान् सुरभूपोपमान् सुन्दरान् ।
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिनाः सदगुणैर्निर्जरैः सेव्यसत्शासनाः ॥१६॥

मंगलैर्मण्डिता धर्मचक्रेश्वरा सच्चतुस्त्रिंशद्वैतिशयर्तियुताः
सन्तुबोधाय तेऽनन्तबोधिजिनाः सदगुणैर्निर्जरैः सेव्यसत्शासनाः ॥१७॥

धत्ता - वरतरुहि सुमनसां वर्णना दिव्यवाद,
चमरवरत्रिछत्र भासनं दिव्यपीठ ।

वरद्युतिकरपुञ्जदुन्दुभीनानिनादै ,
धनपति इति नस्ते सन्तु सिद्धये समेताः ॥

ओं ह्रीं ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय चतुर्विंशतिजिनेन्द्रायार्घ्यम् ।

घातिकर्मविमुक्तास्ते समवसृतिसंस्थिताः ।
केवलज्ञानचक्रीशा युष्मान् रक्षन्तु सर्वदाः ॥ इत्यार्शीवादः

तत्त्वोपदेश अर्घपूजा (१)

ज्ञानाभिन्नः सततचिदपावृत्त एषोऽस्ति जीवोऽ
नाद्यंत स्याच्छिवजगदितश्चक्रमायोगयोगात् ।
पर्यायार्थैर्नरसुरपशुश्वभ्रिभेदादिरर्थ
याथातथ्यैर्निजसुखचिदानंद एव दृश्यैत्सीत् ॥

ओं ह्रीं जीवतत्त्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

रूपी स्पर्शादिभिरपि गुणैः स्वैः प्रधानैर्निरुक्तः
स्वच्छाणुभ्यामनणुविवृत्तिव्यापृतः पुद्गलः स्यात् ।
कर्माकर्मप्रकृतिनिगडैर्विश्वमापीड्य हेतु-
र्बधस्येति प्रभवति जिन जल्पयंत नमामि ॥

ओं ह्रीं पुद्गलतत्त्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

लोकस्थाना भवति गमने जीवसत्पुद्गलाना
हेतुर्धर्मः सहचरविधौ दास्यमात्रप्रमेयः ।
लोकालोकस्थितिविभजनेऽग्रीण एवं हिधर्म-
स्वास्मान संगदति जिनपः सो स्तु मे क्लेशहर्ता ॥

ओं ह्रीं धर्मतत्त्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

वैलक्षण्य तत उपगतो जीवसत्पुद्गलाना
स्थाता धर्म सहचरतयौदास्यमात्रे ऽपि तेषाम् ।
एवतस्य स्वभवनम सदिह्यमानो जिनेन्द्रो
मादृक्षाणा भवविधिहति सकरोत्वात्मनीनां ॥

ओ ह्री अर्धमद्रव्यस्वरूपनिरूपकजिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

जीवाजीवाद्युपघृतितयाऽऽधारभूतोऽन्यतो
मध्ये तस्य त्रिभुवनमिद लोकनाम्ना प्रसिद्ध ।
सर्वेषा स्यादवकशनदः शून्यमूर्तिर्महाश्चा-
काशोऽय तन्निजगुणगण वक्ति त पूजयामि ॥

ओं ह्री आकाशद्रव्यस्वरूपनिरूपकाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

वस्तूद्भूतागुणपरिणमस्यानुभूतेश्च हेतुं
सत्तार्थाना पदुपगमनादेव जाति विधत्ते ।
सोऽय कालो व्यवहरणकार्यानुमेय क्रियाया-
कर्तृत्वादित्यकथयदिनो मुक्तिलक्ष्मी ददातु ॥

ओं ह्री कालद्रव्यस्वरूपनिरूपक जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

कायस्वांतवच क्रियापरिणतिर्योग शुभो वाऽशुभ-
स्तत्कर्मागमनायन निजयुजो रागद्विषोरुद्भवात् ।
ईर्यामार्गभवौषधद्विविधया तत्सविधि वेदयन्
जीयाच्छ्रेपतिपूज्यपादकमलस्तीर्थकर पुण्यगी ॥

ओं ह्री आस्रवतत्त्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

कषायावृतचेतसान्यविषय स्वत्व कृत तद्विधे -
र्योग्या कर्मविभावशक्तिसहिता ये पुद्गलाश्चात्मना ।
सश्लिष्टा अवगाहनैक्यमटितास्तत्प्रक्रमो बधभाक्
त छित्वा निजशुद्धभावविरतिप्राप्त समे स्तात् गुरु ॥

ओं ह्री बंधतत्त्वस्वरूपप्ररूपकाय जिनाय अर्धं स्वाहा ।

तद्गोध खलु सवरो निगदितो द्रव्यार्थभेदाद् द्विधा ।
तद्धेतुर्व्रतगुप्तिधर्मसमितिप्रेक्ष्या चरित्रात्मता ।
मूल निर्जरणस्य कर्मविततोऽनूत्नागमस्य स्वय
तद्रूप कथित गणेश्वरपुरोभागे स आप्तो मम ॥

ओं ह्री संवरतत्त्वस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वोद्भूतानुभवात्तथा वृत्ततपो वीर्येण तच्छतनाद्
द्वेषा निर्जरण विसंयमियमि स्वाम्याश्रयेणास्तियत् ।

तद्रूपं समवश्रियां गदितवान् भव्यात्मना श्रेयसः
संप्राप्त्यै स जिनोऽस्तु मे दुरितसंप्रातस्य संच्छिन्तये ॥

ओं ह्रीं निर्जरातत्त्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

मोहस्यात्यंतनाशात् ज्ञापिति दृशि चिदाच्छदकाशेषलोपात्
प्रत्यूहस्यापि मूलंकषविनशनादात्मशक्तेः प्रकाशात् ।

निःसापत्नं ज्वलंतीं परमशिवसुखास्वादसवेद्यमाना-
मुक्तिं श्रीर्दिव्यतत्त्वं त्विति सकलजना देयमुक्तिं जिनेन्द्रैः ॥

ओं ह्रीं मोक्षतत्त्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

देवोऽर्हन् सकलामयव्यपगतो दृष्टेष्ट वाग्देशको
भव्यद्वैर्गतरागदोषकलनो मोक्षार्थिभिः श्रेयसे ।

आश्रेयः परिसेवनीय उदितज्ञानप्रभौघः स्वयं
शास्ता सर्वहितः प्रमाण पटुभिर्घ्येयो जिनः पातुनः ॥

ओं ह्रीं आप्तरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

रागद्वेषकलंकपंककणिका हीनो विसंवादको
निर्वाछो हितदेशनो व्रतगुणग्रामाग्रगण्यः प्रभुः ।

अस्माकं भवपद्धतावनुसरद् वाघार्दितानां महा
नाराध्यः प्रियकारको गुरुरयं प्रोक्तो जिनेन त्वया ॥

ओं ह्रीं गुरुस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

यत्रामूलमनून मन्यजडता पीडोत्कथा प्रच्युति
र्यत्रश्रेयसिदीपिकेव सरणिः प्राकाश्यमास्वंदते ।

विश्वप्रोत महार्ति मोहमदिरा निर्भत्सनं सद्गुणा -
श्लेषावाप्तिरयं जिनवरैर्गीतो वृषोऽस्तु श्रिये ॥

ओं ह्रीं धर्मस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शब्दावाच्यमवस्त्वनादिवृत्त संकेतेन वस्तुग्रहं
केनापि ध्वनिना भवत्यथ स वै संजायते मातृवृत्त् ।

साऽपेक्षा सहितोदयनेकगुणतस्ता एव तस्मात् स्थितं
वस्तुस्यात्पद संस्कृतं तदुदयन् स्याद्वाद एवार्हतः ॥

ओं ह्रीं नमोऽर्हतेभगवते स्याद्वादस्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घं स्वाहा ।

- तीर्थेशा भरतेशिना हलजुषा नारायणाना तत
 शत्रूणा त्रिपुरद्विषा च महता सद्भाग्य सशालिना ।
 पुण्यापुण्यचरित्र मत्र निहित पूर्वानुयोग विदन्
 दृष्टातप्रतिपत्तिद जिनपति प्रारब्धवान शासनम् ॥
- ओं ह्री प्रथमानुयोग स्वरूप निरूपकायजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
 सस्थानायाम सख्यागणितमसुभृता मार्गणास्थानतज्ज
 कर्मोदीर्णोदयादि प्रकथन मधिपो वर्णयामास सम्यक् ।
 लोकालोकोक्त भेदे नरक सुरमनुष्यादि सस्थित्युदत -
 वृत्ति त्वारख्यानमेतत्करणगमनुयोग प्रकाश्य स्वयम् ॥
- ओ ह्री करणानुयोगस्वरूप निरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
 शीलानां सयमाना व्रतसमिति चरित्रादिसाध्वर्हिताना
 सागारार्थोक्त कर्मावधृत विरमणस्थूलधर्म क्रियाणा ।
 तत्तत्स्थानोक्तबुद्धय निजनिज हृदयोद्भूतत्व निरूप्य
 कर्तव्यत्वोपदेशोयदवधिचरणाख्यान मुक्त जिनेन ॥
- ओं ह्री चरणानुयोगस्वरूपनिरूपकाय जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
 षट् द्रव्यस्वत्त्वरूपाण्यथनय घटा तत्प्रमाणस्वरूप
 नामस्थापादिवृत्त्य तदधिकरणभिसूतत्व सस्थापनादि ।
 मेयामेयव्यवस्थायदवधिसमिता यत्र षड्भगवाणी
 द्रव्याख्यान निरूप्यप्रथममभिहित मोक्षमार्ग जिनेन ॥
- ओ ह्री द्रव्यानुयोगस्वरूप निरूपकजिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
 श्रीमस्त्वद् भक्तिभार प्रविनत शिरस केचिदिच्छतिमुक्ति
 ते सद्य साधुदीक्षा प्रणयन पटवस्त्वत्प्रसादावलबात् ।
 केचिद् व्युच्छितिधर्म गृहपतिनिरु तरु द्रमार्गावरूढ
 स्वामिन् हस्तावलब कुरु शरणगतान् रक्ष रक्षेशनाथ ॥
- ओ ह्री मुनिश्रावक धर्मोपदेशक जिनाय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ।
 एवमिन्द्रः समागत्य स्तुतिमालार्चितक्रम ईशं नत्वा विहारार्थं प्रस्तावमकरोत्सुधीः ।

विहार हेतु स्तुति (९)

इच्छा विरहितस्यापि भव्यपुण्योदयेरितः ।

विहारमकरोद् देशानायान् धर्मोपदेशयन् ।

काश्यां काश्मीरदेशे कुरुषु च मगधे कोशले कामरूपे ।

कच्छे काले कलिगे जनपदमहिते जांगलाते कुरादौ ॥

किष्किधे मल्लदेशे सुकृतिजनमनस्तोषदे धर्मवृष्टि ।

कुर्वन् शास्ता जिनेन्द्रो विरहति नियतं तं यजेऽहं त्रिकालं ॥

पांचाले केरले वाऽमृत पद मिहरोमद्रचेदीदशार्ण ।

वंगागांधोलिकोशी नरमलयविदर्भेषु गौडे सुसह्ये ॥

शीतांशुरश्मिजालादमृतमिव समां धर्मपीयूषधारा ।

सिचन् योगाभिरामा परिणमयति च स्वातशुद्धि जनाना ॥

पुन्नाटचौलविषयेऽपि च मौंड्रदेशे

सौराष्ट्रमध्यमकलिदकिरातकादौ ।

सुयोग्ये सुदेशमहिते सुविहृत्यधर्म -

चक्रेणमोहविजयं कृत्वान् जनानां ॥

ओं ह्रीं नमोऽर्हते भगवते विहारावस्थाप्राप्तायदेशोधर्मोपदेशेनोद्धर्त्रे जिनाय अर्घ ।

ज्ञानकल्याणक पूजा (हिन्दी)

गीताछन्द- चौबीस जिनवर तीर्थकारी ज्ञान कल्याणक घर
महिमा अपार प्रकाश जग मे मोह मिथ्यातम हर ।
कीने बहुत भवि जीव सुखिया दुख सागर उद्धर
तिनकी चरण पूजा करे तिन सम बने यह रुचि घर ॥

ओं ह्री वृषभादि महावीरपर्यन्तचतुर्विंशति जिनेन्द्राः अत्र अवतर अवतर संवौषट् ।
अत्रतिष्ठतिष्ठ ठःठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

नीर लाय शीतल महान मिष्टता धरे, गधशुद्ध मेलिके पवित्र झारिका भरे
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोधउत्सव करु प्रमाद सर्व टालके ।

ओं ह्री ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यो जलं निर्व० स्वाहा ।

श्वेत चन्दन सुगन्धयुक्त सार लायके, पात्र मे धराय शाति कारणे चढायके
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करु प्रमादसर्व टालके ।

ओं ह्री ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यः चन्दनं निर्व० स्वाहा ।

तन्दुल भले सुश्वेत वर्ण दीर्घलाइये, पापगुण सुअक्षत अतृप्तिता नशाइये
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करु प्रमादसर्व टालके ।

ओं ह्री ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यो अक्षतं निर्व० स्वाहा ।

वर्ण वर्ण पुष्प सार लाइये चुनायके, काम कष्ट नाश हेतु पूजिये स्वभावके
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करु प्रमादसर्व टालके ।

ओं ह्री ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यः पुष्पं निर्व० स्वाहा ।

क्षीर मोदकादि शुद्ध तुर्त ही बनाइये, भूख रोग नाश हेतु चर्ण मे चढाइये ।
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करु प्रमादसर्व टालके ।

ओं ह्री ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यो नैवेद्यं निर्व० स्वाहा ।

दीपधार रत्नमय प्रकाशता महान है, मोह अधकार हार होत स्वच्छ ज्ञान है ।
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करु प्रमादसर्व टालके ।

ओं ह्री ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यो दीपं निर्व० स्वाहा ।

धूप गध सार लाय धूपदान खेइये, कर्म आठ को जलाय आप आप बेइये ।
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करु प्रमादसर्व टालके ।

ओं ह्री ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यो धूपं निर्व० स्वाहा ।

लोग ओ बदाम आम्र आदि पक्व फल लिए सुमुक्ति धाम पायके स्वआत्म अमृत पिये ।
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करूं प्रमादसर्व टालके ।
ओं ह्रीं ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यः फलं निर्व० स्वाहा ।

तोयगंध अक्षतं सुपुष्प चारु चरु धरे दीप धूप फल मिलाय अर्घ्यदेय सुख करे ।
नाथ चौबिस महान वर्तमान काल के, बोध उत्सव करूं प्रमादसर्व टालके ।

ओं ह्रीं ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभादिचतुर्विंशति जिनेम्यो अर्घं निर्व० स्वाहा ।

प्रत्येक अर्घ

एकादशि फागुन वदिकी, मरुदेवी माता जिनकी ।

हत घाती केवल पायो, पूजत हम चित उमगायो ॥१॥

ओं ह्रीं फाल्गुनकृष्णैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तवृषभनाथायार्घ ।

एकादशि पौषसुदी को, अजितेश हतो घाती को ।

निर्मल निज ज्ञान उपाये, हम पूजत सम सुख पाये ॥२॥

ओं ह्रीं पौषशुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तजितनाथायार्घ ।

कार्तिक वदि चौथ सुहाई, सभव केवल निधि पाई ।

भवि जीवन बोध दियो है मिथ्यामत नाश कियो है ॥३॥

ओं ह्रीं कार्तिककृष्णाचतुर्थ्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तसंभवनाथजिनायार्घ ।

चौदशि शुभ पौष सुदी को, अभिनन्दन हत घाती को ।

केवल पा धरम प्रचारा, पूजू चरणा हितकारा ॥४॥

ओं ह्रीं पौषशुक्लाचतुर्दश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तायभिनंदन जिनायार्घ ।

एकादशि चैत सुदी को, जिन सुमति ज्ञान लब्धी को

पाकर भविजीव उधारे, हम पूजत भव हरतारे ॥५॥

ओं ह्रीं चैत्रशुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तमतिनाथ जिनायार्घ ।

मधुशुक्ला पूरणमासी, पद्मप्रभ तत्त्व अभ्यासी

केवल ले तत्त्व प्रकाशा, हम पूजत सम सुखभाषा ॥६॥

ओं ह्रीं चैत्रशुक्लापूर्णमास्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तपद्मप्रभजिनायार्घ ।

छठि फागुन की अधियारी, चउ घाती कर्म निवारी

निर्मल निज ज्ञान उपाया, धनधन सुपार्श्व जिनराया ॥७॥

ओं ह्रीं फाल्गुनकृष्णाषष्ट्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तसुपार्श्वनाथ देवायार्घ ।

- फागुन वदि साते सुहाई, चन्द्रप्रभ आतम ध्याई
हन घाती केवल पाया, हम पूजत सुख उपजाया ॥८॥
- ओं ही फागुनकृष्णासप्तम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रभजिनेन्द्रायार्घ ।
कार्तिक सुदि द्वितिया जानो, श्री पुष्पदत्त भगवानो
रज हर केवल दरसानो, हम पूजत पाप विलानो ॥९॥
- ओ ही कार्तिकशुक्लाद्वितीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्तपुष्पदंत देवायार्घ ।
चौदशि वदि पौषसुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी
भवका सन्ताप हटाया, समता सागर प्रगटाया ॥१०॥
- ओ ही पौषकृष्णाचतुर्दश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तशीतलनाथ जिनायार्घ ।
वदि माघ अमावस जानो, श्रेयास ज्ञान उपजानो
सब जग मे श्रेय कराया, हम पूजत मंगल पाया ॥११॥
- ओं ही माघकृष्णाअमावस्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तश्रेयांसनाथायार्घ ।
शुभ द्वितीया माघ सुदी को, पाया केवल लब्धी को
श्री वासुपूज्य भवितारी, हम पूजत अष्ट प्रकारी ॥१२॥
- ओं ही माघशुक्लाद्वितीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्तवासुपूज्य देवायार्घ ।
छटि माघ सुदी हत घाती केवल लब्धी सुख लाती
पाई श्री विमल जिनेशा, हम पूजत कटत क्लेशा ॥१३॥
- ओं ही माघशुक्लाषष्ट्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तविमलनाथ देवायार्घ ।
वदि चैत अमावस गाई, निज केवल ज्ञान उपाई ।
जजू अनन्त जिन चरणा, जो है अशरण के शरणा ॥१४॥
- ओ ही चैत्रकृष्णाअमावस्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तानन्तनाथ जिनायार्घ ।
मासान्त पौष दिन भारी, श्री धर्मनाथ हितकारी ।
पायो केवल सब्दोध, हम पूजे छाड़ कुबोध ॥१५॥
- ओं ही पौषशुक्लापूर्णिमायां ज्ञानकल्याणकप्राप्तधर्मनाथ जिनेन्द्रायार्घ ।
सुदि पौष की दशमी जानी, श्री शातिनाथ सुखदानी ।
लहि केवल धर्म प्रचारा, पूजू मै अघ हरतारा ॥१६॥
- ओं ही पौषशुक्लादशम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तशान्तिनाथ देवायार्घ ।
सुदि चैत्र तृतीया स्वामी, श्रीकुशुनाथ गुणधामी ।
निर्मल केवल उपजायो, हम पूजत ज्ञान बढायो ॥१७॥
- ओ ही चैत्रशुक्लतृतीयायां ज्ञानकल्याणक प्राप्तकुशुनाथ जिनायार्घ ।

कार्तिक सुदि वारस जानो, लहि केवल ज्ञान प्रमाणो ।

परतत्त्व निजतत्त्व प्रकाशा, अरनाथ जजों हत आशा ॥१८॥

ओं ह्रीं कार्तिकशुक्लाद्वादश्यां ज्ञानकल्याणक प्राप्तारनाथ जिनायार्ध ।

वदि पौष द्वितीया जाना, श्री मल्लिनाथ भगवाना ।

हत घाती केवल पाये, हम पूजत ध्यान लगाये ॥१९॥

ओं ह्रीं पौषकृष्णद्वितीयायां ज्ञानकल्याणकप्राप्तमल्लिनाथ देवायार्ध ।

वैसाख वदी नवमी को, मुनि सुव्रत जिन केवलको ।

लहि वीर्य अनन्त सम्हारा, पूजूं मैं सुख करतारा ॥२०॥

ओं ह्रीं वैसाखकृष्णानवम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तमुनिसुव्रत नाथायार्ध ।

अगहन सुदि ग्यारस आये, नमिनाथ ध्यान लौ लाए ।

पाया केवल सुखदाई, हम पूजत चित हरषाई ॥२१॥

ओं ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लैकादश्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तनमिनाथ देवायार्ध ।

पड़िवा शुभवार सुदीको, श्रीनेमिनाथ जिनजी को ।

इच्छे केवल सत ज्ञानं, हम पूजत ही दुःख हानम् ॥२२॥

ओं ह्रीं आश्विनशुक्लाप्रतिपदायां ज्ञानकल्याणकप्राप्तनेमिनाथार्ध ।

तिथि चैत्र चतुर्थी श्यामा, श्री पार्श्वनाथ भगवाना ।

केवल लहि तत्त्व प्रकाशा, हम पूजत कर शिव आशा ॥२३॥

ओं ह्रीं चैत्रकृष्णाचतुर्थ्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्तपार्श्वनाथ जिनेन्द्रायार्ध ।

दशमी वैसाख सुदीको, श्री वर्द्धमान जिनजी को ।

उपजो केवल सुखदाई, हम पूजत विघ्न नशाई ॥२४॥

ओं ह्रीं वैसाखशुक्लादशम्यां ज्ञानकल्याणकप्राप्त महावीर जिनायार्ध ।

जयमाल (सृग्विणी)

जय ऋषभनाथ जी ज्ञान के सागरा, घातिया घातकर आप केवल वरा
कर्म बंधन मई सांकला तोडकर, आपका स्वाद ले स्वाद पर छोडकर ॥१॥

धन्य तू धन्यतू धन्य तू नाथ जी, सर्व साधून में तोहिकों नाथ जी

दर्श तेरा करे पाप मिटजात है भर्मभाजें सभी ताप हट जात है ॥२॥

धन्य पुरुषार्थ तेरा महा अद्भुतं, मोह सा शत्रु मारा त्रिघाती हतं

जीत त्रैलक्यको सर्व दर्शीभये, कर्म सेना हती दुर्ग चेतन लये ॥३॥

आप सत तीर्थ त्रय रत्न के निर्मिता, भव्य लेवे शरण होय भव भवरिता
वे कुशल से तरे ससृती सागरा, जाय ऊरघ लहे सिद्ध सुन्दर घरा ॥४॥

यह समवशर्ण भविजीव सुख पात है, वाणी तेरी सुने मन यही भात है
नाथ दीजे हमे धर्म अमृत महा, इस बिना सुख नही दुख भव मे सहा ॥५॥

ना क्षुधा ना तृषा राग न द्वेष है, खेद चिन्तानही आर्ति न क्लेश है ।
लोभमद क्रोध माया नही लेश है, वन्दता हू तुम्हें तूहि परमेश है ॥६॥

ओं ही केवलज्ञानप्राप्त वृषभादिचतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो महार्घम् ।

स्तवन (पद्धारि)

जय परम ज्योति ब्रह्मामुनीश, जय आदि देव वृषनाथ ईश ।
परमेष्ठी परमात्म जिनेश, अजरामर अक्षय गुण विशेष ॥७॥

शकर शिवकर हर सर्व मोह, योगी योगीश्वर काम द्रोह ।
हो सूक्ष्म निरञ्जन सिद्धबुद्ध, कर्माञ्जन मेटन तोय शुद्ध ॥८॥

भवि कमल प्रकाशन रवि महान, उत्तम बागीश्वर राग हान ।
हो वीत द्वेष हो ब्रह्म रूप, सम्यग्दृष्टि गुण राज भूप ॥९॥

निर्मल सुख इन्द्रिय रहित धार, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अपार ।

तुम वीर्य अनत धरो जिनेश, तुम गुण पावत नाही गणेश ॥१०॥

तुम नाम लिये अघ दूर जाय, तुम दर्शन से भव भव नशाय ।

स्वामिन्अब तत्त्वन का प्रभेद, कहिए जासे हटेकर्म छेद । (पुष्पाञ्जलि क्षिपेत)

भरत चक्रवर्ति द्वारा प्रार्थना करने पर जो दिव्योपदेश मिला उसका निरूपण करते हुए केवली भगवान को अर्घ चढाना है ।

जीव अनादि अनन्त है चेतन मय अविकार ।

कर्म बध से जगभ्रमे कर्म नशे भवपार ॥

ओं ही जीव तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।

रूपी पुद्गल द्रव्य है अणु स्वयं स्वरूप ।

कर्म और नो कर्म से बधेजीव बहुरूप ॥

ओं ही पुद्गल तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।

जिय पुद्गल के गमन मे उदासीन सहकार ।

लोका लोक विभागकर धर्मद्रव्य अविकार ॥

ओं ही धर्मतत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।

- जिय पुद्गल के शंभन में उदासीन सहकार ।
लोक व्याप्ति अनंत है द्रव्य अधर्म निहार ॥
- ओं ह्रीं अधर्म तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
सर्वद्रव्य अवकाश टे है अनंत आकाश ।
मध्यलोक षट् द्रव्यमय शेष अलोकाकाश ॥
- ओं ह्रीं आकाश तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
वस्तु परिणमन हेतु है निश्चय काल प्रमाण ।
समय घड़ी दिन रात यह व्यवहृत काल वरदान ॥
- ओं ह्रीं कालतत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
काय वचन मन परिणमन योग शुभाशुभरूप ।
कर्माश्रवकारणयही मोह सहित भवरूप ॥
- ओं ह्रीं आश्रव तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
कर्म वर्गगा जीवके भाव कषाय प्रमाण ।
एकक्षेत्र अवगाह हों बंध तत्त्व यह जान ॥
- ओं ह्रीं बंधतत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
गुप्ति समिति व्रतवर्म से कर्माश्रव रुक जाय ।
वीतराग मय भाव जहां संवर तत्त्व सुहाय ॥
- ओं ह्रीं संवर तत्त्व स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
कर्म अवधि से निर्जरे तप प्रभाव क्षय होय
दुविष निर्जरा अत्यधिक संयमीन के होय ।
- ओं ह्रीं निर्जरा तत्त्व स्वरूप प्ररूपकाय जिनायार्घ ।
मोहादिक सब कर्म से रहित मोक्ष सुख रूप
आत्म शक्ति पूरण प्रगट अविनाशी इक रूप ।
- ओं ह्रीं मोक्ष तत्त्व स्वरूप प्ररूपकाय जिनायार्घ ।
वीतराग सर्वज्ञ जिन हित उपदेशी जान
निर्मल तत्त्व प्रकाशकर भजो आप्त पहिचान ।
- ओं आप्त स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
वैरागी निस्पृह व्रती सर्व परिग्रह हीन
आत्मन ध्यानी गुरु कहे हितकर तत्त्व प्रवीण ।
- ओं ह्रीं गुरु स्वरूप प्ररूपकाय जिनायार्घ ।

रत्नत्रय मय मोह हर पीड़ा सत्त्व निवार
 शिवकारण भव उद्धरण धर्म सत्त्व अविकार ।
 ओं ह्री धर्म स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
 वस्तु वाच्य अवाच्य है नित्यानित्य स्वरूप
 नय प्रमाण ते साधता स्याद्वाद सुखरूप
 ओं ह्री नमोऽर्हते भगवते स्याद्वाद स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
 तीर्थकर चक्रीश हरि प्रतिहर हलधर वृत्त
 पुण्य पाप दृष्टान्त यह प्रथमानुयोग पवित्र ।
 ओं ह्री प्रथमानुयोग स्वरूप प्ररूपकाय जिनायार्घ ।
 लोकत्रय रचना सकल जीवमार्गणा थान
 करणानुयोग बखानता कर्म बध आख्यान ।
 ओं ह्री करणानुयोग स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
 मुनि संयम व्रत आचरण गृही धर्म आचार
 कर्म हरण विधि सबकहे चरणानुयोग विचार ।
 ओं ह्री चरणानुयोग स्वरूप निरूपकाय जिनायार्घ ।
 नय प्रमाण निक्षेप से द्रव्य छहो को साध
 सप्त तत्त्व शुद्धात्म कथ द्रव्यानुयोग अबाध ।
 ओं ह्री द्रव्यानुयोग स्वरूपनिरूपकाय जिनायार्घ ।
 तब प्रसाद भवि लहत है मुनि दीक्षा अविकार
 प्रतिमा ग्यारह भविधरे तुम्ही उत्तारन पार ।
 ओं ह्री मुनिश्रावकधर्मोपदेशकजिनायार्घ ।
 भरत चक्रवर्ती, महामण्डलेश्वर, मण्डलेश्वर राजाओ द्वारा स्तुति


चौपाई छंद

धन्य धन्य जिनराज प्रमाणा, धर्मवृष्टि कारी भगवाना ।
 सत्यमार्ग दरशावन हारे, सरल शुद्ध मग चालन हारे ॥
 आपी से आपी अरहन्ता, पूज्य भार त्रैलोक्य महता ।
 स्वपर भेद विज्ञान बताया, आतम तत्त्व पृथक दरसाया ॥
 स्वानुभूतिमय ध्यान जताया, कर्मकाष्ठ बालन समझाया ।
 धर्म अहिंसा मय बतलाया, प्रेमभाव हित करन बताया ॥

वस्तु अनेक धर्म धरतारा, स्याद्वाद परकाशन हारा ।
 मत विवाद को मेंटन हारा, सत्य मार्ग परकाशन हारा ॥
 धन तीर्थकर तेरी वाणी, तीर्थ धरम सुख कारण मानी ।
 करहु विहार नाथ बहुदेशा, करहु प्रचार तत्व उपदेशा ॥
 (विहार हेतु प्रार्थना की कहीं कहीं विहार हुआ) विहारार्थ पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।
 दोहा - काशी अरु कश्मीर में मगध सुकौशलकाम ।
 कच्छ कलिग रकाल में कुरु जांगल शुभघाम ॥
 किष्कंधा पांचाल में मलय सु केरल मन्द्र ।
 चेदि दशार्ण सुवंगमें अंग उकिल शुचि अन्द्र ॥
 गौड़ विदर्भ उसीनरे सट्टय चौल पुत्राट ।
 मौड़ सौराष्ट्र किरात में मध्यकलिग विराट ॥
 इत्यादिक बहुदेशमें धर्म देशनाकार ।
 बन्दहु पूजहु प्रेमसे करहु करम निरवार ॥
 ओं ह्रीं नमोऽह्नि भगवते विहारावस्था प्राप्तायदेशे धर्मोपदेशे नोद्धर्त्रैजिनायार्घ
 निर्वपामीति स्वाहा ।
 ततो महार्घेण सुवाद्य घोष पुरस्सरेण त्रिकलोक भर्तुः
 महा महं कुर्यरनर्घ्यपात्रा पितेन शान्ति प्रपठेयुरिष्टाम् ॥^(१)
 ओंहींसकलयज्ञाधिवृत्रजिनदेवगुरुश्रुतादिसकलदेवताभ्योअर्घनिर्वपामीतिस्वाहा।
 पश्चात् निर्वाण क्षेत्र अर्घ एवं महार्घ चढावें । फिर शांति पाठ विसर्जन करके कार्य
 समाप्त करें ।

विशेष -

यदि समवसरण के सामने कैलाश पर्वत बनाने के लिए स्थान हो तो, समवसरण
 रचना रखें । और यदि वेदी पर स्थान कम हो तो प्रतिमा को वेदी पर विराजमान
 कर दें । समवसरण की रचना समाप्त कर के निर्वाण हेतु कैलाश पर्वत की सुंदर
 रचना रात्रि में करा ले पर्वत के ऊपर भाग में बजौटा लगा दें । उस पर पत्थर की
 चौकोर शिला रख दें जिस पर ध्यान मुद्रा में भगवान का दर्शन हों । पश्चात् निर्वाण
 क्रिया भी पर्वत के ऊपर से की जाना चाहिए ।



निर्वाण
कल्याणक

निर्वाण कल्याणक (सिद्ध प्रतिष्ठा)

मंत्र	-	(१) निर्वाण सम्पत्तिकर मंत्र (२) सिद्ध चक्र मंत्र
मण्डल	-	(१) चौबीस तीर्थकर मण्डल (२) कर्म दहन मण्डल (३) सिद्ध मण्डल (तीन मे से कोई एक)
यंत्र	-	(१) निर्वाण सम्पत्तिकर यंत्र (२) सिद्ध चक्र यंत्र
भक्तियां	-	(१) सिद्ध भक्ति (२) श्रुत भक्ति (३) तीर्थकर भक्ति (४) चारित्र्य भक्ति (५) योगि भक्ति (६) निर्वाण भक्ति (७) शान्ति भक्ति
अन्य	-	चौकोर शिला

निर्वाण कल्याणक पर विचार

निर्वाण कल्याणक के विषय मे आचार्यों ने अलग - अलग मत दिए है। श्री जय सेनाचार्य अपरनाम वसुविदु जी एव प० आशाधर जी ने अपने प्रतिष्ठा ग्रथो मे केवलज्ञान कल्याणक तक की सपूर्ण विधि विस्तार पूर्वक दी है और निर्वाणकल्याणक के लिए विशेष न लिखकर मात्र सिद्ध परमेष्ठी के गुणो की स्थापना का कथन करके या निर्वाण भक्ति पाठ पढकर गुणारोपण करना लिखा है।

(१) प्रतिष्ठापाठ - (श्री आचार्य वसुविदु अपरनाम जयसेन स्वामी)^(१)

केवलज्ञानकल्याणक की विधि के साथ समवसरन की रचना, धर्मोपदेश, विहार आदि का वर्णन करके योगनिरोध की क्रिया का कथन एव पूजा विधि लिखी है। पश्चात् लिखा है

अत्र प्रतिष्ठा समाप्तौ आचार्यवासर्वयजमानै कायोत्सर्गं पूर्वकं भक्तिपाठाः विधेयाः ।
निर्वाणभक्तिरेव निर्वाण कल्याणारोपणं । साक्षात्तु न विधेयं स्मरणीय मे वेति दिक् ।
वचनिकका - अब यहा प्रतिष्ठा विधि की समाप्ति मे आचार्य, इन्द्र, यजमान तीनों कायोत्सर्ग पूर्वक पूर्वोक्त भक्तिपाठ करे।

पंचकल्याणक मे चार कल्याणक तो विधान सयुक्त किया और पचम कल्याणक मोक्षकल्याण है। सो निर्वाणभक्ति पाठ मात्र ही आरोपण करना साक्षात् विधान नही करना स्मरण मात्र ही है। ऐसा अनिर्वाच्य समझ लेना। पश्चात् स्थयात्रा, अभिषेक कर यज्ञ विधान विसर्जन करे। आगे सिद्ध प्रतिष्ठा को लिखा है।^(२)

सिद्ध प्रतिष्ठा यदि तत्रयोग सरोधन पूज्य चतुर्धनानि ।

केर्माणि संयोज्यचतु प्रदीपानुत्तारयेत्तत्र शिवोर्ध्वगतून् ।

पचलघूच्चारणमत्र मयोगपथानमाशुविनियुज्यात्

तत्रैक समय एव सिद्धत्व प्राप्त तत्र भासति

तत्राष्ट गुणाना पूजा कार्या सम्यक्त्व मुख्य सुविधीना

अन्यो विधिर्विधेयस्तावानेवात्र गुरुकुलाद् बुद्ध्वा

पूजाकर्म विधूननायमदवेदेदु प्रकृत्यस्तकृद्

यत्रे मडल मालिखेदवसुदलान्वीते पृथक्शासन

सयोज्यामरनायकान् शिवपदप्राप्तान् यजेत्तद् गुणा-

नेव युक्ति विशारदेन पटुना कार्यो विधिर्भूयश

इस प्रकार सिद्ध प्रतिष्ठा लिखी है ।

(१) आ ज से, प्र पा पृ० ३०४ (२) आ ज से, प्र पा श्लोक ९१९ से ९२२

(२) प्रतिष्ठासारोद्धार (पंडित प्रवर आशाधर जी कृत)^१

केवलज्ञानकल्याणक की सविस्तार विधि के पश्चात् एक श्लोक-

न्यस्य निर्वाणकल्याणं सूत्रोक्त विधिना ततः ।

सिद्धश्रुतचरित्रर्षि शिवशान्तीन् स्तुवंतु ते ॥

भाषा - इस तरह केवलज्ञानकल्याणक की स्थापना विधि हुई। उसके बाद वे इन्द्र शास्त्र कथित विधि से निर्वाण कल्याणक का स्थापन करके सिद्ध, श्रुत, चारित्र, ऋषि, शिव, शांति स्तुति का पाठ करें। जिस तरह स्वर्ग से अवतार लेना आदि क्रियायें हुई हैं। उसी तरह अर्हन्त के प्रतिबिम्ब में गुणादि की स्थापना करनी चाहिए इस तरह निर्वाण कल्याणक की स्थापना का विधान हुआ।

प्रतिष्ठा सारोद्धार ग्रंथ के छठवें अध्याय में सिद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठा का विधान विस्तारपूर्वक पृ० १२७ से १२९ तक लिखा है। साथ ही अध्याय १ पृष्ठ ९ पर अर्हन्त प्रतिमा में पाँचों कल्याणक करने का विधान भी स्पष्ट रूप से लिखा है। गुणो निःस्वेतादिः स्याद्वाहो ज्ञानादिरांतरः ।

सोऽर्हतां पंचकल्याण द्वारेणादौ प्रपंच्यते ॥८७॥

गर्भावतार जन्माभिषेक निष्क्रमणोत्सवान् ।

वृत्तान् ज्ञान शिवेद्वर्षो बिम्बेर्हतोर्पयेत् ॥८८॥

तीर्थकर प्रभु की पंचकल्याणकों के द्वारा प्रतिष्ठा विधि का वर्णन करते हैं। गर्भावतार, जन्माभिषेक, निष्क्रमणविधि, ज्ञानकल्याणक और निर्वाण कल्याणक यह पाँच कल्याणक अर्हन्त की प्रतिमा में स्थापित करें। इन दोनों आचार्यों ने अपने प्रतिष्ठा ग्रंथों में अरहन्त परमेष्ठी की प्रतिष्ठा की विधि विस्तारपूर्वक लिखी है। और सिद्ध परमेष्ठी की विधि अति संक्षेप में कल्पना नात्र से लिखी है।

(३) प्रतिष्ठातिलक (श्री नेमिचन्द्र देव कृत)

इस प्रतिष्ठाशास्त्र में निर्वाणकल्याणक की विधि विस्तारपूर्वक लिखी गई है। इसी का आधार लेकर प्रतिष्ठा चंद्रिका (श्री पं शिवजी राम जी पाठकरांची) द्वारा संकलित है। और दूसरा प्रतिष्ठासार संग्रह (स्व० ब्र० शीतलप्रसाद जी) द्वारा संकलित है। इन दोनों प्रतिष्ठा ग्रंथों में निर्वाणकल्याणक का वर्णन आया है। तदनुसार ही क्रियायें एवं पूजा विधि की जा रही है। विद्वज्जन विचार करें।

(१) प. आ. ध., ग. सा. अ. ४ श्लोक २२४

निर्वाणकल्याणक (सिद्ध प्रतिष्ठा)

निर्वाणकल्याणक के दिन प्रातः प्रतिष्ठा पात्रों द्वारा अभिषेक, नित्यमह पूजा, यागमण्डलार्चन, हवन, आदि पश्चात् निर्वाण क्रिया करे। (समयाभाव मे हवन निर्वाण होने के बाद भी किया जा सकता है।) कैलाश पर्वत की शुद्धि कर चौकोर शिला की शुद्धि करके शिला पर सर्वतोभद्र स्वस्तिक लिखकर उस पर प्रतिमा विराजमान करे। प्रतिमा के पास निर्वाणसपत्तिकर यंत्र की स्थापना करे। और निर्वाणसपत्तिकर का जाप करें तथा पंचकल्याणक स्तोत्र एवं भक्तियां पढे।

निर्वाणसंपत्तिकर मंत्र

ओं ह्रीं अर्हं श्रीं ओं झं पं इवीं क्ष्वीं ह्रं षं ह्रं अ सि आ उ सा मम शान्तिं पुष्टिं वुरु वुरु ह्रीं क्रूं स्वाहा । (१०८ बार जाप करें) कैलास पर्वत के समीप कर्मदहनमण्डल बनाया जाय। योग निरोध करके भगवान ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान है। अघातिया कर्मों की स्थिति अत्यल्प है। भगवान के मोक्ष गमन का काल निकट है, और तृतीय शुक्लध्यानारूढ है। तभी भरतचक्री सपरिवार भगवान आदिनाथ की अर्चना हेतु आते हैं और सब अर्घ द्वारा पूजा करते है।

शुभेष्टिने पुनरन्यत्र स्थापयेत् प्रतिमां विभो ।

इमं योगनिरोधस्य प्रकमं स्थापयेच्छुभम् ॥^(१)

ओं ह्रीं शुक्लध्याननिरताय जिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

त्रिभंगीछन्द

जय जय वृषभेशा आदि जिनेशा हो परमेशा नमहु तुम्हें ।

प्रभु देश विहारे, धर्मप्रचारे, भवि उद्दारे नमहु तुम्हे ॥

कैलाश पघारे, आत्मविचारे, योगमगन जिनराज भये ।

सूक्ष्मक्रियशुक्ल धार स्वयं निज मोक्ष तभी निकटात भये ॥^(२)

ओं ह्रीं वृषभजिनेन्द्राय तृतीय शुक्लध्यानारूढाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जय जय तीर्थकर धर्मप्रभाकर शिवसुखरंजन नाथ भये ।

व्युपरतक्रियध्यानं शुक्लमहान धारत आत्म विशाल भये ॥

औदारिक तैजस कार्माण तन रहित नाथ अब होवेंगे ।

हम पूजें ध्यावे मंगल गावें शिवपथगामी होवेंगे ॥

ओं ह्रीं वृषभनाथ जिनेन्द्राय चतुर्थध्यानारूढाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

निर्वाणकल्याणक आरोपण

अस्मिन् विम्बे निर्वाणकल्याणक आरोपयामि ।

(विविनायक प्रतिमा एवं सभी प्रतिमाओं पर पुष्प क्षेपण करें)

पंचलघूच्चारणमन्त्रयोगपंथानमाशु विनियुंज्यात् ।

तत्रैक समय एव सिद्धत्वं प्राप्त तत्र भासन्ति ॥

(प्रतिमा को सावधानीपूर्वक पर्वत से उठा लेना चाहिए ।)

ओं ह्रीं अर्हं अनाहतविद्यार्थे णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो
उवज्जायाण णमो लोए सव्वसाहूणं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यः सम्यक्त्तपसे नमः स्वाहा ।

सिद्धचक्र मंत्र (१०८ बार जपना)

विशेष-प्रतिष्ठातिलक, प्रतिष्ठ सारसंग्रह एवं प्रतिष्ठाचंद्रिक में निर्वाणकल्याणक की क्रिया निम्नानुसार दी है, जो विचारणीय है । भगवान आदिनाथ मोक्ष चले गये । इन्द्रादिक देवगण निर्वाण महोत्सव मनाने कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं । कैलाश पर्वत के सामने चाँकोर कुण्ड तैयार कर लें और उसमें सर्वतोभद्र स्वस्तिक बनाकर अगर, तगर, मलयागिर चंदन, कपूर आदि रख दें ।

भगवान के नख और केश का अंतिम संस्कार करने के लिये अग्निकुमार देव अपने नुकुट झुकाकर नमस्कार करते हैं जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है और नख और केश का अंतिम संस्कार हो जाता है ।

अग्नि प्रज्वलन मंत्र (१)

उसहाय जिणो पणमामिसया अमलो विरजो वरकम्प तरु
सअ कामदुहा नम रक्ख सया पुरुविज्जुणुही पुरु विज्जुणुही
ओं ओं ओं ओं रं रं रं रं स्वाहा (अग्नि प्रज्वलित करें)

तीर्थेश्वरस्यान्त्य महोत्सवेयं भक्त्यानताग्नीन्द्र किरीटिजातं ।

आनर्दुरिन्द्राः सकलास्तमेनां यजे जलाद्यैरिह गार्हपत्यम् ॥

ओं ह्रीं गार्हपत्य प्रणीताग्नये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा । (२)

शांतिधारा^(३)

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अरहंत इदं शांतिधारां गृह्णीष्वं गृह्णीष्वं अर्हं णमो भद्रं भवतु
जगतां शांतिधारां निपातयामि शांतिवृद्ध्ययः स्वाहा । (शांतिधारा दें)

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं इदं पुष्पाञ्जलिं प्रार्चनं गृह्णीष्वं गृह्णीष्वं णमोऽर्हद्भ्योऽध्यातु
मिरमीप्सित फलदेभ्यः स्वाहा ।

(इति पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्)

(१) पं. नै. दे., प्र. ति. पृष्ठ १४४, द्र. शी. प्र. प्र. स्या. सं. पृष्ठ १७६ (१) वही, श्लोक ३७

(२) पं. शि. स., प्र. चं. पृष्ठ २७२

स्तुतिनिर्वाणकाल^(१) (पद्धती छन्द)

जय ऋषभदेव गुणनिधि अपार, पहुँचे शिव को निजशक्तिद्वार ।

वन्दो श्री सिद्ध महन्त आज सुधरें जासे मम सर्व काज ॥१॥

निर्वाणथान यह पूज्य धाम, यह अग्नि पूज्य है रमणराम ।

मनवचतन वन्दूं बार बार, निज कर्मवश डालू उजार ॥२॥

कैलाश महां तीरथ पुनीत, जहा मुक्ति लही सब कर्मजीत ।

नहि तैजस तन नही कारमाण, नहि औदारिक कोई प्रमाण ॥३॥

है पुरुषाकार सुध्यान रूप, जिन तन में था तिस है स्वरूप ।

तनुवातवलय में क्षेत्र जान, पीवत स्वातम रस अप्रमाण ॥४॥

हो शुद्ध चिदात्म सुख निधान, हो बल अनतधारी सुज्ञान ।

वन्दूं मै तुमको बार बार, भवसागर पार लहूं अवार ॥५॥

सिद्ध मण्डल तैयार किया जाय मध्य मे स्वस्तिक हो उसके ऊपर अर्द्धचन्द्राकार बनावें तीन बिंदु नीचे और एक बिन्दु ऊपर रखे आठ पांखुड़ी बनाकर सिद्ध भगवान के गुणों की स्थापना करे ।

गुणारोपण (२)

सम्यक्त्व दर्शन ज्ञानं वीर्यागुरुलघुसुख ।

अव्याबाधावगाहौ च सिद्धबिम्बेषु सस्मरेत् ॥

ओं सिद्धाष्टगुणानिन्यसामि स्वाहा ।

गुणारोपण करने के लिए प्रत्येक मंत्र पद के प्रतिमाओ पर पुष्प क्षेपण करें

जानाति बोधोयदनुग्रहेण द्रव्याणि सर्वाणि सपर्ययाणि

दुराग्रहृत्यक्तनिजात्मरूप सिद्धेत्र सम्यक्त्व गुण न्यसामि ॥१॥

ओं ह्रीं परमावगाढ सम्यक्त्वगुणविभूषिताय नमः ।

जानाति नित्यं युगपत्स्वतोन्यत्सर्वार्थसामान्य विशेष सर्व

निर्बाधकं स्पष्टतर च यस्तं सिद्धेत्र विज्ञानगुण न्यसामि ॥२॥

ओं ह्रीं अनंतज्ञान विभूषिताय नमः ।

स्वात्मस्थसामान्यविशेषसर्व साक्षात्करोत्येव सम सदा य

स्वनिश्चिता सभवबाधक त सिद्धेत्रदृष्ट्याख्य गुण न्यसामि ॥३॥

ओं ह्रीं अनंतदर्शन विभूषिताय नमः ।

(१) ब्र. शी. प्र. प्र. सा. स. पृष्ठ १७६

(२) श्री ने. दे. प्र. ति. पृ. ६१७ से ६१७

अनंत विज्ञान मनंतदृष्टि द्रव्येषु सर्वेषु च पर्ययेषु
व्यापारयंतं हतसंकरादि सिद्धेत्र वीर्याख्यगुण न्यसामि ॥४॥

ओं ह्री अनंतवीर्यगुणविभूषिताय नमः ।

अबाधक मानमबाध्यमेव निष्पीतसर्वार्थमसंगसंगम् ।

सर्वज्ञवेद्यं तदवाच्यमेव सिद्धेत्र सूक्ष्माख्यगुण न्यसामि ॥५॥

ओं सूक्ष्मगुणविभूषिताय नमः ।

एकत्र सिद्धात्मनि चान्यसिद्धा वसंत्यसंबाधमनंतसंख्याः ।

यस्य प्रभावात् सुनयास्थितं त सिद्धेवगाहाख्यगुणं न्यसामि ॥६॥

ओं ह्री अवगाहनगुणविभूषिताय नमः ।

अधोनुपातोऽस्ति यथा शिलादेर्नतूलवद्वायुवृत्ते रण च

सिद्धात्मना तेन सुयुक्तिसिद्धं गुणं न्यसामोऽगुरुलघ्वभिख्यम् ॥७॥

ओं ह्री अगुरुलघुगुणविभूषिताय नमः ।

भवाग्निशान्त्यै विहितश्रमो व्या बाधात्मना यं परिणाममेति ।

स्वात्मोत्थसौख्यैकनिबधन त सिद्धेत्र निर्बाधगुणं न्यसामि ॥८॥

ओं ह्रीं अव्याबाधगुणविभूषिताय नमः ।

सिद्ध पूजा (१)

स्थापना

बाह्याभ्यन्तरहेतुजातसुदृशः पूर्वश्रुतैरादिमा-

च्छुक्लध्यानयुगाद्विजित्य दुरित लब्ध्या सयोगिश्रियम्

प्राप्तायोगिपदं परेण सकल निर्जित्य कर्मोत्करं

शुक्लध्यानयुगेन सिद्धसुगुणान्सिद्धान्समाराधये ।

ओं ह्री सिद्ध परमेष्ठिन् अत्र अवतर अवतर संवौषट् आह्वाननम् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ।

ठः ठः स्थापनम् । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणं ।

गगादि तित्थप्पह वप्पएहि सग्गधदा णिम्मल पप्पएहि ।

अच्चेमि णिच्चं परमट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ संपादय सव्वसिद्धे ॥

ओं ह्री श्रीं सिद्धाधिपतये नमः जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

गंधेहि धाणाण सुहप्पएहि समच्चयाणंपि सुहप्पएहि ।

अच्चेमि णिच्चं परमट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ संपादय सव्वसिद्धे ॥

ओं ह्री श्रीं सिद्धाधिपतये नमः सुगंधं निर्वपामीति स्वाहा ।

पेरतछोणीसयकारणेहि वरक्खएहि सियकारणेहि ।
अच्चेमि णिच्च परमट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥
ओं ह्री श्री सिद्धाधिपतये नमः अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

पुप्फेहि दिव्वेहि सुवण्णएहि कल्ले कउसेहि सुवण्णएहि ।
अच्चेमि णिच्च परमट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥
ओं ह्री श्री सिद्धाधिपतये नमः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

वब्भेहि णाणासुरसप्पएहि भव्वाण णाणाइरसप्पएहि ।
अच्चेमि णिच्च परमट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥
ओ ह्री श्री सिद्धाधिपतये नमः नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

ददिव्वमाणप्पह दीवएहि सउय आण सिरदीव एहि ।
अच्चेमि णिच्च परमट्ठ सिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥
ओ ह्री श्री सिद्धाधिपतये नमः दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कालाअरुं भूय सुहूवएहिं जीवाण पावाण सुहूव एहि ।
अच्चेमि णिच्च परमट्ठसिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥
ओं ह्री श्री सिद्धाधिपतये नमः धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

अणग्घभूएहि फलव्वएहि भव्वरस्स सदिण्ण फलव्वएहि ।
अच्चेमि णिच्च परमट्ठसिद्धे सव्वट्ठ सपादय सव्वसिद्धे ॥
ओं ह्री श्री सिद्धाधिपतये नमः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

णयेण णाणेण य दसणेणतवेण उट्ठेण य सजमेण ।
सिद्धे तिकालेसु विसुद्ध बुद्धे समग्घयामो सयलेविसिद्धे ॥
ओ ह्री श्री सिद्धाधिपतये नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रत्येक अर्घ (१)

जानातिबोधोयदनुग्रहेण द्रव्याणि सर्वाणि सपर्ययाणि ।
दुराग्रहृत्यत्तनिजात्मरूप त सिद्धसम्यक्त्वगुण यजामि ॥
ओं ह्री सिद्ध सम्यक्त्वगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जानाति नित्य युगपत्स्वतोन्यसर्वार्थसामान्य विशेष सर्व
निर्बाधक स्पष्टतर च यस्त सिद्धात्मविज्ञानगुण यजामि ।
ओं ह्री सिद्धात्मविज्ञान गुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वात्मस्थसामान्यविशेषसर्व साक्षात्करोत्येव सम सदा यः ।
सुनिश्चिता सभवबाधक तं सिद्धात्मनो दृष्टिगुणं यजामि ॥
ओं ह्री सिद्धदर्शनगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अनतविज्ञानमनंतदृष्टि द्रव्येषु सर्वेषु च पर्ययेषु ।
व्यापारयन्त हतसकरादिसिद्धात्मवीर्याख्यगुणं यजामि ॥

ओं ह्री सिद्धवीर्यगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

एकत्र सिद्धात्मनि चान्य सिद्धा वसत्यसबाधमनन्तसंख्या ।
यस्य प्रभावात्सुनयस्थित तं सिद्धावगाहाख्यगुणं यजामि ॥
ओं ह्री सिद्धावगाहगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अधो न पातोऽस्ति यथा शिलादेर्नतूलवद्वायुवृत्तेरणं च ।
सिद्धात्मना तेन सुयुक्तिसिद्ध गुण यजामोऽगुरुलघ्वभिख्यम् ॥

ओं ह्री सिद्धागुरुलघुगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

भवाग्निशान्त्यै विहितश्रमोऽव्याबाधात्मनाय परिणाममेति ।
स्वात्मोत्थसौख्यैकनिबधन त सिद्धात्मनिर्बाधगुण यजामि ॥
ओं ह्री सिद्धाव्याबाधगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अबाधक मानमबाध्यमेव निष्पीतसर्वार्थमसगसगम् ।
सर्वज्ञवेद्य तदवाच्यमेव सिद्धात्मसूक्ष्माख्यगुण यजामि ॥

ओं ह्री सिद्धसूक्ष्मगुणाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

इत्थ समभ्यर्चित सिद्धनाथ सम्यक्त्वमुख्याश्च गुणास्तदीयाः ।
सर्वार्चिता सर्वजनार्चनीया स्वात्मोपलब्धै मम संतुतेऽमी ॥

ओं ह्री सिद्धपरमेष्ठिने पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

णमो सिद्धाणं सिद्धो मंगलं सिद्धालोगुतमा सिद्धे सरणं पव्वज्जामि ह्रीं शान्तिं कुरु
कुरु स्वाहा । (१०८ बार जाप करे)

गुणस्तवन^(१)

नमस्ते पुरुषार्थाना परां काष्ठामधिष्ठितः ।
सिद्धभट्टारकस्तोमनिष्ठितार्थनिरजन ॥१॥

स्व प्रदाय नमस्तुभ्य अचलाय नमोस्तु ते ।
अक्षयाय नमस्तुभ्य अव्याबाधायते नम ॥२॥

(१) श्री ने दे प्र ति. पृष्ठ ६३८

नमस्तेऽनंतविज्ञानदृष्टि वीर्यसुखास्पदं
नमो नीरजसे तुभ्यं निर्मलायास्तु ते नमः ॥३॥

अच्छेद्याय नमस्तुभ्य अभेद्याय नमो नम
अक्षताय नमस्तुभ्य अप्रमेय नमोस्तु ते ॥४॥

नमोस्त्वगर्भवासाय नमोऽगौरव लाघवे ।
अक्षोभ्याय नमस्तुभ्यमविलीनाय ते नमः ॥५॥

नमः परमकाष्ठात्मयोगरूपत्वमीयुषे
लोकाग्रवासिने तुभ्य नमोऽनतगुणाश्रय ॥६॥

निःशेषपुरुषार्थानां निष्ठा सिद्धिमधिष्ठित
सिद्धभट्टारकव्रातभूयो भूयो नमोस्तु ते ॥७॥

विविधदुरितशुद्धान्सर्वतत्त्वार्थबुद्धान्
परमसुखसमृद्धान्युक्तिशास्त्राविरुद्धान् ।

बहुविधगुणवृद्धान्सर्वलोकप्रसिद्धान्
प्रमितसुनयसिद्धान्सस्तुवे सर्वसिद्धान् ॥८॥

ओं ह्रीं ह्रं श्रीं सिद्धाधिपतये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा

निर्वाणकल्याणक पूजा (संस्कृत)

निखलनिवृत्तिसंस्था भव्यशस्याणि सिद्ध्य परमसुकृतवृष्ट्या नूरमामुच्यवाह्या ।
तरधनघनिहत्य मुक्तिमाप्ता क्षणेन विमलगुणसुकोषाः स्नातहं स्थापयामि ।
ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्त वृषभादिवतुर्विंशतिजिनेन्द्राः अत्र अवतर अवतर
संवौषट्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, अत्र मम सन्निहितोभव भव वषट् ।

अष्टक

विमलतीर्थज जीवनधारया, विधययोजरजोवरशालया ।
जिनवरान्प्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान् सुनिरजनान् ॥
ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो जलम् ।
सुरतरुद्भव चन्दन चन्द्रवैः विमलपीतन पीत सुवर्णकैः ।
जिनवरान्प्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान् सुनिरंजनान् ॥
ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यः चन्दनम् ।

तुषमलोकित तन्दुल पुजकैः सकल वर्जित मौक्तिक कीर्तिकैः
जिनवरान्प्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान् सुनिरंजनान् ॥

ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेम्यो अक्षतम् ।
घवल पुष्प सुकेतकी चम्पकैः मधुप सेवित पुष्प कदम्बकैः
जिनवरान्प्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान् सुनिरंजनान् ॥

ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेम्यः पुष्पम् ।
घृत सितामर सवृत्तभक्षकैः विमल व्यजन सुस्वृत्त शुद्धकैः
जिनवरान्प्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान् सुनिरंजनान् ॥

ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेम्यो नैवेद्यम् ।
स्वजन चक्षु मनोम्बुज कंजकैः जिनसुवाक्यभरैरिव दीपकैः
जिनवरान्प्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान् सुनिरंजनान् ॥

ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेम्यो दीपम् ।
दहन कुम्भ गतागरुधूपकैः भूविजनैर्हतकर्म सुधूमकैः
जिनवरान्प्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान् सुनिरंजनान् ॥

ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेम्यो धूपम् ।
वरफलैर्वर वर्ण मनोहरैः विहित नेत्र मनोज्ञ प्रमोदकैः
जिनवरान्प्रयजे शिवसद्मगा, भुवन नाथनुतान् सुनिरंजनान् ॥

ओं ह्रीं निर्वाणकल्याणकप्राप्तचतुर्विंशति जिनेन्द्रेम्यः फलम् ।
जनन पार करैः विमलाद्यकैः कनक पात्र घृतेसुखदायकैः
जिनवरान्प्रयजे शिव सद्मगान् भुवननाथ नुतान् सुनिरंजनान् ।

ओं ह्रीं निर्वाण कल्याणकप्राप्तवृषमादि चतुर्विंशति जिनेन्द्रेम्यो अर्घ ।

प्रत्येक अर्घ

माघमासे कृष्णपक्षे पूते चतुर्दशी दिने ।

वृषभं मुक्तिरसंप्राप्तं पंचमीगतिदायकम् ॥

ओं ह्रीं माघकृष्ण चतुर्दश्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तवृषभदेवायार्घ ।

चैत्रमासे शुभ्रपक्षे विशाले पंचमी दिने ।

अजितं पूजयेत् सिद्धं विवर्णं विगताभयं ॥

ओं ह्रीं चैत्र शुक्ल पंचम्या निर्वाणकल्याणकप्राप्ताजितनाथ जिनायार्घ ।

- चैत्रमासे शुक्लपक्षे विशाखाषष्टिका दिने ।
संभवं प्रयजे सिद्ध गुणाष्टकविभूषितम् ।
ओं ह्री चैत्रशुक्लषष्ठ्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तसंभवनाथदेवायार्घं ।
वैशाखे चार्जुने पक्षे सुषष्ठीशुद्धवासरे ।
अभिनन्दनज्ञानेश मुक्तिसाम्राज्यनायकम् ॥
- ओं ह्री वैशाख शुक्ल षष्ठ्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्ताभिनन्दन देवायार्घं ।
चैत्रमासे शुक्ल पक्षे पवित्रैकादशीदिने ।
सुमति मुक्तिदातार यजेऽह मुक्तिवल्लभ ॥
- ओं ह्री चैत्रशुक्लैकादश्यां निर्वाण कल्याणकप्राप्तसुमति देवायार्घं ।
फाल्गुने कृष्णपक्षे च चतुर्थीनिर्मले दिने ।
सुपद्मप्रभमर्चामि मुक्तिपद्ममधुव्रतम् ॥
- ओं ह्री फाल्गुनकृष्ण चतुर्थ्यां निर्वाण कल्याणकप्राप्तपद्मप्रभजिनायार्घं ।
फाल्गुने श्यामपक्षे च प्रकृष्टे सप्तमीदिने ।
श्री सुपार्श्व यजे नित्य रूपातीत गुणात्मकम् ॥
- ओं ह्री फाल्गुन कृष्ण सप्तम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्त सुपार्श्वनाथायार्घं ।
फाल्गुने कृष्णसप्तम्या यजेऽह मुक्तिनायकम् ।
अष्टमं तीर्थनाथ च पचमीगतिदायकम् ॥
- ओं ह्री फाल्गुनकृष्णसप्तम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तचन्द्रप्रभजिनायार्घं ।
शुक्ले भाद्रपदे मासे चाष्टमीशोभने दिने ।
पुष्पदन्त यजे धीर सर्वकर्मनिवारकम् ॥
- ओं ह्री भाद्रपद शुक्लाष्टम्यां निर्वाण कल्याणकप्राप्तपुष्पदन्तदेवायार्घं ।
आश्विने चार्जुने पक्षे चाष्टम्या शुद्धवासरे ।
वसुद्रव्ये सुमुक्त्यर्थ वसुभूमि गत यजे ॥
- ओं ह्री आश्विन शुक्लाष्टम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तशीतलनाथार्घं ।
श्रावणे शुक्लपक्षे च पूर्णिमाया यजे जिन ।
वसुभूमि गतं कर्मत्यक्त चाष्टगुणाधिकम् ॥
- ओं ह्री श्रावण शुक्लपूर्णिमायां निर्वाणकल्याणकप्राप्तश्रेयोजिनायार्घं ।
शुद्धे भाद्रपदे शुभ्रे चतुर्दश्या सुवासरे ।
सयजे कर्मनाशाय पचमीगतिनायकम् ॥
- ओं ह्री भाद्रपदशुक्लचतुर्दश्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तवासुपूज्यदेवायार्घं ।

- अषाढे श्यामपक्षे च द्यष्टम्यां वसुभूमिगं ।
चर्चेऽहं विमलं देव वसुद्रव्यैर्गुणाप्तये ॥
- ओं ह्रीं आषाढकृष्णाष्टम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तविमलनाथजिनायार्घ ।
चैत्रकृष्णचतुर्थ्या च घात्यघातिविवर्जित ।
वसुभूमिगत देवं यजेऽह वसुद्रव्यकैः ॥
- ओं ह्रीं चैत्रकृष्णचतुर्थ्या निर्वाणकल्याणकप्राप्तानंतनाथदेवायार्घ ।
ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्या धर्मनाथकं ।
वसुकर्मविनाशाय वसुभूमिगतं सदा ॥
- ओं ह्रीं ज्येष्ठशुक्लचतुर्थ्या निर्वाणकल्याणकप्राप्तधर्मनाथजिनायार्घ ।
ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां वसुद्रव्यैर्जिनं यजे ।
वसुकर्मपरित्यक्त वसुभूमिगत यजे ॥
- ओं ह्रीं ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तशांतिनाथायार्घ ।
वैशाखेशुभ्रे प्रतिपदिवसे प्राप्तनिर्वृति ।
यजामि वसुभिर्द्रव्यैः सम्मेदे वै गुणात्मकम् ॥
- ओं ह्रीं वैशाखशुक्लप्रतिपदि निर्वाणकल्याणकप्राप्तकुन्थुनाथायार्घ ।
चैत्रकृष्णे द्यमावश्यामरनाथं चिदात्मकं ।
वसुभूमिगतं द्रव्यैर्यजे वसुगुणाकरम् ॥
- ओं ह्रीं चैत्रकृष्ण अमावस्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तारनाथजिनायार्घ ।
फाल्गुने शुक्लपक्षे च पचम्यां शुद्धवासरे ।
मल्लि मुक्तिगतं चर्चे कर्ममल्लविनाशकम् ॥
- ओं ह्रीं फाल्गुनशुक्लपंचम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तमल्लिनाथायार्घ ।
फाल्गुने कृष्णपक्षे च द्वादश्यां वसुभूमिगं ।
वसुकर्महरं देवं पूजये वसुद्रव्यकैः ॥
- ओं ह्रीं फाल्गुनकृष्णद्वादश्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तमुनिसुव्रतनाथायार्घ ।
वैशाखे कृष्णपक्षे च चतुर्दश्यां नमि जिनं ।
वसुभूमिगतं देव पूजयेऽह गुणात्मकम् ॥
- ओं ह्रीं वैशाखकृष्णचतुर्दश्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तनमिनाथजिनायार्घ ।
आषाढे श्वेतपक्षे च सप्तम्यामूर्जयन्तके ।
वसुकर्मक्षयं कृत्वा वसुभूमिगतं यजे ॥
- ओं ह्रीं आषाढशुक्लसप्तम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तनेमिनाथायार्घ ।

श्रावणे शुक्लपक्षे च सप्तम्या वसुभूगत ।

यजे कर्माष्टहतार पार्श्व वसुगुणात्मकम् ॥

ओं ह्री श्रावणशुक्लसप्तम्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तपार्श्वनाथ देवायार्ध ।

कार्तिके कृष्णपक्षे च ह्यमावश्या शिवास्पद ।

पावापुर्या सुनिर्वाण यजे निर्वृत्यसिद्धये ॥

ओं ह्री कार्तिककृष्णअमावस्यां निर्वाणकल्याणकप्राप्तमहावीर जिनायार्ध ।

इत्यनन्तगुणा नित्य कर्मकायादिदूरगा ।

पुरस्ते अर्चिता ईशा सन्तु सौख्याय जन्मिनाम् ॥

ओं ह्री निर्वाणकल्याणकप्राप्त वृषभादिचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यः पूर्णार्ध स्वाहा ।

जयमाल

नमस्ते पुरुषार्थाना परा काष्ठामधिष्ठित ।

सिद्धभट्टारकस्तोमनिष्ठितार्थ निरञ्जन ॥१॥

स्व प्रदाय नमस्तुभ्य अचलाय नमोऽस्तु ते ।

अक्षयाय नमस्तुभ्य अव्याबाधाय ते नम ॥२॥

नमस्तेऽनतविज्ञानदृष्टिवीर्यसुखास्पद ।

नमो नीरजसे तुभ्य निर्मलायास्तु ते नम ॥३॥

अच्छेदाय नमस्तुभ्य अभेदाय नमो नम ।

अक्षताय नमस्तुभ्य अप्रमेय नमोऽस्तु ते ॥४॥

नमोस्त्वगर्भवासाय नमोऽगोरवलाघव ।

अक्षोभ्याय नमस्तुभ्यमविलीनाय ते नम ॥५॥

नम परमकाष्ठात्मयोगरूपत्वमीयुषे ।

लोकाग्रवासिने तुभ्य नमोऽनतगुणाश्रये ॥६॥

नि शेषपुरुषार्थाना निष्ठा सिद्धमधिष्ठित ।

सिद्धभट्टारकव्रातभूयो भूयो नमोऽस्तु ते ॥७॥

घत्ता - विविधदुरितशुद्धान्सर्वतत्त्वार्थबुद्धान्

परमसुखसमृद्धान्युक्तिशास्त्राविरुद्धान्

बहुविधगुणबुद्धान्सर्वलोकप्रसिद्धान् ।

प्रमितसुनयसिद्धान् सस्तुते सर्वसिद्धान् ॥८॥

ओं ह्री सिद्धपदप्राप्तचतुर्विंशतिजिनेन्द्राय अर्ध निर्वपामीति स्वाहा ।

मोक्षकल्याणक पूजन

(त्रिभंगी)

जय जय तीर्थकर मुक्तिवधुवर भवसागर उद्धार कर,
जय जय परमात्म शुद्ध चिदात्म कर्मकलक निवारकरं ।

जय जय गुणसागर सुखरत्नाकर आत्म मगनता सार लरं,
जय जय निर्वाण पाय सुज्ञान पूजत पग संसार हरं ॥

ओं ह्री मोक्षकल्याणकप्राप्तऋषभादिमहावीरपर्यंतचतुर्विंशतितीर्थकराः अत्र अवतर
अवतर संवौषट् आह्वाननम् ।

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम् ।

(वसंततिलका)

पानी महान भरि शीतल शुद्ध लाऊ । जन्मादि रोग हर कारण भाव ध्याऊं ।
पूजूं सदा चतुर्विंशति सिद्ध काल । पाऊं महान शिवमंगल नाश कालं ॥

ओं ह्रीं मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीर पर्यन्त चतुर्विंशतिजिनेन्द्रम्यो जलं ।

केशर सुमिश्रित सुगन्धित चन्दनादी । आताप सर्व भव नाशन मोह आदी ।
पूजूं सदा चतुर्विंशति सिद्ध काल । पाऊं महान शिवमंगल नाश कालं ॥

ओं ह्रीं मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीर पर्यंत चतुर्विंशतिजिनेन्द्रेम्यो चंदनं ।

चन्दा समान बहु अक्षत धार थाली । अक्षय स्वभाव पाऊं गुण रत्न शाली ।

पूजूं सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालं । पाऊं महान शिवमंगल नाश कालं ॥

ओं ह्रीं मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीर पर्यंत चतुर्विंशतिजिनेन्द्रेम्यो अक्षतं ।

चम्पा गुलाब मरुवा बहु पुष्प लाऊ । दुख टार काम हरके निज भाव पाऊं ।

पूजूं सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालं । पाऊं महान शिवमंगल नाश कालं ॥

ओं ह्रीं मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीरपर्यंतचतुर्विंशतिजिनेन्द्रेम्यो पुष्पं ।

ताजे महान पकवान बनाय धारे । बाधा मिटाय क्षुधा रोग स्वयं सम्हारे ।

पूजूं सदा चतुर्विंशति सिद्ध काल । पाऊं महान शिवमंगल नाश कालं ॥

ओं ह्रीं मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीर पर्यंत चतुर्विंशतिजिनेन्द्रेम्यो नैवेद्यं ।

दीपावली जगमगात अधेर घाती । मोहादि तम विघट जाय भव प्रतापी ।

पूजूं सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालं । पाऊं महान शिवमंगल नाश कालं ॥

ओं ह्रीं मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीर पर्यंत चतुर्विंशतिजिनेन्द्रेम्यो दीपं ।

चन्दन कपूर अगरादि सुगन्ध धूप । वालू जु अष्ट कर्म न हो सिद्ध भूप ।
 पूजूं सदा चतुर्विंशति सिद्ध काल । पाऊ महान शिवमगल नाश काल ॥
 ओं ह्री मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीर पर्यंत चतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो धूपं ।
 मीठे रसाल बादाम पवित्र लाए । जासे महान फल मोक्ष सु आप पाए ॥
 पूजू सदा चतुर्विंशति सिद्ध काल । पाऊ महान शिवमगल नाश काल ॥
 ओ ह्री मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीर पर्यंत चतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो फलं ।
 आठो सु द्रव्य ले हाथ अरघ बनाऊ । ससार वास हरके निज सुख पाऊ ।
 पूजू सदा चतुर्विंशति सिद्ध काल । पाऊ महान शिवमगल नाश काल ॥
 ओं ह्री मोक्षकल्याणकप्राप्तश्रीऋषभादिमहावीरपर्यंत चतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो अर्घं ।

२४ तीर्थकरो की मोक्षकल्याणक तिथि के २४ अर्घ्य

(गीता) चौदश वदी शुभ माघ की, कैलाशगिरि निज ध्याय के ।
 वृषभेष सिद्ध हुए शचीपति, पूजते हित पाय के ॥
 हम धार अर्घ महान पूजा, करे गुण मन लाय के ।
 सब राग दोष मिटाय के, शुद्धात्म मन मे भाय के ॥
 ओं ह्री माघकृष्णाचतुर्दश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीवृषभनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१॥
 शुभ चैत सुदि पाचम दिना, सम्मेद गिरि निज ध्याय के ।
 अजितेश सिद्ध हुए भविकगण, पूजते हित पाय के ॥हम॥
 ओं ह्री चैत्रशुक्लापंचम्यां मोक्षकल्याणप्राप्त श्रीअजितनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥२॥
 शुभ चैत्र सुदि षष्ठी दिना, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 सम्भव निजातम केलि करते, सिद्ध पदवी पाय के ॥हम॥
 ओं ह्री चैत्रशुक्लाषष्ठ्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीसंभवनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥३॥
 वैशाख सुदि षष्ठी दिना, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 अभिनन्दन शिव धाम पहुँचे शुद्ध निज गुण पाय के ॥हम॥
 ओं ह्री वैशाखशुक्ला षष्ठ्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीअभिनन्दनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥४॥
 शुभ चैत सुदि एकादशी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 श्री सुमतिजिन शिव धाम पायो, आठ कर्म नशाय के ॥हम॥
 ओं ह्री चैत्रशुक्ला एकादश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥५॥

शुभ कृष्ण फाल्गुन चतुर्थी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।

श्री पद्मप्रभ निर्वाण पहुँचे, स्वात्म अनुभव पाय के ॥

हम धार अर्घ महान पूजा, करे गुण मन लाय के ।

सब राग दोष मिटाय के, शुद्धात्म मन में भाय के ॥

ओं ह्रीं फाल्गुनकृष्णाचतुर्थी मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अर्घ ॥६॥

शुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।

श्री जिन सुपार्श्व स्वधाम लीयो, स्वकृत आनन्द पायके ॥हम॥

ओं ह्रीं फाल्गुनकृष्णासप्तम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीसुपार्श्वजिनेन्द्राय अर्घ ॥७॥

शुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।

श्री चन्द्रप्रभ निर्वाण पहुँचे, शुद्ध ज्योति जगाय के ॥हम॥

ओं ह्रीं फाल्गुनकृष्णासप्तम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अर्घ ॥८॥

शुभ भाद्र शुक्ला अष्टमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।

श्री पुष्पदंत स्वधाम पायो, स्वात्म गुण झलकाय के ॥हम॥

ओं ह्रीं भाद्रपदशुक्लाअष्टम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय अर्घ ॥९॥

दिन अष्टमी शुभ क्वार सुद, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।

श्रीनाथ शीतल मोक्ष पाए, गुण अनन्त लहाय के ॥हम॥

ओं ह्रीं अश्विनशुक्लाअष्टम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१०॥

दिन पूर्णमासी श्रावणी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।

जिन श्रेयनाथ स्वधाम पहुँचे, आत्मलक्ष्मी पाय के ॥हम॥

ओं ह्रीं श्रावणपूर्णमास्यां श्री मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥११॥

शुभ भाद्र सुद चौदश दिना, मंदारगिरि निज ध्याय के ।

श्री वासुपूज्य स्वथान लीनो, कर्म आठ जलाय के ॥हम॥

ओं ह्रीं भाद्रपदशुक्लाचतुर्दश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय अर्घ ॥१२॥

अषाढ वदि शुभ अष्टमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।

श्री विमल निर्मल धाम लीनो, गुण पवित्र बनाय के ॥हम॥

ओं ह्रीं अषाढकृष्णाअष्टम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१३॥

कृष्णाचतुर्थी चैत्र की, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।

स्वामी अनन्त स्वधाम पायो, गुण अनन्त लखाय के ॥हम॥

ओं ह्रीं चैत्रकृष्णाचतुर्थ्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीअनंतनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१४॥

शुभ ज्येष्ठ शुक्ला चौथ दिन सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 श्री धर्मनाथ स्वधर्मनायक, भये निज गुण पायके ॥
 हम धार अर्घ्य महान पूजा, करे गुण मन लाय के ।
 सब राग दोष मिटाय के, शुद्धात्म मन मे भाय के ॥

ओं ही ज्येष्ठशुक्लाचतुर्थ्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१५॥

शुभ ज्येष्ठकृष्णा चौदसी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 श्री शातिनाथ स्वधाम पहुँचे, परम मार्ग बताय के ॥हम॥

ओं ही ज्येष्ठकृष्णाचतुर्दश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीशातिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१६॥

वैशाख शुक्ला प्रतिपदा, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 श्री कुन्थुनाथ स्वधाम लीनो, परम पद झलकाय के ॥हम॥

ओं ही वैशाखशुक्लाप्रतिपदायां मोक्षकल्याणकप्राप्तकुन्थुनाथजिनेन्द्राय अर्घ ।

अम्मावसी वदि चैत की, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 श्री अरजिनेश स्वस्थान लीनो, अमर लक्ष्मी पाय के ॥हम॥

ओं ही चैत्रकृष्णा अमावस्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्री अरनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१८॥

शुभ शुक्ल फाल्गुन पचमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 श्री मल्लिनाथ स्वस्थान पहुँचे, परम पदवी पाय के ॥हम॥

ओं ही फाल्गुनशुक्लापंचम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त मल्लिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥१९॥

फाल्गुन वदी शुभ द्वादशी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 जिननाथ मुनिसुव्रत पधारे, मोक्ष आनन्द पाय के ॥हम॥

ओं ही फाल्गुनकृष्णाद्वादश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय अर्घ ॥२०॥

वैशाख कृष्णा चौदशी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 नमिनाथ मुक्ति विशाल पाई, सकल कर्म नशाय के ॥हम॥

ओं ही वैशाखकृष्णाचतुर्दश्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥२१॥

अषाढ शुक्ला सप्तमी, गिरनार गिरि निज ध्याय के ।
 श्री नेमिनाथ स्वधाम पहुँचे, अष्टगुण झलकाय के ॥हम॥

ओं ही अषाढशुक्लासप्तम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥२२॥

शुभ श्रावणी सुद सप्तमी, सम्मेदगिरि निज ध्याय के ।
 श्री पार्श्वनाथ स्वस्थान पहुँचे, सिद्धि अनुपम पाय के ॥हम॥

ओं ही श्रावणशुक्लासप्तम्यां मोक्षकल्याणकप्राप्त श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ ॥२३॥

अम्मावसी वद कार्तिकी, पावापुरी त्रिज ध्याय के ।
 श्री वर्द्धमान स्वधाम लीनो, कर्म वंश जलाय के ॥
 हम धार अर्घ्य महान पूजा, करे गुण मन लाय के ।
 सब राग दोष मिटाय के, शुद्धात्म मन मे भाय के ॥

ओं ही कार्तिककृष्णाअमावस्यां मोक्षकल्याणप्राप्त श्री वर्द्धमानजिनेन्द्राय अर्घ ॥२४॥

जयमाल

(भुजंगप्रयात)

नमस्ते नमस्ते नमस्ते जिनन्दा, तुम्ही सिद्ध रूपी हरे कर्म फदा ॥
 तुम्ही ज्ञान सूरज भविक नीरजो को, तुम्ही ध्येय वायु हरो सब रजो को ॥१॥

तुम्ही निष्कलक चिदाकार चिन्मय, तुम्ही अक्षजीत निजाराम तन्मय ।
 तुम्ही लोक ज्ञाता तुम्ही लोकपालं, तुम्ही सर्वदर्शी हता मान कालं ॥२॥

तुम्ही क्षेमकारी तुम्ही योगिराज, तुम्ही शांत ईश्वर कियो आप काज ।
 तुम्ही निर्भय निर्मल वीतमोह, तुम्ही साम्य अमृत पियो वीतद्रोह ॥३॥

तुम्ही भव उदधि पारकर्ता जिनेश, तुम्ही मोह तम के निवारक दिनेश ।
 तुम्ही ज्ञान वीर भरे क्षीर सागर, तुम्ही रत्न गुण के सुगम्भीर आकर ॥४॥

तुम्ही चन्द्रमा निज सुधा के प्रचारक, तुम्ही योगियो के परमप्रेम धारक ।
 तुम्ही ध्यान गोचर सुतीर्थकरो के, तुम्ही पूज्य स्वामी परम गणधरों के ॥५॥

तुम्ही हो अनादी नही जन्म तेरा, तुम्ही हो सदा सत् नही अंत तेरा ।
 तुम्ही सर्वव्यापी परम बोध द्वारा, तुम्ही आत्मव्यापी चिदानंद धारा ॥६॥

तुम्ही हो अनित्य स्व परिणाम द्वारा, तुम्ही हो अभेद अमिट द्रव्य द्वारा ।
 तुम्ही भेदरूप गुणानन्त द्वारा, तुम्ही नास्तिरूप परानन्त द्वारा ॥७॥

तुम्ही निर्विकार अमूरत अखेदं, तुम्ही निष्कषायं तुम्ही जीत वेदं ।
 तुम्ही हो चिदाकार साकार शुद्ध, तुम्ही हो गुणस्थान दूर प्रबुद्ध ॥८॥

तुम्ही हो समयसार निज मे प्रकाशी, तुम्हीं हो स्वचारित्र आतम विकाशी ।
 तुम्ही हो निरास्रव निराहारज्ञानी, तुम्ही निर्जरा बिन परम सुख निधानी ॥९॥

तुम्ही हो अबध तुम्ही हो अमोक्ष, तुम्ही कल्पनातीत हो नित्य मोक्ष ।

तुम्ही हो अवाच्यं तुम्ही हो अचिन्त्य, तुम्ही हो सुवाच्य सुगणराज नित्य ॥१०॥

तुम्ही सिद्धराज तुम्ही मोक्षराज, तुम्ही तीन भू के ऊपर विराज

तुम्ही वीतराग तदपि काज सार, तुम्ही भक्तजन भाव का मल निवार ॥११॥

करे मोक्षकल्याणक भक्त शीने, फुरे भाव शुद्ध यही भाव कीने ।

नमे है जजे है सु आनन्द धारे, शरण मगलोत्तम तुम्हीं को विचारे ॥१२॥

(दोहा)

परम सिद्ध चौबीस जिन, वर्तमान सुखकार ।

पूजत भजत सु भाव से, होय विघ्न निरवार ॥

ओं ह्रीं मोक्षकल्याणकप्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रम्यो अर्धं निर्वपामीति स्वाहा ।


(दोहा)

बिम्बप्रतिष्ठा हो सफल, नरनारी अघ हार ।

वीतराग विज्ञानमय, धर्म बढे अधिकार ॥

इत्याशीर्वादः पुष्पांजलि क्षिपेत् ।

पश्चात् शातिपाठ विर्सजन कर, शाति हवन, शात्याष्टक शातिभक्ति पढ़कर कार्य समाप्त करे ।



गजरथ

गजरथ-परिक्रमा

मंत्र	-	(१) शान्ति मंत्र
यंत्र	-	(१) विनायक यंत्र (२) पूजा यंत्र
भक्तियाँ	-	(१) सिद्ध भक्ति (२) चैत्य भक्ति (३) शान्ति भक्ति
सामग्री	-	(१) पूजन सामग्री (२) सूखे श्रीफल (३) पीली सरसों (४) गुग्गुल - सिंदूर

रथ शुद्धि विधाने

रथ के समीप जाकर मगलाष्टक पाठ पढे पश्चात् दिग्बधन, रक्षामत्र एव शान्ति मत्र पढ़कर समस्त दिशाओ मे पुष्प क्षेपण करना । रथ की प्रासुक जल से शुद्धि करके विनायक सिद्धयत्र को सिंहासन मे विराजमान कर सिद्ध, चैत्य, शान्ति भक्तिया पढ़ना पश्चात् रथ पूजा (चैत्यालय पूजा) करे एव विनायक यत्र एव नवदेवो को अर्घ चढ़ावे ।

रथपूजा (चैत्यालय पूजा)^(१)

उच्चैर्गोपुर राजितेन सुवृत शालेन रम्येण वै
शालामण्डपतोरणान्वितवरश्रीभव्यसधैर्भृत ।
गीतैर्वाद्यनिनादगर्जनिवहै शोभापरमगल
जैनेन्द्र भवन गिरीन्द्रसदृश पश्येत्तत श्रावका ।

ओं ह्रीं जिनचैत्यालयसमूह अत्र अवतर अवतर ।

अत्र तिष्ठतिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्

अष्टक - सुगधशीतलै स्वच्छै स्वादुभिर्विमलैर्जलै
सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।

ओं ह्रीं जिन चैत्यालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

सारकर्पूरकाश्मीरकलितैश्चन्दनद्रवै ।

सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।

ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षतै रक्षतै सूक्ष्मैर्वलक्षै ऋक्षसन्निभै ।

सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।

ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

पुष्पै प्रसरदामोदाहृतपुष्पघयावृतै ।

सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।

ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

हव्यैर्नव्यघृतापूयपायसैर्व्यजनान्वितै ।

सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।

ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

-

(१) श्री प मन्मलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य की हस्त लिखित डायरी से ।

कर्पूर प्रभवैर्दीपै दीप्त्यादीपितदिङ्मुखैः
 सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।
 ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 दशांगघूपसद्घूमैर्दिशाशापूर्णसौरभैः ।
 सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।
 ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 चोचमोचाभ्रजंबीरफलपूरादिसत्फलैः ।
 सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।
 ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जलगंधाक्षतैः पुष्पैः दीपघूपचरुफलैः ।
 सार्धद्वीपद्वयातीतान् भवद्भव्यान् जिनान्यजे ।
 ओं ह्रीं जिनचैत्यालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रत्येक अर्घ

ओं ह्रीं सर्वभवनेन्द्रार्चितसमस्तावृत्रिमचैत्य चैत्यालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्रीं सर्वज्योतिषेन्द्रार्चित समस्तावृत्रिमचैत्यचैत्यालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्रीं सर्वव्यंतरार्चित समस्तावृत्रिम चैत्य चैत्यालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्रीं सर्वकल्पेन्द्रार्चित समस्तावृत्रिम चैत्य चैत्यालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्रीं सर्वाहमिन्द्रार्चित समस्तावृत्रिम चैत्य चैत्यालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ओं ह्रीं सर्व विश्वेन्द्रार्चित समस्तावृत्रिम चैत्य चैत्यालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाल

बहिर्द्वारेततः स्थित्वा नमस्कारपुरस्सरं ।

संस्तुत्याच्छ्रेजिनागारं परमानंदनिर्भरम् ॥१॥

सपदि विजयमारः सुस्थिताचारसारः क्षपितदुरितमारः प्राप्तसद्बोधपारः ।

सुरकृतसुखसारः शंसितः श्रीविहारः परिगतपरपुण्यो जैननाथो मुदेऽस्तु ॥२॥

कुसुमसघनमालाघूपकुम्भा विशालाः चमरयुवतिताना नर्तकी नृत्यगाना ।

कनककलशवेत्तुंगश्रृंगाग्रशाला सुरनरपशुसिंहा यत्र तिष्ठन्ति नित्यम् ॥३॥

श्रीमत्पवित्रमकलकम्पनन्तकल्पस्वायम्भुवसकलमगलमादितीर्थम्
 नित्योत्सवमणिमयनिलयजिनानात्रैलोक्यभूषणमहशरणप्रपद्ये ॥४॥
 जयति सुरनरेन्द्रश्रीसुधानिर्झरिण्याकुलधरणिधरोऽयजैनचैत्याभिराम ।
 प्रविपुलफलधर्माऽनोकहाग्रप्रवालप्रसरशिखरशुभत्वेत्तनश्रीनिवेत्ता ॥
 ओं ह्रीं सर्वजिनचैत्यालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

रथचक्र पूजा

शुद्धेनापिसुगधेनस्वच्छेन बहुलेन च ।
 स्नपयं रथचक्राणां तैलेन प्रकरोम्यहम् ॥

ओं आं क्रौं ह्रीं जिनरथचक्राणां तैलेन स्नपयामि (चाको पर तेल डाले)

सिन्दूर लेपन

सिन्दूरैसरूपाकारैः पीतवर्णं सुसभवै ।
 चर्चनं रथचक्राणां सिन्दूरं प्रकरोम्यहम् ।

ओं आं क्रौं ह्रीं जिनरथचक्राणां स्वस्तिकं करोमि ।

(रथ चक्र पर सिंदूर से स्वस्तिक बनावे)

गुग्गुल मंत्र

भैश्याच्छुग्गुलैः शुद्धैर्धूपश्चापिसुनिर्मलैः ।
 रथाग्रेक्षेपये भक्त्या सर्वविघ्नविनाशनम् ॥

ओं आं क्रौं ह्रीं रथाग्रे अग्नौ गुग्गुलं निक्षेपयामि । (अग्नि में गुग्गुल क्षेपण करें)

ओं आं क्रौं ह्रीं प्रथम विजयमद्रचक्राय पुष्पम्

ओं आं क्रौं ह्रीं द्वितीय भैरवचक्राय पुष्पम्

ओं आं क्रौं ह्रीं तृतीय वीरमद्रचक्राय पुष्पम्

ओं आं क्रौं ह्रीं चतुर्थ अपराजित चक्राय पुष्पम्

तत्पश्चात् रथ के ऊपर के भाग में विधिनायक प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करें । छत्र लगावे और चमर डुरावे अर्घं चढावे ।

पंचपरमेष्ठिनस्ते मंगललोकोत्तमाश्च शरणानि ।

धर्मोपि कर्णिकाया समर्चिता सन्तु न सुखदा ॥

ओं ह्रीं अर्हदादि मंगलोत्तमशरणभूतेभ्यो अर्घं ।

दिग्बंधन मंत्र

ओ क्षां क्षी क्षूं क्षें क्षै क्षों क्षौ क्षं क्षः हूं फट् स्वाहा ।
(समस्त दिशाओ मे पीले सरसों या पुष्प क्षेपण करें)

रथ संचालन मंत्र

यथाकोटिशिलापूर्व चालितासर्वविष्णुभिः ।

चालयामि ततोत्तिष्ठ शीघ्रं चल महारथम् ॥

ओं आंक्रौं ह्रीं असि आ उ सा सर्वोपद्रव निवारय निवारय सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ।

(१) रथ परिक्रमा के समय वृहच्छ्रतिमंत्र और रक्षा मंत्र का पाठ पढता हुआ पुष्प या पीले सरसों को फेकता जाये । परिक्रमा करता हुआ रथ जब पाण्डाल के प्रमुख द्वार अर्थात् मंगल ध्वजा के पास आ जावे तो रथ में विराजमान बिम्ब को प्रत्येक परिक्रमा में अर्घ चढाए ।

(२) सातों परिक्रमा होने के बाद शान्त्यष्टक, शांति भक्ति पढ कर नौ बार णमोकार मंत्र का जाप करे ।

पश्चात् विधिनायक प्रतिमा को रथ से मण्डप में लाना चाहिए ।

(३) मण्डप में ऊँची आसन पर जिन बिम्ब विराजमान कर अभिषेक शांतिधारा करे और चतुर्विंशति पूजा, शांतिपाठ, विसर्जन कर मंगलगान एवं नृत्य करे ।

मंगल कामना (१)

स्वस्तिस्ताज्जिनशासनाय महता पुण्यात्मनां पंक्तये ।

राज्ञे स्वस्ति चतुर्विधाय वृहते सघाय यज्ञाय च ॥

सद्धर्माय सधर्मिणेऽस्तु सुकृता भो वृष्टिरस्तुक्षण

मा भूयाद् शुभवीक्षण शुभयुजा भूयात्पुनर्दर्शनम् ।

समापन के दिन नित्यमहपूजा शांतिपाठ, विसर्जन, वृहच्छ्रति हवन, पुण्याहवाचन, शांतिभक्ति, शान्त्याष्टक, यज्ञविसर्जन यज्ञदीक्षासमापन, आदि क्रियाये करे ।

वेदी पर बिम्ब स्थापन के पूर्व वृहदभिषेक, वृहच्छ्रति धारा एव पूजा करके वेदी प्रतिष्ठा की विधि आगमानुसार करें ।

समस्त प्रतिमाओं की स्थापना करें । प्रतिष्ठा में आई बाहर की प्रतिमायें देने की व्यवस्था करे ।

मण्डल विसर्जन

जगतः शातिविवर्धनमहसा प्रलयमस्तु जिनस्तवनेन मे (ते)
सुवृत्तबुद्धिरलं क्षमयायुतो जिनवृषे हृदये मम (तव) वर्तताम्
मोहध्वान्तविदारणं विशद् विश्वोद्भासि दीप्तिश्रियम् ।
सन्मार्गप्रतिभासकविबुधसन्दोहामृतापादकम् ॥

श्रीपादं जिनचन्द्रशान्तिशरण सद्भक्तिमानेऽपि ते ।

भूयास्तापहरस्य देव भवतो भूयात्पुनर्दर्शनम् ॥

मंगलार्थं समाहूता विसर्ज्याखिलदेवता ।

विसर्जनाख्यमन्त्रेण वितीर्य कुन्सुभाञ्जलि

ओं ह्रीं अस्मिन् बिम्बप्रतिष्ठामहोत्सवे (कर्मणि) आहूयमान देवगणाः स्वस्थानं गच्छन्तु
अपराधक्षमापणं भवतु ।

मंगलध्वज विसर्जन

प्रमादाज्ञानदर्पाद्यै विहितं विहित न यत् ।

जिनेन्द्रास्तु प्रसादास्ते सफल सकल च तत् ॥१॥

अस्मिन्यज्ञे सुराहूताः शिष्टार्हत्प्रभुपूजने

इष्टमस्माकमापाद्य तुष्टा यान्तु यथायथम् ॥२॥

(मंगलध्वज वेदी पर पुष्प क्षेपण करे)

यज्ञ दीक्षा समापन विधि

यज्ञोचित व्रतविशेषवृतोत्थयतिष्ठन् ।

यष्टाप्रतीन्द्रसहित स्वयमे पुरावत् ॥

एतानि तानि भगवज्जिनयज्ञदीक्षा

चिन्हान्यथैष विसृजामि गुरो पदाग्रे ॥

अथार्हत् पूजासमापन करणार्थं पूर्वाचार्यनुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावंदना स्तव
समेतं श्रीमच्छ्रान्तिभक्तित्रयायोत्सर्गं करोम्यहम् ।

(नौ बार णमोकार मत्र पढ़ें)

मुकुट , माला , यज्ञोपवीत , रक्षासूत्र का त्याग करे ।

याजककर्तव्य

नित्यपूजाविधानार्थं स्थापयेन्मदिरे नवे
पुराणे वा तत्र भाण्डागारे सस्थापयेद् धनं
ग्राम हृदुदकेणैव निर्दोषेण विधीयताम्
पूजाकृत्यं सेवकादि पालन साधुतर्पणम्
स्थयात्रां पुरा कृत्वाऽभिषेकमहनीयताम्
संपाद्य सघसद्भक्तिं कुर्वीत याजकोत्तमः ॥

प्रतिमा एवं प्रतिष्ठा फल

अप्यगुष्ठमितामनेन विधिना जैनीं प्रतिष्ठापये
शास्त्रोक्ता प्रतिमा भजन्ति विधिवन्नित्याभिषेकादिभिः
तेऽर्हद्भक्तिदृढानुरंजित धियो भक्त्याशिवाधर
ग्रामण्योभ्युदयावलीरनुभवं त्यात्यन्तिकी निर्वृतिम् ॥

आशीर्वाद

दीर्घायुरस्तु शुभमस्तु सुकीर्तिरस्तु
सद्बुद्धिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु
आरोग्यमस्तु विजयोऽस्तु महोऽस्तु पुत्र -
पौत्रौद्भवोऽस्तु तव सिद्धिपाते प्रसादात्
आयु पुष्टिं करोतु प्रहरतु दुरित मगलाली धिनोतु
सौभाग्य वृद्धिमुच्चैर्नयतु वितरताद्वैभव संचिनोतु
रामा पद्माभिरामा रमयतु सुयशः स्पष्टयित्वा तनोतु
पुत्रं पौत्रं प्रतापं प्रथयतु भवतामार्हतीभक्तिरुच्चैः
श्रिय बुद्धिमनाकृत्यं धर्मेप्रीतिविवर्धता
जिनधर्मे स्थितिर्भूत्वा श्रेयस मे दिशत्वरम् ।

(समस्त पात्रों पर पुष्प क्षेपण करें)

स्वस्ति स्ताज्जिनशासनाय महतां पुण्यात्मनां पत्तये
राज्ञे स्वस्ति चतुर्विधाय वृहते सघाय यज्ञाय च
सद्धर्माय सधर्मिणोऽस्तु सुकृतांभोवृष्टिरस्तु क्षणं
मा भूयादशुभेक्षण शुभयुजा भूयात्पुनर्दर्शनम् ।

श्री जिन चरणाग्रे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

यज्ञदीक्षा समापन स्तुति

जय जय अरिहता सिद्धमहता, आचारज उवझायवर ।
जय साधु महान सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित पालकर ॥

है मंगलकारी भवतपहारी पाप प्रहारी पूज्यवर ।
दीनन निस्तारन सुख विस्तारन, करुणाधारी ज्ञानवर ॥१॥

हम अवसर पाये पूज रचाये करो महोत्सव हर्ष महा ।
बहु पुण्य उपाये पाप धुवाये सुख उपजाये सार महं ॥
जिनगुन कथ पाये भाव बढ़ाये दोष हटाये यश लीना
तन सफल कराया आत्मलखाया दुर्गति कारन हर लीना ॥२॥

निज मति अनुसार बल अनुसारं यज्ञविधान रचाया है ।
सब भूल चूक प्रभु क्षमा करो अब यह अरदास सुनाया है ॥
हम दास तिहारे नाम लेत है इतना भाव बढ़ाया है ।
सच याही से सब कार्य पूर्ण हो यह श्रद्धान जमाया है ॥३॥

तुम गुण का चितन होय निरतर जावत उच्च न हो जावे ।
तुम्हरी पद पूरा करे निरन्तर जावत उच्च न पद पावे ॥
हम पठन तत्त्व अभ्यास रहे नित जावत बोध न सर्व लहें ॥
शुभ सामायिक अरुध्यान आत्म का करत रहे निज तत्त्व गहें ॥४॥

जय जय तीर्थकर गुणरत्नाकर सम्यक्ज्ञान दिवाकर हो ।
जय जय गुण पूरन ओगुन चूरन सशय तिमिर हरन रवि हो ।
जय जय भवसागर तारनकारन तुमही भवि अवलबन हो
जय जय कृत् कृत्य नमे तुम्हे नित तुम सब सकट तारन हो ॥ ५॥

प्रतिष्ठा पात्रों का कर्तव्य है कि वह कल्याणार्थ स्मृति स्वरूप कोई नियम अवश्य
धारण करे । कम से कम प्रतिदिन दर्शन, छनकर पानी पीना एव रात्रि भोजन का
त्याग करना चाहिए ॥

॥ इति शुभम् ॥

अन्य प्रतिष्ठा विधि

- (१) बाहुबली बिम्बप्रतिष्ठा विधि
 - (२) मानस्तम्भप्रतिष्ठा विधि
 - (३) आचार्य बिम्बप्रतिष्ठा विधि
 - (४) उपाध्याय बिम्बप्रतिष्ठा विधि
 - (५) साधु बिम्बप्रतिष्ठा विधि
 - (६) चरण पादुकाप्रतिष्ठा विधि
 - (७) यंत्रों की प्राणप्रतिष्ठा विधि
-

बाहुबली बिम्बप्रतिष्ठा विधि

बाहुबली की प्रतिमा वीतराग रूप पंच परमेष्ठी के अन्तर्गत साधु परमेष्ठी की है। एक वर्ष कठिन तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अर्हन्त परमेष्ठी हुए फिर समस्त कर्मों का अभाव कर सिद्ध परमेष्ठी हो गए। इनकी प्रतिष्ठा जहा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है उसमे तप कल्याणक के समय मातृकान्यास एव संस्कारारोपण से प्रारंभ की जाती है। बाहुबली प्रतिष्ठा मे औपचारिक रूप मे तीन कल्याणक की विधि कर लेते है। जैसे कल्याणक तो तीर्थकरो के ही होते है। भरत ऐरावत क्षेत्र मे उत्पन्न तीर्थकरो के पाच ही कल्याणक होते है कम नही होते, विदेह क्षेत्र मे पाच, तीन, दो, कल्याणक होते है इसलिये बाहुबली बिम्ब प्रतिष्ठा मे मातृकान्यास, संस्कार विधि, तिलकदान, अधिवासना, मुखोद्धाटन, नयनोन्मीलन, प्राण प्रतिष्ठा, सूरिमंत्र केवलज्ञानोत्पत्ति क्रियाये अवश्य ही करना चाहिए।

यदि बाहुबली बिम्ब की प्रतिष्ठा ही करना हो तो मगलाष्टक, पात्रशुद्धि, इन्द्रप्रतिष्ठा, दिग्बंधन, रक्षामंत्र, शान्ति मंत्राराधन करे पश्चात् सवा लाख या इक्कीस हजार जाप शान्ति मंत्र का करे।

वृहच्छान्ति मंत्र

णमोअरिहंताणं, णमोसिद्धाणं, णमो आइरियाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सब्ब साहूणं, अथवा

ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

जाप्यानुष्ठान किसी एक मंत्र द्वारा करे।

घटयात्रा विधि से यज्ञवेदी शुद्धि एव मण्डपशुद्धि करके जिनबिम्ब की स्थापना, यागमण्डल का माडना बनाकर विधान पूजा करे एव पंचकल्याणस्तोत्र, सिद्ध, आचार्य, चारित्र, योगि, शांतिभक्तिपढ़े। सर्वविधि जलसे "ओं क्षीरसमुद्रवारि पूरितेन मणिमय मंगल कलशेन बाहुबली प्रतिवृत्ति स्नपयामः" इस मंत्र से प्रतिमा का अभिषेक कर शुद्धि करे।

पश्चात् मातृकान्यास, संस्कार विधि, तिलकदान, मंत्रन्यास अधिवासना, मुखोद्धाटन, नयनोन्मीलन, प्राणप्रतिष्ठा, सूरिमंत्र, केवलज्ञानोत्पत्ति आदि मंत्रों का १०८ बार जाप करके इन्ही मंत्रों से क्रिया करे फिर शान्ति हवन शांति पाठ विसर्जन कर प्रतिष्ठा कार्य पूर्ण करे।

मानस्तम्भप्रतिष्ठा

मंगलाष्टक, दिग्बंधन, रक्षामंत्र, शांति मंत्राराधन, सकलीकरण इन्द्र प्रतिष्ठा करके विनायक यंत्र की पूजा करें पश्चात् शांति मंत्र का सवा लाख, इक्यावन हजार या इक्तीस हजार जाप कराना ।

मंगलध्वजारोहण करके मध्याह्न घटयात्रा करके वेदी प्रतिष्ठा में लिखे ८१ कलशों से मानस्तम्भ की शुद्धि करना चाहिए । तदनन्तर - ओं हां हीं हूं हौं हः अमृतं वर्षय वर्षय जिनेन्द्र मानस्तम्भस्य स्नपनं करोमि । इस मंत्र द्वारा शुद्धि करके निम्न संस्कार करें (१)

आयात भो वायुकुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसराप्तसेवाः

यज्ञांशमभ्येतसुगंधिशीत मृदात्मना शोधयस्तम्भभूमिम् ।

भो वायुकुमार सर्वविघ्न विनाशनाय मानस्तम्भ शुद्धिं कुरु कुरु फट् स्वाहा ।

(शुद्ध वस्त्र से मार्जन करें)

आयात भो मेघकुमारदेवाः प्रभोर्विहारावसराप्तसेवाः ।

गृहणीत यज्ञांशमुदीर्ण शम्या गन्धोदकैः प्रोक्षत स्तम्भभूमिम् ॥

भो मेघकुमार मानस्तम्भ धरां प्रक्षालय प्रक्षालय अं हं सं वं इं हं यः क्षः फट् स्वाहा

(मान स्तम्भ के ऊपर जल से छींटे लगावें)

आयात भो बह्निकुमारदेवाः आधानविध्यादिविधेयसेवाः ।

भजध्वमिज्यांशमिमां मखोर्वी ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥

भो अग्निकुमार मानस्तम्भभूमिं ज्वलय ज्वलय अं हं सं वं इं ठं यः क्षः फट् स्वाहा

(कपूर जलाकर मानस्तम्भ की शुद्धि करें ।)

उद्भात भो षष्टिसहस्र नागाः क्षमाकामचारस्फुटवीर्यदर्पाः ।

प्रतृप्यतानेन जिनाध्वरोर्वी सेकात्सुधागर्वमृजामृतेन ॥

भो षष्टि सहस्र नागाः मानस्तम्भ रक्षां कुरुत कुरुत स्वाहा ।

(मानस्तम्भ के ईशान कोण में पुष्प क्षेपण करें)

विशेष - (१) मातृकामंत्र की १०८ बार जाप करना चाहिए

(२) पंच कल्याण स्त्रोत, सिद्धि, श्रुत, आचार्य, चैत्य, चारित्रभक्ति पढ़ना चाहिए ।

(३) प्रतिमा के नीचे अचल यंत्र रखें । यदि यंत्र न हो तो केशर से लिखें ।

(४) स्वस्तिक, पंचरत्न, पारद उस स्थान पर रखें जहां बिम्ब स्थापन करना है ।

मत्र पठेत् जपं पद्मपीठेगन्धेन तल्लिखेत् ।

पञ्चरत्नमत्र क्षिप्त्वा प्रतिमां स्थापयेत्तत् ॥^(१)

ओं ह्रीं विम्ब स्थापनार्थं पञ्चरत्नं, स्वस्तिकं च स्थापयामि ।

वेद्यां पारद क्षिप्त्वा श्रीखण्डं कुक्कुम् तथा ।

प्रथमं स्थापयेद् गर्भे कोणे वेद्या जिनस्य च ॥^(२)

ओं ह्रीं वेद्या कोणे पारदं स्थापयामिः

मातृका मंत्र

ओं नमोऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः कखगघङ्ग, चछजझञ्ज,
टठ डढण, तथदधन, पफबभम, यरलव, शषसह वली ह्रीं क्रौं स्वाहा ।

(१०८ बार जाप करना)

अचलयंत्र स्थापन (३)

संस्थाप्यं निश्चलं यन्त्रमधस्तात् प्रतिमा नयेत्

लेखनं स्वर्णलेखन्या यत्र तस्य धरार्पितम् ।

ओं ह्रीं जिनविम्ब स्थापनार्थं अचल यन्त्रं स्थापयामि

(प्रतिमा के नीचे अचल यत्र स्थापित करें)

निर्मितं वीतरागस्य रत्न पाषाण धातुभिः ।

निराकारं च सिद्धाना विम्ब संस्थापये मुदा ॥

ओं ह्रीं अर्हत् सिद्ध प्रतिमा स्थापनं करोमि

(प्रतिमा विराजमान करें)

अष्ट प्रातिहार्य स्थापना (४)

वनस्पतित्वेऽपि गतप्रशोकोऽशोको बभूवाति मदप्रसून ।

अनेक सदृशकशोकहारी वृक्षो जिनेन्द्राश्रयणप्रभावात् ॥

ओं ह्रीं अशोकवृक्ष प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

श्रेयस्तरुः फलति नोऽमरसौख्यमुच्चैर्हर्षोत्सुकत्वपरिलम्बनसन्निषेण ।

देवैः वृक्षा सुमनसा परिवृष्टिरेषा मोद ददातु भव दुःखजुषा जनानाम् ॥

ओं ह्रीं देववृक्ष पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥

(१) (२) हस्तलिखित डायरी प. मङ्गलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य

(४) आ ज. से. प्रतिष्ठा पाठ श्लोक ८७७ से ८८२

- त्रैलोक्य वस्तु मनंत स्मरणावबोधो येन स्वयं श्रवणगोचरतां गतेन ।
सञ्जायते मुखरदौष्टविघातशून्यो भूयाद् ध्वनिर्भव गदप्रसरार्ति हर्ता ॥
ओं ह्रीं दिव्यध्वनि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥
- यक्षेशपाणि लतिकांकुर संगतानि तुर्याधिषष्टिगणनान्यपि देवनद्याः ।
वीचिप्रमाणि भवतो द्विकपार्श्व योस्ते सच्चामराण्यघचयं मम निर्दलन्तु ॥
ओं ह्रीं चतुः षष्टिचामरप्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥
- सिंहासने छविरियं जिनदेवतायाः केषां मनोऽवधृतपाप्महरी न वा स्यात् ।
स्याद्वादसंस्कृतपदार्थगुणप्रकाशाऽस्या मेस्तु निर्हत मदाविलजातशक्तेः ॥
ओं ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥
- भामण्डलेऽवयव पृष्ठ विभागरश्मि क्लृप्तेजनस्य भवसप्तक दर्शनेन ।
श्रद्धानमाप्तगुरुधर्मपरम्पराणां गाढं भवेत्तदित देवपतिर्नमस्यः ॥
ओं ह्रीं भामण्डल प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥
- देवस्य मोह विजयं परिशंसितुं द्राक् देवाः स्वहस्त तलतः परिवादयन्ति ।
वाद्यानि मंगल निवास कराणि सद्यो मिथ्यात्व मोह जयिनः शुभगानि च स्युः ॥
ओं ह्रीं दुन्दुभिप्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥७॥
- छत्रत्रयं जिनप मूर्धनिभासमानं त्रैलोक्यराज्य पतितामभिदर्शयद्वा ।
सोमार्कखट्तिप्रतिमं सितपीतरक्तरत्नादि रञ्जित मिदं मम मंगलाय ॥
ओं ह्रीं छत्रत्रय प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥
- तालातपत्रचमरध्वजसुप्रतीक भृंगार दर्पणघटाः प्रतिवीथिचारं
सन्मंगलानिपुरतोविलसांतियस्य पादारविदमुगलंशिरसा -
ओं अष्टमंगलद्रव्य सम्पन्नायजिनायार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

वन्दनमाला (९)

वन्दन मालिका बध्या मणिमुक्तादिनिर्मिता ।
वेदिकायां (मानस्तम्भे) परं रम्या किंकिण्याकिविभूषिता ॥
ओं वन्दनमालां बध्नामि स्वस्ति भवतु (वन्दनमाला बांधे)

मान स्तम्भ पूजा (९)

मानस्तम्भ विनतमनसा सेन्द्र सङ्घेन वन्द्य
रत्नज्योतिर्निचयनिचित श्रृगसस्पृष्ट मेघम् ।

मूलस्थानैर्जिनपतिचयैर्भ्राजमान समन्तात्
शुम्भन्त त जिनपतिगृहप्राग्रभूमौ नमाम् ॥

ओं ह्री जिन मन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भ जिनेन्द्र अत्रावतर अवतर संवोषट् ।
ओं ह्री जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ ठः ठः
ओं ह्री जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव
वषट् ।

अष्टकम्

गांगेय नीरेण समुज्ज्वलेन कुम्भस्थितेनेह समर्चयामि ।

उत्तुग श्रृगेण विशोभमान स्तम्भान्तमानं सुरमह्यमानम् ॥

ओं ह्री जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

सौगन्ध्यसतोषित भृगसघै पाटीर पुञ्जै परिपूजयामि ।

उत्तुग श्रृगेण विशोभमान स्तम्भान्तमान सुर मह्यमानम् ॥

ओं ह्री जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

शाल्यक्षतैश्चन्द्रकरावदातै सुगन्धवद्भि परिपूजयामि ।

उत्तुग श्रृगेण विशोभमान स्तम्भान्तमान सुरमह्यमानम् ॥

ओं ह्री जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

मनोहरै रम्यसुगन्धयुक्तै पुष्पत्रजैस्त्र समर्चयामि ।

उत्तुग श्रृगेण विशोभमान स्तम्भान्तमान सुरमह्यमानम् ॥

ओं ह्री जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

नैवेद्यवृन्देन मनोहरेण सुस्वादु नार्चामि रसाप्लुतेन ।

उत्तुग श्रृगेण विशोभमान स्तम्भान्तमान सुरमह्यमानम् ॥

ओं ह्री जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

- दीपैः प्रभा पूरितदिव्समूहै रर्चामि नित्यं नयनाभिरामैः ।
 उत्तुंग शृंगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुरमह्यमानम् ॥
 ओं ह्रीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 धूपेन गन्धाहृतषट्पदेन प्रार्चामि बह्निप्रहुतेन भक्त्या ।
 उत्तुंग शृंगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुरमह्यमानम् ॥
 ओं ह्रीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 फलैरसालैर्विविधप्रकारैरर्चामि सुस्वादुरसैरजस्रम् ।
 उत्तुंग शृंगेण विशोभमान स्तम्भान्तमानं सुरमह्यमानम् ॥
 ओं ह्रीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जलादि जातेन महोज्ज्वलेन ह्यर्घेण नित्यं परिपूजयामि ।
 उत्तुंग शृंगेण विशोभमानं स्तम्भान्तमानं सुरमह्यमानम् ॥
 ओं ह्रीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्घावली

- पूर्वदिक्स्थं जिनं रम्यं प्रार्चाम्यर्घेण भक्तितः ।
 नीरादिनिर्मितेनाद्य मानिमानापहानये ॥१॥
 ओं ह्रीं मानस्तम्भे पूर्व दिक् स्थिताय जिनबिम्बायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 आवाच्यां दिशिशुम्भन्तं जिनंशान्ति करं नृणाम् ।
 जलादिद्रव्यजातेन ह्यर्घेणार्चामि सन्ततम् ॥२॥
 ओं ह्रीं मानस्तम्भे दक्षिण दिक् स्थिताय जिनबिम्बायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 प्रतीच्यां स्थापितं बिम्बं जैनं जन्मापहारकम्
 प्रार्चाम्यर्घेण भक्त्याह साष्टद्रव्यमयेन वै ॥३॥
 ओं ह्रीं मानस्तम्भे पश्चिम दिक् स्थिताय जिनबिम्बायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 उदीच्यां दिशि राजन्तं राजन्तं विविधैर्गुणैः
 जलाद्यर्घेण भक्त्याहं पूजयामि जिनेश्वरम् ॥४॥
 ओं ह्रीं मानस्तम्भे उत्तर दिक् स्थिताय जिनबिम्बायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला (मालनी)

समवसरणभूमौसस्थित य विलोक्य भवति झटिति मानी मानमुक्तोघरायाम् ।
इह जगति स मानस्तम्भनाम्ना प्रसिद्ध प्रभवतु जिनराजप्रोक्तधर्मप्रभावी ॥१॥

पद्वडी-

जयसमवसरण विभ्राजमान, जय जिनपति मूर्ति विराजमान ।

जय मानि मर्त्यमानापहार, जय शक्र शतक वृत्त नमस्कार ॥२॥

काष्ठा चतुष्टये यस्य सन्ति, वाप्यस्ता या नीरैर्लसन्ति ।

यासु स्नात्वाह्यग्रे व्रजन्ति, भव्या भक्ता दुरित हरन्ति ॥३॥

जय धर्म प्रभावन करणशूर, जयमान तमो हरणैक सूर ।

जय कर्म कक्ष दहनैक दाव, जयवैर दूर करणस्वभाव ॥४॥

जय जन्मजात वैरापहार, जयद्वरी वृत्त निखिलापकार ।

जय सुर नर किन्नर वन्द्यमान, जयमुनिवर गण परिनन्द्यमान ॥५॥

जयमानस्तम्भ महोपकार, जय वृत्त तम जिन धर्मप्रसार ।

जय मन्दिर पुरो विराजमान, जयमहता महसा भ्राजमान ॥६॥

घत्ता-

हे धर्म प्रभावक शुभ सुखदायक विनत सुरासुर नायक हे ।

त्व विलस सदाभुवि कीर्तिघर त्व विलस सदा भुविमानहर ॥७॥

ओं ह्रीं जिनमन्दिराग्रे विराजमान मानस्तम्भजिनायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

मानस्तम्भ पूजा (हिन्दी) (१)

- गीतिका -** मान स्तम्भ मे जिन चतुर्दिश है महाशुभसोहना,
जिन लखत मान पलात गानिन होत हिय निर्मोहना ।
तिस मूल माहि जिनेश प्रतिमा लखे आनंद हो घना,
करके आह्वानन थाप पूजो लहें शिव सुख सोहना ॥१॥
- दोहा -** मानस्तम्भ के मूल मे प्रतिमा श्री भगवान ।
कर आह्वानन जोर कर तिष्ठ तिष्ठ इत आना ॥२॥
- ओं ही मानस्तम्भ चतुर्दिक्षु स्थित जिनेन्द्र अत्रावतरावतर संवीषट् ।**
ओं हीं मानस्तम्भ चतुर्दिक्षु स्थित जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।
ओं हीं मानस्तम्भ चतुर्दिक्षु स्थित जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।
- योगीरासा -** कवन झारी उज्ज्वल जल ले श्री जिन चरण चढाऊं,
भाव सहित श्री जिनवर पूजों जनम जनम सुख पाऊं ।
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊं,
पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊं ॥
- ओं हीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।**
कुम्कुम् केशर सरस सुवासी उत्तम लेकर धारो,
भव आताप विनासन कारण श्री जिन चरण पखारो ।
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊं,
पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊं ॥
- ओं हीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।**
मुक्ताफल उनहार सु तन्दुल काति चन्द्र सम धारें,
पुज करो जिनवर पद आगे अक्षय पद विस्तारे ।
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारों दिश जिन पाऊं,
पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊं ॥
- ओं हीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।**
नाना बिध के पुष्प सुगधित भ्रमर गुजारत जापे,
पूजत श्री जिन चरण मनोहर काम न आवे तापे ।
मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊं,
पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊं ॥
- ओं हीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।**

फेनी घेवर तुरत सु घी के लाडू गोझा लावे,
 क्षुधा रोग निरवारन कारन श्री जिनचरण चढावे ।
 मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ,
 पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥
ओ ह्रीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 मणिमय दीप अमोलक लेकर कनक रकावी धरिये,
 मोह अध के नाशन कारण जगमग ज्योति उजरिये ।
 मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ,
 पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥
ओं ह्रीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 धूप सुगन्ध समूह अनूपम खेय अगनि मे डालो,
 आष्ट कर्म ये दुष्ट भयानक इनको तुरतहि जालो ।
 मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ,
 पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥
ओं ह्रीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 श्रीफल लोग लायची सुन्दर पिस्ता जाति घनेरा,
 पूज जिनेश्वर शिवफल पइये स्वर्गादिक सुख केरा ।
 मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ,
 पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥
ओं ह्रीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 आठ द्रव्य मिल अर्घ सजोयो पूजो श्री जिनभाई,
 भव सागर से पार उतारो जय जय जय जिनराई ।
 मानस्तम्भ सोहनो सुन्दर चारो दिश जिन पाऊ,
 पूजत हर्ष होत भविजीवन सुर शिव लक्ष्मी पाऊ ॥
ओं ह्रीं चतुर्दिक् मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

दोहा - मानस्तम्भ सुहावनो चारो दिश जिन थान ।
 सुरनर मुनि खग हर्षयुत पूजे आनन्द ठान ॥१॥

पद्धरि- जय जय जय मानस्तम्भ सार, शोभित नीचे चौकोर धार ।
 जय ऊपर गोलाकार जान, जय अति उत्तुंग दैदीप्यमान ॥२॥

जय ऊपर महा अति-जगमगात, जयवज्रमयी नीचे सुहात ।
 जयलसै स्फटिकमय बीचमान, वैडूर्य मणि सम ऊर्ध्वजान ॥३॥

जय तापर कमल बनें स्वरूप, जय तापर है कलशा अनूप ।
 जय दण्ड ध्वजा तापर सुहात, जय जगमग जगमग लहलहात ॥४॥

जय घंटा छत्र सु चमरजान, जयबँधी रतनमाला प्रमाण ।
 जय नाना मणिमय शोमकार, राजत सो मानस्तम्भसार ॥५॥

ता मूल सु चारों दिश निहार, जिन प्रतिमा सो है परम सार ।
 सुरगण पूजत जय जय उचार, कर नृत्य ताल स्वर को सम्हार ॥६॥

सननं सननं बाजे सितार, घननं घननं घन घंट धार ।
 द्रम द्रम द्रम द्रम बाजत नृदंग, कर ताल तबल अरुमूह चंग ॥७॥

छम छम छम छम नूपुर बजाय, क्षण भूमि क्षणक आकाश जाय ।
 तहां नाचत मधवा आप जान, तिहि शोभा को वरणें महान ॥८॥

इम नृत्य गान उत्सव महान, पूजनकर सुरपति हरष ठान ।
 जय पंच रतन मय अतिसुरंग, जय मानस्तम्भ दिपै अमंग ॥९॥

जय मानी जन सब मान छेड़, देखत नाचत शिर हाथ जोड़ ।
 जय ताते मानस्तम्भ नाम, सार्थक कीन्हों शोभाभिराम ॥१०॥

जय ऐसो मानस्तम्भ सार, सोहे चारों दिश जिन निहार ।
 जिनराज विभव देखत जु सार, महिमा वरनत पावे न पार ॥११॥

दोहा- श्री जिन मान स्तम्भ की गुणनाला सुविशाल ।

जो नर पहिरे कण्ठ नें सुर शिव पावे हाल ॥१२॥

ओं ह्रीं चतुर्दिक् स्थित मानस्तम्भ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पश्चात् शान्ति भक्ति एवं शांति पाठ पढ़कर पूजा का कार्य समाप्त करें । तदन्तर शांतिहवन एवम् पुण्याह वाचन करके शान्त्यष्टक, शांति भक्ति, यज्ञ दीक्षा समापन शांति पाठ विसर्जन करके कार्य समाप्त करें।

इति मानस्तम्भ प्रतिष्ठा

आचार्य बिम्बप्रतिष्ठा विधि

पीछी और कमडलु सहित पद्मासन या खड़गासन दिगम्बर (नग्न) रूप में आचार्य का प्रतिबिम्ब होना चाहिए ।

कम से कम ११००० (ग्यारह हजार) जाप आवश्यक है -

ओं ह्रां हीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा नमः सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा”

ओं ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा”

दोनों मंत्र में से एक का जाप कराना चाहिए ।

मगलाष्टक, दिग्बधन, अगारक्षा, शान्ति मंत्राराधन पूर्वक पात्रशुद्धि (सकलीकरण) इन्द्रप्रतिष्ठा, मण्डप प्रतिष्ठा, आदि क्रिया आवश्यक है ।

मण्डप में यागमण्डल विधान का मण्डल इस प्रकार बनाना चाहिए

प्रथम वलय में ॐ, द्वितीय वलय में १७, तृतीय वलय में ३६, चतुर्थ वलय में ४८ (ऋद्धिया) इस प्रकार १०१ अर्घ से यागमण्डल पूजा करें।

घटयात्रा करके यज्ञवेदी की शुद्धि करें और वेदी पर अर्हन्त भगवान की प्रतिमा विराजमान करें । प्रथम अभिषेक नित्य मह पूजा करें फिर यागमण्डल पूजा करना चाहिए। पश्चात् पीठिका आदि मंत्रों द्वारा हवन करके शांति मंत्र की १०८ आहुति करें । पचकल्याणस्तोत्र, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, तीर्थकर भक्ति, योगि भक्ति, समाधि भक्ति, चारित्र भक्ति पढ़ें ।

प्रथम दिन - मंगल ध्वजा स्थापन, घटयात्रा, यज्ञस्थलशुद्धि, जिनबिम्ब स्थापन, कलश एवं दीपक स्थापन और अभिषेक पूजा करें ।

द्वितीय दिन - प्रातः सकलीकरण, इन्द्र प्रतिष्ठा, नित्यमह अभिषेक पूजा, मध्याह्न याग मण्डल विधानपूजा ।

तृतीय दिन - अभिषेक, नित्यमह पूजा, आचार्य प्रतिबिम्ब का अभिषेक, मातृकान्यास, मंत्रन्यास, अधिवासना, नेत्रोन्मीलन, मुखोद्घाटन आदि विधि, पूजा विधि, शान्ति हवन, समाधि भक्ति, शान्ति भक्ति, विसर्जन ।

आचार्य प्रतिबिम्ब का अभिषेक -

स्नपन पीठ पर विराजमान कर पांच आचार के रूप में पांच कलशों से अभिषेक करना चाहिए।

“ओं ह्रीं आचार्य प्रतिकृतिं स्नपयामि”

इस मंत्र द्वारा इन्द्र अभिषेक करे । पश्चात् प्रक्षालन कर मातृका मंत्र का १०८ बार जाप करे तदनंतर स्वर्णशलाका से अंकन्यास करे ।

मंत्रन्यास (१)

ओं अं नमः ललाटे	ओं आं नमः मुखवृते
ओं इं नमः दक्षिण नेत्रे	ओं ईं नमः वामनेत्रे
ओं उं नमः दक्षिण कर्णे	ओं ऊं नमः वामकर्णे
ओ ऋं नमः दक्षिण नासि	ओं ऋं नमः वामनासि
ओं लृं नमः दक्षिण गण्डे	ओं लृं नमः वामगण्डे
ओं एं नमः अधः ओष्ठे	ओं ऐं नमः उर्ध्वओष्ठे
ओं औं नमः अधो दन्ते	ओं औं नमः उर्ध्वदन्ते
ओं अं नमः मूर्ध्नि	ओं अः नमः जिह्वाग्रे
ओं कं नमः दक्षिणबाहुदण्डे	ओं खं नमः दक्षबाहुमध्यसंधौ
ओं गं नमः दक्षिणबाहुनाडीसंधौ	ओं घं नमः दक्षहरतांगुलिसंधौ
ओं ङं नमः दक्षिणकराग्रे	
ओं चं नमः वामबाहुदण्डे	ओं छं नमः वामबाहुमध्यसंधौ
ओं जं नमः वामहरतनाडीसंधौ	ओं झं नमः हरतांगुलिसंधौ
ओं ञं नमः वामहरताग्रे	
ओं टं नमः दक्षिणपाद मूले (जंघा)	ओं ठं नमः दक्षिण पाद मूले (जंघा)
ओं डं नमः दक्षिणपाद गुल्फे	ओं ढं नमः दक्षिण पाद गुल्फे
ओं णं नमः दक्षिणपदाग्रे	
ओं तं नमः वामपाद मूले (जंघा)	ओं थं नमः वामपाद मूले (जंघा)
ओं दं नमः वामपाद गुल्फे	ओं धं नमः वामपाद गुल्फे
ओं नं नमः वामपदाग्रे	
ओं पं फं नमः दक्षिणपार्श्वदिकुक्ष्यंतं,	ओं बं भं नमः वामपार्श्वदिकुक्ष्यंतं
ओं मं नमः उदरे	ओं यं नमः हृदि
ओं रं नमः दक्षरक्षेत्रे	ओं लं नमः ग्रीवायां
ओं वं नमः वामरक्षेत्रे	ओं शं नमः हृदादिदक्षकरे
ओं षं नमः हृदादिवामकरे	ओं सं नमः हृदादिदक्षपादे
ओं हं नमः हृदादिवामपादे	ओं क्षं नमः हृदादिजठरे

नोट - तप कल्याणकमे ४४३ पेज पर गणधर देव स्तवन है। उसको पढना चाहिए। तदनतर महर्षि पर्युपासन पढे।

महर्षिपर्युपासन (१)

औषधी रसबलद्धिं तपस्था क्षेत्रबुद्धिकलिता क्रिययाद्या ।
विक्रियद्धिमहिता प्रणिधानप्राप्तससृतितटामुनिपूज्या ॥१॥

वेन्वलावधिमन प्रसराङ्गा बीजकोष्ठमतिभाजनशुद्धा ।
वीतरागमदमत्सरभावा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥२॥

यद्धचोऽमृतमहानदमग्ना जन्मदाहपरितापमपास्य ।
निर्ववु सुखसमाजतटेषु बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥३॥

श्रोतृभिन्नमतय पदपथा दृष्टससृतिपदार्थविभावा ।
तत्त्वसङ्कलितधर्म्यसुशुक्ला बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥४॥

स्पर्शनश्रवणलोकनबुद्धा घ्राणसस्थरसनोपकृता ये ।
दूरतोऽप्यनुभव हि समाप्ता बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥५॥

छिन्न स्वर्ग विधिना चतुर्दशदिक्सुपूर्वमतिनानिमित्तगा ।
वादिबुद्धिकृतिनो मतिश्रमा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥६॥

अष्ट धोक्तदशधाभिदयाये बुद्धिवृद्धिसहिता शिवयात्रा ।
विष्मलादिगदहापनदेहा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥७॥

दृष्टवक्त्रमनसा विषभक्तिग्रीणिता श्रुतसरित्पतिपुष्टा ।
लोकमङ्गलिषु स न्यसिता ये बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥८॥

वाक्यमानसबलेन समग्राउग्रदीप्ततपसस्त्रिकगुप्ता ।
घोरवीर्यगुणभावितचित्ता बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥९॥

दुग्धमध्वमृतभोजन कृत्वा सर्पिरासविवचोऽभिनियुक्ता ।
अण्वलाघववशित्वविदर्भा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥१०॥

कामरूपगुरु ता प्रतिसर्पान्तर्द्ध्य हीनवसतिग्रहयुक्ता ।
चारणाजलफलाग्निकसूत्रा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥११॥

आत्मशक्तिविभागतसर्वपौद्गलीयममताश्चुतवस्त्रा ।
सत्परीषहभटार्दनदास्ते बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥१२॥

ओं ह्रीं अष्ट प्रकारसकलत्र्यद्विप्राप्त मुनिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पूजा (१)

ये येऽनगारा ऋषयो यतीन्द्रा मुनीश्वरा भव्यभवद् व्यतीताः ।

तेषा समेषा पदपकजानि सपूजयामो गुणशीलसिद्धये ॥

ओं ह्री सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र पवित्रतरगात्र चतुरशीतिलक्षगुणगणधर चरणा
आगच्छत आगच्छत संवौषट् ।

ओं ह्री सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र पवित्रतरगात्र चतुरशीतिलक्षगुणगणधर चरणा अत्र
तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः ।

ओं ह्री सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र पवित्रतरगात्र चतुरशीतिलक्षगुणगणधर चरणा मम
रत्नत्रयशुद्धि कुरुत कुरुत अत्र मम सन्निहितो भवत भवत वषट् ।

सुगधिशीतलै स्वच्छे स्वादुभिर्विमलैर्जलै ।

सार्धद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।

ओं ह्री गणधरचरणेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

सारकर्पूरकाश्मीरकलितैश्चन्दनद्रवै ।

सार्धद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।

ओं ह्री गणधरचरणेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षतैरक्षतै सूक्ष्मैर्वलक्षैर्त्रक्षसन्निभै

सार्धद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।

ओं ह्री गणधरचरणेभ्यो अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

पुष्पै प्रसरदामोदाहतपुष्पघयावृतै

सार्धद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।

ओं ह्री गणधरचरणेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

हृद्यैर्नव्यघृतापूपपायसव्यजनान्वितै

सार्धद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।

ओ ह्री गणधर चरणेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

कर्पूरप्रभवैर्दीपैर्दीप्त्या दीपितदिङ्मुखै

सार्धद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।

ओ ह्री गणधरचरणेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

दशागधूपसद्भूमैर्दशाशापूर्णसौरभै

सार्धद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।

ओं ह्री गणधरचरणेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

चोचमोचाम्रजबीरफलपूगादिसत्फलै
सार्धद्वीपद्वयातीतभवद्भव्ययतीन्यजे ।

ओं ह्रीं गणधरचरणेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

गुणमणिगणसिन्धुन्भव्यलोकैकबन्धुन्
प्रकटितनिजमार्गान्ध्वस्तमिथ्यात्वमार्गान्
परिचितनिजतत्त्वान्पालिताशेषसत्वान्
शमरसजितचन्द्रानर्घ्ययामो मुनीन्द्रान्

ओं ह्रीं गणधरचरणेभ्यः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्तवन^(१)

ये सर्वतीर्थप्रभवा गणेन्द्राः सप्तर्द्धयो ज्ञानचतुष्टयाद्भ्या ।

तेषां पदाब्जानि जगद्धिताना वचो मनो मूर्धसु धारयाम ॥१॥

तपो बलाक्षीणरसौषधर्द्धीन् विज्ञानत्रद्धीनपि विक्रियर्द्धीन् ।

सप्तर्द्धियुक्तानखिलानृषीन्द्रान्स्मरामि वन्दे प्रणमामि नित्यम् ॥२॥

सर्वेषु तीर्थेषु तदन्तरेषु सप्तर्षयो ये महिता बभूवुः ।

भवाद्बुधे पारमिता कृतार्था भवन्तु नस्ते मुनयः प्रसन्नाः ॥३॥

ये केवलीन्द्राः श्रुतकेवलीन्द्राः ये शिक्षकास्तुर्यतृतीयबोधार् ।

स विक्रिया ये वरवादिनश्च सप्तर्षिसंज्ञानिह तान्प्रवन्दे ॥४॥

प्रमत्तमुख्येषु पदेषु सार्धद्वीपद्वये ये युगपद्भवन्ति ।

उत्कर्षतस्तान्नवकोटिसख्यान्वन्दे त्रिसख्यारहितान्मुनीन्द्रान् ॥५॥

(यह पदकर आचार्य प्रतिबिम्ब का स्पर्शकर पुष्पाजलि देवों) तत्पश्चात् भक्तियों पदकर प्रतिमा पर पुष्पो द्वारा अधिवासनादिकी की क्रिया करें ।

१ प्रतिमा पर पुष्प क्षेपण कर पंचाचार स्थापित करें

ओं हूं दर्शनाचारगुणभूषिताय आचार्याय नमः ।

ओं हूं ज्ञानाचारगुणभूषिताय आचार्याय नमः ।

ओं हूं चारित्राचारगुणभूषिताय आचार्याय नमः ।

ओं हूं तपाचार गुण भूषिताय आचार्याय नमः ।

ओं हूं वीर्याचार गुण भूषिताय आचार्याय नमः ।

१ तिलक दान विधि

ओ हूं णमो आइरियाणं धर्माचार्याधिपतये नमः ।

स्वर्ण शलाका से केशर लेकर नाभि मे हूं लिखे ।

ओ हूं णमो आइरियाणं मुखवस्त्रं ददामि - पर्दा लगाकर क्रिया करें ।

(२) अधिवासना

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् अत्र एहि एहि संवौषट् ।

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

(अष्ट द्रव्य चढावे)

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् जलं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

ओ हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् चन्दनं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् अक्षतं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

ओ हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् नैवेद्यं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

ओ हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् दीपं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् धूपं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् फलं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य परमेष्ठिन् अर्घं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

(निम्न मंत्र का १०८ बार जाप करे)

ओं हूं णमो आइरियाणं धर्माचार्याधिपतये नमः ।

३ मुखोद्घाटन विधि

ओं हूं णमो आइरियाणं आचार्य मुखवस्त्रं अपनयामि । (परदा अलग कर दे)

४ नयनोन्मीलन विधि

नीचे लिखे मंत्र का १०८ बार जाप करना

ओं हूं आचार्य प्रबुद्ध स्वधातृ जन मनांसि पुनीहि पुनीहि स्वाहा ।

(इसी मंत्र को पढकर स्वर्ण शलाका से केशर लेकर नयनोन्मीलन की क्रिया करे)

आचार्य-पूजा

गीताछन्द - मुनिराज आचारज बड़े शिवमार्ग को दर्शावते
जो पालते आचार को वह अन्य को पलवावते ।
जो जैन आगम तत्त्व जाने स्व पर भेद लखावते
निज आत्म मे रमते सदा निज ध्यान सम्यक् भावते ॥

ओं हूं श्री आचार्य परमेष्ठिन् अत्र अवतर अवतर संवौषट् ।
ओं हूं श्री आचार्य परमेष्ठिन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ः ः ।
ओ हूं श्री आचार्य परमेष्ठिन् अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

चालछन्द - भरि सलिल महाशुचिझारी, दे तीन धार हितकारी ।
पद आचारज सुखकारी, पूजत त्रय रोग निवारी ॥
ओंहूंआचार्यपरमेष्ठिनेजन्मजरा मृत्युविनाशनायजलंनिर्वपामीतिस्वाहा ।
चन्दन घिस केशर लाऊ, मन मे बहु चाव धराऊ ।
आचारज है गुण दाई, पूजत भव ताप मिटाई ॥ चन्दनम्
अक्षत ले दीर्घ अखण्डे, उज्ज्वल शशि सम दुतिमण्डे ।
गुरुपाद जजो मनलाई, अक्षय पद हो सुख दाई ॥ अक्षतम्
ले फूल सुवर्ण सुहाई, बहु गध युत सुखदाई ।
गुरुपूज काम दुखदाई, भयभीत होय नशजाई ॥ पुष्पम्
ताजे पकवान बनाऊ, आदर युत गुरुढिग लाऊ ।
पूजत क्षुद रोग समाऊ, अमृत निज ले सुख पाऊ ॥ नैवेद्यम्
ले दीपक तम हरतारा, बहु ज्योति प्रगट कर तारा ।
गुरुपाद पूज्य सुख पाऊ, भ्रमतम सब तुर्त नशाऊ ॥ दीपम्
बहु धूप सुगधित लाऊ, धूपायन माहि खिवाऊ ।
आचारज जग हितकारी, जल जाय कर्म दुखकारी ॥ धूपम्
बहु दाख बदाम छुहारा, पिस्ता अखरोट सम्हारा ।
गुरुपाद जजे हित पावे, शिव वनिता को परिणावे ॥ फलम्
शुचि द्रव्य जु आठ मिलाऊ, करि अर्घ महा सुख पाऊ ।
गुरुचरनन शीश नवाऊ, जासे सब दोष मिटाऊ ॥ अर्घम्

जयमाला (सृग्विणी छन्द)

जय कृपा कन्द आनद रूपीसदा, आत्मगुण वेदते हैं न तृष्णा कदा ।

धन्य आचार्य है साधु रक्षा करें, बोध दे दण्ड दे तत्त्व शिक्षा करे ॥१॥

सात तत्त्वार्थ को श्रद्धते भाव से, तत्त्व शुद्धात्म को चाहते चाव से ।

दर्शनाचार में लीन सुख पावते, अन्य को बोध ते दर्श झलकावते ॥२॥

शास्त्र को जानते ज्ञान उपजावते, सप्तभगी सुनय तत्त्व को साधते ।

मोह मिथ्यात्व के हेतु को टालते, बोध दे ज्ञान को लोक विस्तारते ॥३॥

व्रत महापालते गुप्त उर धारते, पच समितीन को ध्यान से पालते ।

आत्म मे लीन हो ध्यान दृढ धारते, सत्य आचार को लोक विस्तारते ॥४॥

तपमहां द्वादश पालते भावसे, अनशन आदि को धारते चाव से ।

सेव कर साधुजन मान को टालते, भव्य को मार्ग तप मे सदा लावते ॥५॥

वीर्य को गुप्ति रखते नही है यती, कार्य उत्साह से चूकते नहि रती ।

आत्मशक्ति को दिन दिन अधिक पालते, अन्य को बोध दे वीर्य विस्तारते ॥६॥

पंच आचार ये पालते भाव से, अन्य साधुन को बोधते चाव से ।

निश्चय आत्मरस पीवते प्रेम से, धन्य आचार्य है चालते नेम से ॥७॥

ओं हूं श्री आचार्य परमेष्ठिने जयमालार्थ निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा - जो पूजे आचार्य को मन एकाग्र कराय ।

सो पावे निज निधि सही भव सागर तिर जाय ॥इत्याशीर्वादः॥

फिर आचार्य भक्ति पढ के श्लोक पढ़कर चारो ओर पुष्प क्षेपें

प्राज्यं साम्राज्यमस्तु स्थिरमिह सुतरां जायतां दीर्घमायु

भूयादभूयांश्चभोगैः सुजन परिजनैस्तात्सदारोग्यमग्रम् ।

कीर्ति व्याप्ताखिलाशा प्रभवतु भवतान्निः प्रतीपः प्रतापः

क्षिप्रं स्वर्मोक्ष लक्ष्मी भवतु तनुमृतां धर्म सूरिप्रसादात् ॥

तदन्तर शांति भक्ति पढें ।

पूजा विसर्जन पश्चात् शान्ति हवन मे पीठिका आदि यंत्रों से हवन करके जाप मंत्र की दशांश आहुति, पुण्याहवाचन, शात्याष्टक, शांति भक्ति, शांति पाठ, विसर्जन कर आचार्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा पूर्ण करें ।

उपाध्याय बिम्बप्रतिष्ठा विधि

उपाध्याय बिम्ब मुनिराजसमान पीछे कमण्डलु सहित हो। हाथ में या अग्रभाग में शास्त्र होना चाहिए। प्रतिष्ठा विधि आचार्य प्रतिष्ठा के समान है, मंगलाष्टक, दिग्बधन अंगरक्षा, शान्ति मंत्राराधन कर पात्रशुद्धि, इन्द्र प्रतिष्ठा, मण्डप प्रतिष्ठा आदि आवश्यक क्रियाये करे।

यागमण्डल विधान माडना इस प्रकार बनाना चाहिए। बीच में 'ॐ' बनाना फिर १७ कोठे का बलय फिर २५ कोठा का फिर ४८ कोठा का बलय बनावे फिर यागमण्डल पूजा करे।

पचकल्याणस्तोत्र, सिद्ध, आचार्य, चारित्र, तीर्थकर, योगि, समाधि भक्ति पढ़े। अन्य विधि आचार्य बिम्ब प्रतिष्ठा के अनुसार करे। उपाध्याय बिम्ब का अभिषेक चार कलशों द्वारा करावे १ प्रथमानुयोग २ करणानुयोग ३ चरणानुयोग ४ द्रव्यानुयोग रूप में चार कलश लेना और इस मंत्र से अभिषेक करना।

'ओं ह्री उपाध्याय प्रतिकृतिं स्नपयामि' प्रक्षालन कर मातृका मंत्र का १०८ बार जाप करे फिर स्वर्ण शलाका से अकन्यास करे।

मातृका मंत्र

ओ नमोऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अं अः कखगघङ्ग, चछजझञ्ज, टठ डढण, तथदधन, पफबभम, यरलव शषसह व्ली ह्री क्रौ स्वाहा
(१०८ बार जाप करे)

तिलक दान विधि

ओं ह्री णमो उवज्झायाणं पाटकायनमः
(१०८ बार जाप करे)

चारित्र भक्ति पढ़े और ऊपर का मंत्र पढ़ता हुआ स्वर्ण शलाका से नाभि में "ह्री" लिखे।

ओ ह्री णमो उवज्झायाणं मुखवरत्रं ददामि
(पर्दा लगाकर क्रिया करे।)

अधिवासना विधि

ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् अत्र एहि एहि संवौषट् ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् मम सन्निहितो भव भव वषट् ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् जलं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् चन्दनं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् अक्षतं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् नैवेद्यं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् दीपं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् धूपं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् फलं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय परमेष्ठिन् अर्घं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

मुखोद्घाटन

ओं ह्रीं णमो उवज्झायाणं उपाध्याय मुखवरत्रं अपनयामि । (पर्दा अलग करें)

नयनोन्मीलन

ओं ह्रीं उपाध्याय प्रबुद्धरवधातृजन मनांसि पुनीहि पुनीहि स्वाहा ।
 (१०८ बार जाप करे)

फिर इसी मंत्र द्वारा केशर को स्वर्ण शलाका से लेकर नयनोन्मीलन की क्रिया करें ।

उपाध्याय - पूजा

गीतका छन्द- मुनिराज पाठक तत्त्वज्ञानी तत्त्व शिक्षा देत हैं,
 बहु शिष्य पढत जिनागम अज्ञान तम हरलेत हैं ।
 अनुयोग चारो जानते अध्यात्म विद्या नाथ है,
 चारित्र साधु सुपालते बहु साधु रहते साथ है ॥

ओं ह्रीं उपाध्याय परमेष्ठिन् अत्र अवतर अवतर, तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

अष्टक (छन्दमालिनी)

समरस समचोखा ल्याय पानी सुसार, सुवरण झारी ले भवगद सर्व टार ।

कर शुचि मनपूजू पाठकं तत्त्वधारी, नशत सब कुबोध होय आनंदभारी ।

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

बहु सुरभिधराई चन्दनं लायनीके, भवताप बुझाई अमृतं शान्त पीके ।

कर शुचि मन पूजू पाठक तत्त्वधारी, नशत सब कुबोध होय आनद भारी ॥

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

कर मे अक्षत ले दीर्घ अतिश्वेत वर्ण, अखय गुण प्रचारी सर्व सन्देह हर्ण ।

कर शुचिमन पूजू पाठक तत्त्वधारी नशत सब कुबोध होय आनंद भारी ॥

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुमन सुगधित ले पचधा वर्णधारी दुख काम मिटावे शीलधर्म प्रचारी ।

कर शुचिमन पूजू पाठक तत्त्वधारी, नशत सब कुबोध होय आनद भारी ॥

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

चरुकरके ताजे शुद्ध मुनि अग्रधारु क्षुधरोग नशाऊ तृप्तता गुण सम्हारु ।

कर शुचिमन पूजू पाठकं तत्त्वधारी, नशत सब कुबोध होय आनद भारी ॥

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

करदीप सजोऊ अघकार नशाई, मममोह तिमिर सब एक क्षण मे पलाई ।

कर शुचिमन पूजू पाठक तत्त्वधारी, नशत सब कुबोध होय आनद भारी ॥

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

बहु सुरभि धराई धूप अग्नि जलाई, मम आठ कर्म सब भस्म हो साधु ध्याई ।

कर शुचिमन पूजू पाठक तत्त्वधारी, नशत सब कुबोध होय आनद भारी ॥

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

ले शुचि फल नीके दाख बादाम पिस्ता, जासे शिव फल हो नाश ससार रस्ता ।

कर शुचिमन पूजू पाठक तत्त्वधारी, नशत सब कुबोधं होय आनद भारी ॥

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

ले ले अठ द्रव्य शुद्ध अर्घ बनाऊ, अठकर्म नशा के अष्टगुण सार पाऊ ।

कर शुचिमन पूजू पाठकं तत्त्वधारी, नशत सब कुबोध होय आनंद भारी ॥

ओं हौं उपाध्याय परमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाल (भुजंगप्रयात छन्द)

गुणानन्द धारी उपाध्याय प्यारे, सुसाधुचरित्र धरे निर्विकारे ।

परम साम्यधारी सभी दोषटारी, रतनत्रय सम्हारी निजातम विचारी ॥१॥

एकादश सुअंगं पढ़ें तत्त्व जानें, चतुर्दश सुपूरव लखें सत् पिछनें ।

सकल श्रुत विचारे परम ज्ञानधारी, लखें आत्म को निश्चयं निर्विकारी ॥२॥

चतुर्बीस तीर्थकरों के चरित्र, सुचक्री सुबलदेव जीवन पवित्रं ।

हरी प्रतिहरी वृत्त को जानते हैं, सु अनुयोग प्रथम जु पहिचानते हैं ॥३॥

त्रिलोक लखे सर्व रचना पिछनें, गुणस्थान मार्गण करम भेद जानें ।

करण सूत्र से सर्व गिनती लखानें, सु अनुयोग करणं भलीभाति मानें ॥४॥

यती का सु आचार सब भेद पाया, गृहीभेद चारित एकादश बताया ।

क्रियाकाण्ड व्यवहार को जानते हैं, सुचरणानुयोगं सकल मानते हैं ॥५॥

पदारथ नवम तत्त्व शुभ सात ज्ञानी, छहो द्रव्य पंचास्तिकाय पिछनी ।

भली भाति आतम परमतन्वमानें, सुद्रव्यानुयोग सकल भेद जानें ॥६॥

अनेकांत वस्तु सु स्याद्वाद ठाने, तिसे जान समता हृदय मांहि आने ।

नही है विरोध नही कोई खेद, परम तत्त्व जानें लखें सर्व भेदं ॥७॥

दयासागरं पाठकं भक्ति करनी, पढावें यती सीख संसार तरणी ।

नही खेद मानें परम हर्ष ठानें, सकल ज्ञान दे आप सम साधु आनें ॥८॥

नमूं पाद सुखदाय उवज्झायजी के, लहूं ज्ञान सुन्दर करुकर्म फीके ।

सु छ्रया गुरुकी परम रक्षिका है, जजू मन लगाई परम दक्षिका है ॥९॥ अर्घ

सोरठा - पाठक पूजूं पाय पाठ पठन पटुता कबै

गुन गाऊ नितगाय, मगल हो अघ सब नशै ॥१०॥ इत्याशीर्वादः

प्राज्यं साम्राज्यमस्तु स्थिरमिह सुतरा जायतां दीर्घमायु -

भूयाद् भूयाश्च भोगाः स्वजनपरिजनैस्तात्सदारोग्यमग्रम् ।

कीर्तिर्व्याप्ताखिलाशा प्रभवतु भवतान्निः प्रतीपः प्रतापः ।

क्षिप्रं स्वर्मोक्षलक्ष्मीर्भवतु तनुभृतां पाठकेन्द्रप्रसादात् ॥ (पुष्प क्षेपण करें)

पूजा के पश्चात् शान्ति हवन विधि करना पीठिका आदि मंत्रों से आहुति कर जप मंत्र की दशांश आहुति करें । फिर पुण्याह वाचन शान्ति भक्ति शान्ति पाठ विसर्जन करें।

साधु बिम्बप्रतिष्ठा विधि

पीछी कमण्डलु सहित ध्यानमुद्रा मय साधु का बिम्ब बनावे ।

प्रतिष्ठा विधि आचार्य एव उपाध्याय की प्रतिष्ठा के समान साधु बिम्ब की करे । मगलाष्टक, दिग्बधन, अंगरक्षा शांतिमंत्राराधन कर पात्रशुद्धि, इन्द्रप्रतिष्ठा यज्ञवेदीशुद्धि, मण्डप प्रतिष्ठा आदि आवश्यक क्रियाये करे ।

यागमण्डल विधानका माडना इस प्रकार बनावे । बीच मे ॐ बनाकर फिर १७ कोठे का वलय फिर २८ कोठे अन्त मे ४८ कोठे का वलय बनावे और यागमण्डल विधान की पूजा करे ।

पचकल्याणस्तोत्र, सिद्धभक्ति, आचार्यभक्ति, चारित्रभक्ति, तीर्थकर, योगिभक्ति समाधि भक्ति पाठ करना चाहिए । साधु बिम्ब का अभिषेक रत्नत्रय स्वरूप तीन कलशो से करना ।

“ओं ह्री साधु प्रतिकृति स्नपयामि”

इस मंत्र से अभिषेक करे फिर प्रक्षालन कर मातृका मंत्र का १०८ बार जाप करे और आचार्य प्रतिष्ठा विधि अनुसार प्रतिबिम्ब पर अकन्यास करे ।

मंत्र - ओं नमोऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः कखगघङ्ग, चछजझञ्ज, टठ डढण, तथदधन, पफबभम, यरलव, शषसह क्ली ह्री क्रौ स्वाहा (१०८ बार जाप करे ।)

मंत्रन्यास

ओं ह्रः सम्यग्दर्शन भूषिताय साधवे नमः, ओ ह्रः सम्यग्ज्ञान भूषिताय साधवे नमः, ओं ह्रः सम्यग्चारित्र भूषिताय साधवे नमः ।

प्रत्येक मंत्र के साथ पुष्प क्षेपण कर गुण स्थापित करे ।

तिलकदान

ओ ह्रः णमो लोए सब्बसाहूणं साधवे नमः ।

(१०८ बार जाप करे)

तत्पश्चात् स्वर्ण शलाका से केशर द्वारा नाभि मे “ह्रः” लिखे ।

ओ ह्रः णमो लोए सब्बसाहूणं मुखवस्त्रं ददामि ।

पर्दा लगाकर क्रिया करे ।

अधिवासना

- ओ ह्रः णमोलोए सव्वसाहूणं साधुपरमेष्ठिन् अत्रएहि एहि संवौषट् ।
 अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् जलं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् चन्दनं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् अक्षतं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओ ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् पुष्पं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् नैवेद्यं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् दीपं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् धूपं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओ ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् फलं गृहाण गृहाण स्वाहा ।
 ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधु परमेष्ठिन् अर्घं गृहाण गृहाण स्वाहा ।

नयनोन्मीलन

ओं ह्रः साधु प्रबुद्धस्वधातृजनमनांसि पुनीहि पुनीहि स्वाहा ।

(१०८ बार जाप करे)

इसीमंत्र द्वारा केशर से स्वर्णशलाका द्वारा नयनोन्मीलन की क्रिया करे ।

ओं ह्रः णमो लोए सव्वसाहूणं साधुपरमेष्ठिन् मुखवस्त्रं अपनयामि ।

(परदा अलग कर देवे)

साधु - परमेष्ठी पूजा (१)

गीतकाछन्द- मुनिराज है गुण धाम जग मे मोक्ष मारग साधते,
 त्रयरत्नधारी निज विचारी ज्ञान आसन मांडते ।

तप करत द्वादश भेद अनुपम सहत है उपसर्ग को,
 तिन चरण पूजूं थाप उर में लहू मै अपवर्ग को ॥

ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिन् अत्र अवतर अवतर, तिष्ठ तिष्ठ, सन्निधिकरण ।

अष्टक (बंसततिलकाछन्द)

पानी महान अति शीतल कुम्भ धारा, धारा सुदेत मृत जन्म जरा निवारा ।
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भावकीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसु कर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

केन्धार मिलाय शुभचन्दन अग्रधारु आतापभव शमन थाप स्वगुण सम्हारु ।
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

चन्दा समान अतिश्वेत सुगन्ध अक्षत, धारुसुथाल पाऊ गुण सार अक्षत
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

नीरज गुलाब बेला चपा सुहाई, बहु पुष्पधार निज काम व्यथा नशाई ।
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

ताजे पवित्र पकवान सुल्यायथारी, जासे मिटाय क्षुद्ररोग स्वकाज हारी ।
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपक जलाय घृतसार कपूर लाऊ, मम मोह सर्व अधियार तुरत मिटाऊ
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूपादि खेय शुचि अग्नि धुआ प्रसारा, आठो महान मलकर्म जलाय डारा ।
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

पिस्ताबदाम अखरोट सुफल धराये, जासे सुमोक्ष फल आप नजीक आये
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल चन्दनादि वसु द्रव्य मिलाय थारी, ससार पार झट होय स्वगुण विचारी ।
पूजू मुनीन्द्र चरणा शुचि भाव कीने, पाऊ निजात्म सुखदा वसुकर्म हीने ॥
ओं ह्रः श्रीसाधु परमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाल (त्रोटक छन्द)

जय साधु सदागुण वास नमो, अनगार सुसत्य सुवास नमों ।
भव सागर तारनपोत नमो, निज मे धारत निजजोति नमों ॥१॥

जय सप्त तत्त्व रुचिकार नमों, आपा पर भेद विचारनमों ।
निज आत्म सुश्रद्धाकारनमो, सम्यग्दर्शन अधिकार नमों ॥२॥

जय निज आगम बुधधार नमों, ज्ञायक निश्चय व्यवहार नमों ।
निज आत्म पदारथ ज्ञान नमों, धारे नित सम्यग्ज्ञान नमो ॥३॥

जय पच महाव्रत धार नमो, समिती गुप्ती प्रतिपाल नमों ।
निज साम्य भाव झलकाय नमो, सम्यक् चारित उर धार नमों ॥४॥

निज आत्म समाधि प्रकाश नमो, सब इन्द्रिय आश निराश नमों ।
चहु दुष्ट कषाय विनाश नमो, निज शांत भाव हुल्लास नमों ॥५॥

जय साधु सु साधत आत्मबली, जय साधु सु अनुभव सार रली ।
जय साधु परम उपकारी है, सयम सामायिक धारी हैं ॥६॥

ओं ह्रः साधुपरमेष्ठिने जयमालार्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा- वन्दत साधु महन्त को, पूजत गुण अविकार,
निजानद पावे सुधी, खुलजावे शिवद्वार । इत्याशीर्वादः ।
प्राज्यं साम्राज्यमस्तु स्थिरमिह सुतरां जायतां दीर्घमायुः,
भूयाद्भूयांश्च भोगा स्वजनपरिजनैस्तात्सदारोग्यमग्रम् ।
कीर्तिर्व्याप्ताखिलाशा प्रभवतु भवतान्निः प्रतीपः प्रतापः,
क्षिप्रं स्वर्मोक्षलक्ष्मीर्भवतु तनुभृतां सर्वसाधुप्रसादात् ॥

यह पढ़कर सर्वत्र पुष्प क्षेपण करे । पश्चात् शांति हवन करे जप मंत्र की आहुति
पुण्याहवाचन शान्ति भक्ति शांतिपाठ विसर्जन करके प्रतिष्ठा विधि समाप्त करें ।

चरणपादुका प्रतिष्ठाविधि

जहाँ तीर्थकरो के पचकल्याणक होते हैं वहाँ जिनबिम्ब अथवा चरणचिन्ह स्थापित किए जाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा हेतु मगलाष्टक, सकलीकरण, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शान्तिमंत्राराधन कर इन्द्र प्रतिष्ठा आदि क्रिया करे। जिनालय या मण्डप में जहाँ प्रतिष्ठा करना हो उस स्थान की शुद्धि करे। शान्ति मंत्र का ग्यारह हजार जाप करे। यागमण्डल से १७ वलय वाली पूजा करे। शान्तिहवन, पुण्याहवाचन, भक्तियों आदि करना चाहिए। चरणपादुका का अभिषेक करे। फिर १०८ बार णमोकार मंत्र का जाप करे।

ओं ह्री श्रीमन्तं भगवन्तं कृमालुसन्तं श्री वृषभादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थकर परमदेवं मध्यलोके जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे.....प्रान्ते स्थाने (नगरे) मन्दिरे वीरनिर्वाणसंवत्सरे मासानामुत्तमेमासे मासेपक्षे ... पुण्यतिथौ वासरे चरणपादुकां स्थापनं करोमि ।

(या तप स्थाने, ज्ञान स्थाने, निर्वाण स्थाने, स्थापन करोमि) फिर अर्हन्त के चरणो पर ओ ह्रा, आचार्य के चरणो पर ओ ह्रू, उपाध्याय के चरणो पर ओ ह्रौ तथा साधु के चरणो पर ओ ह्रः लिखकर १०८ बार जाप्य करे तत्पश्चात् सिद्ध, आचार्य, निर्वाण भक्तिया पढ़े। जिन तीर्थकर की चरणपादुका हो उन तीर्थकर की पूजा और यदि आचार्य, उपाध्याय एव साधु की चरण पादुका हो तो उनकी प्रतिष्ठा उन ही जैसी विधि अनुसार करे। पश्चात् हवन शान्ति पाठ विसर्जन क्रिया करके कार्य समाप्त करें।

तदनन्तर हवन शान्त्यष्टक शान्ति भक्ति करके विसर्जन कर कार्य समाप्त करे।

यंत्रों की प्राणप्रतिष्ठा (१)

मगलाष्टक, दिग्बंधन, रक्षामंत्र एव शान्तिमंत्राराधन करके सिद्धभक्ति पढ़ें ।

पश्चात् जिन यंत्रों की प्रतिष्ठा करना हो उन्हें सर्वोषधि के जल से शुद्ध कर निम्न मंत्र पढ़ कर केशर लगाना चाहिए ।

ओं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय स्वाहा ।

फिर जल से अभिषेक करें (अभिषेक मंत्र)

ओं ह्रीं अर्ह श्री जिनाय परमजिनाय नमः यंत्रं स्नपयामि

(२१ बार मंत्रोच्चारण कर जल की धारा देवे)

शान्तिधारा मंत्र

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं, चत्तारि मंगलं - अरिहंतामंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवल्लि पण्णत्तो धम्मो मंगलं, चत्तारिलोगुत्तमा - अरिहंतालोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहूलोगुत्तमा, केवल्लिपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमो, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि - अरिहंतेसरणं पव्वज्जामि, सिद्धेसरणं पव्वज्जामि, साहूसरणं पव्वज्जामि केवल्लिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि । शान्तिरस्तु, शिवमस्तु, जयोऽस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां सुखमस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु ओं ह्रीं श्री क्ली सर्व शान्तिर्भवतु, शान्तिर्भवतु, शान्तिर्भवतु ।

ओं परमहंसाय नमः हं सः हं सः हं हं हें हें ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं असिआउसा

सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यो नमः । (यह मंत्र १९ बार पढते हुए पुष्प क्षेपण करना)

प्राणप्रतिष्ठा मंत्र

ओं आं क्रौं ह्रीं अ सि आ उ सा अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह आयुष्यप्राणाः अमुष्य जीवाः इह स्थितोः अमुष्य यंत्रं मंत्रं तंत्रस्य सर्वेन्द्रियाणि काय वाङ् मनश्चक्षुर्भ्रौत्रघ्राण प्राणाः (यंत्र का नाम) इहैवायन्तु, अत्र सुखं चिरं तिष्ठन्तु ।

पश्चात् ९ बार णमोकार मंत्र पढ़ें ।

इस प्रकार शुद्धि करके यंत्रों की पूजा (अगले पेज से) करके उपयोग में लाना चाहिये ।

यंत्रपूजा

करोमि विघ्नौघविनाशहेतु, आवाहन स्थापनसन्निधान ।

यंत्रस्य पूजा विघ्नयोघ सर्वे, रक्षाभिधानस्य मनो मुहूर्त ॥

ओं हां ही हूं हौं ह्रः अ सि आ उ सा हूं फट् रक्षय रक्षय यंत्रस्य अत्र एहि एहि
संवौषट् आह्वाननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठः स्थापनं, अत्र मम सन्निहितो भव
भव वषट् सन्निधीकरणं ।

श्री मत्कनत्काचननिर्मितोरु, भृगारनालाद्वलितै पयोभि ।

यत्रस्य विघ्नौघसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजा ॥

ओं हां ही हूं हौं ह्रः अ सि आ उ सा अहं नमः। ओं ह्री भगवते ह्र्स्व्यू क्षी इत्रौ
यंत्राधिपतये चोरारिमरि शाकिनी प्रभृति घोरोपसर्गदुष्ट ग्रहराक्षस-भूतप्रेत-पिशाचादीन्
अपनय अपनय सर्वरोगापमृत्यु विनाशाय फट् आयुष्ये वर्धय वर्धय देवदत्तस्य सर्वरक्षां
वुरूवुरूलक्ष्मी प्रभावोदितं तुष्टि तुष्टि आयुरारोग्य क्षेमकल्याण विभव वितरणोपेत-
वरप्रसाद-सद्धर्म-वृद्धयर्थ सिद्धयर्थ शान्त्यर्थ यंत्रराजाय.....(यंत्र का
नाम) जलं समर्पयामि स्वाहा ।

प्रक्षीणपक्वैर्वरसारसारै, सौरभ्यसप्रीणितविश्वलोकैः ।

यंत्रस्य विघ्नौघसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजा ॥

ओं हां ही हूं हौं ह्रः.....यंत्रराजाय.....चन्दनं समर्पयामि स्वाहा ।

शाल्यक्षतै क्षीरपयोभिपेन्नपिण्डौपमै रक्षत मुक्तलक्ष्म्यै ।

यत्रस्य विघ्नौघसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजा ॥

ओ हां ही हूं हौं ह्रः.....यंत्रराजाय.....अक्षतं समर्पयामि स्वाहा ।

मदारजातीवकुलादिमुक्त-कुन्दादिपुष्पै सुरभीवृक्षाशै ।

यंत्रस्य विघ्नौघमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजा ॥

ओं हां ही हूं हौं ह्रः.....यंत्रराजाय.....पुष्पं समर्पयामि स्वाहा ।

शाल्यन्नपक्वान्नसमस्तशाकैः क्षीरान्नयुक्तैश्चरुभिर्विचित्रै ।

यंत्रस्य विघ्नौघमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजा ॥

ओं हां ही हूं हौं ह्रः.....यंत्रराजाय.....नैवेद्यं समर्पयामि स्वाहा ।

कर्पूरदीपज्वलितैः प्रदीपैः निश्शेषताशेषदिगंधकारैः ।

यंत्रस्य विघ्नौघसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां ॥

ओं हां हीं हूं ह्रीं ह्रः.....यंत्रराजाय.....दीपं समर्पयामि स्वाहा ।

पापौघपूर्णैः घनधूपधूपैः धूमैः सुकालांगरुचंदनीधैः ।

यंत्रस्य विघ्नौघमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां ॥

ओं हां हीं हूं ह्रीं ह्रः.....यंत्रराजाय.....धूपं समर्पयामि स्वाहा ।

नारंगपूगाम्रसुमातुलिगकज्जारमोच्यादिफलैर्मनोज्ञैः ।

यंत्रस्य विघ्नौघमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां ॥


ओं हां हीं हूं ह्रीं ह्रः.....यंत्रराजाय.....फलं समर्पयामि स्वाहा ।

शीतांबु-गंधाक्षतपुष्पमुख्यैः द्रव्यैः कृत्तं चार्घ्यमिदं ददेऽहम् ।

यंत्रस्य विघ्नौघशमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां ॥

ओं हां हीं हूं ह्रीं ह्रः.....यंत्रराजाय.....अर्घं समर्पयामि स्वाहा ।

तत्पश्चात् शांति भक्ति पढकर कार्य समाप्त करें ।



वेदीप्रतिष्ठा

- मंत्रः - (१) शान्ति मंत्र
 (२) अचल मंत्र
- मण्डलः - (१) याग मण्डल
 (२) चौबीस तीर्थकर मण्डल
 (३) पंच परमेष्ठी मण्डल
- यंत्रः - (१) विनायक यंत्र
 (२) अचल यंत्र
- भक्तियोंः - (१) सिद्ध भक्ति
 (२) श्रुत भक्ति
 (३) आचार्य भक्ति
 (४) चैत्य भक्ति
 (५) चारित्र्य भक्ति
 (६) शान्ति भक्ति

नोटः नवीनमंदिर, वेदी प्रतिष्ठा, मानस्तम्भ प्रतिष्ठा एवं कलशारोहण में याग मण्डल विधान होगा तथा यागमण्डल का मांडना ही बनेगा ।

वृहद् वेदीप्रतिष्ठा एवं बिम्बस्थापन विधि

प्रस्तावना (९)

शुद्ध शुद्धात्म सद्भाव सिद्ध सज्ञान दर्शनम् ।
सिद्ध शुद्ध प्रमाणाप्ति निरस्त पर दर्शनम् ॥१॥

विश्वकर्मारिं लोकस्य विश्वकर्मोपदेशक ।
विश्वकर्म क्षयार्थिभ्यो विश्व कर्मक्षयप्रदम् ॥२॥

आदिदेवं जिन नौमि विश्वकर्म जय प्रभु ।
शेषांश्च वर्धमानान्त जिनान् प्रवचनगुरुन् ॥३॥

आचारादि गुणाधारो रागद्वेष विवर्जित ।
पक्षपातोञ्जित शान्त साधुवर्गा ग्रणीर्गणी ॥४॥

अशेषशास्त्र विचक्षु प्रव्यक्त लौकिक स्थिति ।
गभीरो मृदुभाषी च स सूरि परिकीर्तित ॥५॥

कुलीनो जाति सपन्न. कुत्साहीन सुदेशज. ।
कल्याणागो रुजाहीन प्रशान्त सकलेन्द्रिय ॥६॥

शुभलक्षण सपन्न सौम्यरूप सुदर्शन ।
विप्रो वा क्षत्रियो वैश्यो विकर्मकरणोज्जित ॥७॥

उपासक व्रताचार्यो दृष्ट सृष्ट क्रियोऽसकृत् ।
श्रद्धालुर्भक्ति सपन्न वृत्तज्ञो विनयान्वित ॥८॥

व्रतशीलतपोदान जिनपूजा समुद्यत ।
जिनवन्दन कर्मादिष्वनुष्ठान पर शुचि ॥९॥

श्रावकाध्ययनेदक्ष प्रतिष्ठा विधि वित्सुधी ।
महापुराण शास्त्रज्ञो वास्तु विद्या विशारद ॥१०॥

एवं गुणोमहासत्त्व प्रतिष्ठाचार्य इष्यते ।
न चार्थार्थी न च द्वेषी भृष्ट लिगी कलकवान् ॥११॥

नैव पारवण्डि पुत्रोवा देव द्रव्योपजीविकः ।
नाधिकगो न हीनागो नाति दीर्घो न वामनः ॥१२॥

न निवृष्ट क्रियावृत्तिर्नाति वृद्धो न बालकः ।
गीत वाद्योपजीवीनो भाण्डो वैतालिको नटः ॥१३॥

उन्मत्तो ग्रहग्रस्तो वा भोजने पक्तिर्वर्जितः ।
गर्भाधानादि सस्कारैर्विहीनो नाति मोहवान् ॥१४॥

ज्ञाता उपासकाद्यते न त्रयो न महाव्रती ।
शास्त्रज्ञः कुलजातोऽपि वर्जनीयस्तथा विधुः ॥१५॥

एव समासतः प्रोक्तः प्रतिष्ठाचार्यलक्षणः ।
प्रतिष्ठालग्नसशुद्धिभणिष्यामो यथागमम् ॥१६॥

यदि मोहात्तथा भूतः प्रतिष्ठा कुरुते तदा ।
पुर राष्ट्रं नरेन्द्रश्च प्रजा सर्वा विनश्यति ॥१७॥

न कर्ताफलमाप्नोति नापि कारयिता स्वकम् ।
अथोक्तलक्षणोपेतो यदि पूजयते त्वमुम् ॥१८॥

यज्ञसूत्रयुतदेहशिखाग्रथिदर्भासनम् ।
मदर्थमर्चाव्यर्थब्रह्मचर्यस्य धारणम् ॥१९॥

अभुक्तशुक्लाम्बरधार्यनासा नेत्रोन्मीलितः ।
ब्रह्मचर्यस्य रूपरथैर्यापथविशोधनम् ॥२०॥

आर्याः- अतिनिर्मलमुक्ताफलललितयज्ञोपवीतमतिपूतः ।
रत्नत्रयमितिमत्त्वाकरोमिकलुषायहरणमहाभरणं ॥२१॥

श्लोकः- रत्नत्रयात्मकपूतयज्ञसूत्रसुनिर्मलः ।
कुम्कुमगन्धसारेण उरोलिप्तं प्रकल्पयेत् ॥२२॥

केवलज्ञानसाम्राज्ययुवराजपदाप्तये ।
रत्नत्रयमिदसूत्रकण्ठाभरणमादधे ॥२३॥

ओं ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो नमः । यज्ञोपवीतधारयामः ।

सकलीकरण क्रिया

प्रतिष्ठाचार्य दातारौ स्नात्वाप्राग्वासरे शुभे ।
 शुद्धवस्त्र गृहीत्वाच वेदिकाया प्रवेशयेत् ॥
 सिद्ध भक्ति विधायोच्चै प्रतिष्ठाचार्य सत्तम ।
 सर्व विघ्नस्य शान्त्यर्थं वेदिकाया प्रवेशयेत् ॥

इति पीठिका

वेदी प्रतिष्ठा मे प्रथम दिन मंगल ध्वजा स्थापित करे और पात्र शुद्धि (सकलीकरण) करके शाति मंत्र का सवालाख या इक्यावन हजार जैसी सुविधा हो जाप्यानुष्ठान कराना चाहिए ।

ओं ह्री श्री क्ली अर्हं अ सि आ उ सा अनाहतविद्यायै णमो अरिहंताणं ह्री सर्व शान्तिं
 कुरु कुरु स्वाहा ।

यदि मंदिर जी मे स्थान हो तो वहा या पाण्डाल मे यागमण्डल का माड़ना बनाना चाहिए । मध्याह्न घटयात्रा करके मंदिर वेदी शुद्धि क्रिया करना चाहिए।

पश्चात् मंगलपत्रक या मंगलाष्टक पाठ पढ़े । दिग्बधन, शातिमंत्र पढ़कर पुष्पक्षेपण करें । वेदी शुद्धि करना हो तो वेदी की ८९ मंत्रो द्वारा शुद्धि करे । इसी प्रकार मंदिर की शुद्धि करे । यदि कलश की शुद्धि करना हो तो बड़ी थाली मे केशर से स्वस्तिक बनाकर कलश स्थापना करे । फिर इन मंत्रो द्वारा शुद्धि कर लेना चाहिए । एक साथ तीनों की शुद्धि करना हो तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा शुद्धि करा लेना चाहिए तत्पश्चात् वेदी सस्कार एव कलशपूजन आदि क्रियाये अलग अलग करे । भक्तिया पढ़कर क्रिया करे ।

शुद्धि विधान (९)

कुम्भमिन्द्राह्वयदिव्यमिन्द्रशस्त्रसमप्रभम् ।
 ऐन्द्र पुष्यै समर्चामि नवार्हद्भवनोत्सवे ॥

ओ ह्री इन्द्रकलशेन वेदिका (मन्दिर, कलश) शुद्धिं करोमि ॥१॥

अग्नि ज्वाला समानाभमग्न्याख्य बहुलाक्षतै ।
 पूजयामि जिनागारस्नानाय सुखहेतवे ॥२॥

ओ ह्री अग्निकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

यमदण्ड समानाभमलौकिकमणिश्रितम् ।
 यमाख्ययमदिक्पाल मान्य सचर्चयेऽनघम् ॥३॥

ओं ह्री यमकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

(९) प म ला जै प्र ह लि डा

- नैत्रह्यताख्य महाकुम्भं नैत्रह्यत्याधिपरक्षितम् ।
संशब्दये जिनागार स्नानाय मधुरस्तवैः ॥४॥
- ओं ह्रीं नैत्रह्यकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
वरुणाख्य घटं दिव्यं वरुणा सुररक्षितम्
संशब्द ये जिनेन्द्रस्य वेश्मस्नानाय चम्पकैः ॥५॥
- ओं ह्रीं वरुणकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
पवनामरसंसेव्यं पवनामरसुरक्षितम् ।
पवनाख्यं घटं नीर - गन्धप्रसूनशालिजैः ॥६॥
- ओं ह्रीं पवनकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
कुम्बेराख्यं घटं दिव्यं कुम्बेरगृह शोभितम् ।
जिनवेश्म प्लवायात्र रामाह्वये कदम्बकैः ॥७॥
- ओं ह्रीं कुम्बेरकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
ईशानाख्य मदाधारमीशादिदिग्विभासितम् ।
ओं ह्रीं तिष्ठेद्विघानेन काश्मीरैस्तन्महे मुदा ॥८॥
- ओं ह्रीं ईशानकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
कुम्भ गारुन्मताह्वान गरुन्मणिविनिर्मितम् ।
सरसैर्दिव्य पूजार्थैः श्रये जैनमहोत्सवे ॥९॥
- ओं ह्रीं गारुन्मत कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
कलशं सुन्दराकारं वैडूर्यमणिनिर्मितम् ।
दिव्यं मरकताभिख्यं रथापयेऽर्हद् गृहोत्सवे ॥१०॥
- ओं ह्रीं मरकतमणिकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
गांगेयनिर्मितं कुम्भं गांगेयाख्यं महोन्नतम् ।
गंगा व नरसापूर्ण पूजयेऽर्हत्सुवेश्मनि ॥११॥
- ओं ह्रीं गांगेयकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
प्रतप्तहाटकैः स्पष्टं श्रीमद्धाटक संज्ञकम् ।
कुम्भं तीर्थजलापूर्णमर्चयामि यथाविधिः ॥१२॥
- ओं ह्रीं हाटककलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
हिरण्याख्यं महाकुम्भं हिरण्येन समर्जितम् ।
लसत्पंकजमालाढ्यं यजेऽर्हत्सद्मसम्महे ॥१३॥
- ओं ह्रीं हिरण्यकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

- कनत्कनकसंकाश नानामणिविमण्डितम् ।
यजेऽर्हन्मन्दिरे कुम्भ शुद्धनीर समाश्रितम् ॥१४॥
ओं ह्री कनक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
अष्टापदाख्य सत्कुम्भ हेमस्रक् प्रविराजितम् ।
क्षीरोदवारि सम्पूर्णमर्चयेऽर्हद्गृहोत्सवे ॥१५॥
ओं ह्री अष्टापदकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
महारजतनामाढ्य महारजतनिर्मितम् ।
तीर्थाम्बुपूरनिभृतमर्हद्गेहेऽर्चये मुदा ॥१६॥
ओं ह्री महारजत कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
आनन्ददायक दिव्य सानन्दारव्य मनोहरम् ।
नित्य तीर्थजलै पूर्ण रथापये चैत्यसम्महे ॥१७॥
ओं ह्री आनन्द कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
नन्दाख्य नन्दनोत्कृष्ट प्रणन्दितगम जितम् ।
कुम्भ समर्चये दिव्य नानामणिविनिर्मितम् ॥१८॥
ओ ह्री नन्दकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
कुम्भ विजयनामान विजयोरजित विश्वकम् ।
पूर्ण तीर्थजलै दिव्यमर्चयेऽर्हद्गृहोत्सवे ॥१९॥
ओं ह्री विजय कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
नाना तीर्थजलाकीर्ण कुम्भ त्वजितनामकम् ।
मानवे विविधार्हाभि स्मरजिनमन्दिरोत्सवे ॥२०॥
ओं ह्री अजितकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
अपराजितनामान घट काञ्चनसनिभम् ।
स प्रतिष्ठापये चैत्यमहे जलसुमाक्षतै ॥२१॥
ओं ह्री अपराजित कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
महोदर शतानन्दनामधेय प्रभास्वरम् ।
कलश कमलै पूर्ण प्रार्चयेऽर्हद्गृहोत्सवे ॥२२॥
ओं ह्री शतानन्द कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
सह स्नानदसत्ख्याति पद्मादितीर्थ सभृतम् ।
पुष्प मालावृतम् कुम्भ महाम्यर्हद्गृहक्षणे ॥२३॥
ओ ह्री स्नानद कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

- कुन्दारख्यं कुन्दपुष्पाढ्यं कुन्दस्रक्त्रविराजितम् ।
 प्रार्चये कुन्दपुष्पौघैः कुम्भं भव्य जिनालये ॥२४॥
- ओं ह्रीं कुन्द कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 प्रस्फुटन्मल्लिका पुष्पसमूहामोद वासितैः ।
 नीरैः पूर्णं यजे हेममल्लिकारख्यं महाघटम् ॥२५॥
- ओं ह्रीं मल्लिकारख्य कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 अपूर्वचम्पकामोद प्रवासित जलैर्भृतम् ।
 चम्पकारख्यं घटं दिव्यं सूत्रितं सम्यगर्चये ॥२६॥
- ओं ह्रीं चम्पक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 कदम्बरजसा व्याप्तकदम्बारख्यं महाघटम् ।
 उपाक्षिप्त विधानेनार्चये जैनगृहालये ॥२७॥
- ओं ह्रीं कदम्ब कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 मन्दारारख्यं महाकुम्भं मन्दारस्रग्विभूषितम् ।
 दिव्यैरर्चामि मन्दारैः प्रत्यग्रं जिनमन्दिरे ॥२८॥
- ओं ह्रीं मन्दारकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 प्रत्यग्र पारिजातौघसमर्चित जलैर्भृतम् ।
 पारिजाताभिधं कुम्भमर्चयामि पयोभरैः ॥२९॥
- ओं ह्रीं पारिजातकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 संतान पल्लवोत्फुल्ल प्रसूननिकरार्चितम् ।
 संतानारख्यं जलैः पूर्णं संस्थाप्यपूजयेऽनिशम् ॥३०॥
- ओं ह्रीं संतानकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 हरिचन्दन पुष्पाभं हरिचन्दन संज्ञकम् ।
 हरिचन्दन कर्पूरैः कुम्भं संप्रार्चये मुदा ॥३१॥
- ओं ह्रीं हरिचन्दनकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 कल्पवृक्षमहापुष्पप्रकरेण प्रसाधितम् ।
 कल्पवृक्षाभिधं कुम्भं पूजनाय प्रकल्पये ॥३२॥
- ओं ह्रीं कल्पवृक्षकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 जपारख्यं जपदामाभं जपापुष्पारख्य बालकम् ।
 यजे जगत्प्रभोर्नव्य चैत्यस्नानाय केवलम् ॥३३॥
- ओं ह्रीं जपाकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

- विशालाख्य घट दिव्य विशाल रत्ननिर्मितम् ।
 विशालयामि पुष्पौघै कुन्दमन्दार संभवै ॥३४॥
- ओ ह्री विशाल कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 कुम्भ श्रीभद्र कुम्भाख्य भद्रेभकुम्भसुन्दरम् ।
 पारिभद्र प्रसूनौघै शोभयामि मनोहरै ॥३५॥
- ओं ह्री भद्रकुम्भकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 घट श्री पूर्णकुम्भाख्य पूर्ण कुम्भमिवोन्नतम् ।
 क्षीरोदनीरसम्पूर्णं सुरत्नैर्वर्णयाम्यहम् ॥३६॥
- ओं ह्री पूर्णकुम्भ कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 जयन्त सर्वकुम्भाना जयन्ताख्य महाघटम् ।
 विकसज्जयपुष्पौघै सजयामि तदुत्सवे ॥३७॥
- ओ ह्री जयन्तकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 वैजयन्ताभिध कुम्भ सत्य विजयदायकम् ।
 नव्यप्रासादचर्यार्थैश्चर्चयेऽहवनादिभि ॥३८॥
- ओं ह्री वैजयन्त कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 चन्द्रकान्तमहारत्न विनिर्मित महाघटम् ।
 चन्द्राख्य जगदुत्कृष्ट पूजये विविधार्चनै ॥३९॥
- ओं ह्री चन्द्र कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 सूर्य कान्ताश्मसन्दोहविराजित महोदयम् ।
 सूर्याख्य कुम्भमुत्कृष्टैः प्रयजे तन्महार्घकै ॥४०॥
- ओं ह्री सूर्यकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 लोकालोक प्रविख्यात लोकालोक विधानकम् ।
 कुम्भ सस्थापयाम्यत्र सम्पूज्य विविधार्चनै ॥४१॥
- ओ ह्री लोकालोक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 त्रिकूटनामकं कुम्भ त्रिकूटाद्रिसमानकम् ।
 समर्च्य विविधार्घेण स्थापये तन्महोत्सवे ॥४२॥
- ओ ह्री त्रिकूट कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 उदयाख्य महाकुम्भमुदयाचल सन्निभम् ।
 स्थापयामि जिनागारेऽभिषवाय महोन्नतिम् ॥४३॥
- ओ ह्री उदयाचलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

- हिमवत्पर्वताभिख्य हिमाचल समुन्नतिम् ।
कूट निवेशयाम्यत्र स्नानाय नव्यवेश्मन ॥४४॥
- ओं ह्री हिमाचलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
निषधाद्रिसमोत्सेध निषधाख्य घटं वरम् ।
संविधायार्हणा दिव्या स्थापयेऽर्हन्महोत्सवे ॥४५॥
- ओं ह्रीं निषध कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
माल्यवत्कुम्भनामानं नानामालाविराजितम् ।
शुद्धस्फटिकसकाश कुम्भं तत्र निवेशये ॥४६॥
- ओं ह्री माल्यवत्कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
सत्पारिपात्रकोत्सेध सत्पारिपात्रकाह्वयम् ।
कलश श्री जिनागारस्नानाय पूजयेऽनघम् ॥४७॥
- ओं ह्री सत्पात्र कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
गन्धमादननामान गन्धमादप्रपूरितम् ।
सम्पूजये जलाद्यर्घैर्जिनौकस्नानहेतवे ॥४८॥
- ओं ह्री गन्धमादन कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
सुदर्शन समाह्वानं सुदर्शनगरिष्ठकम् ।
कलशं विशुद्धये जैनवेश्मन स्थापयेऽनघम् ॥४९॥
- ओं ह्रीं सुदर्शन कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
कलश मन्दराकारं मन्दराख्य महोन्नतिम् ।
विधापयामि जैनेन्द्र भवनस्नान हेतवे ॥५०॥
- ओं ह्री मन्दरकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
अचलेत्यब्धिना पूर्णमचलाख्य घट नवम्
आम्रपल्लव शोभाढ्यं तदर्थं स्थापयाम्यहम् ॥५१॥
- ओं ह्री अचलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
विद्युन्मालासमाकार विद्युन्माल्यभिधानकम् ।
कलशं स्थापये दिव्य नाना पूजनवस्तुभिः ॥५२॥
- ओं ह्रीं विद्युन्मालि कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
चूडामण्याख्यं मुत्तुंगं चूडामणि समुन्नतिम् ।
पूर्ण तीर्थोदकैः कुम्भं तदुत्सवे निधापये ॥५३॥
- ओं ह्री चूडामणि कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

- सद्धारगुलिकाभाल गुलिकाह्वयमुत्तमम् ।
 कुम्भ निवेशयाम्यत्र जैन मन्दिर शुद्धये ॥५४॥
 ओं ह्री गुलिकाकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 दक्षिणावर्तनामान दक्षिणावर्तसन्निभम् ।
 घट च घटित लक्ष्म्या तत्कृत्ते सन्निवेशये ॥५५॥
 ओं ह्री दक्षिणावर्त कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 कोकाख्य कोकसंकाश वारिजाश्मविनिर्मितम् ।
 घट निघापये जैनवेश्मन शुद्ध हेतवे ॥५६॥
 ओं ह्री कोक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 राजहंस समानाभं राजहंस समाह्वयम् ।
 घट त जाघटीम्यत्र नवार्हद्वेश्म शुद्धये ॥५७॥
 ओं ह्री राजहंस कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 कलश हरिताभिख्यं हरिताश्मविनिर्मितम् ।
 पूजये दिव्यरत्नेन दिव्यगन्धाम्बुचम्पकैः ॥५८॥
 ओं ह्री हरितकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 मृगेन्द्राह्वयमुत्तुंग समाह्वायार्चनादिभिः ।
 मृगेन्द्रवत्प्रगर्जन्त रनानकालेषु वेश्मन ॥५९॥
 ओं ह्री मृगेन्द्र कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 कुम्भ कोकनदाकार श्रीमत्कोकनदाह्वयम् ।
 त्रिभगा नीरसम्पूर्ण घटयेऽस्मिन्महोत्सवे ॥६०॥
 ओं ह्री कोकनद कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 स्निग्धाञ्जन समाकारमणिनिर्मितमुत्तमम् ।
 कालाख्य कलश हृद्य तदुत्सवे निवेशये ॥६१॥
 ओं ह्री कालकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 पद्माख्य पद्मचक्राख्य पद्मरागविनिर्मितम् ।
 कुम्भ समाह्वये नव्य प्रासाद स्नपनाय वै ॥६२॥
 ओं ह्री पद्मकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
 अत्यन्त श्यामलाकार प्रस्तरैर्निर्मित घटम् ।
 प्रासादस्नानकालेऽत्र महाकाल निवेशये ॥६३॥
 ओं ह्री महाकाल कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

- पञ्चप्रकारसदृत्न विनिर्मितं महोन्नतम् ।
कलशं सर्वरत्नाख्य स्नानाय श्रीजिनौकसः ॥६४॥
- ओं ह्रीं सर्वरत्न कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
पाण्डुकाकारपाषाणनिर्मितं पाण्डुकाह्वयम् ।
कुम्भं तीर्थोद सम्पूर्ण निवेशये यथाविधिम् ॥६५॥
- ओं ह्रीं पाण्डुकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
नैः सर्पकांगलाकारमणिनिर्मित मुन्नतम् ।
कुम्भ स्थापयाम्यत्र तीर्थवारिप्रपूरितम् ॥६६॥
- ओं ह्रीं नैसर्पकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
मानवाख्यं घटं नव्यमानये तीर्थवार्भृतम् ।
स्थापयेऽर्हन्महावेश्म स्नपनाय जलार्जितम् ॥६७॥
- ओं ह्रीं मानव कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
शंखसंकाशरत्नोद्य विनिर्मितमहोन्नतम् ।
सस्थाप्य पूजये दिव्यं शङ्खाख्यं जलचन्दनैः ॥६८॥
- ओं ह्रीं शंखनिधि कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
पिगलाख्यं च पिंगाभंपिंगाश्मभिर्विनिर्मितम् ।
घटं तीर्थाम्बुसम्पूर्ण तदर्थ सन्निधापये ॥६९॥
- ओं ह्रीं पिंगलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
पुष्करावर्तनामानं कलशं रत्ननिर्मितम् ।
जिनोदवासित स्नानालोक संकल्पयाम्यहम् ॥७०॥
- ओं ह्रीं पुष्करावर्तकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
मकरध्वजनामानमिन्द्र नील विधापितम् ।
कूटं गंगाम्बुपर्याप्तं पवित्रं स्थापयेद्वरम् ॥७१॥
- ओं ह्रीं मकरध्वज कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
ब्रह्माभिख्यं चतुर्वक्त्रं कुम्भं ब्रह्मसमर्चितम् ।
ब्रह्मतीर्थजलैः पूर्ण स्थापये नीरचन्दनैः ॥७२॥
- ओं ह्रीं ब्रह्म कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
सुवर्णनिर्मितं कुम्भं सुवर्णाख्यं महासुखम् ।
स्फुरद्रत्नचय चारुं संस्थाप्याहं समर्चये ॥७३॥
- ओं ह्रीं सुवर्ण कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

- कदली पत्रसकाश नीलाश्मकमय घटम् ।
स्थापयामीन्द्रनीलाख्य सम्भृत तीर्थवारिणा ॥७४॥
ओं ह्री इन्द्रनीलकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
अशोक कुसुमामोद वासिताम्भ प्रपूरितम् ।
अशोकाख्य महाकुम्भ निघापये जिनौकसाम् ॥७५॥
ओ ह्री अशोक कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
पुष्पदन्तसमानाभ पुष्पदन्तसमाह्वयम् ।
कलश सलिलै पूर्णं सस्थापयेऽर्हन्मन्दिरे ॥७६॥
ओं ह्री पुष्पदन्त कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
कुमुदाख्यं घट नव्य कुमुदस्रग् विराजितम् ।
कुमुदैरर्चये स्नाने संस्थाप्य श्रीजिनौकस ॥७७॥
ओं ह्रीं कुमुद कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
येषु दृष्टेषु भव्यानां सम्यक्त्व प्रकटीभवेत् ।
दर्शनाख्य महाकुम्भ सम्भावये जलादिभि ॥७८॥
ओं ह्री दर्शनकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
यस्य दर्शनमात्रेण धर्मोऽधर्म प्रबुध्यते ।
कुम्भ ज्ञानाख्यमुत्तुग निवेशये जलैर्भृतम् ॥७९॥
ओं ह्री ज्ञान कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
दर्शनाद्यस्य भव्याना वृत्ते मति प्रजायते ।
चारित्राख्य वनै पूर्ण कुम्भ सस्थापये मुदा ॥८०॥
ओं ह्रीं चारित्र कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।
सर्वार्थ सिद्धिकर्तार सर्वार्थ सिद्धिनामकम् ।
कुम्भ समर्चये जैनवेश्मन स्नानहेतवे ॥८१॥
ओं ह्री सर्वार्थ सिद्धिकलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि ।

इस प्रकार शुद्धि करके श्रुतभक्ति शांति भक्ति पढकर नौ बार णमोकार मंत्र का जापकर कार्य समाप्त करे । वेदी को कपड़ा से वेष्टित करा दें ।

द्वितीय दिन की क्रिया वेदिका संस्कार विधि

प्रातः काल मे मगलाष्टक पाठ, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शातिमंत्राराधन करके संस्कार विधि प्रारम्भ करे। प्रथम सिद्ध भक्ति करे ९ बार णमोकार मंत्र पढे।

वेदि शुद्धि (१)

आयात भो वायुकुमार देवा. प्रभोर्विहाराव सराप्तसेवाः।

यज्ञांशमभ्येत सुगधिशीत मृद्धात्मनाशोधयताध्वरोर्वीम् ॥

भो वायुकुमार सर्व विघ्न विनाशनाय वेदिकामूमिशुद्धिं कुरु कुरु फट् स्वाहा।

(वेदी का शुद्ध वस्त्र से मार्जन करें)

आयात भो मेघ कुमारदेवा. प्रभोर्विहारावसराप्त सेवाः।

गृह्णीत यज्ञाश मुदीर्णशम्या गन्धोदकैः प्रोक्षत यज्ञभूमिम् ॥

भो मेघकुमार वेदिधरां प्रक्षालय प्रक्षालय अं हं सं वं झं ठं यः क्षः फट् स्वाहा।

(वेदी पर जल के छीटे लगावे)

आयात भो बह्नि कुमारदेवाः आधानविध्यादि विधेयसेवाः।

भजध्वमिज्याशमिमा मखोर्वी ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥

भो अग्नि कुमार वेदिभूमिं ज्वलय ज्वलय अं हं सं वं झं ठं यः क्षः फट् स्वाहा।

(रकाबी मे कपूर जलाकर वेदी पर चलावे)

उद्भात भो षष्टिसहस्रनागा. क्षमाकामचार स्फुट वीर्यदर्पाः।

प्रतृप्यतानेन जिनाध्वरोर्वी सेकात्सुधागर्वभृजामृतेन ॥

ओं ह्रीं क्रौं षष्टि सहस्रनागाः जिनवेदिकारक्षां कुरुत कुरुत स्वाहा।

(ऐशान दिशा मे जल के छीटे लगावे)

ओं हूं क्षूं फट् किरिटि किरिटिं घातय घातय परविघ्नान स्फोटय स्फोटय

सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द - छिन्द परमंत्रान् भिन्द - भिन्द क्षां क्षः वाः

वाः हूं फट् स्वाहा। यह मंत्र पढकर वेदी एव मंदिर पर पुष्प क्षेपण करें।

वेदी की दीवार पर स्वस्तिक बनावे। वेदी की ऊपर वाली कटनी पर विनायक यंत्र को सिंहासन मे विराजमान करे।

प्रत्यूह निर्णाशविधौ प्रसिद्ध गणेन्द्रवक्त्राम्बुजगीत कीर्तिम्।

यत्र पुरापूजित मंत्रनेयं पात्रे लिखित्वापि वृत्तार्चनादि ॥

ओं ह्रीं विनायक यंत्रं स्थायामि ॥

यत्र की बाईं ओर मंगल कलश और दाहिनी ओर दीपक रखना चाहिए । वेदी के समीप टेबिल लगाकर विनायक यत्र पूजा (पेज न २० से) और महर्षि पर्युपासन के अर्घ चढ़ाना चाहिये ।

नोट: नवीन मंदिर शुद्धि, वेदी प्रतिष्ठा, या कलशारोहण के समय यागमण्डल विधान पाण्डाल में मण्डल बनाकर प्रतिमा जी स्थापित कर नित्यमह क्रियाओं के साथ करना चाहिए । प्रारम्भ में जाप करना अंत में शांति हवन करना आवश्यक है ।

महर्षि पर्युपासन (१)

औषधी रसबलद्धितपस्था क्षेत्रबुद्धिकलिता क्रिययाद्या ।
विक्रियद्धि महिता प्रणिधान प्राप्तससृति तटामुनिपूज्या ॥१॥

केवलावधिमन प्रसराङ्गा बीजकोष्ठमति भाजन शुद्धा ।
वीतरागमदमत्सरभावा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥२॥

यद् वचोऽमृतमहानदमग्ना जन्मदाह परितापमपास्य ।
निर्ववु सुखसमाजतटेषु बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥३॥

श्रोतृभिन्नमतय पदपन्था दृष्टससृति पदार्थ विभावा ।
तत्त्वसकलित धर्म्यसुशुक्ला बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥४॥

स्पर्शन श्रवणलोकन बुद्धा घ्राण सस्थरसनोपकृता ये
दूरतोऽप्यनुभव हिंसमाप्ता बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥५॥

छिन्नस्वर्य विधिना चतुर्दशदिकसुपूर्व मतिना निमित्तगा ।
वादिबुद्धिकृतिनो मतिश्रमा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥६॥

अष्टधोक्तदशधाभिदया ये बुद्धिवृद्धि सहिता शिवयात्रा ।
विष्मलादिगदहायनदेहा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥७॥

दृष्टवक्त्रमनसां विषभक्ति प्रीणिता श्रुतसरित्पतिपुष्टा ।
लोकमङ्गलिषु स न्यसिता ये बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥८॥

वाक्यमानसबलेन समग्रा उग्रदीप्ततपसस्त्रिक गुप्ता ।
घोरवीर्यगुण भावितचित्ता बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥९॥

दुग्धमध्वमृतभोजनकृत्वा सर्पिरास विवचोऽभि नियुक्ता ।
अण्वलाघववशित्वविदर्भा बोधिलाभमनघा प्रदिशन्तु ॥१०॥

कामरूप गुरुताप्रति सर्पान्तर्द्ध्य हीनवसति गृहयुक्ताः ।
 चारणा जलफलाग्निकसूत्रा बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥११॥
 आत्मशक्ति विभवागतसर्व पौद्गलीय ममताश्च्युतवस्त्राः ।
 सत्परीषह भटार्दनदास्ते बोधिलाभमनघाः प्रदिशन्तु ॥१२॥
ओं ह्रीं अष्टप्रकार सकल ऋद्धिप्राप्त मुनिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 आद्येशितुर्वृषभसेन पुरस्सरा ये सिंहादिसेन पुरतोऽजिततीर्थभर्तुः ।
 श्रीसम्भवस्य किलचारुविसेनमुख्या स्तुर्यस्य वज्रधरमुख्यगणाधिराजाः ॥१॥^(१)
 कोकध्वजस्य चमराधिपपूर्वगाः स्युः पद्मप्रभास्य कुलिशादिपुर स्थिताश्च ।
 श्रीसप्तमस्य बलमुख्यवृत्ता. पुराणे चन्द्रप्रभस्य शमिनः खलु दत्तमुख्याः ॥२॥
 मंकरारांकिजनो गणभृतश्च विदर्भमुख्या. श्रीशीतलस्य गणया अनगारगण्या. ।
 श्रेयोजिनस्य निकटे ध्वनि कुन्थुपूर्वा धर्मादयो गणधरा वसुपूज्यसूनो. ॥३॥
 मेर्वादयश्च विमलेशितुरुद्धबुद्ध्या जय्यार्यनामभरणाश्च चतुर्दशस्य ।
 धर्मस्य भान्ति शमिनः सदरिष्टमूलाश्चक्रायुधप्रभृतयः खलु शान्तिभर्तुः ॥४॥
 कुन्थुप्रभोर्यमभृत कथिता स्वयम्भू वर्या. पुनन्त्वरविभोः स्मृतकुम्भमान्या. ।
 मल्लेर्विशाखमुनयो मुनिसुव्रतस्य मल्लिप्रवेकगणता नमिभर्तुरिष्टा ॥५॥
 सप्तर्द्धि पूजितपदाः सुप्रभासमुख्या नेमीश्वरस्य वरदत्तमुखा गणेशाः ।
 पार्श्वप्रभो. स्वयमित सुखवोन्तनाम्ना वीरस्य गौतममुनीन्द्र मुखाः पुनन्तु ॥६॥
 एभ्योऽर्घपाद्यमिह यज्ञधरावनार्थ दत्तं मया विलसनां शुचिवेदिकायाम् ।
 पुष्पाञ्जलिप्रकरतुन्दिलमाज्य पात्र मुत्तारयामि मुनिमान्यचरित्रभक्त्या ॥७॥

**ओं ह्री श्री चतुर्विंशतितीर्थकरगणधरेभ्यस्त्रिपंचाशत् सहितचतुर्दशशत
 संख्येभ्यश्चारुपात्रमग्रे वृत्त्वार्घं मुत्तारयामीति स्वाहा ।**

(यह पढकर २४ तीर्थकरों के १४५३ गणधरों को अर्घ चढ़ावें ।)

तदनन्तर चारित्रभक्ति पढकर वेदी पर पुष्पाञ्जलि छोड़ें और ९ बार णमोकर मंत्र पढ़ें ।

२४ गणधर अर्घ (१)

इन्द्रभूतिरग्निभूतिर्वायुभुति सुधर्मक

मौर्यमौढ्यौ पुत्रमित्रावकम्पन सुनामधृक् ॥१॥

ओं ह्री गौतमादिएकादश मुनिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अन्धवेल प्रभासश्च रुद्रसख्यान् मुनीन् यजे

गौतम च सुधर्म च जम्बूस्वामिनमूर्ध्वगम् ॥२॥

ओं ह्री अन्त्यकेत्रलित्रयायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रुतकेत्रलिनोऽन्याश्च विष्णुनन्द्यपराजितान् ।

गोवर्धन भद्रबाहु दशपूर्वधर यजे ॥३॥

ओ ह्री श्रुतकेत्रलिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

विशाख प्रोष्ठिलनक्षत्रजयनागपुरस्सरान् ।

सिद्धार्थ धृतिषेणाहौ विजय बुद्धिबल तथा ॥४॥

ओं ह्री कतिचिदंग धारिभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

गगदेव धर्मसेनमेकादशसुश्रुतान् ।

नक्षत्र जयपालाख्य पाण्डु च ध्रुवसेनकम् ॥५॥

कसाचार्य पुरोङ्गीयज्ञातारप्रयजेऽन्वहम् ।

सुभद्र च यशोभद्र भद्रबाहु मुनीश्वरम् ॥६॥

लोहाचार्य पुरा पूर्वज्ञानचक्रधर नम ।

अर्हद्वलि भूतवलि माघनन्दिनमुत्तमम् ॥७॥

धरसेन मुनीन्द्र च पुष्पदन्तसमाह्वयम् ।

जिनचन्द्र कुन्दकुन्दमुमास्वामिनमर्चये ॥८॥

ओं ह्री ऐदंयुगीनदीक्षाधरणधुरन्धरनिर्ग्रन्थाचार्यवर्येभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

निर्ग्रन्थान् वकुशान् पुलाककुशलान् किशील निर्ग्रन्थकान्

मूलस्वोत्तरसद्गुणावधृतसा किचित्प्रकार गतान् ।

वन्दित्वा जिनकल्पसूत्रितपदान् प्रध्वस्तपापोदयान् ।

वेदी शुद्धि विधि ददन्तु मुनयो ह्यर्घेण सम्पूजिता ॥९॥

ओं ह्री पुलाकवकुशकुशील -निर्ग्रन्थरनातकपदधरत्रिकन्यूनैक कोटीसंख्य -
मुनिवरेभ्योऽर्घं ।

तदन्तर शातिपाठ पढकर विसर्जन करके द्वितीय दिन की विधि को समाप्त करे ।

तृतीय दिन की क्रिया (बिम्ब स्थापन विधि)

मंगलाष्टक, मंगलपञ्चक या स्वस्तिमंगल पाठ पढ़ने के पश्चात् पात्रशुद्धि दिग्बंधन, शांतिमंत्राराधन के साथ यंत्राभिषेक (जो विनायक यंत्र वेदी पर विराजमान था उसका अभिषेक) कर पूजा करें। तदन्तर जिन प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान करना है सबका अभिषेक एवं शांतिधारा कराना चाहिए। फिर प्रक्षालन कर अर्घ्य चढ़ाने के पश्चात् वेदी पर विराजमान करना। प्रथम मूलनायक प्रतिमा के नीचे अचल यंत्र की स्थापना करें। पंचरत्न पारद एवं स्वस्तिक स्थापित करना चाहिये। ध्यान रहे प्रतिष्ठाग्रंथों में बिम्ब स्थापना दो प्रकार से कही है- (१) स्थिर बिम्ब (२) चल बिम्ब

मूलनायक बिम्ब को स्थिर प्रतिमा कहते हैं। इसे वेदी से नहीं उठाना चाहिये। अन्य प्रतिमायें चल बिम्ब हैं उत्सव विधानादि में वेदी से उठा भी सकते हैं। स्थापना के पूर्व अचल मंत्र की १०८ बार जाप करना चाहिये।

मन्त्र - ओं नमोऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ, ए ऐ, ओ औ अं अः, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह क्लीं ह्रीं कौं स्वाहा।

ओं ह्रीं अचल यंत्रं स्थापयामि।

यह पढ़कर अचल यंत्र स्थापित करें। यदि यन्त्र न हो तो केशर से लिखें। चौबीस तीर्थकरों के चौबीस यंत्र हैं जिन्हें तीर्थकर प्रतिमानुसार अलग-अलग प्रतिमा के नीचे स्थापित करना चाहिये (देखें यंत्राधिकार से)

मन्त्रं पठेत् जपं पद्मपीठे गन्धेन तल्लिखेत्।

पंचरत्नमत्र क्षिप्त्वा प्रतिमां स्थापयेत्ततः ॥

ओं ह्रीं पंचरत्न - स्वस्तिकं च स्थापयामि।

वेद्यां पारदं क्षिप्त्वा श्रीखण्डं कुंकुमंतथा

प्रथमं स्थापयेद् गर्भे कोणे वेद्याः जिनस्य च

ओं वेद्याः कोणे पारदं स्थापयामि।

संस्थाप्यं निश्चलं यन्त्रमधस्तात् प्रतिमां नयेत्।

लेखनं स्वर्णलेखन्या यन्त्रं तस्य धरार्पितम् ॥

यस्य नामप्रभावेण विपदो न स्पृशन्तिनृन्।

येनेन्द्रोऽयष्ट भक्त्या तत्प्रातिहार्याष्टकं त्विदम् ॥१॥

अष्ट प्रातिहार्य की स्थापना के लिए वेदी पर आठ स्थान पर पुष्प रखें।

रत्नाशुबर्धेन्द्रधनुर्व्यातास्याहरिवाहनम् ।

यच्चक्रे धर्मैकात्मा सिंहपीठ तदस्त्वद ॥२॥

ओं ही सिंहासनं स्थापयामि (वेदी पर सिंहासन स्थापित करें)

बिम्ब स्थापन

निर्मित वीतरागस्य रत्नपाषाण धातुभि ।

निराकार च सिद्धाना बिम्ब सस्थापये मुदा ॥३॥

ओं ही अर्हत्सिद्धप्रतिमा स्थापनं करोमि ।

यन्त्र षोडशभावाना सिद्धचक्र वृषा दश ।

द्वादशाग गिरा यन्त्र स्थापये जिनपृष्ठके ॥४॥

ओं ही षोडशकारण-दशधर्म-सिद्धचक्र-श्रुतस्कन्धादियन्त्राणां स्थापनं करोमि ।

प्रवाद्यभेद्यो मेघौघध्वनिजिद् योजन सदा ।

व्याप्नुवन् यो न केनापि व्यघ्राय्येष सतद्ध्वनि ॥५॥^(१)

ओं ही दिव्यध्वनि स्थापयामि (दिव्यध्वनि स्थापित कर पुष्प क्षेपण करें)

यक्षैर्दोषूयमानाहर्द्दह छायाछलाच्छिस्ता ।

या चामरचतु षष्टिर्नानटीतिस्म सास्त्वियम् ॥६॥

ओं ही चतुः षष्टि चामरं स्थापयामि । (चमर स्थापन कर पुष्प क्षेपण करें)

चक्षुषो पश्यता सप्त भासयत्यनिश भवान् ।

भामण्डलेऽब्रुडन् यत्र विश्वतेजास्यदोऽस्तु तत् ॥७॥

ओ ही भामण्डलं स्थापयामि । (भामण्डल लगा कर पुष्पक्षेपण करें)

रत्नरोचिर्नदद्भृग खगो वातचलल्लत ।

विश्वाशोकीकृत्ते व्यक्त योऽशोको नग एष स ॥८॥

ओं ही रत्नाशोकं स्थापयामि (रत्न अशोक स्थापित कर पुष्पक्षेपण करें)

मुक्त प्रारोह मालम्बिभुक्तालम्बूष लक्षणम् ।

छत्रत्रय स्वभावाच्छ्री निधिवद्भात्यदोऽस्तु तत् ॥९॥

ओं ही छत्रत्रयं स्थापयामि (छत्र लगाकर पुष्पक्षेपण करें)

सभ्या शृण्वन्त्वसभ्योक्तीर्मेतीवातीव योऽध्वनत् ।

सार्धद्वादश कोट्युद्यद्वादित्रोऽय स दुन्दुभि ॥१०॥

ओं ही दुन्दुभि स्थापयामि (दुन्दुभि स्थापित कर पुष्पक्षेपण करें)

गङ्गाम्भ सुभगैर्गुञ्जद्भृगोधै सुमनस्तमै ।

सुमनोभि सुमनसा वृष्टिर्यासर्जि सास्त्वसौ ॥११॥

ओ ह्री पुष्पवृष्टिं स्थापयामि (पुष्पवृष्टि स्थापित कर पुष्पक्षेपण करें)

इत्यष्टौ प्रातिहार्याणि प्रतिमाया जिनेशिन. ।

स्थापितानि च निघ्नन्तु भाक्तिकाना सदापद. ॥१२॥

ओ ह्री प्रतिमाग्रे अष्टस्थानेषुपुष्पाणि स्थापयामि

(प्रतिमा के आगे अष्ट प्रातिहार्य स्थापन हेतु आठ स्थान पर पुष्प क्षेपण करें)

अष्ट प्रातिहार्य सहित जिनेन्द्र की अर्धावली^(१)

वनस्पतित्वेऽपि गतप्रशोकोऽशोको बभूवातिमद प्रसून. ।

अनेक सदर्शक शोकहारी वृक्षो जिनेन्द्राश्रयण प्रभावात् ॥१३॥

ओं ह्री अशोकवृक्ष प्रातिहार्यसहिताय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रेयस्तरु फलति नोऽमर सोख्यमुच्चै हर्षोत्सुकत्व परिलम्भ न सन्मिषेण ।

देवै वृक्षा सुमनसा परिवृष्टिरेषा मोद ददातु भवदु. खजुषां जनानाम् ॥१४॥

ओं ह्री देववृक्ष पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

त्रैलोक्यवस्तु मननस्मरणावबोधो येन स्वय श्रवणगोचरतां गतेन ।

सञ्जायते मुखरदौष्ट विघातशून्यो भूयाद् ध्वनिर्भव मद प्रसरार्तिहर्ता ॥१५॥

ओ ह्री दिव्यध्वनि प्रातिहार्यसम्पन्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

यक्षेशपाणि लतिकाङ्कुर सगतानि तुर्याधिषष्टि गणनान्यपि देवनद्यः ।

वीचिप्रमाणि भवतो द्विकपार्श्वयोस्ते सच्चामराण्यघचयं मम निर्दलन्तु ॥१६॥

ओं ह्री चतुः षष्टि चामर - प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

सिंहासने छविरिय जिनदेवताया. केष्वा मनोऽवधृतपाप्महरी न वा स्यात् ।

स्याद्वादसस्वृत्त पदार्थगुणप्रकाशोऽ स्या मेस्तु निर्हंतमदाविल -जातशक्तेः ॥१७॥

ओं ह्री सिंहासन प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

भामण्डलेऽवयवपृष्ठ विभागरश्मि क्लृप्ते जनस्य भवसप्तक दर्शनेन ।

श्रद्धान माप्त गुरु धर्म परम्पराणा गाढ भवेत्तदिति देवपतिर्नमस्यः ॥१८॥

ओ ह्री भामण्डल - प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

देवस्य मोह विजय परिशसितु द्राक् देवा स्वहस्ततलत. परिवादयन्ति ।

वाद्यानि मगलनिवास कराणि सद्यो मिथ्यात्व मोहजयिनः सुभगानि च स्युः ।

ओं ह्री दुन्दुभि प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

(१) आ ज से. प्र. पा श्लोक ८७४ से ८८१

छत्रत्रय जिनपमूर्धनि भासमान त्रैलोक्य राज्यपतिता मभिदर्शयद्वा ।
सोमार्क - बह्नि-प्रतिमसितपीतरक्तरत्नादिरञ्जितमिदमममगलाय ॥२०॥

ओं ह्रीं छत्रत्रय प्रातिहार्य सम्पन्नाय जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

भृंगार कुम्भ मुकुट स्वस्तिकध्वजरोपणम् ।

व्यजनेन सुसयुक्त जिनाग्रे द्रव्यमङ्गलम् ॥२१॥

ओं ह्रीं अष्टमंगल द्रव्य स्थापनाय पीठिकायाम् षट्स्थानेषुपुष्पाणि क्षिपेत् ।

अष्ट मंगलद्रव्य स्थापना के लिए पुष्पक्षेपण करे ।

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| (१) ओ भृंगार स्थापयामि | (झारी स्थापन करे) |
| (२) ओ कलश स्थापयामि | (कलश स्थापन करे) |
| (३) ओ दर्पण स्थापयामि | (दर्पण स्थापन करे) |
| (४) ओ स्वास्तिक स्थापयामि | (स्वास्तिक स्थापन करे) |
| (५) ओ ध्वज स्थापयामि | (ध्वज स्थापन करे) |
| (६) ओ व्यजन स्थापयामि | (वीजना स्थापन करे) |
| (७) ओ स्थापना स्थापयामि | (ठोना स्थापन करे) |
| (८) ओ चामरं स्थापयामि | (चामर स्थापन करे) |

छत्रचामरभृंगार - कुम्भाब्द व्यजन ध्वजान् ।

स्व सुप्रतिष्ठान् यानिन्द्रो भर्तुतेनेऽत्र सन्तु ते ॥२२॥

ओं ह्रीं अष्टमंगलद्रव्य संयुक्त जिनायार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

इन्द्र युगल स्थापनम्

पार्श्वद्वये जिनेन्द्रस्य देवेन्द्रयुगले स्थिते ।

चामर पुष्पहस्ते च वस्त्राभूषण संयुते ॥२३॥

ओं इन्द्रयुगलं स्थापयामि ।

(इन्द्रो पर पुष्पक्षेपण करना)

मालास्थापनम्

रत्नविद्धम मुक्तादि निर्मित जपसाधनम् ।

स्थाप्य मालाष्टक नून कर्मनिर्हरणक्षमम् ॥२४॥

ओं जपमालां स्थापयामि ।

जिनवाणी स्थापनम्

स्थापनीय वर शास्त्र कुन्दकुन्दादि निर्मितं ।

जैन तत्त्वप्रबोधाय स्याद्वादेन विभूषितम् ॥२५॥

ओं जिनशास्त्रं स्थापयामि ।

वन्दनमाला स्थापनम्

वन्दनमालिका बध्या मणिमुक्तादि निर्मिता ।

वेदिकायां पर रम्या किङ्कण्यादि विभूषिता ॥२६॥

ओं वन्दनमालां बध्नामि स्वस्ति भवतु ।

वेदिका सूतनम्

पञ्चवर्णेन सूत्रेण दिव्यगंधयुतेन वै ।

रक्षामत्र समुच्चार्य वेदिका परिवेष्टयेत् ॥२७॥

ओं वेदिकां पञ्चवर्णसूत्रेण सूत्रयामि स्वस्ति भवतु ।

घण्टा झल्लरी बन्धनम्

घण्टा च झल्लरीमुच्चैष्टङ्कारेण समन्विताम् ।

बध्नीयाद् भव्यजीवानामाह्वानाय मनोरमाम् ॥२८॥

ओं घण्टां झल्लरी च बध्नामि स्वस्ति भवतु ।

इस अवसर पर जिनवाणी, जिनमदिर, विद्यालय आदि को दान की घोषणा करावे ।

सार्वकालिक पूजार्थ भूस्वर्णादिकद्रव्यकम् ।

वित्तानुसारतो दद्यात् पूजोपकरणानि च ॥२९॥

ओं हूं क्षूं फट् किरिटिं किरिटिं घातय घातय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय
सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमन्त्रान् भिन्द भिन्द क्षां क्षः वाः वाः
हूं फट् स्वाहा ।

(सभी दिशाओं में पुष्प क्षेपण करें)

आर्शीवाद कामना

यावत्त्रिलोक्या जिनमदिरार्चाम् तिष्ठन्ति शक्रादिभिरर्च्यमानाः ।

तावज्जिनादि प्रतिमा प्रतिष्ठा शिवार्थिनोऽनेन विधापयन्तु ॥३०॥

(प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठाकारको पर आर्शीवाद के पुष्प क्षेपण करे) पश्चात् जिनेन्द्र देव की पूजा करे ।

पूजा (९)

देवस्त्व त्रिजगन्नाथस्त्व त्रैलोक्यैकनायक ।

केवल ज्ञान दीपस्त्व मिथ्यात्व ध्वशनायक ॥१॥

ओं ह्रीं सिंहासन दिव्यध्वनि चतु षष्टि चामर प्रभामण्डलाशोकवृक्ष छत्रत्रय दुन्दुभि
पुष्पवृष्टि मणिमयमाला भृंगार कलश दर्पण स्वस्तिक श्वेत ध्वजा व्यजनेन्द्र युगल
यक्षद्वय सर्वाभ्यन्तर बाह्योपकरण संयुक्त जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संवैषट्
आह्वाननम् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्
सन्निधिकरणं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

हिमाचलान्निर्गतस्वर्धुनीय - सौरभ्यशीतोज्ज्वल नीरकुम्भैः ।

महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादि भव्यौघ भव प्रशान्त्यै ॥२॥

ओं ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

कर्पूरकाश्मीर सुचन्दनाद्यै सौगन्ध्यभारेण सुगन्धिताशैः ।

महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघ भव प्रशान्त्यै ॥३॥

ओ ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

चन्द्रोज्ज्वलैर्निर्मल शालिपुञ्जैर्मुक्तावतारैरिव शोभमानैः ।

महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्यै ॥४॥

ओं ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

सत्पारिजात प्रभृति प्रसूनैरामोद सन्तोषित षट्पदोद्यै

महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्यै ॥५॥

ओं ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

नानारसापूरितभव्यभोज्यै पक्वान्न शाल्योदनसञ्चयैश्च ।

महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्यै ॥६॥

ओं ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

रत्नप्रभादिद्युति सचितेन दीपेन भाभासित दिक्चयेन ।

महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्म शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्यै ॥७॥

ओं ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

पाटीरचूर्णेन सुगन्धितेन कर्पूरगन्धेन सुवासितेन ।
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्मं शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्यै ॥८॥
ओं ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

पूगार्द्रद्राक्षाफलचोचमोच - खर्जूर संशोभित मातुलिङ्गैः
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्मं शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्यै ॥९॥
ओं ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

पाटीरनीराक्षत पुष्पपुञ्ज नैवेद्यदीपादि समुच्चयेन ।
महामि सर्वज्ञपदाब्जयुग्मं शक्रादिभव्यौघभव प्रशान्त्यै ॥१०॥
ओं ह्रीं अष्टप्रातिहार्य संयुक्त जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्घावली

जाम्बूनदाब्द सहित मणिबद्धरत्न भृंगारझारिवर भूषित मुक्ति सौख्यम् ।
वेद्यां प्रमाणरचित भवशङ्कराग्र चैत्यं महामि सुरवृन्द महामहेरम् ॥११॥
ओं ह्रीं वेदिकास्थित जिनचैत्यार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

नानामणीरवचित हेममयैकभूष मुल्लोच तोरणमृदंगमनेकवाद्यम् ।
वेद्यां प्रमाणरचितं भवशङ्कराग्र चैत्यं महामि सुरवृन्द महामहेरम् ॥१२॥
ओं ह्रीं वेदिकास्थित जिनचैत्यार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

गन्धोद - दुन्दुभिमरुज्जयरत्नवृष्टि संगीत किन्नर सुरासुरमान्वाचर्यम् ।
वेद्यां प्रमाणरचितं भवशङ्कराग्र चैत्यं महामि सुरवृन्द महामहेरम् ॥१३॥
ओं ह्रीं वेदिकास्थित - जिन- चैत्यायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पूर्णेन्दुछत्र - वर - चामर - वीज्यमान माखण्डलस्तवननिर्भर विश्वदेवम् ।
वेद्या प्रमाणरचित भवशंकराग्र चैत्यं महामि सुरवृन्द महामहेरम् ॥१४॥
ओं ह्रीं वेदिकास्थित - जिन - चैत्यायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

नेत्रे च कर्णहृदये शिवसौख्यारि रत्नानुबिम्बितमनर्घ्यं विजृम्भमाणम् ।
वेद्या प्रमाणरचित भवशंकराग्र चैत्यं महामि सुरवृन्द महामहेरम् ॥१५॥
ओं ह्रीं वेदिकास्थित - जिन - चैत्यायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

समूहं जिनबिम्बानां प्रत्येकं मङ्गलाष्टकैः ।
धूप कुम्भोपकरणैरर्चाम् पूर्णद्रव्यकैः ॥१६॥
ओं ह्रीं वेदिकास्थित जिन- चैत्येभ्यः पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

सद्बुद्धिं विशदं श्रुताद्यसहित ज्ञानाब्धि पारगत ।
 सेव्यं धीमत्पर्ययैर्गुणशतै सर्वज्ञसत्त्वेत्त्वलम् ।
 लोकालोक विलोक भास्करविभ धर्मामृताम्भोनिधि
 साम्राज्याखिलशर्म विश्वकमल सम्पूजयामोमुदा ॥१७॥

पद्धरि

जयसुमति प्रकाशनसारसार हतमिथ्यामोह महान्धकार ।
 भव्यौघजलजबोधनदिनेन्द्र, प्रणताखिल देव नतामरेन्द्र ॥१८॥
 सहजावधिराजित देवदेव, सुरनर किन्नर वृत्तसुखदसेव ।
 गुणमणिरत्नाकर शर्मकन्द, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥१९॥
 सज्ज्ञानरश्मिततिवर्धमान, सुखसन्तति नित्य विजृम्भमाण ।
 जय परमानन्द महाजिनेन्द्र, प्रणताखिलदेवनतामरेन्द्र ॥२०॥
 वरकेवल किरणावलि विचित्र लोकालोकालोकनपवित्र ।
 वृत्तसमवसरणसद्धर्मकेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२१॥
 श्रीमन्दिर सुरसुन्दरनिवास, दिव्यध्वनि दूरीकृत नृत्रास ।
 निर्ग्रन्थतपोधन नत नरेन्द्र प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२२॥
 श्वेतातपत्रशोभानिधान, चामीकर चामर वीज्यमान ।
 भामण्डलमण्डित पृष्ठकेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२३॥
 मांगल्यशुभाष्टक प्रातिहार्य, सद्ध्यान विदूरित साम्पराय ।
 मंगलपदार्थराजितवृषेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२४॥
 सेवागतदेव चतुर्णिकाय, किन्नरगन्धर्व महोरगाय ।
 जयखेचर गगनागणदिवेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२५॥
 मृदुगायक जनवृत्तकुशलताल, काहलवीणारस विनतमाल ।
 भेरीमृदंग झल्लरिवृत्तेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२६॥

शृंगारहारआभरणदूर, जयमारमल्ल विजयैकशूर ।
रम्भानवयौवनवदनचन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२७॥

सगीत नृत्यविभ्रम विलास, हे स्वात्मसौरव्य सुन्दर निवास ।
भूयोभूयोविनमित खगेन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२८॥

अग्रेसुरसुन्दर्योलसन्ति, वरभक्तिभावतस्तव नमन्ति ।
हे अमरीनेत्रचकोरचन्द्र, प्रणताखिलदेव नतामरेन्द्र ॥२९॥

मालिनी

सूरनरफणिनाथ स्वान्तसन्तोषकारी
जिनमदनप्रहारी विश्वलोकोपकारी ।
जयतु जयतु देवः श्री जिनेन्द्राभिधान
नमति ललितकीर्तिस्त्वां सुभक्ति प्रधानः ॥३०॥


ओं ह्री वेदिकास्थित - जिन -बिम्बेम्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शार्दूल विक्रीडितम्

इत्थं ये जिनभक्तिरगतधियः सज्ज्ञानसिन्धूपमाः,
माङ्गल्यैः कलित कलङ् कहतये प्रार्चन्ति नित्यं जिनम् ।
ते पुत्रादि विभूतिभूषिततमा लब्ध्वा सुराणां सुखं,
क्षिप्र यान्ति शिव सदासुखमयं सन्दहत्य कर्माटवीम् ॥

इत्यार्षीवाद पुष्पांजलिं क्षिपेत्

(यदि मात्र वेदी प्रतिष्ठा करना हो तो शान्ति हवन, शान्ति अष्टक,
शान्ति भक्तिविसर्जन कर, यज्ञदीक्षा समापन विधिपूर्वक कार्य पूर्ण करें)



कलशारोहण

- मंत्रः - (१) शान्ति मंत्र
- मण्डलः - (१) याग मण्डल
 (२) चौबीस तीर्थकर मण्डल
 (३) पंच परमेष्ठी मण्डल
- यंत्रः - (१) विनायक यंत्र
 (२) आकाश यंत्र
- भक्तियांः - (१) सिद्ध भक्ति
 (२) श्रुत भक्ति
 (३) आचार्य भक्ति
 (४) चैत्य भक्ति
 (५) शान्ति भक्ति

कलशारोहण विधि

प्रस्तावना

न तामरशिरोरत्नप्रभाप्रोतनखत्विषे ।

नमो जिनाय दुर्वारमारवीरमदच्छिदे ॥१॥

जिनवाग्देवता नत्वा गुरुन् साधून्पुन पुन ।

कलशारोहणार्चा वै करोमि जिनयज्ञके ॥२॥

तत्रादौ गन्धकुट्यन्त सकलीकरणान्वित ।

देवशास्त्रगुरुणा च पूजन कुरुता तत ॥३॥

महर्षीणा पर्युपास पञ्च कौमारपूजनम् ।

पञ्च सद्गुरु पूजा च शान्तिधारात्रय पुनः ॥४॥

अर्हत्सिद्धमुनीनाञ्चाष्टक वृत्त्वा प्रथक्तात ।

कुम्भस्य स्नपन गन्धलेपन मालयार्चनम् ॥५॥

तत्र पुष्पाञ्जलि क्षिप्त्वा सिद्धार्थकुशदर्भकान् ।

परिक्षिप्य जलैः कुम्भ सेचनीय पृथक् पृथक् ॥६॥

सुर मेघकुमाराख्य पूजयेत्सलिलादिभिः ।

पूजयेत् शकुदेवञ्च सप्तावयवपूजनम् ॥७॥

ध्वजादिरोहण वृत्त्वा मंत्रोच्चारणपूर्वकम् ।

मंगलद्रव्यविन्यास स्वकीयपरिपूजनम् ॥८॥

कुम्भैस्त्रघारणं चैव चन्दनैर्लेपन पुन ।

रक्षाभिधान पुण्याह घोषण स्वस्तिवाचनम् ॥९॥

आशीर्वादविसर्गीं च सर्षपान् मस्तके क्षिपेत् ।

मन्दिर त्रिकबार च परिक्राम्येत मूर्धनि ॥१०॥

शिखरस्य स्वर्ण कुम्भशकौ सस्थापयेत्पुन ।

जयवाद्यादि सोत्साह नृत्यगीतैर्महाजनैः ॥११॥

सयाग च महापूजां महादान पुन पुन ।

द्रव्यदान तु ताम्बूलैः फलैः सन्तोषयेत्कृती ॥१२॥

जिनमंदिर में देवशास्त्र गुरु की पूजा करके महर्षिपर्युपासन के अर्घ एवं पांच बाल-ब्रह्मचारी तीर्थकरों की पूजा या अर्घ चढ़ा कर यागमण्डल विधान या पंचपरमेष्ठी विधान पूजा करें। घटयात्रा पश्चात् कलशाशुद्धि विधान, ८१ कलशों द्वारा शुद्धि, अभिषेक चन्दन लेपन शान्तिधारा आदि क्रियायें करना चाहिए फिर अर्हन्त सिद्ध और मुनियों की पूजा करें। कलशा के सातों नगों पर पुष्पक्षेपण कर जिनालय के ऊपर जावें और कलशा शिर पर रखकर शिखर की या जिनालय की तीन प्रदक्षिणा करें। पश्चात् शिखर की शुद्धि २१ मंत्रों द्वारा करना चाहिए। कलशारोहण ध्वजारोहण वादित्रों की ध्वनि पूर्वक जयकारा के साथ करें। अन्त में शांति हवन, पुण्याहवाचन, शांतिभक्ति, शांतिपाठ विसर्जन करें।

प्रथम दिन

प्रातः नित्यमह पूजा करके मंगल ध्वजा की स्थापना करें। फिर पात्रशुद्धि, सकलीकरण, दिग्बंधन, रक्षामंत्र, शान्तिमंत्राराधन कर सवालाख या कम से कम ५१ हजार शांति मंत्र द्वारा जाप्य प्रारंभ करावें। मध्याह्न घटयात्रा विधि करें और ८१ कलशों द्वारा कलश की शुद्धि एवं संस्कार पूजा आदि करना चाहिए।

द्वितीय दिन

प्रातः नित्यमह पूजा, महर्षिपर्युपासन, पांच बाल ब्रह्मचारी तीर्थकरों की पूजा, यागमण्डल विधान या पंचपरमेष्ठी विधान करना चाहिए।

तृतीय दिन

प्रातः नित्यमह पूजा करके शिखरशुद्धि, कलशा एवं ध्वजारोहण करके शांति हवन विसर्जन करना चाहिए।

कलशाशुद्धि विधान

मंगलाष्टक, पात्रशुद्धि, दिग्बंधन, रक्षामंत्र, शांतिमंत्र पढ़कर विनायकसिद्धयंत्र की पूजा करें। आचार्य एवं श्रुतभक्ति पढ़ें। तदनन्तर नीचे के श्लोक बोलते हुए कलशा पर पुष्पक्षेपण करें

वृषभोऽजितनामा च शंभवश्चाभिनन्दनः ।

सुमतिः पद्मभासश्च सुपश्र्वो जिनसत्तमः ॥

चन्द्राभः पुष्पदन्तश्चशीतलोभगवान्मुनिः ।

श्रेयांश्च वासुपूज्यश्च विमलो विमलद्युतिः ॥

अनन्तोधर्मनामा च शान्तिं कुन्थुर्जिनोत्तम ।
अरश्च मल्लिनाथश्च सुव्रतोनमितीर्थकृत् ॥
हरिवशसमुद्भूतोऽरिष्टनेमिर्जिनेश्वर ।
ध्वस्तोपसर्गदैत्यारि पार्श्वो नागेन्द्रपूजित ॥

कर्मान्तकृन्महावीर सिद्धार्थकुलसम्भव ।
एते सुरासुरौघेण पूजिता विमलत्विष ॥
पूजिताभरताद्यैश्च भूपेन्द्रैर्भूरिभूतिभि ।
चतुर्विधस्य सधस्य शान्तिं कुर्वन्तु शाश्वतीम् ॥
(यह पढकर कलश पर पुष्प वर्षा करें)

वासुपूज्यस्तथामल्लिनेमि पार्श्वोऽथसन्मति ।
कौमारे पञ्च निष्क्रान्तास्तान्यजे विघ्नशान्तये ॥
ओ ह्रीं पञ्च कौमार निष्क्रान्त जिनेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
अर्हन् सिद्धस्तथा सूरिरुपाध्यायोऽथ सन्मुनि ।
पञ्चैते गुरवो नित्यत्यमाराध्या कलशोत्सवे ॥
ओ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चन्दनैश्चन्द्रसकशै कर्पूरादिविमिश्रितै ।
अर्चं कुम्भ जिनेन्द्रस्य प्रासादस्योपरि स्थितम् ॥
ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असि आ उसा नमः सुगन्धितद्रेव्येण लेपनम् करोमि ।
शत्रवो निघन यान्तु हतास्ते परिपथिन ।
सुखमायु सदा चैव प्रतापोऽप्रतिमोऽस्तु च ॥

ओं नमोऽर्हते भगवते शान्तिनाथाय सर्वशान्तिकराय सर्वक्षुद्रोपद्रवनाशनाय
सर्वपरकृत्परचक्रविध्वंसनाय जिनमतसूर्योद्योतकाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु ।
कलशा पर तीन बार शान्ति धारा देवे तदनन्तर अष्टद्रव्य से पूजा करे

अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परम पावनौ ।
व्योमगगाजलै पूतैर्यजेऽह कलशोत्सवे ॥
ओ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।
अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परम पावनौ ।
चन्दन मिश्रोदकाद्यैर्यजेऽह कलशोत्सवे ॥
ओ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परमपावनौ ।

सदृक्षै रक्षतैर्दिव्यैर्यजेऽह कलशोत्सवे ॥

ओं ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुम्योऽक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परमपावनौ ।

कुन्दादिसमुदायैश्च यजेऽह कलशोत्सवे ॥

ओं ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परमपावनौ ।

चरुभि स्वर्णकरथाल्यैर्यजेऽहं कलशोत्सवे ॥

ओं ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परमपावनौ ।

प्रदीपैर्घृतपसद्यै र्यजेऽह कलशोत्सवे ॥

ओं ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हत्सिद्धमुनीना च क्रमौ परमपावनौ ।

धूपैर्द्युपतिधूमाग्नैर्यजेऽह कलशोत्सवे ॥

ओं ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्हत्सिद्धमुनीनां च क्रमौ परमपावनौ ।

मोचचोचफलाद्यैश्च यजेऽहं कलशोत्सवे ॥

ओं ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जलगन्धाक्षतैः पुष्पैश्चरुदीपसुधूपकै ।

फलैरघैर्महापूतैरर्हत्सिद्धमुनीन् यजे ॥

ओं ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुम्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शान्ति धारा

ओं प्रीयन्तां प्रीयन्तां सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनस्त्रिलोकेशास्त्रिलोकमहितास्त्रिलोकमध्ये तीर्थकरा भगवन्तोऽर्हन्तः परमवृषभादयो भुवनत्रयजनानां तेजःप्रतापबलवीर्य लक्ष्मी भाग्य सौभाग्यकरा भवन्तु । ह्रां ह्री हूं ह्रौं ह्रः अजरामरा भवन्तु । सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं बलं वीर्यं च कुर्वन्तु । (कलशा पर शान्तिधारा देवे)

जलधारा

यत्रप्रस्थापितस्वर्णभृङ्गनिर्यातसज्जलै ।
सेचयामि महोत्साहात्स्वर्णकुम्भमहोत्सवे ॥
ओ ह्री भृंगारादि कलशक्षालनं करोमि ।

अष्टगंधजलधारा

हेमाभकर्तृसत्पुष्पैश्चन्दनादिसुगन्धितै ।
देवाराध्यजनोत्साहे स्नपन ते करोम्यहम् ॥
ओ ह्री सुगन्धितसलिलेन कलशक्षालनं करोमि ।

केशरलेपन

पुन पुनर्वि लिम्प्यामि निर्लिप्त गणपूजितम् ।
स्वर्णकुम्भमहोत्साहे यजेऽह जिनमन्दिरम् ॥
ओं ह्री चन्दनेन पुनर्लिप्तं करोमि ।

जल धारा

क्षीरार्णवजलै शुभ्रे सुगन्धै रससयुतै ।
कलशान् शोधयेत्सम्यक् स्थैर्यार्थ मन्दिरोपरि ॥
ओ ह्री जलैः कलशं परिषेचयामि

पुष्पक्षेपण

जिनमन्दिररक्षार्थं कुम्भादीना च रोहणम् ।
करोमि द्योतनार्थं च तत पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् ॥
ओ ह्री पुष्पाञ्जलि क्षिपामि

कलश के चारों ओर सरसों का क्षेपण

सिद्धार्थकुशदर्भादीन् क्षेपयामि समन्तत ।
तेन चैत्यगृहद्वारे क्षेत्ररक्षार्थमुत्तमान ॥

ओं ह्री सिद्धार्थकुशदर्भान् समन्तात् सर्वदिक्षु कुम्भोपरि परिक्षिपामि ॥

इस प्रकार कलश शुद्धि करके शान्ति भक्ति, शान्तिपाठ, विसर्जन करना चाहिए और कलश पवित्र एवं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए ।

द्वितीय दिन

नित्यमहपूजा करकेयागमण्डलविधान या पचपरमेष्ठी विधान महर्षिपर्युपासन, पांच ब्रह्मचारी तीर्थकर पूजा या अर्घ शान्तिपाठ विसर्जन करना चाहिए ।

तृतीय दिन

शिखरशुद्धि विधान

मगलाष्टक, पात्रशुद्धि, दिग्बधन, रक्षामंत्र, शातिमत्राराधन, अभिषेक, नित्यमह विनायकयत्र पूजा कर चैत्यभक्ति करना पश्चात् मंदिर शिखर की शुद्धि करना चाहिए ।

१. ओं ह्री श्री क्ली अर्ह असिआउसा मंदिर शिखरस्य सर्वशान्त्यर्थ रत्नत्रय प्राप्त्यर्थ प्रथम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
२. ओं ह्री श्रां श्री श्रूं श्रींश्रः हं सं पः ठः ठः आत्मविशुद्धिकरणार्थ मोहादि विघ्न विनाशार्थ च द्वितीय कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
३. ओं ह्री क्स्त्व्यू हं सं श्रां श्री क्रौं क्ली सकलपाप विध्वंसनार्थ तृतीय कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
४. ओं ह्री ख्स्त्व्यू ह्रां ह्री हूं ह्रौं ह्रः असिआउसा चतुर्थ कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
५. ओं ह्री ग्स्त्व्यू श्री क्रौ इती रः रः हं हः पंचम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
६. ओं ह्री घ्स्त्व्यू ह्रां ह्री हूं ह्रौ ह्रः श्रां श्री श्रूं श्री श्रः षष्ठ कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
७. ओं ह्रीं ड्स्त्व्यू ओं ह्रां श्रां श्री क्ली ब्लूं सप्तम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
८. ओं ह्री च्स्त्व्यू हं सं श्रां श्री क्रौ क्ली अष्टम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
९. ओं ह्री छ्स्त्व्यू श्री हं सः ह्रां ह्री द्रां द्री ह्रौं ह्रः नवम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
१०. ओं ह्री ज्स्त्व्यू अर्ह णमो विउलमदीणं दशम कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
११. ओं ह्री झ्स्त्व्यू अर्ह णमोदशपुवीणं एकादश कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
१२. ओं ह्री ञ्स्त्व्यू अर्ह णमोचउदश पुवीणं द्वादश कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
१३. ओं ह्री अर्ह ट्स्त्व्यू णमोअठ्ठ महानिमित्त कुसलाणं त्रयोदश कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
१४. ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय थ्स्त्व्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय चतुर्दश कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।

- १५.ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय घर्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय पंचदश कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
- १६.ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय न्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय षोडश कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
- १७.ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय र्मल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय सप्तदश कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
- १८.ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय प्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय अष्टादश कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
- १९.ओं ह्री श्री शान्तिनाथाय ब्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय एकोनविंशति कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
२०. ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय भ्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय विंशति कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।
- २१.ओं ह्रां ह्री हूं ह्रौ ह्रः म्ल्यू बीजाय सर्वोपद्रव शान्तिकराय एकविंशेन कलशेनाभिषेकं करोम्यहम् ।

इन २१ कलशो द्वारा शिखर की शुद्धि कराके शिखर पर चार दिशा मे चार स्वस्तिक बनाकर तीन प्रदक्षिणा देकर कलशारोहण की क्रिया करना चाहिए ।

लौह रूप महाशङ्को वैर वश विनाशक ।

शिखरे त्व निषीदात्र महाभक्त्या स्थितो भव ॥

ओं ह्री हे शङ्कों आगच्छ, तिष्ठ तिष्ठ ठ. ठः, सन्निहितो भव भव वषट्
(कलशदण्ड (कुश) का स्पर्श कर पुष्प छोडे)

अनेकान्त मतोद्योत प्रचण्डोऽथ दिवामणि ।

एव वितर्कक शङ्को चाये पुष्पवरोत्तमै ॥

ओं ह्री शंक्वर्चनं करोमि (कुश पर पुष्प छोडे)

- (१) स्थात्या उपरिमे भागे सच्चामीकरचक्रिकाम्
स्थापये ऽहं विशेषेण मुखे च कलशोत्सवे

ओं ह्रीं णमोसव्व सिद्धाणं सिद्धचक्राधिपतये प्रथम स्थाने हेमकलशादि पीठे चक्रिका
स्थापनं करोमि (प्रथम नग की स्थापना करे)

चक्रिकां हि समर्चामि धर्मचक्र समन्विताम्
पूजयेत्कलशोद्दारे जिनमंदिर रक्षकान् ।

ओं ह्रीं हेमकलशपीठे चक्रिकांपूजनं करोमीति स्वाहा । (प्रथम नग पर अर्घ चढावें)

- (२) हेमपद्मस्थितं देव करोमि हेमपद्मवत्
जिनमंदिर मूर्धस्थं स्थिरं तिष्ठ दिवानिशम ।

ओं ह्रीं णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये हेमपद्म स्थापनं करोमि ।

(द्वितीय नग की स्थापना करें ।)

हेम पद्म निभ हेम पद्मकुम्भं समर्चयेत्
प्रतिष्ठाया विधौ नित्यं जलगन्धाक्षतादिभिः।

ओं ह्रीं हेमपद्मार्चनं करोमीति स्वाहा । द्वितीय नग पर अर्घ चढावें ।

- (३) हिरण्यमयी चक्रिकां पूजये विधितोऽन्वहम् ।
जिनमंदिरमूर्धस्थां परिपूर्तिं प्रसूचिकाम्

ओं ह्रीं णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये हिरण्य चक्रिका स्थापनं करोमि ।
तृतीय नग की स्थापना करें ।

हेमकुम्भमहे स्थालीं चक्रिकोपरि सुस्थिराम् ।
करोमि विधिवत्पूजां तस्याः कुम्भमहोत्सवे ॥

ओं ह्रीं हिरण्यचक्रिकापूजां करोमीति स्वाहा । तृतीय नग पर अर्घ चढावें ।

- (४) वृत्ता स्थूला सुरम्या च नानारत्नैः समर्चिता ।
चक्रवच्चक्रकारम्या स्थाप्या कुम्भाधिरोहणे ॥

ओं ह्रीं णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये हेमकुम्भ चक्रिका स्थापनं करोमि ।
चतुर्थ नग की स्थापना करे ।

हेमकुम्भमहे स्थालीं पूजयेत् विधितो मुदा ।
जिनमंदिरनिर्माणे रक्षार्थं तदुपद्रवात् ।

ओं ह्रीं हेम कुम्भस्थाली पूजनं करोमीतिस्वाहा । चतुर्थ नग पर अर्घ चढावें ।

(५) स्थाल्या उपरिमे भागे सच्चामीकर चक्रिका ।
चिर तिष्ठतु शोभा च करीभूता जिन मूर्ध्नि ।

ओ ह्री णमोसिद्धाणं सिद्धचक्राधिपतये कनक कुम्भ स्थापनं करोमि ।

पंचम नग की स्थापना करे ।

चक्रिका पूजन कुर्वे रगरक्षार्थमेव च ।
जलगन्धादिभि सम्यक् शान्त्यर्थ कलशोत्सवे ।

ओ ह्री कनक कुम्भ स्थाली पूजनं करोमीति स्वाहा ।

पंचम नग पर अर्घ चढ़ावे ।

(६) चामीकरचक्रिका च कर्मकाण्डनिकन्दना
अत्रैव च स्थिरभूत्वा चिर तिष्ठ महामखे ।

ओ ह्री णमोसिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये चामीकर चक्रिका स्थापनं करोमि ।

षष्ठम नग को स्थापित करे ।

षष्ठस्थाने हि सुस्थाप्या सच्चामीकरचक्रिका ।
चक्रिकापूजन कुर्वे शान्त्यर्थ कलशोत्सवे ॥

ओं ह्री चामीकर चक्रिका पूजनं करोमीति स्वाहा ।

षष्ठम नग पर अर्घ चढ़ावे ।

(७) शालकुम्भमयी कुम्भे सस्थाप्या चूलिकावरा ।
सा कुम्भचूलिकाप्रोक्ता ता कुर्वे सुभगरस्थिताम् ॥

ओ ह्री णमो सिद्धाणं सिद्ध चक्राधिपतये सप्तम स्थाने स्वर्ण कुम्भ
चूलिकारथापनं करोमि ।

(सप्तम नग की स्थापना करे)

जलगन्धाक्षतै. पुष्परष्टद्रव्यमनोहरैः ।
हेमकुम्भमहे कुम्भचूलिका पूजयेत् मुदा ।

ओं ह्री हेमकुम्भचूलिकापूजनं करोमि ।

(सप्तम नग पर अर्घ चढ़ावें)

मुक्तिद्वीती समासक्ते मूर्धनि स्तात्समानवा
देवाराध्य जनोत्साह मिथ्यादृङ् मदमर्दनम् ।

ओं ह्री कलशोपरि मालां धारयामि ।

(कलश पर माला बांधे ।)

स्रग्धारण गन्धलेपं सववियवचार्चनम् ।

रक्षाभिधानमुद्घोष्य स्थापयेत्कलशं जनः ।

ओं ह्रीं परमब्रह्म मंदिरोपरि शिराप्रदेशे भद्रपीठ महाकुम्भ महापीठ चिरं स्थायीभव
सर्वजीवानां क्षेमायुरारोग्यं वृद्ध्यर्थं तिष्ठ तिष्ठ याजक यजमानादीनां
सर्वसौख्यविधानार्थं प्रत्यूहव्यूहप्रणाशनार्थं कल्पान्तरस्थायी भव ।

यह पढ़कर कलश पर सब दिशाओं में पुष्प क्षेपण करें ।

तदनन्तर ८४ पृष्ठ से ध्वजपूजा करके यह मंत्र पढ़कर ध्वजारोहण करना चाहिए ।

रत्नत्रयात्मकतयाभिमतोऽत्रदण्डे,

लोकत्रयप्रवृत्तकेवलबोधरूपम् ।

संकल्पपूजितमिदध्वजमर्च्यलग्ने,

स्वारोपयामि सति मंगलवाद्यघोषे ॥

ओंगमो अरिहंताणं स्वस्तिभद्रं भवतु सर्वलोकस्य शांति भवतु स्वाहा ।

मंदिर के कलश से ध्वजा की ऊंचाई का फल

कलशादुच्छिस्ते हस्तं ध्वजे नीरोगता भवेत् ।

द्विहस्तमुच्छिस्ते तस्मात्पुत्रद्विर्जायते परा ॥

त्रिहस्तसस्यसम्पत्तिर्नृपवृद्धिश्चतुःकरम् ।

पंचहस्तं सुभिक्षं स्याद्राष्ट्रवृद्धिश्च जायते ॥

मंदिर की शिखर पर लगे कलश से ध्वजा एक हाथ ऊंची हो तो आरोग्यकारक है । दो हाथ ऊंची ध्वजा पुत्र एव सम्पत्तिकारक है । तीन हाथ ऊंची ध्वजा धन धान्यकारक है । चार हाथ ऊंची ध्वजा राजा की वृद्धिकारक है । पांच हाथ ऊंची ध्वजा सुभिक्ष और राष्ट्रवृद्धि करने वाली है ।

ध्वजारोहण कर शान्त्यष्टक, शान्ति भक्ति, पढ़कर नौ बार णमोकार मंत्र पढ़ कर कार्य संपन्न करे । पश्चात् शान्ति हवन, पुण्याहवाचन, शांति पाठ, विसर्जन, कर यज्ञदीक्षा समापन विधि पूर्वक कार्य पूर्ण करे ।

भक्ति - संग्रह

	भक्तियों	पृष्ठ क्रमांक
(१)	पंचकल्याण स्रोतम्	५०९
(२)	सिद्ध भक्ति	५१०
(३)	श्रुत भक्ति	५११
(४)	चारित्र्य भक्ति	५१२
(५)	आचार्य भक्ति	५१४
(६)	योगि भक्ति	५१५
(७)	तीर्थकर भक्ति	५१७
(८)	समाधि भक्ति	५१८
(९)	निर्वाण भक्ति	५२०
(१०)	नवदेव भक्ति	५२३
(११)	लघुचैत्य भक्ति	५२४
(१२)	शांत्याष्टकम् (शांति भक्ति)	५२५

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में भक्तियों का विधान

श्रीमज्जिनेन्द्र पंचकल्याणकजिनबिम्ब प्रतिष्ठा के पावन कार्य को सानन्द सम्पादित करने के लिए जन-जन की श्रद्धापूर्ण सद्भावना आवश्यक है। शिल्पी, कारीगर, कर्मचारी आदि से लेकर प्रतिष्ठाकारक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक एवं दर्शनार्थी सभी समयित दिनचर्या का पालन करते रहे। सभी प्रतिष्ठापात्र एवं पदाधिकारियों के साथ-साथ समाज के सभी श्रद्धालुजनों को शांतिमंत्राराधन करना चाहिए। कार्यनिष्पादित करने के लिए सवालाख मंत्रों का जाप्य अनुष्ठान अनिवार्य है।

पंचकल्याणक महोत्सव में जितने साधर्मिजन पधारे प्रतिष्ठाचार्य सभी को मंत्राराधन की सतत् प्रेरणा देते रहे, क्योंकि जन-जन की समर्पित सद्भावना, दृढ़ आस्था एवं प्रतिष्ठापात्रों की समयसाधना, निर्दोषचर्या ही प्रतिष्ठा कार्य को अतिशयकारी बनाती है।

प्रतिष्ठाकार्य के प्रारम्भ से लेकर समापन तक समय-समय पर प्रतिष्ठाचार्य एवं प्रतिष्ठापात्रों द्वारा कल्याणक सम्बन्धी मंत्राराधन शुद्ध उच्चारण सहित करने का उल्लेख आचार्यों ने किया है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा प्रदर्शन का नहीं किन्तु साधना का कार्य है। यह मंत्राराधन ध्यान एवं भक्तियों के माध्यम से प्रतिमा में गुणारोपण की महत्वपूर्ण पद्धति है। इस कार्य में प्रतिष्ठाकारक, प्रतिष्ठाचार्य एवं समस्त प्रतिष्ठापात्रों की मन, वचन, काय की विशुद्धि, निर्दोषसयम, त्याग एवं दिगम्बराचार्य मुनिराजों की साधना एवं सस्कारारोपण, गुणारोपण, अकन्यास, मन्त्रन्यास, सूरिमन्त्र, प्राणप्रतिष्ठा आदि क्रियाओं की मुख्य भूमिका है।

उक्त महत्वपूर्ण क्रियाये यत्र, मन्त्र एवं भक्तियों पर ही आधारित होती है, इन्हीं के माध्यम से पाषाण को सस्कारित करके पूज्यता स्थापित की जाती है। सभी कल्याणकों में भक्ति करने का विधान प्रतिष्ठाशास्त्रों में उल्लेखित है। प्रतिष्ठाचार्य को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा में मन्त्र प्रदर्शन के कार्य की मुख्यता नहीं किन्तु आन्तरिक क्रियाओं का विधि-विधान ही कार्यकारी होता है इसमें शिथिलता करना उचित नहीं है।

गर्भकल्याणक^(१)

इत्थं वै सिद्धचारित्रशान्तिभक्तीः ससंघकाः ।
गर्भावतारकल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजकाः ॥

जन्मकल्याणक^(२)

इत्थं वै सिद्धचारित्रशान्तिभक्तीः ससंघकाः ।
जन्माभिषेककल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजकाः ॥

तपकल्याणक^(३)

सिद्धचारित्रयोगीशशान्तिभक्तीः ससंघकाः ।
दीक्षागृहणकल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजकाः ॥

ज्ञानकल्याणक^(४)

सिद्धश्रुतचारित्रर्षिशान्तिभक्तीः ससंघकाः ।
केवलज्ञानकल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजकाः ॥

निर्वाणकल्याणक^(५)

सिद्धश्रुतचारित्रर्षि शिवशान्तीशभक्तिभिः ।
भक्त्यानिर्वाणकल्याण क्रियां कुर्वन्तु याजकाः ॥

(१) श्री नेमिचन्द्रदेव प्रतिष्ठातिलक, श्लोक ४२६, पं. आशाधर, प्रतिष्ठासारोद्धार, श्लोक ९० ।

(२) वही. श्लोक ४९५ । (३) वही, श्लोक ५२४, १०२ । (४) वही, श्लोक ५८९, ११६ ।

(५) वही, श्लोक ६२१, १२६ ।

(१) पंचकल्याणस्तोत्रम्

यद् गर्भावतरात्पुर सुरपति सतोषयन् भूतल
दीनानाथजनाश्च दुःखदवतो निर्घाट्य हर्ष ददन् ।
षण्मासात्पुरत परत्र नवसु स्वर्ण समावर्षयन्
श्री ह्री मुख्यकुम्भारिका प्रणियुजन् यस्यास्ति सेवापर ॥१॥

स्वर्गनिकपमाधिरोह्य सदनाद्ग्राज्ञ सुमेरुस्थल
नीत्वा दुग्धपयोधिसभृतनिपै स्नान चकारेन्द्रराट् ।
यत्स्तोत्रं सुविधातुमास्यमकरोत्साहस्रसख्य तथा
नृत्यप्रागणसगतस्तु वपुष स त्व जिनेन्द्र प्रभु ॥२॥

किञ्चिद्धेतुविलभनादिह गत साम्राज्यसौख्य तृण-
प्राय मोचितवान् त्रिलोकमहित राज्य समासादितुम् ।
वृक्वोप्रे तपसि स्थितोऽशुभविवृत्त्युत्पाटयन्मूलत-
श्चारित्रैश्यमगात्प्रभुर्गुणनिधि स त्व विभास्येव न. ॥३॥

कैवल्यावगमाच्चराचरजगद्वस्तु स्वरूप करे
वृक्त्वा श्री समवस्थितौ नरपशुस्वर्गिव्रज बोधयन् ।
धर्माभोभवदुःखतप्तभविनो दत्त्वा सुखास्वादन
नीता सोऽस्त्वपुनर्भवाय भवता कल्याणकल्पद्रुम ॥४॥

आयुर्नाम सुगोत्रशातनविधीनुक्त्वाल्पसर्वप्रकृ-
त्युन्माथ सुविधाय चैकसमये लोकातमाप्त स्वभू ।
किञ्चिन्न्यूननिजात्मदेशकलन सिद्ध पर ज्ञापक -
श्चिद्ज्ञानाबकवीर्यताप्तिविमल स त्व महान् पूज्यसे ॥५॥

इति पठित्वा पंचकल्याणारोपणविधिप्रतिज्ञानाय मूलप्रतिवृत्त्यग्रे पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् ।
(विधिनायक प्रतिमा के आगे पुष्प क्षेपण करे)

(२) सिद्धभक्ति

असरीरा जीवघणा उवजुता दसणेय णाणेय ।
सायारमणायारा लक्खणमेयतु सिद्धाणं ॥१॥

मूलोत्तरपयडीण बघोदयसत्तकम्मउम्मुक्का ।
मंगलभूदा सिद्धा अट्ठ गुणा तीदससारा ॥२॥

अट्ठविहकम्म वियला सीदीभूदा गिरंजणा णिच्चा ।
अट्ठगुणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥३॥

सिद्धा णट्ठट्ठमला विसुद्धबुद्धीय लद्धिसब्भावा ।
तिहुअणसिरिसेहरया पसियंतु भडारया सव्वे ॥४॥

गमणागमणविमुक्केविहडियकम्मपयडिसंधारा ।
सासहसुह सपत्ते ते सिद्धा वदियो णिच्चं ॥५॥

जयमंगलभूदाण विमलाण णाणदसणमयाणं ।
तइलोइसेहराण णमो सदा सव्वसिद्धाणं ॥६॥

सम्मत्तणाणदसणवीरिय सुहुम तहेव अवग्गहण ।
अगुरुलघु अवावाहं अट्ठगुणा होति सिद्धाण ॥७॥

तवसिद्धे णयसिद्धे सजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य
णाणम्मि दसणम्मिय सिद्धे सिरसाणमस्सामि ॥८॥

इच्छामि भंते । सिद्धभक्ति काओसग्गो कओतरस्सालोचेओ^(१), सम्मणाणसम्म
दंसणसम्मचरित्तजुत्ताणं अट्ठविहकम्मविप्पमुक्काणं, अट्ठगुणसंपण्णाणं, उद्धल्लोय
मत्थयम्मि पयट्ठियाणं तव सिद्धाणं णयसिद्धाणं संजमसिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं
अतीताणागदवड्ढमाण कालत्तयसिद्धाणं सव्वसिद्धाणं सयाणिच्चकालं अच्चेमि
पुज्जेमि^(२) वंदामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ सुगईगमणं
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं । इति पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थ
भावपूजावन्दनारस्तवसमेतं कायोत्सर्ग करोमि ।

(१) धर्मध्यानदीपक एव सिद्ध भक्ति प्रवचन (सहजानंद वर्णी) मे पाठातर - काउरसग्गोकओ
तरस्सालोचेउ (२) अचेमि - अच्चेमि, पूजेमि - पुज्जेमि ।

(३) श्रुतभक्ति

अर्हद्वक्त्रप्रसूत गणधररचित द्वादशाग विशाल ।
 चित्र बहवर्थयुक्त मुनिगणवृषभैर्धारित बुद्धिमद्भिः ॥
 मोक्षाग्रद्वारभूत व्रतचरणफल ज्ञेयभावप्रदीपं ।
 भक्त्या नित्य प्रवदे श्रुतमहमखिल सर्वलोकैकसारम् ॥१॥

जिनेन्द्रवक्त्रप्रविनिर्गत वचो यतीद्रभूतिप्रमुखैर्गणाधिपैः ।
 श्रुत धृत तैश्च पुन प्रकाशित द्विषट्प्रकार प्रणमाम्यह श्रुतम् ॥२॥
 कोटीशत द्वादश चैव कोट्यो लक्षाप्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव ।
 पचाशदष्टौ च सहस्रसख्यमेतच्छ्रुत पचपद नमामि ॥३॥

अगबाह्यश्रुतोद्भूतान्यक्षराण्यक्षराम्नये ।
 पचसप्तैकमष्टौ च दशाशीतिं समर्चये ॥४॥
 अरिहतभासियत्य गणहरदेवेहिं गथिय सम्म ।
 पणमामि भक्तिजुत्तो सुदणाणमहोवहि सिरसा ॥५॥

इच्छामि भंते । सुदमति काओसग्गो कओतरसालोचेओ अंगोवंगपइण्णयेपाहुडय
 परियम्मसुत्तपढमासिओय पुव्वगयचूलिया चैव सुत्तत्थयत्थुइधम्मकहाइयं सुदं
 णिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमरसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ
 सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ॥ (कायोत्सर्गं करोम्यहम्)

(४) चारित्रभक्ति

ससारव्यसनाहतिप्रचलिता नित्योदयप्रार्थिनः ।
 प्रत्यासन्नविमुक्तय सुमतयः शान्तैः प्राणिनः ॥
 मोक्षस्यैव कृत्वा विशालमतुल सोपानमुच्चैस्तरा -
 मारोहतु चरित्रमुत्तममिदं जैनेन्द्रमोजस्विनः ॥१॥

तिलोऽसव्वजीवाणं हियं धम्मोवदेसणं ।
 वड्ढमाणं महावीरं वदित्ता सव्ववेदिणं ॥२॥

घाडकम्म विघातत्थं घाडकम्मविणासिणा ।
 भासियं भव्वजीवाणं चारित्तं पंचभेददो ॥३॥

सामायिय तु चारित्तं छेदोवड्ढावणं तहा ।
 तं परिहारविसुद्धिं च संयमं सुहमं पुणो ॥४॥

जहाखायं तु चारित्तं तहाखायं तु तं पुणे ।
 किच्चाह पचहाचारं मंगलं मलसोहणं ॥५॥

अहिसादीणि वुत्तानि महव्वयाणि पंच य ।
 समिदीओ तदो पच पंचइदियणिग्गहो ॥६॥

छब्भेयावासभूसिज्जा अण्हाणत्तमचेलदा ।
 लोयत्तं ठिदिभुत्तिं च अदंतवणमेव च ॥७॥

एयभत्तेण सजुत्ता रिसिमूलगुणा तहा ।
 दसधम्मा तिगुत्तीओ सीलाणि सयलाणि च ॥८॥

सव्वे वियं परीसहा वुत्तुत्तरगुणा तहा ।
 अण्णे वि भासिया सता तेसिहाणीमयेकया ॥९॥

जइरागेण दोसेण मोहेण णदरेण वा ।
वदित्ता सव्वसिद्धाण सजुहा सामुमुखुण ॥१०॥

सजदेण मए सम्म सव्वसजमभाविणा ।
सव्वसंजमसिद्धीओ लब्भदे मुत्तिजं सुहं ॥११॥

धम्मो मगलमुक्किट्ठ अहिसासजमो तओ ।
देवा वि तरस्स पणमंति जरस्स धम्मे सया मणो ॥१२॥

इच्छमि भंते चारित्तमत्तिकाओसग्गो कओ तस्सालोचेओ सम्मणाणजोयस्स
सम्मत्ताहिट्ठियस्स सव्वपहाणरस्स णिव्वाणमग्गस्स संजमस्स कम्मणिज्जरफलस्स
खमाहरस्स पंचमहव्वयसंपण्णरस्स तिगुत्तिगुतरस्स पंचसमिदिजुतरस्स णाणज्झाणसाहणरस्स
समयाइपवेसयस्स सम्मचरित्तस्स सयाणिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ
मज्झं । कायोत्सर्गं करोम्यहम् ।

(५) आचार्य भक्ति

देसकुलजाइसुद्धा विसुद्धमणवयणकायसंजुता ।
 तुम्हं पायपयोरुहमिह नंगलत्थि मे णिच्चं ॥१॥
 सगपर सनय विटण्हू आगनहेदूहि चावि जाणित्ता ।
 सुसमच्चर जिणवयणे विणएसुताणुरुवेण ॥२॥
 बालगुरुडुड्ढसेहेगिलाणयेरेयखमणसंजुता ।
 अट्ठावयग्गअण्णे दुस्सीले चावि जाणित्ता ॥३॥
 वयसमिदिगुत्तिजुत्ता मुत्तिपहे ठावया पुणो अण्णे ।
 अज्झावयगुणिलया साहुगुणेणावि संजुत्ता ॥४॥
 उत्तमखमाइपुढवी पसण्णमावेण अच्छजलसरिसा ।
 कम्मिंघणदहणादे अगणी वाऊ अत्तंगादे ॥५॥
 नयणमिव गिरुवलेवा अक्खोहा सायरुव्वमुनिवसहा
 एरिसगुणणिलयाणं पायं पणमानि सुद्धमणो ॥६॥
 संसारकाणणे पुण वंमममाणेहि भव्वजीवेहि ।
 णिव्वाणस्स दु मग्गोलद्धो तुम्हं पसाएण ॥७॥
 अविस्सुद्धलेसरहिया विसुद्धलेसेहि परिणटा सुद्धा ।
 रुद्धुडे पुणवत्ता धन्ने सुक्के य संजुत्ता ॥८॥
 ओग्गह ईहावायाधारणगुणसंपएहिं संजुत्ता ।
 सुत्तत्थमावणाए भावियमाणेहिं वंदानि ॥९॥
 तुम्हे गुणगण संथुदि अयाणमाणेण जं नए वुत्ता ।
 वित्तु मम बोहिलाहं गुरुभत्तिजुदत्थओ णिच्चं ॥१०॥

इच्छामि भंते आइरियमत्ति काओसग्गो कओ तस्सालोक्केओ सम्मणाणसम्मदंसण
 सम्मचस्तिजुताणं पंविहाचाराणं आयरियाणं आयारादिसुदणाणेवदेसयाणं
 उवज्झायाणं तिरयणगुणपालणरयाणं सब्बसाहूणंसया णिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि
 वंदामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ सुगइगमणं समाहिमरणं
 जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं । (कायोत्सर्गं करोम्यहम्)

(६) योगिभक्ति

थोस्सामि गणघराण अणयाराण गुणेहि तच्चेहि ।
 अंजुलिमउलियहत्थो अहिवंदंतो सविभवेण ॥१॥
 सम्म चेव य भावे मिच्छाभावे तहेव बोद्धव्वा ।
 चइऊण मिच्छाभावे सम्ममि उवट्ठिदे वंदे ॥२॥
 दो दोसविप्पमुक्के तिदड विरदे तिसल्ल परिसुद्धे ।
 तिण्णिय गारव रहिए तियरण सुद्धे णमस्सामि ॥३॥
 चउविहकसायमहणे चउगइ ससारगमणभयभीए ।
 पंचासव पडि विरदे पंचेदियणिज्जदे वदे ॥४॥
 छज्जीवदयावण्णे छडायदण विवज्जिये समिदभावे ।
 सत्तभयविप्पमुक्के सत्ताणभयंकरे वंदे ॥५॥
 णदट्ठमघट्ठाणे पणट्ठ कम्मट्ठ णट्ठ संसारे ।
 परमट्ठणिट्ठि मट्ठे अट्ठ गुणट्ठीसरे वंदे ॥६॥
 णवबभचेरगुत्ते णवणय सड्भाव जाणगे वंदे ।
 दसविहधम्मट्ठाई दससजम संजुदे वंदे ॥७॥
 एयार संगसुद सायरपारगे बार सग सुदणिउणे ।
 वारसविह तवणिरदे तेरस किरियापडे वंदे ॥८॥
 भूदेसु दयावण्णे चउदस चउदस सुगंथ परिसुद्धे ।
 चउदसपुव्वपगम्भे चउदसमल वज्जिदे वदे ॥९॥
 वदे चउत्थभत्तादि जावछम्मास खवणि पडि पुण्णे ।
 वदे आदावते सूरस्स य अहि मुहट्ठिदे सूरु ॥१०॥
 बहु विह पडिमट्ठाई णिसेज्जवीरासणोज्झवासीयं ।
 अणिट्ठु अकुडुंबदीये चत्तदेहे य णमस्सामि ॥११॥
 ठाणिय मोणवदीए अब्भोवासी य रुक्खमूलीय ।
 धुदकेस्समंसुलोमे णिप्पडियम्मे य वंदामि ॥१२॥

जल्लमललित्तगत्ते वन्दे कम्ममलकलुस परिसुद्धे ।
 दीहणहणमंसुलोये तव सिरिभरिए णमस्सामि ॥१३॥
 णाणोदयाहि सित्ते सीलगुणविहूसिये तवसुगंधे ।
 ववगयराय सुदट्ठे सिवगइ पहणायगे वंदे ॥१४॥
 उग्गतवे दित्ततवे तत्तवे महातवे य घोरतवे ।
 वंदामि तव महंते तव संजमइडिढ संपत्ते ॥१५॥
 आमोसहिए खेलो सहिए जल्लोसहिय तव सिद्धे ।
 विप्पोसहिए सव्वो सहिए वंदामि तिविहेण ॥१६॥
 अमयमुह खीरसणी सव्वी अक्खीणमहाणसे वंदे ।
 मणवत्ति पचंवलिकाय वलिणो य वंदामि तिविहेण ॥१७॥
 वरकुट्ठवीय बुद्धी पयाणुसारीय सभिण्ण सोयारे ।
 उग्गहईहसमत्थे सुतत्थ विरारदे वंदे ॥१८॥
 आभिणिबोहिय सुद ओहिणाणिमणणाणि सव्वणाणी य ।
 वंदे जगप्पदीवे पच्चक्खपरोक्खणाणी य ॥१९॥
 आयास तंतुजलसेट्ठि चारणे जंघ चारणे वंदे ।
 विउवणइडिढपहाणे विज्जाहरपण्णसमणे य ॥२०॥
 गइचउरंगुलगमणे तहेव फलफुल्लचारणे वंदे ।
 अणुवमतवमहंते देवासुरवंदिदे वंदे ॥२१॥
 जियभय जियउवसग्गे जिय इंदिय परिसहे जियकसाये ।
 जियरायदोसमोहे जियसुहदुक्खे णमस्सामि ॥२२॥
 एव मए अभित्थुआ अणयारा रायदोस परिसुद्धा ।
 संघस्स वरसमाहिं मज्झवि दुक्खक्खयं दित्तु ॥२३॥

इच्छामि भंते जोगिभत्ति काओसग्गो कओ तस्सालोचेओ अड्ढइज्जदीव दोसमुद्धेसु
 पण्णा रस कम्मभूमीसु आदावण रुक्खमूल अब्भोवासठाणमोण
 वीरासणेक्कपासकुक्कड़ासण चउ-छ-पक्ख खवणादि जोगजुत्ताणं सव्वसाहूणं
 सया णिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कमक्खओ
 बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिनगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।
 (कायोत्सर्गं करोम्यहम्)

(७) तीर्थकर भक्ति

चउवीस तित्थयरे उसहाईवीर पच्छिमे वदे ।
सव्वेसि मुणिगणहरसिद्धे सिरसा णमस्सामि ॥१॥

ये लोकेष्टसहस्रलक्षणधरा ज्ञेयार्णवातर्गता ।
ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाश्चन्द्रार्कत्रेजोधिका ।
ये साध्विन्द्रसुराप्सरोगणशतैर्गीतप्रणुत्यार्चिता ।
तान्देवान् वृषभादिवीरचरमान्भक्त्या नमस्याम्यहम् ॥२॥

नाभेय देवपूज्य जिनवरमजित सर्वलोकप्रदीपम् ।
सर्वज्ञ सम्भवाख्य मुनिगणवृषभ नन्दन देवदेवम् ।
कर्मारिघ्न सुबुद्धि वरकमलनिभ पद्मपुष्पाभिगध ।
क्षान्त दान्त सुपार्श्व सकलशशिनिभ चन्द्रनामानमीडे ॥३॥

विख्यात पुष्पदन्त भवभयमथन शीतल लोकनाथ ।
श्रेयास शीलकोश प्रवरनरगुरु वासुपूज्य सुपूज्यम् ।
मुक्त दान्तेद्रियाश्व विमलमृषिपति सिंहसैन्य मुनीन्द्रम् ।
धर्म सद्धर्मकेतु शमदमनिलय स्तौमि शांति शरण्यम् ॥४॥

कुथु सिद्धालयस्थ श्रमणपतिमर त्यक्तभोगेषु चक्रम् ।
मल्लि विख्यातगोत्र खचरगणनुत सुव्रत सौख्यराशिम् ।
देवेन्द्रार्च्य नमीश हरिकुलतिलक नेमिचन्द्र भवान्तम् ।
पार्श्व नागेन्द्रवद्य शरणमहिमितोवर्द्धमान च भक्त्या ॥५॥

इच्छामि भंते च उवीसतित्थयर भक्तिकाउरसगो कओ तस्सालोचेओ
पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं अट्ठमहापाडिहेरसहियाणं चउतीसातिसयविसेस
संजुत्ताणं बत्तीस देविद मणिमय मउडमत्थयमहियाणं बलदेववासुदेव
चक्कहररिसिमुणिजइअणगारोवगूढाणं थुइसय सहस्स णिलयाणं उसहाइवीर
पच्छिममंगलमहापुरिसाणं सया णिच्चकाल अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि ।
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाओ सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ
मज्झं । (कायोत्सर्गं करोम्यहम्)

(८) समाधि भक्ति

स्वात्माभिमुखसवित्तिलक्षण श्रुतचक्षुषा ।
 पश्यन्पश्यामि देव त्वा केवलज्ञानचक्षुषा ॥
 शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति सगतिः सर्वदार्यैः ।
 सद्वृत्ताना गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् ॥१॥
 सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे ।
 सपद्यता मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गा ॥२॥
 जैनमार्गरुचिरन्यमार्गनिर्वेगता जिनगुणस्तुतौ मतिः ।
 निष्कलकविमलोक्तिभावनाः संभवन्तु मम जन्मजन्मनि ॥३॥
 गुरुमूले यतिनिचिते चैत्यसिद्धान्तवार्धिं सद्घोषे ।
 मम भवतु जन्मजन्मनि सन्यसनसमन्वित मरणम् ॥४॥
 जन्मजन्मकृत् पापं जन्मकोटिसमार्जितम् ।
 जन्ममृत्युजरामूलं हन्यते जिनवंदनात् ॥५॥
 आबाल्याज्जिनदेवदेव भवत श्रीपादयो सेवया ।
 सेवासक्तविनेयकल्पलतया कालोद्ययावद्गतः ।
 त्वां तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे ।
 त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्णं पठने कण्ठोऽस्त्वकुण्ठो मम ॥६॥
 तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनं ।
 तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावन्निर्वाणसंप्राप्तिः ॥७॥
 एकापि समर्थेय जिनभक्तिर्दुर्गति निवारयितुम् ।
 पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः ॥८॥
 पंच अरिजयणामे पचय मदिसायरे जिणेवंदे ।
 पंचजसोयरणामे पचय सीमंदरे वंदे ॥९॥
 रयणत्तय च वदे चवीस जिणे च सव्वदा वंदे ।
 पंचगुरुण वन्दे चारणचरण सदा वंदे ॥१०॥

अर्हमित्यक्षर ब्रह्म वाचक परमेष्ठिन ।
 सिद्धचक्रस्य सद्बीज सर्वत प्रणिदध्महे ॥११॥
 कर्माष्टकविनिर्मुक्त मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् ।
 सम्यक्त्वादिगुणोपेत सिद्धचक्र नमाम्यहम् ॥१२॥
 आकृष्टि सुरसपदा विदधते मुक्तिश्रियो वश्यता -
 मुच्चाट विपदा चतुर्गतिभुवा विद्वेषमात्मैनसाम् ।
 स्तभ दुर्गमन प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम् ।
 पायात्पन्वनमस्क्रियाक्षरमयी साराधनादेवता ॥१३॥
 अनन्तानन्तससार-सततिच्छेद-कारणम् ।
 जिनराजपदाम्भोज-स्मरण शरण मम ॥१४॥
 अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण मम ।
 तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥१५॥
 नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये ।
 वीतरागात्परोदेवो न भूतो न भविष्यति ॥१६॥
 जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्जिने भक्तिर्दिनेदिने ।
 सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेस्तु भवे भवे ॥१७॥
 याचेऽह याचेऽह जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिम् ।
 याचेऽह याचेऽह पुनरपि तामेव तामेव ॥१८॥
 विघ्नौघा प्रलय यान्ति शाकिनीभूतपन्नगा ।
 विषो निर्विषता याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥१९॥

इच्छामि भंते समाहिमत्ति काओसगो कओ तस्सालोचेओ रयणत्तयरुवपरमप्पज्झाण
 लक्खणंसमाहिभतीयेसया णिच्चकलंअच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि दुक्खक्खओ
 कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।
 (कायोत्सर्गं करोम्यहम्)

(९) निर्वाणभक्ति

अट्ठावयम्मि उसहो चंपाए वासुपुज्ज जिणणाहो ।
 उज्जंते णेमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरो ॥१॥
 वीसं तु जिणवरिदा अमरासुरवंदिदा धुदकिलेसा ।
 सम्मेदे गिरि सिहरे णिव्वाणगया णमोतेसि ॥२॥
 वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तोय तारवरणयरे ।
 आहुट्ठय य कोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥३॥
 णेमिस्सामि पजुण्णो संबुक्मारो तहेव अणिरुद्धो ।
 वाहत्तरिकोडीओ उज्जंते सत्तसया सिद्धा ॥४॥
 रामसुआवण्णि जणा लाडणरिदाण पंच कोडीओ ।
 पावागिरवर सिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥५॥
 पांडुसुआ तिण्णि जणा दविडणरिंदाण अट्ठकोडीओ ।
 सित्तुंजे गिर सिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥६॥
 संतेजे बलभद्दा जदुव णरिंदाण अट्ठकोडीओ ।
 गजपंथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥७॥
 राम हणु सुग्गीओ गवय गवक्खो य णील महणीलो ।
 णवणवदी कोडीओ तुंगीगिरिणिव्वुदे वंदे ॥८॥
 णंगाणगकुमारा कोडी पंचद्ध मुणिवरा सहिया ।
 सवणागिरिवरसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥९॥
 दहमुहरायस्स सुआ कोडिपंचद्ध मुणिवरा सहिया ।
 रेवाउहय तडग्गे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१०॥
 रेवाणइए तीरे पच्छिम भायम्मि सिद्धवरकूटे ।
 दो चक्की दहकप्पे आहुट्ठयकोडिणिव्वुदे वंदे ॥११॥
 वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे ।
 इंदजीदवुंभयणो णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥१२॥

पावागिरिवरणयरे सुवण्णभद्दाइमुणिवरा चउरो ।
 चलणाणईतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१३॥
 फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरि सिहरे ।
 गुरुदत्ताइ मुणिदा णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१४॥
 णायकुमार मुणिदो वालि महावालि चेव अज्जेया ।
 अट्ठावयगिरि सिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१५॥
 अच्चलपुरवर णयरे ईसाणेभाए मेढगिरि सिहरे ।
 आहुट्ठयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१६॥
 वंसत्थलवर णयरे पच्छिमभायम्मि कुथुगिरि सिहरे ।
 कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१७॥
 जसहररायस्स सुआ पचसयाइ कलिग देसम्मि ।
 कोडिसिलाए कोडिमुणी णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१८॥
 पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्ताइ मुणिवरा पव ।
 रिस्सिदे गिरि सिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥१९॥
 जे जिणु जित्थु तत्था जे दु गया णिव्वुदि परम ।
 ते वदामि य णिच्च तिरयण सुद्धो णमस्सामि ॥२०॥
 सेसाण तु रिसीणं णिव्वाण जम्मि जम्मि ठाणम्मि ।
 ते ह वन्दे सव्वे दुक्खक्खयकारणट्ठाए ॥२१॥
 पासं तह अहिणदण णायद्दहि मगलाउरे वदे ।
 अस्सारम्मे पट्टणि मुणिसुव्वओ तहेव वदामि ॥२२॥
 बाहुबलि तह वदामि पोदणपुर हत्थिणापुरे वदे ।
 सती कुथु व अरहो वाराणसिये सुपास पास च ॥२३॥
 माहुरए अहिच्छित्ते वीर पास तहेव वदामि ।
 जम्बुमुणिदो वदे णिव्वुइ पत्तो वि जवुवणगहणे ॥२४॥
 पचकल्लाण ठाणइ जाणवि सजादमच्चलोयम्मि ।
 मणवयणकायसुद्धो सव्वे सिरसा णमस्सामि ॥२५॥

अग्गलदेवं वंदमि वरणयरे गिवणकुण्डली वंदे ।
पास सिरपुरि वदमि होलागिरि सख देवम्मि ॥२६॥

गोम्मटदेव वंदमि पचसयं घणुह देह उच्चं तं ।
देवा कुणति वुट्ठी केसरकुसुमाण तस्स उवरम्मि ॥२७॥

णिव्वाण ठाण जाणवि अइसयठाणाणि अइसयेसहिया ।
संजाद मिच्चलोए सव्वे सिरसा णमरस्सामि ॥२८॥

जो जण पढइ तियाल णिव्वुइकंडंपि भाव सुद्धीए ।
भुंजदि णरसुरसुक्खं पच्छ सो लहउ णिव्वाण ॥२९॥

इच्छामि भंते परिणिव्वाणभत्ति काओसग्गो कओ तरस्सालोचेओ इमम्मि अवसप्पिणीए
चउत्थसमयस्स पच्छिमे भागे आहुट्ठयमासहीणे वास च उक्कम्मि सेसकालम्मि
पावाए णयरीए कत्तियमासस्स किण्हचउदसिए रतीए सादीए णक्खत्ते पच्चूसे
भयवदो महदि महावीरो वड्ढमाणो सिद्धिगदो तीसुविलोएसु भवणवासियवाणविंतर
जोइसिइ कप्पवासियत्ति चउव्विहा देवासपरिवारा दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण पुप्फेण,
दिव्वेण धूवेण दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण ण्हाणेण, सया णिच्चकालं
अच्चंति पुज्जंति वंदंति णमरस्संति परिणिव्वाणमहाकल्लाणपुज्जं करंति अहमवि
इहसंतो तत्थ सत्ताइ णिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमरस्सामि दुक्खक्खओ
कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।
(कायोत्सर्ग करोम्यहम्)

(१०) नवदेव भक्ति

अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्य ।
सर्वजगद्ब्रह्मेभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्य ॥१॥

क्षान्त्यार्जवादिगुणगणसुसाधनसकललोकहितहेतु ।
शुभधामनिधातार वन्दे धर्मं जिनेन्द्रोक्तम् ॥२॥

मिथ्याज्ञानतमोवृतलोकैकज्योतिरमितगमयोगि ।
सागोपागमजेय जैन वचन सदा वन्दे ॥३॥

भवनविमानज्योतिर्व्यन्तरनरलोकविश्वचैत्यानि ।
त्रिजगदभिवदितान त्रेधा वन्दे जिनेन्द्राणाम् ॥४॥

भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिपाभ्यर्च्यतीर्थकर्तृणा
वन्दे भवाग्निशान्त्यै विभवानामालयालीस्ता ॥५॥

इति पचमहापुरुषा प्रणुताजिनधर्मवचनचैत्यानि ।
चैत्यालयाश्च विमला दिशन्तु बोधि बुधजनेष्टाम् ॥६॥

तदनु जपतिश्रेयान्धर्मं प्रवृद्धमहोदय
वृगतिविपथक्लेशाद्योऽसौ विपाशयति प्रजा ।

परिणतनयस्याङ्गीभावाद्धिवित्तविकल्पितम् ।
भवतु भवतस्त्रातृ त्रेधा जिनेन्द्रवचोऽमृतम् ॥७॥

तदनुजयताज्जैनीवित्ति प्रभङ्गतरङ्गिणी
प्रभवविगमघ्नौव्यद्रव्यस्वभावविभावनी ।

निरुपमसुखस्येद द्वार विघट्य निर्गलम् ।
विगतरजता मोक्ष देयान्निरत्ययमव्ययम् ॥८॥

इति पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म क्षयार्थमाव पूजा वन्दनारस्तवं समेतं
पंचमहागुरुभक्ति -कायोत्सर्गं करोम्यहम् ।

(११) लघुचैत्य भक्ति

वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु ।
यावति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिनपुंगवानां ॥

अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां ।
वनभवनगताना दिव्यवैमानिकानां ।
इह मनुजकृताना देवराजार्चितानां ।
जिनवरनिलयाना भावितोऽहं स्मरामि ॥

जम्बूघातकिपुष्करार्द्धवसुधा क्षेत्रत्रये ये भवाश् -
चद्राम्भोजशिखण्डिकठकनकप्रावृद्धनाभाजिनाः ।
सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरादग्घाष्टकर्मन्धनाः ।
भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥

श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जंबुकक्षे ।
वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचके कुण्डले मानुषांके ।
इष्वाकारेऽजनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके ।
ज्योतिर्लोकेऽभिवंदे भवनमहितले यानि चैत्यालयानि ॥

द्वौ वुन्देदुतुषारहारधवलौ द्वाविन्द्रनीलप्रभौ,
द्वौबंधूकसमप्रभौ जिनवृषौ द्वौ च प्रियगुप्रभौ ।
शेषा षोडशजन्ममृत्युरहिता संतप्तहेमप्रभा-
स्ते सज्ञानदिवाकरा सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छंतु नः ॥

इच्छामि भंते । चेइयभक्ति कओसग्गो कओ तरसालोचेउं अहलोय तिरियलोय
उड्ढ्लोयम्मि किट्टिमाकिट्टिमाणि जाणि जिण चेइयाणि ताणि सव्वाणि तीसु वि
लोएसुमवणवासिय वाण वितर जोइसिय कप्पवासियत्ति चउव्विहा देवा सपरिवारा
दिव्बेण गंधेण दिव्बेण पुफ्फेण दिव्बेण धूवेण दिव्बेण चुण्णेण दिव्बेण वासेण दिव्बेण
णहाणेण णिच्चकालं अच्चंति पुज्जंति वदंति णमरसंति । अहमवि इहसंतो तत्थ संताइ
णिच्चकालं अच्चेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो
सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ति होउ मज्झं ।

(अथ पौर्वाहिनिक देववन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं भाव पूजा वन्दना
स्तव समेतंश्रीपञ्च महागुरुभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्)

(१२) शान्त्यष्टकं (शान्ति भक्ति)

न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वय ते प्रजा ।
हेतुस्तत्र विचित्र दुःखनिचय ससारघोरार्णव ।
अत्यन्तस्फुरदुग्रश्मिनिक्ख्याकीर्णभूमण्डलो
श्रेष्ठ कारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुरागं रवि ॥१॥

ब्रुद्धाशीर्विषदष्टदुर्जय- विषज्वालावलीविक्रमो
विद्याभैषजमत्र तोयहवनैर्याति प्रशान्ति यथा ।
तद्वत्ते चरणारुणाबुजयुगस्तोत्रोन्मुखाना नृणा ।
विघ्ना कायविनायकाश्च सहसाशामयन्त्यहो विस्मय ॥२॥

सतप्तोत्तमकाचनक्षितिघरश्रीरस्पद्धिगौरद्युते ।
पुसा त्वच्चरणप्रणामकरणात्पीडा प्रयान्ति क्षयम् ।
उद्यद्भास्करविस्फुरत्करशतव्याघातनिष्क्रसिता ।
नाना देहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्र यथा शर्वरी ॥३॥

त्रैलोक्येश्वरभंगलब्ध विजयादत्यन्तरौद्रात्मकान् ।
नाना जन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य ससारिण ॥
को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान्-
नस्याच्चेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम् ॥४॥

लोकालोकनिरतर - प्रविततज्ञानैकमूर्ते विभो ।
नानारत्नपिनद्ध दण्डरुचिरश्वेतातपत्रत्रयम् ।
त्वत्पादद्वयपूतगीतरवत. शीघ्र द्रवन्त्यामया
दर्पाध्मातमृगेन्द्रभीमनिनदाद्वन्या यथा कुंजरा ॥५॥

दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुलश्रीमेरुवूडामणे
भास्वद्वालदिवाकरद्युतिहरप्राणीष्टभामण्डलम् ।
अद्याबाधमचिन्त्यसारमतुल त्यक्तोपम शाश्वतम् ।
सौख्य त्वच्चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सप्राप्यते ॥६॥

यावन्नोदयते प्रभापरिकर श्रीभास्करोभासय-
स्तावद्धारयतीह पकजवन निद्रातिभारश्रमम् ।
यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन्नस्यात्प्रसादोदय-
स्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पाप महत् ॥७॥

शान्ति शान्तिजिनेन्द्र शान्तमनसरस्त्वत्पादपद्माश्रयात्,
सप्राप्ता. पृथिवीतलेषु वहव शान्त्यर्थिन प्राणिनः ।
कारुण्यान्मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्ना कुरु ।
त्वत्पादद्वय दैवतस्य गदत शान्त्यष्टक भक्तिरत ॥८॥

शान्तिजिन शशिनिर्मलवक्त्र शीलगुणव्रतसंयमपात्रं ।
अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं, नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम् ॥९॥

पञ्चममीप्सितचक्रधराणा, पूजितमिन्द्रनरेन्द्र गणैश्च ।
शान्तिकर गणशान्तिमभीप्सु षोडशतीर्थकरं प्रणमामि ॥१०॥

दिव्यतरु सुरपुष्पसुवृष्टिर्दुन्दुभिरासनयोजनघोषौ ।
आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मंडलतेजः ॥११॥

त जगदर्चितशान्तिजिनेन्द्र शान्तिकर शिरसा प्रणमामि ।
सर्वगणाय तु यच्छतु शान्ति मह्यमरं पठते परमा च ॥१२॥

येऽभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नै शक्रादिभिः सुरगणै स्तुतपादपद्माः ।
तेमेजिना प्रवरवशजगत्प्रदीपा तीर्थकरा सततशांतिकरा भवन्तु ॥१३॥

सपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां ।
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु, शान्ति भगवज्जिनेन्द्रः ।
क्षेमं सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान्धार्मिको भूमिपालः ।
काले काले च सम्यग्वर्षतु मघवाव्याधयो यान्तुनाशम् ॥१४॥

दुर्भिक्षं चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभूज्जीवलोके ।
जैनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥१५॥

तद् द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभ स देशः सन्तन्यता प्रतपता सततं स कालः ।
भाव स नन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रय प्रतपतीह मुमुक्षुवर्गे ॥१६॥

प्रध्वस्तघातिकर्माण केवलज्ञानभास्कराः ।
कुर्वन्तु जगता शान्ति वृषभाद्या जिनेश्वराः ॥१७॥

इच्छामि भन्ते शान्तिभक्ति काओसगगो कओ तरसालोचओ पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं
अट्ठमहापाडिहेरसहियाणं चउतीसातिसयविसेससंजुताणं बत्तीसदेवेन्दमणिमय मउड
मत्थयमहियाणं बलदेव वासुदेवचक्कहररिसिमुणिजदिअणगारोवगूढाणं थुइसय
सहरसणिलयाणं उसहाइवीर पच्छिम मंगल महापुरिसाणं सयाणिच्चकालं अच्चेमि
पुज्जेमि वंदामि णमरसामि दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमणं
समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं । (कायोत्सर्ग करोम्यहम्)

मंत्राधिकारः

मंत्र एवं मंत्रशक्ति

मकारं च मनः प्रोक्तं त्रकारं त्राण मुच्यते ।

मनस्त्राणत्वयोगेन मंत्र इत्यभिधीयते ॥^१

‘म’ का अर्थ मन अथवा मन से सबध रखने वाली मनोकामना, ‘त्र’ का अर्थ है रक्षा करना इस प्रकार जो मनोकामना की रक्षा करे वह ‘मंत्र’ कहलाता है ।

चित्त को एकाग्र करने और आत्मशोधन करने के लिये मंत्र साधन है, जैसे आत्म कल्याण के लिये स्वाध्याय, वितन, मनन एवं ध्यान आत्मसात होना आवश्यक है । मंत्र आत्मिक शक्ति का विकास करता है और लौकिक एवं पारलौकिक कार्यों की सिद्धि कराता है । मनोविज्ञान मानता है कि मानव की दृश्य क्रियाये चेतन मन में एवं अदृश्य क्रियाये अचेतन मन में होती है । इन दोनों क्रियाओं को मनोवृत्ति कहा जाता है । साधारणतः मनोवृत्ति शब्द चेतन मन की क्रिया का ही बोध कराता है पर इसके तीन भेद हैं (१) ज्ञानात्मक (२) वेदनात्मक (३) क्रियात्मक । मनुष्य में यह तीनों एक साथ होते हैं, ज्ञान के साथ ही वेदना और क्रियात्मकभाव की अनुभूति होती है । ज्ञानकेन्द्र एवं क्रियाकेन्द्र में मंत्राराधन से घनिष्टता आती है और मनुष्य की मनोवृत्ति को सुदृढ़ होने के साथ साथ आत्म विकास की प्रेरणा मिलती है । ‘मंत्र के प्रति पूर्ण विश्वास एवं सच्ची श्रद्धा अनिवार्य हैं विश्वास एवं श्रद्धा के साथ समय एवं विवेक पूर्वक किया गया मंत्राराधन आत्मशक्ति (उर्जा) को बढ़ाता है जो अनादि परिभ्रमण मिटाती है एवं लौकिक कार्यों को सिद्ध करने की शक्ति देता है ।

आज भी मंत्रों द्वारा भयकर सर्प वृश्चिक आदि विषैले जीवों के विष का प्रतिकार तो होता ही है कैन्सर जैसी लाइलाज बीमारी भी मंत्र पर दृढ़ श्रद्धा एवं इच्छा शक्ति से ठीक होती है ।^२ मंत्रों द्वारा मानवीय शक्ति से परे कार्य होने के उदाहरण तो अनेकों हैं । कार्यपूर्ति/कार्य सिद्धि में मंत्र साधक की भावना का ही प्रभाव मुख्य होता है । मंत्र एक साधन है जिसके द्वारा आत्मोत्थान, परकल्याण के साथ तांत्रिक पद्धति से परघात तक हो सकता है । मंत्र का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि में न करके समाज एवं राष्ट्र के हित में करे तो आज भी हिंसा के इस दुष्चक्र को रोका जा सकता है । मंत्र साधना के भेद मंत्रसाधक की भावना/मनोवृत्ति पर निर्भर होते हैं । मुख्य भेद इस प्रकार है ।

(१) वशीकरण (२) स्तम्भन (३) आकर्षण (४) शान्तिक (५) पौष्टिक (६) मारक (७) विद्वेषण (८) उच्चाटन

१. श्रावक का नित्य क्रिया कलाप-सकलन श्री आदिसागर मुनि पृष्ठ-७७

२. मृत्युञ्जय णमोकार-मुनि श्री अमरेन्द्रविजय जी

इनकी साधना/सिद्धि का विवरण मंत्र शास्त्रों में पूर्ण विवरण एवं विधिविधान सहित दिया गया है संक्षेप में इसे संलग्न चार्ट में दर्शाया गया है।

गृहे जपफलं प्रोक्तं वने शतगुणं भवेत् ।
पुण्यारामे तथारण्ये सहस्रगुणितं मतम् ॥

पर्वते दशसाहस्रं च नद्यां लक्षमुदाहृतं ।
कोटि देवालये प्राहुरनन्तं जिनसन्निधौ ॥^१

घर में मंत्राराधन करने से एक गुणा, वन में सौ गुणा, नशिया एवं वन में हजार गुणा, पर्वत पर दस हजार गुणा, नदी पर लाख गुणा, देवालय में करोड़ गुणा, जिनेन्द्र देव के समक्ष अनन्त गुणा फल दायक होता है। अतः कार्य सिद्धि के लिये मंत्राराधन देवालय या जिनेन्द्र देव के समक्ष करना चाहिये।

मंत्र आत्मशक्ति जागृत कर दिशाबोध देता है। प्रत्येक कार्य में मंत्राराधन आवश्यक है। पचकल्याणक, जिनबिम्ब प्रतिष्ठा में सवा लाख शांति मंत्र का जाप, वेदीप्रतिष्ठा, मानस्तम्भ प्रतिष्ठा, कलशारोहण एवं विधान पाठ में सवालाख, इक्यावन हजार, इक्तीस हजार मंत्र का जाप आवश्यक है।

उच्चारण शुद्ध हो, संयम एवं साधन पूर्वक मंत्र का अर्थ ध्यान में होना अनिवार्य है। मंत्रों का निर्माण अक्षयशक्ति वाले बीजाक्षरों द्वारा होता है। प्रत्येक अक्षर का अपना अपना प्रभाव होता है, उसके विन्यास, ऊर्जा, ध्वनितरंग धैर्य, रचना सभी का सम्मिलित प्रभाव मंत्र में निहित होता है। संत शिरोमणि दिगम्बराचार्य विद्यासागर महाराज जी ने शब्द रचना/विन्यास पर विशेष कार्य किया है। साहित्य समीक्षकों ने उन्हें "शब्दों का जादूगर" कहा है। जैसे "ष" का निर्माण "प" का पेट फाड़कर हुआ है अर्थात् पाप और पुण्य को नाश करने वाला कर्मातीत हो जाता है।^१ 'ष' का मंत्रों में प्रयोग पाप और पुण्य से परे मोक्ष प्राप्ति में परम सहयोगी है। इसी प्रकार प्रत्येक स्वर-व्यंजन का अर्थ होता है और उस में अनन्त शक्ति समाहित है। अतः मंत्र पढ़ते समय शुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

मंत्राधिकार में मंत्रों की रचना, भेद प्रभाव की विस्तृत जानकारी के साथ साथ विधान एवं प्रतिष्ठा कार्य में उपयोगी मंत्रों को दिया गया है।

(१) श्री गोम्मत प्रश्नोत्तर चिंतामणि गुणधर्याचार्य कुंथुसागर महाराज पृष्ठ ८५५

(२) "मूकमाटी" महाकाव्य आचार्य विद्यासागर महाराज पृष्ठ ३९८

मंत्र साधना के आवश्यक नियम

मंत्र	ऋतु	समय	दिशा	आसन	मुद्रा	हस्त	अगुलि	वस्त्र	योग	वायु	मण्डल	ध्यानवर्ण	माला	पल्लव
वशीकरण	वसत	पूर्वाह्न	उत्तर	स्वस्तिक आसन	शरीरजमुद्रा	वामहस्त	अनामिका	रक्त	पूरक	वाम	जल	रक्त	प्रवाल	वपट
स्तम्भ	वसत	पूर्वाह्न	पूर्व	वज्रासन	शरपमुद्रा	दक्षिण	तर्जनी	पीत	गुप्तक	दक्षिण	पृथ्वी	पीत	स्वर्ण	घेघे
आकर्षण	वसत	पूर्वाह्न	दक्षिण	दण्डासन	अधुशामुद्रा	दक्षिण	कनिष्ठा	उदयार्क	पूरक	वाम	अग्नि	अरुण	प्रवाल	वीपट
शान्तिक	हेमत	अर्द्धरात्रि	पश्चिम	पद्मासन	ज्ञानमुद्रा	दक्षिण	मध्यमा	श्वेत	पूरक	वाम	जल	चन्द्रकांत	स्फटिक	स्वाहा
शौष्टिक	शिशिर	प्रभात	नैऋत्य	पद्मासन	ज्ञानमुद्रा	दक्षिण	मध्यामा	श्वेत	पूरक	वाम	पृथ्वी	चन्द्रकांत	मुक्तामणि	स्वाहा
मारक	शरद	सायंकाल	ईशान	भद्रासन	वज्रासन मुद्रा	दक्षिण	तर्जनी	कृष्ण	रेचक	दक्षिण	आकाश	कृष्ण	पुत्र जीवनी मणि	घेघे
विह्वेषण	श्रीय	मध्याह्न	आग्नेय	गुह्यमुह्य सन	प्रवालमुद्रा	दक्षिण	तर्जनी	धृष्ट	रेचक	दक्षिण	वायु	धृष्ट	पुत्र जीवनी मणि	ई
उच्चाटन	वर्षा	अपरान्ह	वायव्य	गुह्यमुह्य सन	प्रवालमुद्रा	दक्षिण	तर्जनी	धृष्ट	रेचक	दक्षिण	वायु	धृष्ट	पुत्र जीवनी मणि	फट

मंत्र रचना

मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति

- १ मंत्र शब्द मन् धातु (दिवादि ज्ञाने) से ष्ट्रन् (त्र) प्रत्यय लगा कर बनाया जाता है ।
 “मन्यते ज्ञायते आत्मादेशोऽनेन इति मंत्रः”
 अर्थात् जिसके द्वारा आत्मा का आदेश निजानुभव जाना जाय, वह मंत्र है ।
- २ मन् धातु से ष्ट्रन् प्रत्यय लगाकर मंत्र शब्द बनता है । इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार
 मन्यते विचार्यते आत्मादेशो येन स मंत्रः जिसके द्वारा आत्मा - देश पर विचार
 किया जाय वह मंत्र है ।^१

प्रत्येक मंत्र स्वर एव व्यंजन के योग से बनते हैं ।

अकारदिक्षकारान्ता वर्णाः प्रोक्तास्तु मातृकाः ।

सृष्टिन्यासः स्थितिन्यासः संहतिन्यासतस्त्रिधा ॥^२

अ से लेकर क्ष पर्यन्त मातृका वर्ण कहलाते हैं । इनका तीन प्रकार का क्रम है

(१) सृष्टिक्रम (२) स्थितिक्रम और (३) सहारक्रम

- (१) आत्मानुभूति की प्राप्ति होना सृष्टिक्रम है ।
 (२) आत्मानुभूति के साथ लौकिक अभ्युदय की प्राप्ति स्थितिक्रम है ।
 (३) कर्मों के विनाश की भूमिका बनना सहारक्रम है ।

स्वर व्यंजन की संज्ञा

हलो बीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः ।^३

ककार से लेकर हकार पर्यन्त बीज सज्ञक है । और अकारादि स्वर शक्ति रूप हैं ।
 मंत्रों की निष्पत्ति बीज और शक्ति के संयोग से होती है ।

मन्त्रों के भेद एवं संज्ञा

(१) बीजमंत्र (२) मन्त्रमंत्र (३) मालामंत्र (४) कल्पमंत्र

- (१) एक अक्षर से नौ अक्षर तक मंत्र की बीज मंत्रसंज्ञा है ।
 (२) दश अक्षर से बीस अक्षर तक मंत्र की मन्त्रसंज्ञा है ।
 (३) इक्कीस अक्षर से तेतीस अक्षर तक की माला मंत्र संज्ञा है ।
 (४) इससे अधिक अक्षर वाला मंत्र कल्पमंत्र कहलाता है ।

(१) डा० नेमीचन्द्र, जैन कृत मंगलमंत्र णमोकार एक अनुचितन पृष्ठ ११ (२) आचार्य जयसेन,
 प्रतिष्ठापाठ श्लोक ३७६ (३) वही श्लोक ३७७

मंत्रों का फल

बीजमंत्र, सिद्ध होने पर सदा ही फल देते हैं।
 मन्त्रमंत्र, मन्त्री को यौवनावस्था में ही फल देते हैं।
 मालामंत्र, वृद्धावस्था में फल देते हैं।
 कल्पमंत्र, इस लोक और परलोक में फल देते हैं।

मंत्रों के साथ पल्लव का फल

- (१) जिन मन्त्रों के अन्त में श्री, स्वाहा शब्द पल्लव होता है वह स्त्रीसज्ञा मन्त्र कहलाते हैं और इनसे पाप नष्ट होते हैं।
- (२) जिन मन्त्रों के अन्त में हू वषट्, फट्, घे, स्वधा पल्लव होते हैं वह पुल्लिंगसज्ञा मन्त्र हैं। इनका उपयोग शुभकर्म, मारण, उच्चाटन, निर्विषीकरण और वशीकरण में होता है।
- (३) जिन मन्त्रों के अन्त में नमः पल्लव हो वह नपुंसकसज्ञा मन्त्र हैं शेष कार्यों में इसका उपयोग होता है।

बीजाक्षरों का प्रयोग

वश्य, आकर्षण और उच्चाटन में 'हूं' का प्रयोग करें।
 मारण और विघ्न निवारण में 'फट्' का प्रयोग करें।
 स्तम्भन, विद्वेषण और मोहन में 'नमः' का प्रयोग करें।
 शान्ति और पौष्टिक कार्यों में 'वषट्' का प्रयोग करें।

मन्त्र के अन्त में स्वाहा शब्द रहता है यह शब्द पाप नाशक, मंगल कारक, तथा आत्मा की आन्तरिक शांति को उदबुद्ध करने वाला है।

मंत्रों के भेद

१ स्तम्भन २ उच्चाटन ३ वशीकरण ४ आकर्षण ५ विद्वेषण
 ६ मारण ७ शान्तिक ८ पौष्टिक
 यह मन्त्र के प्रधान भेद हैं किन्तु सामान्यतया अनेक प्रकार के हैं।

बीजाक्षरों की शक्तियाँ

ॐ पच परमेष्ठी, आत्मवाचक और प्रणव वाचक है।

'श्री' कीर्तिवाचक 'ह्री' कल्याणवाचक 'क्षी' शांतिवाचक 'ह्रं' मंगलवाचक 'ॐ' सुखवाचक 'क्ष्वी' योगवाचक 'ह्रं' विद्वेष एवरोषवाचक 'प्रो' 'प्री' स्तम्भनवाचक 'क्वी'

लक्ष्मी प्राप्ति वाचक कहा है। तीर्थकरों के नामाक्षर मंगल वाचक होते हैं।
 ॐ प्रणव ध्रुव ब्रह्मबीज तेजो बीज है। ऐं वाग्भवबीज 'लृ' कामभव बीज, 'क्रीं' शक्तिबीज 'हं सः' विषापहार बीज, 'क्षी' पृथ्वीबीज, 'स्वा' वायुबीज, 'हा' आकाश बीज, 'हां' मायाबीज, या त्रैलोक्यनाथ बीज, 'क्रों' अंकुश बीज, 'जं' पाशबीज, 'फट्' विसर्जनात्मक या चालन (दूरकरणाथक), 'वौषट्' पूजाग्रहण या आकर्षणार्थक, 'संवौषट्' आमंत्रणार्थक 'ब्लूं' द्रावणबीज, 'क्लीं' आकर्षण बीज, 'ग्लों' स्तम्भनबीज 'ह्रौं' महाशक्तिवाचक, 'वषट्' आह्वानन वाचक, रंज्वलन-वाचक, 'क्ष्वीं' विषापहार, 'ठः' चन्द्रबीज, 'घे घे' ग्रहण बीज, 'द्रं' विद्वेषणार्थक, रोषबीज, 'स्वाहा' शान्ति और हवन वाचक, 'स्वघा' पौष्टिक वाचक, 'नमः' शोधनबीज, 'हं' गगनबीज 'हूं' ज्ञानबीज, 'यः' विसर्जन या उच्चारण वाचक, 'जुं' विद्वेषण बीज, 'इवीं' अमृतबीज, 'क्ष्वीं' भोगबीज, 'हूं' दण्डबीज, 'खः' स्वादन बीज, 'झों' महाशक्तिबीज, 'ह्म्ल्यूं' पिण्डबीज, 'हं' मंगलबीज, और सुखबीज, श्रीं कीर्तिवीज, या कल्याणबीज, 'क्लीं' धनबीज या कुबेरबीज, तीर्थकर नामाक्षर शक्तिबीज, 'ह्रौं' ऋद्धि और सिद्धिबीज, ह्रां, ह्रीं, हूं, ह्रौं, ह्रः सर्वशान्ति मांगल्य कल्याण, विघ्न विनाशक सिद्धिदायक, 'अ' आकाशबीज एव धान्यबीज, 'आ' सुखबीज, तेजोबीज, 'ई' गुणबीज, तेजोबीज, वायुबीज, 'क्षां' क्षीं क्षूं क्षें क्षैं क्षों क्षीं क्षः' सर्वकल्याण, सर्वशुद्धिबीज, 'व' द्रवणबीज, 'यं' मंगलबीज, रक्षाबीज, 'सं' शोधनबीज, 'झं' शक्तिबीज, और 'तं थं दं' कालुष्य नाशक, मंगल वर्धक और सुखकारक बताया गया है। इन समस्त बीजाक्षरों की उत्पत्ति णमोकार मंत्र तथा इस मंत्र में प्रतिपादित पंच परमेष्ठी के नामाक्षर तीर्थकर नामाक्षरों से हुई है।

मंत्र के तीन अंग होते हैं। (१) रूप (२) बीज (३) फल

जितने भी प्रकार के मंत्र हैं उनमें बीज रूप णमोकार मंत्र या इससे निष्पन्न कोई सूक्ष्मतत्त्व रहता है। णमोकार मंत्र के सूक्ष्मीकरण द्वारा जितने सूक्ष्म बीजाक्षर या अन्य मंत्रों में निहित किये जाते हैं उन मंत्रों की उतनी ही शक्ति बढ़ती जाती है।

मानसिक विचार बदलने के उपाय

(१) दमन (२) विलियन (३) मार्गान्तरीकरण (४) शोधन

(१) दमन - जीवन को उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि समय समय पर अपनी प्रवृत्तियों का दमन करें अर्थात् उन्हें अपने नियंत्रण में रखें यही दमन है।

- (२) विलियन- मूल प्रवृत्तियों को परिवर्तन करना विलियन है यह दो प्रकार से हो सकता है १ निरोध २ विरोध
 (१) प्रवृत्तियों को उत्तेजित होने का अवसर ही नहीं देना निरोध है। अर्थात् धार्मिक आस्था द्वारा अपनी विकार प्रवृत्ति को अवरुद्ध कर उन्हें नष्ट कर सकता है।
 (२) जिस समय विकार रूप प्रवृत्ति काम कर रही हो उसी समय उससे विपरीत प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना अर्थात् मंत्राराधन द्वारा यह प्रवृत्ति रोकना विरोध है।
- (३) मार्गान्तरीकरण- चिन्तन करने की प्रवृत्ति अनादि से पाई जाती है यदि मनुष्य इस चिन्तन की प्रवृत्ति में विकारी भावनाओं को स्थान नहीं दे और मंगल वाक्यों या मंत्रों का चिन्तन करे तो यही सुन्दर मार्गान्तरीकरण है।
- (४) शोधन - मंत्र की अराधना में ऐसी विद्युत शक्ति है जिससे व्यक्ति का अन्तर्द्वन्द्व शान्त हो जाता है, नैतिक भावनाओं का उदय होता है और अनैतिक भावनाओं का दमन होकर नैतिक सस्कार उत्पन्न होते हैं इसका नाम ही शोधन है। पंच नमस्कार मंत्र द्वारा मानसिक विचारों को बदल कर आत्मोत्थान की भावनाओं के साथ आत्मविशुद्धि परमावश्यक है इस प्रकार आर्तरौद्र ध्यान से हटकर धर्म ध्यान की भावना प्रकट करें।

मंत्रों में शक्ति प्रदायक आठ वज्र

१ क्त्व्यू २ ख्त्व्यू ३ घ्त्व्यू ४ झ्त्व्यू ५ म्त्व्यू ६ स्त्व्यू ७ ह्त्व्यू ८ भ्त्व्यू
 यह आठ वज्र हैं।

पिण्डाक्षर

१ क्त्व्यू २ ख्त्व्यू ३ घ्त्व्यू ४ झ्त्व्यू ५ इ्त्व्यू ६ ड्त्व्यू ७ त्त्व्यू
 ८ भ्त्व्यू ९ म्त्व्यू १० य्त्व्यू ११ र्त्व्यू १२ स्त्व्यू १३ ह्त्व्यू १४ ष्त्व्यू

मंत्रों की विशेषताएँ

मंत्रों को जपने की निम्न लिखित तरह विधियाँ हैं जिनको विन्यास कहते हैं।
 (१) ग्रथित (२) सम्पुट (३) ग्रस्त (४) समस्तयायोग (५) विदर्भित (६) आक्रान्त
 (७) आद्यन्त (८) गर्भित या गर्भस्थ (९) सर्वतोमुख (१०) विदर्भ (११) विदर्भ
 ग्रसित (१२) रोधन (१३) पल्लव।

१. साध्य के नाम के एक एक अक्षर के साथ मंत्र के एक एक अक्षर को एक बार प्रयोग करने को ग्रथित कहते हैं। यह वश्य एवं आकर्षण कर्मों में फलदायक होता है।
२. जिसमें आदि में मंत्र फिर साध्य का नाम और अन्त में फिर मंत्र बोला जाय उसे सम्पुट कहते हैं यह शान्ति और पुष्टि करने वाला तथा तीन लोक में ऐश्वर्य को देने वाला है।
३. जिसमें आदि और अन्त में आधा आधा मंत्र और बीच में साध्य का नाम हो उसे ग्रस्त कहते हैं इसको मरणादिक सभी अशुभ कर्मों में प्रयोग किया जाता है।
४. जिसमें पहले नाम और फिर मंत्र बोला जाये समस्तयायोग कहते हैं यह उच्चाटन में प्रयोग किया जाता है।
५. जिसमें मंत्र के दो दो अक्षर और एक एक साध्य के नाम का अक्षर आवे उसे विदर्भित कहते हैं, यह वशीकरण करता है।
६. यदि साध्य का नाम चारों ओर मंत्र के अक्षरों से घिरा हो तो उसे आक्रान्त कहते हैं यह सब कार्यों की सिद्धि स्तम्भन आवेशन वश्य और उच्चाटन कर्मों को करता है।
७. जिसमें आदि में एक बार पूरा मंत्र, मध्य में साध्य का नाम और अन्त में फिर पूरा मंत्र लगाया जाये उसे आद्यन्त कहते हैं। यह विद्वेषण करता है।
८. आदि और अन्त में दो दो बार मंत्र का प्रयोग करके बीच में एक बार साध्य का नाम रखने को गर्भस्थ या गर्भित कहते हैं, यह मारण, उच्चाटन, वश्य, नदीस्तम्भन, नौका भजन और गर्भस्तम्भन में प्रयोग किया जाता है।
९. जिसमें आदि और अन्त में तीन तीन बार मंत्र जपा जावे और नाम बीच में एक ही बार रहे उसे सर्वतोमुख कहते हैं। सब उपसर्गों को शान्त करने वाला सब सौभाग्यों को करने वाला तथा देवताओं को भी अमृत देने वाला है।
१०. जिसमें आदि में मंत्र और फिर नाम और फिर मंत्र इस प्रकार तीन बार किया गया हो उसे विदर्भ कहते हैं, यह सब व्याधियों को नष्ट करने वाला तथा भूत और मृगी के रोग को दूर करता है।

- ११ जिसमे साध्य के नाम के एक एक अक्षर को विदर्भरूप मे करके पहले के समान आदि और अन्त मे प्रयोग किया जाय उसे विदर्भग्रसित कहते है यह सब कार्यों को करने वाला और सभी ऐश्वर्यों को देने वाला है ।
- १२ नाम के आदि मध्य और अन्त मे मंत्र रखने को रोघन कहते है ।
- १३ मंत्र के अन्त मे नाम रखने को पल्लव कहते है ।

मंत्रों में स्वर व्यंजन का आधार श्रुतज्ञान^(१)

श्रुतज्ञान के दो प्रकार है - १ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान २ अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान

अक्षर, पद, छन्दादि रूप शब्द से उत्पन्न हुआ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है जो प्रधान है । जाते देना लेना शास्त्र पढना इत्यादि सब व्यवहार का मूल अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । शब्द से उपजा ज्ञान अक्षरात्मक है इसे श्रुत शब्द जानना ।

अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान

कार्य विधि मे कारण का उपचार किया । परमार्थ से ज्ञान कोई अक्षर रूप है नहीं । जैसे शीतल पवन का स्पर्श हुआ वहा शीतल पवन का जानना तो मतिज्ञान है और जिस ज्ञान के द्वारा वायु की प्रकृति वाले यह शीतल पवन अनिष्ट है ऐसा जानना अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । (क्योकि मतिज्ञान बिना श्रुतज्ञान होता नहीं) अक्षरात्मक श्रुतज्ञान के सख्यात भेद होते है और अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान के असख्यात लोकप्रमाण ज्ञान के विकल्प होते है (विशेष धवला पु ६ जीव काण्ड मे देखे)

अक्षर के भेद

१ लब्धि अक्षर २ निर्वृति अक्षर ३ स्थापना अक्षर

१. श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई पदार्थ जानने की शक्ति लब्धि रूप भाव इन्द्रिय वही स्वरूप लब्धि अक्षर कहलाता है ।
२. कंठ, ओष्ठ तालु आदि अक्षर बुलावने के स्थान और ओठो का परस्पर मिलना जिससे उत्पन्न हुआ शब्द रूप अकारादि स्वर व्यंजन और सयोगी अक्षर को निर्वृति अक्षर कहते है ।
३. पुस्तकादि मे निजदेश की प्रवृत्ति के अनुसार अकारादि आकार करके लिखना स्थापना अक्षर है । (जिनका कभी नाश न हो उन्हे अक्षर कहते हैं)

इस प्रकार जो एक अक्षर है उसके सुनने से जो हुआ अर्थज्ञान अक्षर श्रुतज्ञान है समस्त ज्ञान वचन गोचर नहीं केवल ज्ञान गोचर है, तीर्थकर की सातिशय दिव्य ध्वनि के कहने में आवे । जितना दिव्य ध्वनि कहने में आये उसके अनन्त वें भाग द्वादशांग श्रुत में व्याख्यान कीजिए जो श्रुत केवली को भी गोचर नहीं । जो दिव्य ध्वनि के द्वारा कहा जाय उस अर्थ को जानने की शक्ति केवल ज्ञान में ही होती है ।

पद के भेद

अक्षर अक्षर बढ़ते बढ़ते पद समास होता है ।

पद तीन प्रकार के हैं - १. अर्थपद २. प्रमाणपद ३. मध्यमपद ।

१. अक्षर समूह का विवक्षित अर्थ जानना अर्थपद है । जैसे अग्नि लाओ, डण्डे से गाय को भगाओ आदि ।
२. जो अक्षरों की संख्या लिए हुए हो वह प्रमाण पद है जैसे अनुष्टुप छंद के चार पद और एक पद में आठ अक्षर हो ऐसे प्रमाणपद जानना ।
३. सोलह सौ चौतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठ सौ अट्ठासी (१६३४८३०७८८८) अक्षरों के समूह को मध्यम पद कहते हैं । अर्थपद और प्रमाण पद हीन अधिक अक्षरों का प्रमाण के लिए लोक व्यवहार से ग्रहण किये गये हैं और लोकोत्तर परमागम में कही जो संख्या है उसे मध्यम पद जानना । इन्हीं पदों के योग से द्वादशांग के पदों की रचना हुई ।

द्वादशांग पदों की संख्या

एक सौ बारह करोड़ तिरासी लाख अट्ठावन हजार पाँच पद (११२,८३,५८,००५) सर्व द्वादशांग को जानना ।

द्वादशांग (अंग प्रविष्ट) रचना के पश्चात् जो अक्षर शेष रहें जिन्हें अंग बाह्य कहते हैं उनकी संख्या का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है ।

अंग बाह्य प्रकीर्णक के अक्षरों की संख्या

आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर (८,०१,०८,१७५) इनके द्वारा सामायिकादिक प्रकीर्णकों की रचना की गई है ।

अक्षरों की प्रक्रिया का वर्णन

तैंतीस व्यंजन अक्षर हैं । आधी मात्रा जिसके बोलने के समय में हो उसे व्यंजन कहते हैं । क् ख् ग् घ् ङ् । च् छ् ज् झ् ञ् । ट् ठ् ड् ढ् ण् । त् थ् द् ध् न् । प् फ् ब् भ् म् । य् र् ल् व् । श् ष् स् ह् ये तैंतीस अक्षर व्यंजन हैं ।

स्वर अक्षर सत्ताईस है। अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ यह नौ अक्षर। इनके एक एक के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीन भेदों से सत्ताईस भेद हो जाते हैं।

अ आ आ। इ ई ई। उ ऊ ऊ। ऋ ऋ ऋ। लृ लृ लृ। ए ए ए। ऐ ऐ ऐ। ओ ओ ओ। औ औ औ। यह सत्ताईस स्वर है।

जिसकी एक मात्रा हो उसे "ह्रस्व" कहते हैं।

जिसकी दो मात्रा हो उसे "दीर्घ" कहते हैं।

जिसकी तीन मात्रा हो उसे "प्लुत" कहते हैं।

चार अक्षर योगवाह है -

१ यहाँ अ जैसा अक्षर अनुस्वार है।

२ अ जैसा अक्षर विसर्ग है।

३ क जैसा अक्षर जिह्वामूलीय है।

४ प जैसा अक्षर उपध्मानीय है।

यह चौसठ मूल अक्षर अनादि निघन परमागम में प्रसिद्ध हैं।

सिद्धोवर्णः समाप्नायः

इतिवचनात् 'व्यज्यते' कहिए अर्थ जिन का प्रकट हो वह व्यजन है।

'स्वरन्ति' जो अर्थ को कहे वह स्वर है।

'योग वहन्ति' अक्षर के सयोग को प्राप्त हो उनको योगवाह कहते हैं।

मूल कहिए अक्षर के सयोग रहित सयोगी अक्षर उपजने के कारण ये चौसठ मूल वर्ण हैं। जैसे क व्यजन अ स्वर मिलकर क जैसा अक्षर होता है और आ मिलने से का होता है। इत्यादि सयोगी अक्षर उपजने के कारण चौसठ मूल अक्षर होते हैं।

यहाँ एक प्रश्न - जो व्याकरण में ए ऐ ओ औ इनको ह्रस्व नहीं कहे यहाँ ह्रस्व कैसे कहे।

समाधान- जो संस्कृत भाषा में ह्रस्व नहीं कहे किन्तु प्राकृत भाषा में व देशान्तर की भाषा में ए ऐ ओ औ यह अक्षर ह्रस्व होते हैं इसलिये यहाँ कहे हैं।

ब्रह्मशब्द परिभाषा एवं भेद :- १ परम ब्रह्म २ शब्द ब्रह्म

परमब्रह्म - अरिहत एव सिद्ध परमात्मा है।

शब्द ब्रह्म - जिनेन्द्र देव की वाणी, मन्त्र, यत्र आदि है।

मंत्राराधन हेतु दिशा बोध

१.	पूर्व यमान्तक	-	मृत्यु का अन्त करने वाली
२.	दक्षिण प्रज्ञान्तक	-	बुद्धि का अन्त करने वाली
३.	पश्चिम पद्मान्तक	-	हृदय को कष्ट कारक
४.	उत्तर विघ्नान्तक	-	विघ्नो का अन्त करने वाली

अतएव मंत्राराधन को पूर्व एवं उत्तर दिशा ही श्रेष्ठ मानी गई है ।

पूजा हेतु दिशा बोध

१. पूर्व	- शान्ति पुष्टी	५. आग्नेय	- धनहानि
२. दक्षिण	- संतान का अभाव	६. वायव्य	- सन्तान अभाव
३. पश्चिम	- संतान विच्छेद	७. नैऋत्य	- कुल क्षय
४. उत्तर	- धनलाभ	८. ईशान	- सौभाग्य नाश

स्वरों के ध्यान का स्थान एवं विधि

ध्यान करने वाला पुरुष नाभि मण्डल पर सोलह दल के कमल की स्थापना कर प्रत्येक दल पर क्रम से अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः इन सोलह स्वरों का चितवन कर ध्यान करें ।

व्यंजनों के ध्यान का स्थान एवं विधि

हृदय स्थान पर कर्णिका सहित चौबीस दल के कमल का चितन करके इन पच्चीस अक्षरों की क्रमशः स्थापना करके क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म इन अक्षरों का ध्यान करें तथा मुख स्थान पर आठ पद वाले कमल स्थापना रूप चितन करके क्रमशः य र ल व श ष स ह इन आठ वर्णों की स्थापना करके ध्यान करें । प्रत्येक कमल पर दाहिनी ओर से स्वर व्यंजनादि स्थापना करना चाहिए । सिद्धान्तानुसार इस वर्ण मातृका का जो ध्यान करता है वह संसार समुद्र से पार हो जाता है । वर्तमान में अरुचि, अग्निमंदता, कुष्ठ, उदररोग, कास एवं श्वास आदि रोगों को जीतता है ।

मंत्र राज का ध्यान

समस्त मंत्र पदों का स्वामी, सब तत्त्वों का नायक, आदि मध्य और अन्त के भेद से स्वर एवं व्यंजनो से उत्पन्न ऊपर और नीचे रेफ (र्) से युक्त बिन्दु से चिन्हित सपर कहिए हकार अर्थात् 'हं' ऐसा बीजाक्षर तत्त्व है इसको योगिराज सर्व सिद्धि दायक मंत्रराज कहते हैं । इसका निरंतर ध्यान करना चाहिए ।

अनाहत का लक्षण

ॐ विन्द्वाकारहरोर्ध्वरेफविन्द्वाणवाक्षरम् ।

मालाधः स्यन्दि पीयूषविन्दुं विदुरनाहतम् ॥^(१)

इसमे निम्न लिखित नौ अक्षर मिले हुए हैं ।

१ ॐकार २ अनुस्वार ३ ईकार ४ अर्द्धकार ५ हकार
६ अध रकार ७ अनुस्वार ८ ईकार ९ हकार

अनाहत मन्त्र का आकार

श्री जिनेन्द्र देव के सदृश

इस मन्त्र राज का ध्यान करो

यह सर्वव्यापी मन्त्र माना गया है ।

मंत्राराधन में अंगुलियों का क्रम

अंगुष्ठेन तु मोक्षार्थं धर्मार्थं तर्जनी भवेत् ।

मध्यमा शान्तिकं ज्ञेया सिद्धिलाभायनामिका ।

कनिष्ठा सर्व सिद्धार्थ एतत् स्याज्जाप्य लक्षणम् ।

असंख्यातं च यज्जप्तं तत्सर्वं निष्फलं भवेत् ।^(२)

जाप्य विधि में मोक्ष प्राप्ति हेतु अंगूठा से धर्म प्राप्ति हेतु तर्जनी से, शान्ति हेतु मध्यमा से, सिद्धि प्राप्ति हेतु अनामिका एवं सर्वसिद्धि हेतु कनिष्ठा से जाप श्रेष्ठ है । जाप विधि जाने बिना अथवा जिस मन्त्र का जितना जाप लिखा उससे न्यूनाधिक किया जाप फलहीन माना गया है ।

जाप्य तीन प्रकार का है ।

१. मानसिक जाप - कार्य सिद्धि के लिए मन में जाप करना चाहिए ।

२. वाचनिक जाप - पुत्र प्राप्ति के लिए उच्च स्वर से मन्त्र का जाप करना चाहिए ।

३. कायिक जाप - धन प्राप्ति के लिए बिना बोले मन्त्र पढ़ना जिससे ओठ हिलते रहे इस प्रकार पढ़ना ।

आसन विधान

बास की आसन से दरिद्रता, पाषाण की आसन से रोग, भूमि पर जप करने से दुःख, लकड़ी की आसन से दुर्भाग्य, घास की आसन से यशहानि, पत्रों की आसन से भ्रान्ति, वस्त्र की आसन से मन चंचल, चमड़ा की आसन से ज्ञान नष्ट, क्वल की आसन से मान भग होता है । अतएव डाभ की आसन ही सर्वश्रेष्ठ होती है ।^(३)

(१) आ शु च, ज्ञा., पृष्ठ ३६८ (२) श्री आ. दे भू., पृ म. क., पृष्ठ ९७

(३) धर्म रसिक ग्रंथ

वस्त्र विधान

१. नीला वस्त्र पहन कर जाप करने से दुख, हरे वस्त्र से मान भंग, श्वेत वस्त्र से यशवृद्धि, पीले वस्त्र से हर्ष लाभ, लाल वस्त्र श्रेष्ठ है।

२. एक वस्त्रो न भुंजीत न कुर्यात् देव पूजनम्
न कुर्यात् पितृकर्माणि दान होम जपादिकम् ।

एक वस्त्र पहन कर देव पूजा, आहार दान, जाप, हवन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। अतएव ओती एवं दुपट्टा आवश्यक है।

३. खण्डिते जीर्णे छिन्ने च मलिने चैव वाससि ।
दानपूजाजपोहोमः स्वाध्यायो निष्फलं भवेत् ॥१॥

कषायं धूमवर्णं च केशजं केशमूषितम् ।

छिन्नाग्रं चोप वस्त्रं च कुत्र्सितं नाचरेन्नरः ॥२॥

दग्धं जीर्णं च मलिनं मूसकोपहतं तथा ।

खादितं गो महिष्याद्यैस्तत्याज्यं सर्वथा द्विजैः ॥३॥

फटा वस्त्र, जीर्ण, बहुत पुराना, छेद सहित, मलिन वस्त्र, काला, ऊन से बना हुआ, जल गया हो, चूहों के द्वारा कतरा गया, गाय भैंस द्वारा खाया गया, धूम्र वर्ण वाला, अत्यन्त छोट इन वस्त्रों से दान, पूजा, हवन, जाप, ध्यान, स्वाध्याय नहीं करना।^(१)

पाँच प्रकार के वस्त्र

१. अण्डज (रेशम) २. वोण्डुज (कपास) ३. रोमज (ऊन)

४. बल्कल (वृक्ष की छाल) ५. चर्मज (चमड़ा)

पाँच प्रकार के स्नान

मंत्र स्नानं जपस्नानं तपस्नानं तथैव च

दया स्नानं जलस्नानं षष्ठं नैव च विद्यते ।

१. मंत्र स्नान २. जप स्नान ३. तप स्नान ४. दया स्नान ५. जल स्नान

इनके द्वारा शरीर शुद्धि पूर्वक आत्म शुद्धि आवश्यक है। आत्मा के विकारों को धो लेना ही मुख्य स्नान कहा गया है।

मंत्र विधान (एकाक्षरी)

१. ॐ २. ओं ३. हं ४. ह्रीं ५. इवीं ६. श्रीं ७. क्लीं ८. ऐं ९. क्ष्वीं १०. स्वा ११. ह्रां १२. ह्रीं १३. हूं १४. ह्रौं १५. ह्रः १६. श्री १७. श्रूं १८. क्षां १९. क्षीं २०. क्षं २१. क्षः २२. क्रौं २३. ग्लौं २४. ब्लूं आदि ।

युग्माक्षरी मंत्र

१ अर्हं २. सिद्ध ३ ॐ ह्रीं

त्रयाक्षरी मंत्र

१. अर्हत २ ओ अर्ह ३ ओ सिद्ध

चतुराक्षरी मंत्र

१. अरहत (अरिहत) २ ॐ सिद्धेभ्य ३ अ सि साहू

पंचाक्षरी मंत्र

१ अ सि आ उ सा २ हां ह्रीं ह्र ह्रौ ह्र

३ अर्हत सिद्ध ४ णमो सिद्धाण

५. नमो सिद्धेभ्य ६ नमो अर्हते ७ नमो अर्हदभ्य. ७ ॐ आचार्येभ्य

षडाक्षरी मंत्र

१ अरहतं सिद्ध २ नमो अरहते ३ ॐ हा ह्रीं ह्र ह्रौ ह्र ४. ॐ नमो अर्हते

५ ॐ नमो अर्हेभ्य. ६ ह्रीं ॐ ॐ ह्रीं ह्र स ७ ॐ नम सिद्धेभ्य ८ अरहतं सि सा

सप्ताक्षरी मंत्र

१ णमो अरिहताण २ ॐ ह्रीं श्रीं अर्हनम ३ णमो आइरियाणं ४ णमो उवज्झायाण

५. नमो उपाध्यायेभ्य, ६ नम सर्व सिद्धेभ्य ७ ओ श्री जिनाय नम

अष्टाक्षरी मंत्र

१. ॐ णमो अरिहताण २. ॐ णमो आइरियाण ३ ॐ णमो उवज्झायाण ४ ॐ नमो

उपाध्यायेभ्य ५ ॐ असिआउसानम

नवाक्षरी मंत्र

१ णमो लोए सव्वसाहूण

२. अरहत सिद्धेभ्यो नम

३ ॐ ह्रीं अ सि आ उ सा नम

४ ॐ ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा

५ ॐ ह्रीं अर्हं सिद्धेभ्यो नम

६ ॐ ह्रीं सर्व साधुभ्य नम

७. ॐ ह्रीं अर्हं जिनाय नम

दशाक्षरी मंत्र

- १ ॐ अ सि आ उ सा नमो नम
- २ ॐ अर्हत्सिद्ध साधुभ्य नम
- ३ ॐ अरहत सिद्धेभ्यो नम
- ४ ॐ णमो लोए सव्वसाहूण
५. ॐ हा ही हू हौ ह नमो नम.

एकादशाक्षरी मंत्र

- (१) ॐ हा ही हूं हौ ह अ सि आ उ सा
- (२) ॐ ही अर्हत्सिद्धेभ्यो नमो नमः
- (३) ॐ ही अर्ह अ सि आ उ सा नम
- (४) ॐ श्री अरहंत सिद्धेभ्यो नम.
- (५) ॐ ही णमो लोए सव्व साहूण
- (६) ॐ ही अर्हत्सिद्ध साधुभ्य नम.

द्वादशाक्षरी मंत्र

- (१) हां ही हू हौ ह अ सि आ उ सा नमः
- (२) ॐ ही श्री अर्ह अ सि आ उ सा नम
- (३) अर्ह सिद्ध सयोग केवलि स्वाहा
- (४) ॐ ह्रीं अर्ह अरिहताणं ही नम
- (५) हा ही हूं हौ ह अ सि आ उ सा स्वाहा
- (६) ॐ अर्ह अर्हत्सिद्ध साधुभ्यो नमः

त्रयोदशाक्षरी मंत्र

- (१) ॐ अर्ह सिद्ध सयोग केवलि स्वाहा
- (२) ॐ ह्रीं अर्ह णमो आइरियाणं स्वाहा
- (३) ॐ ह्रीं अर्ह णमो उवज्झायाण स्वाहा
- (४) ॐ ही अर्ह लोए सव्व साहूण नमः
- (५) ॐ हां ही हू हौ हः अ सि आ उ सा नमः
- (६) ॐ ही अनन्त परम सिद्धेभ्यो नमः
- (७) ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्ध सर्व साधुभ्यो नमः

चतुर्दशाक्षरी मंत्र

- (१) ॐ ह्रीं अर्हं णमो अरिहंताणं ह्रीं स्वाहा
- (२) ॐ अनन्तानन्त परम सिद्धेभ्यो नमः
- (३) श्री मद् वृषभादिवर्धमानान्तेभ्यो नमः

पंच दशाक्षरी मंत्र

- (१) श्री वृषभादि वर्धमान जिनेन्द्रभ्यो नमः
- (२) ॐ ह्रीं अनन्तानन्त परम सिद्धेभ्यो नमः

षोडशाक्षरी मंत्र

अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः.

द्वाविंशत्यक्षरी मंत्र

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः.

त्रयोविंशत्यक्षरी मंत्र

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा अर्ह सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा

पंचविंशत्यक्षरी मंत्र

ॐ जोग्गे मग्गे तच्चे भूदे भव्वे भविस्से अख्खे पक्खे जिणपरिस्से स्वाहा

सप्तविंशत्यक्षरी मंत्र

ॐ ह्रां ह्रिं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शनं ज्ञानं चारित्र्येभ्यो ह्रीं नमः

एक त्रिंशत्यक्षरी मंत्र

ॐ सम्यग्दर्शनाय नमः सम्यग्ज्ञानाय नमः सम्यक्चारित्र्याय नमः सम्यक्कृतपसे नमः ।

पंचत्रिंशत्यक्षरी मंत्र

णमोअरिहंताणंणमोसिद्धाणंणमोआइरियाणंणमोउवज्झायाणणमोलोए सव्वसाहूणं

इकहत्तरक्षरी मंत्र

ॐ अर्हन्मुख कमलवासिनि पापानांक्षयंकरि श्रुतज्ञानं ज्वाला सहस्रं प्रज्वलिते सरस्वति मम पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षुं क्षौं क्ष क्षीरं वरं धवले अमृतं समवे व वं हूं हूं स्वाहा ।

छिहत्तरक्षरी मंत्र

ॐ णमो अर्हते केवलिने परम योगिने अनन्त विशुद्धि परिणाम परिस्फुरच्छुक्ल
ध्यानाग्नि निर्दग्धकर्म बीजाय प्राप्तानंत चतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलाय वरदाय
अष्टादश दोष रहिताय स्वाहा ।

एक सौ सत्ताईस अक्षरी मंत्र

चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं केवलि पण्णतो धम्मो मंगलं,
चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंतालोगुत्तमा, सिद्धालोगुत्तमा साहूलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो
लोगुत्तमो, चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि,
साहू सरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णतं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।

परलोक, सुख, आत्मसिद्धि और कार्य सिद्धि के लिए यह मंत्र सर्वोपयोगी है

इस प्रकार मंत्रों का शास्त्रानुसार विधिविधान पूर्वक जाप करने से लौकिक के साथ साथ पारलौकिक सुख शान्ति प्राप्त करके मानव जीवन सफल बना सकते हैं ।

धार्मिक कार्यो /अनुष्ठानों में, प्रतिष्ठा कार्यो में सामान्यतः उपयोग में आने वाले मंत्र आगे संकलित किये गये हैं ।

जाप एवं विधान मंत्र

वृहच्छांति मंत्र-

ओ णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आइरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोए सव्वसाहूण । चत्तारि मगल-अरिहता मगल, सिद्धा मगल साहू मगल केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगल । चत्तारि लोगुत्तमा-अरिहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारिसरण पव्वज्जामि-अरिहते सरण पव्वज्जामि, सिद्धे सरण पव्वज्जामि, साहू सरण पव्वज्जामि, केवलि पण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि ह्री शान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

मध्यम शान्ति मंत्र

ओ हा ह्री ह्र ह्रौ ह्र अ सि आ उ सा नम सर्व शान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

लघुशान्ति मंत्र

ओ ह्री अर्ह अ सि आ उ सा नम सर्व शान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

विश्वशान्ति चक्र मंत्र

ओ ह्री अर्हते भगवते श्री शान्तिनाथाय विश्व शान्तये नम ।

शान्ति चक्र मंत्र

ओ ह्री श्री शान्तिनाथाय जगच्छान्तिकराय सर्वोपद्रवशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

धर्म चक्र मंत्र

ओ ह्री अर्हते भगवते धर्मचक्राधिपतये श्री चतुर्विंशति जिनेभ्यो नम ।

अचिन्त्य फलदायक मंत्र

ओ ह्री स्वर्ह णमो णमो अरिहताण ह्री नम ।

सर्व सिद्धिदायक मंत्र

ओ ह्री अर्ह अ सि आ उ सा नम ।

रक्षा मंत्र

ओं हूं क्षूं फट् किरिटि किरिटि घातय - घातय पर विघ्नान् स्फोटय - स्फोटय सहस्र
खण्डान् कुरु कुरु पर मुद्रां छिन्द छिन्द पर मंत्रान् भिन्द भिन्द क्षां क्षः वाः वाः हूं फट्
स्वाहा ।

शान्ति मंत्र

ओं नमोऽर्हते भगवते प्रक्षीणाशेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शान्तिनाथाय
शान्तिकराय सर्व विघ्नप्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्युविनाशनाय सर्व परकृच्छ्रोपद्रव
नाशनाय सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा
सर्व शान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

वेदीप्रतिष्ठा, कलशारोहण, तथा बिम्ब स्थापन हेतु मंत्र

ओं ह्री श्रीं क्ली अर्ह अ सि आ उ सा अनाहत विद्यायै णमो अरिहंताणं ह्रौं सर्व शान्ति
कुरु कुरु स्वाहा ।

भक्तामर मंत्र

ओं ह्री क्लीं श्रीं अर्ह श्रीवृषभनाथतीर्थकराय नमः ।

ऋषि मण्डल मंत्र

ओं ह्रां ह्रि हुं ह्रें ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो ह्रीं नमः ।

कलिकुण्डदण्ड मंत्र

ओ ह्री श्री क्ली ऐं अर्ह कलिकुण्डदण्ड स्वामिन् अतुलबलवीर्यपराक्रमाय ममाभीष्टसिद्धि
कुरु कुरु स्फ्रां स्फ्री स्फ्रू स्फ्रौं स्फ्रः ममात्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिन्द छिन्द भिन्द
भिन्द हूं फट् स्वाहा ।

गणधरवल्लय मंत्र

- (१) ओं ह्रीं इवी श्रीं अर्ह अ सि आ उ सा अप्रतिचक्राय फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौ नमः ।
(२) ओ णमो अरिहताणं ओं णमो जिणाणं ह्रा ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अप्रतिचक्राय फट्
विचक्राय ओं ह्री अर्ह अ सि आ उ सा झ्रौं झ्रौ नमः ।

सिद्ध चक्र विधान मंत्र

- (१) ओं ह्रां ह्री हूं ह्रौं ह्र अ सि आ उ सा अनाहत पराक्रमाय सकलकर्मविमुक्ताय
श्री सिद्धाय नमः ।
(२) ओ ह्रीं अर्ह अ सि आ उ सा सिद्धचक्राधिपतये नमः ।

इन्द्रध्वज विधान मंत्र

- (१) ओ ह्रां ह्रीं ह्र ह्रौ ह्र अ सि आ उ सा मध्यलोकसबधि चतु शताष्टपचाशत श्रीजिनचैत्यालयेभ्यो नमः ।
 (२) ओ ह्री श्री क्ली अर्ह अ सि आ उ सा मध्यलोकस्थित सर्व जिनालयस्थ जिन बिम्बेभ्यो नमः ।

त्रैलोक्यतिलक मण्डल विधान मंत्र

ओ ह्री श्री अर्ह अनाहत विद्याधिपाय त्रैलोक्यनाथाय नमः सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ।

जम्बूद्वीप विधान मंत्र-

- (१) ओ ह्री जम्बूद्वीप सबधिअर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुजिनधर्म-जिनागम-जिनचैत्य चैत्यालयेभ्यो नमः ।
 (२) ओं ह्रीं अर्ह अ सि आ उ सा जिनधर्म श्रुतचैत्यचैत्यालयेभ्यो नमः ।

कल्पद्रुम विधान मंत्र-

ओ ह्री समवसरणपद्मसूर्यवृषभादि वर्द्धमानान्तेभ्यो नमः ।

सर्वतोभद्र विधान मंत्र-

ओं ह्रीं त्रिलोकसंबंधिअर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधु-जिनधर्म-जिनागम-जिनचैत्य - चैत्यालयेभ्यो नमः ।

ढाईद्वीप विधान मंत्र

ओ ह्रीं अर्ह अ सि आ उ सा सार्द्धद्वयद्वीपसंबधि शाश्वत जिनालय जिनेभ्यो नमः ।

समवसरण विधान मंत्र-

ओं ह्री वृषभादिवीरात चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्यो नमः ।

नन्दीश्वर द्वीप विधान मंत्र-

ओ ह्री नन्दीश्वरद्वीप सबन्धि द्वापंचाशतजिनालयस्थ जिनबिम्बेभ्यो नमः ।

चौसठ ऋद्धि विधान मंत्र-

ओ ह्री चतुषष्टी ऋद्धिसमृद्ध गणधरेभ्यो नमः ।

प्रतिष्ठा सम्बन्धी आवश्यक मंत्र

अनादि मूल मंत्र-

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्जायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ।

वृहच्छांति मंत्र

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्जायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं । चत्तारि मंगलं- अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवलि पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा- अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि- अरिहंते सरणं पव्वज्जामि सिद्धे सरणं पव्वज्जामि साहू सरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि क्रौं ह्रीं स्वाहा ।

चतुर्विंशति तीर्थकर मंत्र

(१) ओं ह्रीं वृषभाजित संभवाभिनन्दन सुमतिपद्मप्रभसुपाश्र्वचन्द्रप्रभपुष्पदंतशीतल श्रेयोवासुपूज्य विमलानंत धर्मशान्ति कुंभ्वर मल्लिमुनिसुव्रत नमिनेमिपाश्र्ववर्द्धमानांतेभ्यो ह्रीं नमः ।

(२) ओं ह्रीं वृषभादि वर्द्धमानांतेभ्यो नमः ।

नवदेव मंत्र

ओं ह्रीं अर्ह अ सि आ उ सा जिनधर्मजिनागमजिनचैत्य चैत्यालयेभ्योनमः

पंच परमेष्ठि मंत्र

(१) ओ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः पञ्चपरमेष्ठिभ्यो नमः

(२) ओ अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः ।

मातृका मंत्र

ओं नमो ऽ हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ह्रीं क्लीं क्रौं स्वाहा ।

वर्धमान मंत्र

ओं णमो भयवदो वड्ढमाणस्स रिसहस्स जस्स चक्कंजलं तं गच्छइ आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जये वा विवादे वा रणांगणे वा थंभणे वा, मोहणे वा सव्वजीव सत्ताणं अपराजिदो भवदु मे रक्ख रक्ख स्वाहा ।

जाप एव विद्यान मात्र

बीजावार आचार्य जयसेन प्र पाठ

पृष्ठ ११६-११७

अ	ललाटे
आ	मुखकृते
इ	दक्षिणे
ई	वाम नेत्रे
उ	दक्षार्धे
ऊ	वाम कर्णे
ऋ	दक्षिणसि
ॠ	वामनसि
ऌ	दक्ष गंडे
ॡ	वाम गंडे
ए	अध ओष्ठे
ऐ	ऊर्ध्व ओष्ठे
ओ	अधोदन्ते
औ	ऊर्ध्व दन्ते
अं	मूर्ध्नि
अ	जिह्वाग्रे
क	दक्षिणाद् दण्डे
ख	दक्षिणाद् मध्य संधी
ग	दक्षिणाद्वाहीसंधी
घ	दक्षिणागुलि संधी
ङ	दक्ष करग्रे
च	वाम बाहु दण्डे
छ	वाम बाहु मध्य संधी
ज	वाम वरतनाडी संधी
झ	वाम वरतागुलि संधी
ञ	वाम वरताग्रे

ट	दक्षिण पाद	दक्षिण चरण मूल मे	दक्षिण कुक्ष्यो	दक्षिणकुक्षौ
ठ	दक्षपाद सधो	दक्षिण चरण मूल मे	दक्षिण कुक्ष्यो	दक्षिण कुक्षौ
ड	दक्ष पाद गुल्फे	दक्षिण पाद गुल्फे	दक्षिण कुक्ष्यो	दक्षिण कुक्षौ
ढ	दक्ष पाद मूले	दक्षिण पाद गुल्फे	दक्षिण कुक्ष्यो	दक्षिण कुक्षौ
ण	दक्षपदाग्रे	दक्षिण पाद अग्रे	दक्षिण कुक्ष्यो	दक्षिण कुक्षौ
त	वाम वाद मध्यसधो	वामचरण मूल मे	वाम कुक्ष्यो	वाम कुक्षौ
थ	वाम पाद सधौ	वाम चरण मूल मे	वाम कुक्ष्यो	वाम कुक्षौ
द	वाम पाद गुल्फे	वाम पाद गुल्फे	वाम कुक्ष्यो	वाम कुक्षौ
ध	वाम पाद मूले	वाम पाद गुल्फे	वाम कुक्ष्यो	वाम कुक्षौ
न	वाम पदाग्रे	वाम पदाग्रे	वाम कुक्ष्यो	वाम कुक्षौ
प	दक्षपार्श्वदिवुक्ष्यतम्	दक्षिणपसवाडा	दक्षिण प्यूरो	दक्षिणोरी (जाघ)
फ	दक्षपार्श्वदिवुक्ष्यतम्	दक्षिणपसवाडा	वाम प्यूरी	वामोरो (जांघ)
ब	वामपार्श्वदिवुक्ष्यतम्	वाम पसवाडा	गुह्यभाग	गुह्यस्थान
भ	वामपार्श्वदिवुक्ष्यतम्	वाम पसवाडा	नाभिमडल	नाभिरस्थान
म	नाभि	उदर मे	दक्षिण वाम स्फिकू प्रदेश	घूतड
य	हृदि	हृदय	उदर	उदर
र	दक्षासे	दक्षिणकाघा	उर्ध्वरोमाचे	शिरकेश
ल	कंठे	ग्रीवा मे	पाठीवर	पीठ
व	वामासे	वामाकम्था	ग्रीवाकक्षादिसधि	गलेकाख की सधि
श	हृदादिवक्षक्रे	हृदयादिद०हाथपर्यत	जातुयुग्म	घुटनो मे
ष	हृदादिवामक्रे	हृदयादिनामहाथपर्यत	गुल्फयुग्म	गुल्फ मे
स	हृदादि दक्ष पादे	हृदयादिदहिनापाद	पाद युगले	पैरो मे
ह	हृदादि वाम पादे	हृदयादि वाम पादे	हृदय	हृदय
क्ष	हृदादि जठरे	हृदयादिपेट	हृदय	हृदय

नोट: अंकन्यास विधि मे प्रतिष्ठा ग्रन्थो के अनुसार भिन्नता है परन्तु आचार्य जयसेन कृत प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार अंक न्यास व्यवस्थित है अतः इसके अनुसार ही मैं अंकन्यास करता हूँ ।

सुरेन्द्र मंत्र

ओ ह्रा वषट् णमो अरिहताण सवौषट् ओ ब्लू क्ली द्रा द्री ह्री क्रौ आ स ओ नमो
ऽर्हं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ क ख ग घ ङ च छ ज
झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ल क्ष क्ली
ह्रीं क्रौ स्वाहा ।

गणधर वलय यंत्र

(१) ओ ह्रीं इर्वीं श्रीं अर्हं अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौ झ्रौ नम ।
(२) ओ ह्रा ह्री ह्रू ह्रौ ह्र अ सि आ उ सा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौ झ्रौ नम ।

चौसठ ऋद्धि मंत्र - ओ ह्री चतु षष्टी ऋद्धिसमृद्धगणधरेभ्यो नम

बोधिसमाधि

ओ ह्रा ह्री ह्रू ह्रौ ह्र अ सि आ उ सा श्री ह्रं ममेष्ट शुभ कुरु कुरु अ आ इ ई उ
ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ
ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्ष प व क्षि स्वाहा ।

तिलकदान मंत्र -

ओ ह्री श्री अर्हं अ सि आ उ सा अप्रतिहत शक्तिर्भवतु ह्रीं स्वाहा ।

सिद्धचक्र मंत्र

(१) ओ ह्री अर्हं अनाहत विद्यायै णमो अरिहताण णमो सिद्धाण णमो आइरियाण णमो
उवज्झायाण णमो लोए सव्वसाहूण सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्य सम्यक्त्तपसेनम स्वाहा ।
(२) ओ अ सि आ उ सा ह ह्रा ह्रि ह्री ह्रू ह्रू हे है हो ह्रौ ह्र ह्र णमो अरिहताण णमो
सिद्धाण णमो आइरियाण णमो उवज्झायाण णमो लोए सव्वसाहूण । सम्यग्दर्शनाय
नम सम्यग्ज्ञानाय नम सम्यक्चारित्राय नम सम्यक्त्तपसेनम ठ ठ ओ ह्री अनाहत
विद्यायै अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ क ख ग घ ङ च छ
ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्ष
ठ ठ नम स्वाहा ।

(३) ओ ह्रा ह्री ह्रू ह्रौ ह्र श्री चक्राधिपतये अष्टगुण समृद्धाय फट् स्वाहा ।

नयनोन्मीलन मंत्र

ओ णमो अरिहताण णाण दसण चक्खुमयाण अमियरसायण विमलतेयाण सति तुट्ठि
पुट्ठि वरद सम्मादिट्ठीण व झ अमियवरसीण स्वाहा ।

सूर्यकला मंत्र

ओं ह्रीं स्फ्रां स्फ्री ओं वं झ्री स श्री एहि एहि अस्मिन् बिम्बे सूर्यकलां स्थापय स्थापय
श्रु. नमः ।

चन्द्रकला मंत्र

ओं ह्रीं श्री अर्ह पुनीहि पुनीहि ओं श्रीं क्लीं अस्मिन् बिम्बे चन्द्रकलां स्थापय स्थापय
ह्रीं झ्रीं नमः ।

प्राण प्रतिष्ठा मंत्र

ओं आं क्रौं ह्रीं य र ल व श ष स ह अ सि आ उ सा क्षों सः हं सः आयुष्य प्राणा
इह प्राणा आमुष्य जीव. इह स्थितः सर्वेन्द्रियाणां कायवाड मनश्चक्षु श्रोत्रं मुखघ्राण
जिह्वान् स्थापय स्थापय शब्द स्पर्श वर्ण रस गंधान् अस्य आत्म घटं वायुं च पूरय
पूरय संवौषट् तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः चिरकालं नन्दतु ।

सूरि मंत्र

(१) ओं परम ब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नन्द नन्द वर्धस्व वर्धस्व
विजयस्व विजयस्व अनुसाधि अनुसाधि पुनीहि पुनीहि पुण्याहं पुण्याहं मांगल्यं
मांगल्यं वर्धयेत् वर्धयेत् एवं जिनबिम्बे आत्मघटं वायुं पूरय पूरय आगच्छ आगच्छ
संवौषट् तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः चिरकालं नन्दतु वज्रमयां प्रतिमां कुरु कुरु ग्रीं ग्रीं
स्वाहा स्वधा ।

(२) ओं ह्रीं णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्झायाणं णमो
लोए सव्वसाहूणं । चत्तारि मंगलं - अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवल्लि
पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा - अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा
साहू लोगुत्तमा केवल्लि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि -
अरिहंते सरणं पव्वज्जामि सिद्धे सरणं पव्वज्जामि साहू सरणं पव्वज्जामि केवल्लि
पण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि क्रौं ह्रीं स्वाहा ।

मोक्षमार्ग मंत्र

ओं ह्रीं णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए
सव्वसाहूण अ सि आ उ सा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपेभ्यः स्वाहा ।

निर्वाण सम्पत्तिकर मंत्र

ओं ह्रीं अर्ह श्रीं ओं झं पं इवीं क्ष्वीं हः पः हः अ सि आ उ सा मम शान्तिं पुष्टिं कुरु
कुरु ह्रीं क्रौं स्वाहा ।

यंत्राधिकार

यंत्र एवं यंत्र निर्माण विधि

स्वर्ण, रजत, ताम्र एव पीतल के पत्र पर विधि विधान पूर्वक बीजाक्षरो मंत्रो एव अंको का लेख जिसे आगम की कथन पद्धति एवं मंत्रो द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। 'यंत्र' कहलाता है, जो जिनबिम्ब के समान ही पवित्र एवं पूजनीय है। आगम में परम

ब्रह्म (जिन बिम्ब) एव शब्दब्रह्म (यंत्र) दोनो की आराधना का विधान आया है। चूँकि आराधना के लिये अवलम्बन आवश्यक है, और जहा जिन मंगलकार्यों मे जिनबिम्ब नही होते है। वहा हम यंत्र जी को साक्षी मानकर अपनी आराधना पूर्ण करते है। जैसे निवास/प्रतिष्ठान मे भक्तामर विधान, पाणिग्रहण सस्कार, सोलहकारण, दशलक्षण, रत्नत्रय आदि पर्वों की उपासना हम यंत्र का अवलम्बन लेकर करते है।

यत्र सिद्धि सिद्धि वाले, विघ्न विनाशक, कष्टनिवारक, सर्व सिद्धि प्रदायक होते है। यत्र विधान तीन प्रकार का है।

(१) बीजाक्षरो द्वारा

(२) स्वर एव व्यजनो के योग से विशिष्ट अर्थवाचक

(३) अंक गणित (सख्यानुसार)

(१) बीजाक्षर यंत्र:- प्रतिष्ठा विधि मे जितने यंत्र है अधिकाश बीजाक्षरो से बनाये गये है। जिस प्रकार बीजाक्षर अनादि और अनन्तफलदायक है उसी प्रकार यत्र भी प्रभावशाली और कार्य मे सफलता प्रदान करते है।

(२) स्वरव्यंजन वाले यंत्र:- स्वर एव व्यजन के योग से (मंत्रो द्वारा) बनाये गये यत्रो मे भक्तामर, दशलक्षण, सोलहकारण, रत्नत्रय मुख्य है।

(३) अंक गणित वाले यंत्र:- इनका प्रयोग अलग - अलग कार्य सिद्धि के लिये अलग - अलग होता है यह यत्र अधिकाशत गले मे, हाथ मे और अन्य स्थानो पर प्रयोग मे लाया जाता है इस प्रकार के यत्रो का निर्माण भोज पत्र पर केशर से लिखकर किया जाता है - इसके लिखने के कुछ आवश्यक नियम ध्यान रखना अनिवार्य है।

(१) यत्र लेखन का कार्य केशर या अष्टगध से स्वर्ण शलाका, चन्दन अथवा अनार की कलम से करना चाहिये।

(२) लेखन ऊँचे पाटा (चौका) पर रखकर लिखना चाहिये घुटने पर रखकर नही क्योंकि नाभि से नीचे के अंग अशुद्ध माने गये है।

- (३) लेखन मे प्रथम छोटी सख्या वाले अंक फिर उसी क्रम मे वृद्धि वाले अंक लिखना चाहिये, इसके विपरीत दशा से बनाये यंत्र लाभकारक नहीं होते हैं ।
- (४) यंत्र मौनपूर्वक एव शुद्धि के साथ लिखना चाहिये, अशुद्धि पूर्वक लिखे यंत्र लाभदायक नहीं होते ।
- (५) यंत्र लिखते समय पूर्व या उत्तर दिशा ही हो क्योंकि पूर्व दिशा से लिखे यंत्र सुख समृद्धि करते है और उत्तर दिशा से लिखे यंत्र आधि - व्याधि मिटाने वाले होते हैं । अन्य दिशा एव विदिशा से यंत्र नहीं लिखना चाहिये ।
- (६) भोजपत्र फटा या गदा नहीं बल्कि साफ और सुन्दर हो ।
- (७) यंत्र लिखते समय दीप एव धूप का उपयोग आवश्यक है ।
- (८) यंत्र लिखते समय यदि कलम टूट जाये या केशर समाप्त हो जाये तो यंत्र लाभदायक नहीं होगा ।
- (९) यंत्र लिखनेवाला यंत्र शास्त्र का ज्ञाता, अंकगणित का ज्ञाता, संयम, ब्रह्मचर्य पालने वाला, शीलवान हो ।
- (१०) यंत्र को जमीन पर नहीं डालना चाहिये, यंत्र की पवित्रता आवश्यक है कदाचित् अशुद्ध हो जावे तो धूप जलाकर उसे शुद्ध किया जा सकता है ।

धातु के यंत्रों का उपयोग विधिपूर्वक प्रतिष्ठा एवं पूजन करने के पश्चात् ही करना चाहिये । अन्यथा कार्य सिद्धि नहीं होगी । प्रतिष्ठा एवं विधान मे उपयोगी यंत्रों की जानकारी इस प्रकार है ।

यंत्र फल

१ विनायक सिद्धयंत्र विधि

मध्ये तेजस्तत स्याद्वलयमथ धनुः संख्यकोष्ठेषु पञ्च
 पूज्याद्यान् स्थाप्य वृत्ते तत उपरितने द्वादशाभोरुहाणि ।
 तत्र स्युर्मगलान्युत्तमशरणपदान्याद्यसिद्धा महर्षि-
 धर्मप्रख्यातभांजि त्रिभुवनपतिना वेष्टयेदं कुशाढ्यम् ॥

विनायक यंत्र फल

यत्र विनायकपदं विनयार्थमूलं, सर्वेषु मंगलविधिष्वनुयोज्यमानम् ।
 प्रत्यूहजालमपहाय समाप्तिमेति, शास्त्रे प्रतिष्ठितविधौ च विवाहकार्ये ॥

२- श्रीशांतियंत्रोद्धार

स्थाप्यं ब्रह्म पदं ततोऽपि बलयेऽनादिप्रसिद्धाक्षरं
तरस्मादूर्ध्ववृते चतुर्युतसुविशास्तीर्थनाथास्ततः ।
ऊर्ध्वे ऋद्धि धरा विनेयमुखनुत्यंताश्चतु षष्टिका
ह्रीं वेष्ट्या गजशस्त्रकृद्धिहरं यंत्र सुशांतिप्रदं ।

शांतियंत्र फल

घोरादिदु खजनितामपराधजातां लूताज्वरव्रणभगंदरकासपीडां ।
बाधा व्यपोहति समर्चितमेतदाशु शांतिप्रदं परममंत्रनिरूपणेन ॥

३ श्री पूजायंत्रोद्धार

मध्येनाहतलोकभर्तृजठरे ऽ हृद्भ्यो नमस्तद्गृते
कोष्ठानां नवके प्रपूज्य वितति स्याच्चैत्यचैत्यालया ।
वाणी धर्मविधीचतुर्थविभजाभक्त्यादिनुत्यतका-
ह्रीं क्रौ ऋद्धमिदं महार्चनकृत्तौ यंत्रं विमुक्तिप्रदम् ॥

पूजा-यंत्र फल-

य. पूजयेदतुलभक्तिभरेण पूजायंत्रं त्रिकालजपयुग्ं विधिना मनुष्य- ।
तस्यार्थसिद्धिपरिवृद्धिरनर्थहानिर्नित्यकरामलतले लुठति प्रसह्य ॥

४ श्री कल्याणयंत्रोद्धार

मध्ये ऽ हं प्रणवोत्पुटं त्रिभुवनवर्लीकारवेष्ट्य तत-
पार्श्वे पंचशरद्वय बहिरिते वृत्ते ऽ ष्टकोष्ठान्विते ।
ओं ह्रीं संपुटितानि मन्मथमहालक्ष्मीश्रुतानि क्रमात्
विश्वेशाकुशयो स्मृतं पुनरिदं त्रैलोक्यसाराभिधम् ॥

कल्याणयंत्र फल

गर्भादिपंचभविकेषु त्रिलोकसारं पूर्व समर्च्य विधिना तत उत्तराणि ।
कर्माणि सवितनुते परमार्थमार्गे नो प्रच्यवो भवति पूजयतो नरस्य ॥

५ श्री यंत्रेश यंत्रोद्धार

अंतोऽर्हताजरुद्रमात्रिभुवन क्लीं शांतिपुष्टिं कुरु
 द्विः स्वाहा परितो ऽ ब्जषोडशदले पंचेद्यहोमामृतैः ।
 क्ष्वीं वं हं ह्यमृतेन वेष्ट्यममुना विश्वक् रमात्र्यंगयोः
 ह्रीं वेष्ट्या कलशेन च क्षितिभुजा यंत्रेशमेवं विधम् ॥

यंत्रेशयंत्रफल

विद्याः प्रसाधयतुमर्हति यो ऽ त्र धीमान् यंत्रेशमुत्तममिदं प्रथमं समर्च्य ।
 एतन्मनुं जपति शास्त्रगमित्त्ववाग्मित्वाद्यं बुधिं तरति तर्कवितर्कगोद्धः ।

६ श्री सिद्धयंत्रोद्धार

ऊर्ध्वावोरयुतं सविंदु सपरं ब्रह्मास्वरावेष्टितं ।
 वर्गापूरितदिग्गताम्बुजतटंतत्संधितत्त्वान्वितम् ॥
 अंतः पत्रतटेष्पनाहतयुतं ह्रींकारसंवेष्टितं ।
 देवं ध्यायति यः स मुक्तिसुभगो वैरीमकंठीखः ॥

सिद्धचक्रयंत्र फल

यः सिद्धचक्रनिरतो ऽ हंणमाकरोति वेरिखजं दहति कर्मसमूहसार्थम् ।
 अन्या च का बहुकथा शिवसौख्यलक्ष्मीः स्वरं पदाब्जयुगले भ्रमरायति द्राक् ॥

७ श्री बृहत्सिद्धचक्रयंत्रोद्धार

ऊर्ध्वं रेफयुतं सविंदुसपरं मायावृतं पंचभि -
 र्गुर्वाद्यक्षरकैः सहोमनिघनैर्वेदादिकैर्वेष्टितम् ।
 ह्रीं वेष्ट्यं सपरं स्वैरविमितैर्युक्ति ततोऽनाहतं,
 युक्तं पंचपदैरनुप्रणवदृग्बोवेन वृत्तेन च ॥
 सम्यग्युक्तपसा च होमनिघनेनास्यं ठकारावृतं,
 बाह्ये षोडशभिः स्वैरैः परिवृतं तेम्यो ऽ नुपत्राष्टकम् ।
 ओं ह्रीं अर्हमनाहताक्षरमुखं वर्गाष्टकं होमयुक्,
 यंत्रांतः प्रथमं च मंत्रमथ तत् पत्राग्रतोऽनाहतं ॥

मायावेष्टितमकुशेन नमित पश्चात् ठकारावृत,
ओ ह्री अर्हमनाहतादिगुरुभि सर्वैर्नमोऽन्तैर्युतम् ।
स्वाहांताय सुसिद्धचक्रपतये युक्त ततो भ पुर,
क्षोणीमडलग जगत्पतिशय श्री सिद्धचक्र महत् ॥

वृहत् सिद्धचक्रमंत्रफल

य सिद्धचक्रमलघु प्रतिणौति रोगान्,
दुष्टान् निहति शिवसौख्यरसायनानि ।
लब्ध्वोर्जयत्शिखरेतदनतवीर्य,
स्वामीव वाक् प्रगुणतामनणु बिभर्ति ॥
राज्य देय शिरो देय सर्वसंपत्तिरुत्तमा ।
चक्रवर्तिपदस्थाय न देय सिद्धचक्रकम् ॥
विनीताय सुशांताय ब्रह्मचर्ययुताय च ।
निजशिष्याविशिष्टाय देय तदपि चावृतम् ॥
यदि नि शीलताभाजे ह्यविनीताय दीयते ।
तदा ऽपमृत्युमाप्नोति निरये घोरवेदनाम् ॥

८ श्रीगणधरचलयंत्रोद्धार

षट्कोणे प्रणवादिमर्हमभित. कोष्ठे बहि संधिषु,
द्वादश्यप्रतिचक्रफड्ग मनुना क्लृप्ता सुलेख्या तत ।
वृत्ते ऽष्टावितरे तु षोडश ततो वृत्ते चतुर्विंशति.,
ऋद्धीनामुदयाद् गणेशगदित यत्र गणेशाभिधम् ॥

गणधरचलय यंत्र फल

य प्राशुधी प्रतिदिन जिनविबसस्थाऽभ्यर्णेऽर्चयन् जपति गानममुत्रिकालम् ।
देवेन्द्र वृद्धरचिताजलिकुड्मलश्रीपूज्याग्निपद्मयुगला शिवमावृणीते ॥

९ श्री वर्धमानयंत्रोद्धार

भक्त्यंतोऽर्हमनुस्त्रिलोकजिनभूस्वाम्युत्पुटस्थस्वरै-
रावृत्योर्ध्वपुटे रविप्रभगृहे वर्गाष्टकावर्जितम् ।
सिद्धाचार्यगुरूपदेष्टपदकंदत्वा चतुर्थ्यन्तकं,
स्वाहान्वीतमिदं नमामि महितं श्रीवर्धमानाख्यया ॥

वर्धमानयंत्र फल

मंत्रेण यः सह यजेद् गुरुभक्तिशीलः,
श्रीवर्धमानमुखपद्मविनिर्गतांकम् ।
तस्याशु बुद्धिमुपयाति नरेन्द्रचक्र -
स्तुत्या विनष्टदुरिता शिवसौख्यलक्ष्मीः ॥

१० श्री बोधिसमाधि यंत्रोद्धार

गर्भे भक्तिजिनेशपञ्चमनवः श्रीर्हममेष्टं शुभं,
द्विः कुर्वाग्निवधूयुजस्तदभितो वृत्तेष्टवर्गा यथा ।
पूर्वोक्ता जलभूमिमंडलगता ज्ञानार्कसंपत्करा-
श्चक्रं बोधिसमाधिनाम जिनपैः स्पष्टीकृतं सिद्धये ॥

बोधिसमाधियंत्रफल

सव्ये स्वरे समुदयत्यहनि प्रभाते सूर्योदये च सति साष्टसहस्रसंख्यम् ।
यो मंत्रयेदखिलपापविमुक्तदेहस्तत्त्वस्य शुद्धिमुपयाति समाधियंत्रात् ॥

११ श्री मोक्षमार्गयंत्रोद्धार

मध्ये पंचमनूनस्वपल्लवयुतान् तद्धृतकोष्ठाष्टके,
तान्येवाक्षरसंमितानि परितो वृत्ते चतुःकोष्ठाके ।
सम्यग्दर्शनज्ञानतत्स्थितितपांस्येवंविधान्यर्जयद्,
यंत्रं मोक्षपथप्रदं समवसृत्याप्तौ तु पूज्यं श्रये ॥

मोक्षमार्गयंत्र फल

नो केवलं यजनसृष्टिषु पूज्यमेव कामप्रदायि मनसोऽर्थ समापने च ।
इत्यामनंति मुनयो गतरागभावा बंदीच्युतावपि रुषाभिभवं करोति ॥

१२ श्री निर्वाणसंपत्करयंत्रोद्धार

मध्येऽनाहतसपुटेमनसिजोद्बीजरमाभिवृत्त,
तद्बाह्ये ऽष्टदलेषु पञ्चजिनराट् वर्णा यथान्यासतः ।
तद्बाह्ये दलसीम्नि तन्मनुपुरं शाति च पुष्टि कुरु,
द्वि स्वाहेति परं तदेव मनुभृन्निर्वाणसपत्करं ॥

निर्वाणसंपत्करयंत्र फल

निर्वाणपूजनविधौ महनीयमेव काम्येऽपि हेमरजतप्रतिलब्धिहेतो ।
प्रोक्तपुरातनमुनीद्रगणेन तद्वन् मोक्षार्थिभिर्गतविभावविभासनैश्च ॥

१३ श्री सुरेन्द्रयंत्रोद्धार

मध्ये भक्तित्रिलोक्या प्रथमपुरुषद पूर्वमाद्धाननागे,
तत्राद्ये मातृकायान्यसनमिह वृते रत्नपञ्चप्रणामः ।
पात्रा क्रौं ह्रीं नम स्यादिति मदभुवने तोयपृथ्वीनिबध,
एव देवेन्द्रचक्र स्मरति नमति यो देवकातामनोज्ञः ॥

सुरेन्द्रयंत्र फल

सुरेन्द्रचक्र विधिना प्रयुक्त सुरासुराधितपादपद्म ।
विभर्ति कष्टे रतिलेह्यदेहौ नैरोग्यकारी जलपानकर्तुः ॥

१४ श्री मातृकायंत्रोद्धार

मध्येऽर्हं विलिखेत् तदभितो वृत्तेऽष्टकूटाक्षर,
रेखाना च चतुष्टयेषु कुलिशाग्रेषु स्थिता मातृका ।
षट्त्रिंशद्भवनेषु च द्विरसगेष्वग्रेस्मरो भक्तिग-
श्चक्रेऽस्मिन् जिनसस्थिति विरचयेत् श्रीसूरिमन्त्रक्षणे ॥

मातृकायंत्र फल

आचाल्यबिबेऽग्रनिवासभूमौ विलेखनीय पटुनत्वि केन ।
स्वर्णलेखिन्यजयन्त्रधार्या श्लाघ्या रहस्येव मन प्रसत्तौ ॥

१५ श्री नयनोन्मीलनयंत्रम्

अनाहत समावेष्ट्य ठकारैश्च स्वरै क्रमात् ।
 क्ली इवी क्ष्वीं हस सद्वीजै रभोमडलमध्यतः ॥
 वुंकुमाद्यैर्लिखेद् यंत्र पात्रे स्वर्णादिनिर्मिते ।
 लवगादिभवै पुष्पै पद्मरागसमप्रभैः ॥

ओ ह्री श्री अर्ह नमो मत्र जपेदष्टोत्तर शतं ।
 तद्रौप्यपात्रविन्ध्यस्तसिताक्षीराज्यसंयुता ॥
 विदध्यात्तेन गंधेन चामीकरशलाकया ।
 चक्षुरुन्मीलनं शक्रं पूरकेन शुभोदये ॥
 मूलविबस्य चान्येषा यथायोग्य समाचरेत् ।
 आचार्यशक्रयन्त्राणां मध्ये एकेन सत्क्रियात् ॥

प्रतिष्ठा
सम्बन्धी यंत्र


पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रतिष्ठा में उपयोगी यंत्रों को विधिवत् शुद्ध करके यंत्र प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजन करना अनिवार्य है।

मात्र गंधोदक या हवन कुण्ड में रखने से यंत्रों में पूज्यता नहीं आती है।

नवदेव मण्डल यंत्र




विनायक यंत्र




मातृका यंत्र


(क)




पूजा यंत्र




यंत्रेश यंत्र




सुरेन्द्र चक्र यंत्र




ऋषि मंडल यंत्र




बोधिसनाधि यंत्र




४६-सिद्ध चक्र यंत्र (वृहत्)




४५-सिद्ध चक्र यंत्र (लघु)




नयनोन्मीलन यंत्र



कर्म दहन यंत्र




निर्वाण सम्पत्ति यंत्र




मोक्षमार्ग यंत्र




अग्नि मण्डल यंत्र



आकाश मण्डल यंत्र






षोडशकारण धर्म चक्रोद्धार यंत्र




चौषोस
तीर्थकर मंत्र

वेदी प्रतिष्ठा के समय मूलनायक तीर्थकर की प्रतिमा
विराजमान करते समय उन्हीं तीर्थकर भगवान का यंत्र
सीधा एवं बीचो बीच प्रतिमा के नीचे विराजमान करना
चाहिए।





ल	क्षी	ल
क्षी	<p style="text-align: center;">ॐ णमो भगवतो अरहदो शमवस्त</p> <p style="text-align: center;">ॐ ह्री शमवनाथाय</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">ॐ ह्री शमवनाथाय</p> <p style="text-align: center;">ॐ णमो भगवतो अरहदो शमवस्त</p>	क्षी
ल	क्षी	ल

१

ल	क्षी	ल
क्षी	<p style="text-align: center;">ॐ णमो भगवतो अरहदो</p> <p style="text-align: center;">ॐ ह्री श्री भगवत्पद्मे</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">ॐ ह्री श्री भगवत्पद्मे</p> <p style="text-align: center;">ॐ णमो भगवतो अरहदो</p>	क्षी
ल	क्षी	ल


२


ल		क्षी		ल
	<p>ॐ नमो भगवदो अरुढतो ॐ ह्रीं श्रीं सुमति</p>			
	वानेगे स्वाहा । सर्वे उरुष ठरुष ।		सुमतिरुषा सिद्धिम् चरुषे भगवदो नारायण उरुषु यथा उरुष दत्त	
	क्षी वानेगे स्वाहा ।		क्षी	
	<p>सिद्धरु सुमतिरुषा मम सुमतिरुषा</p>			
ॐ		क्षी		ॐ



ल		क्षी		ल
	<p>ॐ नमो भगवदो अरुढवो ॐ ह्रीं श्रीं पद्मउभाय</p>			
	महायोगे महायोगेस्वरुषी स्वाहा । सुदि उरुष उरुष ॥		योगे अरुढतसु सिद्धम् चरुषे भगवदो उरुषा यथा योगिनी यथि सुदिताय	
	क्षी महायोगे		क्षी	
	<p>सिद्धरु सुदिनिषु मम सुदिनिषु</p>			
ॐ		क्षी		ॐ


लं	क्षी	लं
<p>विष्णुं हृसे सुपासि सर्वं वृश्चिक भयं नाशय २</p> <p>सुपासिपासे सिङ्क-पञ्च भगवदो मातंग यद्वा काली यस्मि सहितायामम</p> <p>सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ।</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं सुपासिपासाय ॐ नमो भगवते अरहते</p>		
क्षी	क्षी	क्षी
ॐ	क्षी	ॐ


लं	क्षी	लं
<p>ॐ नमो भगवदो अरहदो ॐ ह्रीं श्रीं चन्द्रप्रभाय</p> <p>चन्द्रप्यहस्तसिङ्क-पञ्च भगवदो यथा यथा ज्ञानासासिनी</p> <p>चंद्रप्यहस्तसूक्तं स्वाहा । पुरुष वश्यं कुरु कुरु स्वाहा ।</p> <p>ॐ नमो भगवते अरहते ॐ नमो भगवते अरहते</p>		
क्षी	क्षी	क्षी
ॐ	क्षी	ॐ

ल		क्षी		ल
	<p>ॐ णमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्री श्री पुष्यदत नासाय</p>			
	<p>पुष्पदत्तस्स सिद्ध-धम्मो भगवदो</p> <p>अस्सिं भक्ख भट्ठकाम्भी यस्सि सत्थिण</p>		<p>पुष्पदत्तस्स सिद्ध-धम्मो भगवदो</p> <p>अस्सिं भक्ख भट्ठकाम्भी यस्सि सत्थिण</p>	
	<p>पुष्पेसरि सुरि स्वाहा ।</p> <p>कुरु कुरु वरुण ।</p>			
	<p>सम अस्सिणमत्त यस्सि</p> <p>सिद्ध-धम्मो भगवदो अरहदो</p>			
ॐ		ॐ		ॐ

ल		क्षी		ल
	<p>स्वाहा ॐ णमो भगवदो अरहदो श्रीतलस्स</p> <p>ॐ ह्री श्री श्रीतलनाथाय नमः</p>			
	<p>स्वहा ॐ णमो भगवदो अरहदो श्रीतलनाथाय नमः</p> <p>सिद्धे सास्से अणुमिठ्ठि अणुमाणमो भगवदो भगवदो नमो नमः</p>		<p>अनाहत सिद्धना सिद्धमत्त सिद्ध-धम्मो</p> <p>भक्ख चाण्डो यस्सि सत्थिण मम</p>	
	<p>सिद्धे सास्से अणुमिठ्ठि अणुमाणमो भगवदो भगवदो नमो नमः</p> <p>सिद्धे कुरु कुरु स्वाहा ।</p>			
	<p>सम अस्सिणमत्त यस्सि</p> <p>भगवदो अरहदो अरहदो</p>			
ॐ		ॐ		ॐ





ल	क्षी	ल
क्षी	<p>ॐ णमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्री श्री विमलनाथाय</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <p>सुखि सुख सुख सुखाहा ।</p> <p>कमले निम्मले स्वाहा ।</p> <p>विमलस्स रिज्ज-पग्गे भगवदो विज्जम्भर</p> <p>वण्डुल यष सट्ठि जेसेदि यधि</p> <p>सुखि सुख सुख सुखाहा</p> <p>महाविज्जम्भर अमले निम्मे</p>	क्षी
ॐ	क्षी	ॐ

ल	क्षी	ल
क्षी	<p>ॐ णमो भगवदो अरहदो अणत्त</p> <p>ॐ ह्री श्री अनन्तनाथाय</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  </div> <p>अणत्त केवल दसणे अणु पुज्ज वासिणे अणत्तागम केवलसिणे</p> <p>अणत्ते अणत्तणत्ते अणत्ते केवल वासिणे</p> <p>अणत्त यष अनन्त मति यधि सट्ठिणाय</p> <p>विज्ज-पग्गे भगवदो विज्जम्भर महाविज्जम्भर</p> <p>सुखि सुख सुख सुखाहा ।</p>	क्षी
ल	क्षी	ल

ॐ		क्षीं		ॐ
	लं	<p>ॐ गमो नगवदो अरहदो चम्मस</p> <p>ॐ ही क्षीं धर्मनाथाय किलर</p>	<p>रिजम-धर्मो अरावदो विजमर गहाविजमर</p>	क्षीं
		<p>अन्ते-धर्मो अंगारे म-अंगु अयदि-कर्मि नगाहा।</p> <p>स्वाहा।</p>	<p>यस भवती यद्वि-महिताय मम</p>	
		<p>ॐ वष ॐ-ॐ ॐ-ॐ ॐ-ॐ</p>		
		<p>धर्मो विजमर धर्मो विजमर</p>		ॐ

ॐ		क्षीं		ॐ
	क्षीं	<p>ॐ गमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ही श्रीशांतिनाथाय</p>	<p>शांतिरस रिजम-धर्मो अरावदो</p>	क्षीं
		<p>हू कर्मये स्वाहा।</p> <p>ॐ ॐ ॐ ॐ स्वाहा।</p>	<p>गण्ड यथा भवती यद्वि-महिताय</p>	
		<p>मम सर्व शांति</p>		
		<p>विजमर गहाविजमर</p>		ॐ

ल		क्षी		ल
	<p>ॐ नमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं कुन्धुनाथाय गर्भविषय</p>			
क्षी	<p>कुन्धुनाथाय स्वाहा ।</p> <p>उपद्रवनाथा कुरु कुरु स्वाहा ।</p>		<p>कुन्धुनाथाय स्वाहा ।</p> <p>उपद्रवनाथा कुरु कुरु स्वाहा ।</p>	क्षी
	<p>ॐ नमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं कुन्धुनाथाय गर्भविषय</p>			
ल		क्षी		ल

लं		क्षी		ल
	<p>ॐ नमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं अरहनाथाय</p>			
क्षी	<p>अथ जिगहति स्वाहा ।</p> <p>कुरु कुरु स्वाहा ।</p>		<p>अरहनाथाय स्वाहा ।</p> <p>उपद्रवनाथा कुरु कुरु स्वाहा ।</p>	क्षी
	<p>ॐ नमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं अरहनाथाय</p>			
ल		क्षी		ल

लं	क्षी	ल
<p>ॐ णमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं मल्लिनाथाय</p> <p>कुम्भे रघु उभयराशिंता यन्मि स्याद्विनाय</p> <p>मल्लिनाथस्य सिद्धयः चाम्भो भगवदो</p> <p>अरिपायस्य मल्लि स्यादा ।</p> <p>कुम्भे रघु उभयराशिंता यन्मि स्याद्विनाय</p> <p>मम विनिर्गतकामु सिद्धि-व</p> <p>विष्णु महाविष्णुकर मल्लि-मल्लि</p>		
क्षी	क्षी	क्षी
ल	क्षी	ल

लं	क्षी	ल
<p>ॐ णमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं मुनि सुव्रतनाथाय</p> <p>वराण पद्य वरुस्यिणी यन्मि</p> <p>मुनि सुवपस्य सिद्धयः चाम्भो भगवदो</p> <p>सुव्रतनाथाय ।</p> <p>वशी कुत कुत स्यादा ।</p> <p>सुव्रतनाथाय मम विष्णु-वशिष्ठ</p> <p>विष्णु महाविष्णुकर सु-विष्णु</p>		
क्षी	क्षी	क्षी
ल	क्षी	ल

लं		क्षी		लं
	ॐ णमो भगवदो अरहदो			
	ॐ ह्रीं श्रीं नमिनाथाय			
	गण्डिस्वाहा । गण्डि गण्डि गण्डि गण्डि	कुं कुं कुं कुं कुं कुं कुं कुं कुं	गण्डिस्वाहा । गण्डि गण्डि गण्डि गण्डि	
	मम कुं कुं मम गण्डि गण्डि गण्डि			
	क्षी	क्षी	क्षी	
लं		क्षी		लं

लं		क्षी		लं
	ॐ णमो भगवदो अरहदो			
	ॐ ह्रीं श्रीं नेमिनाथाय			
	गण्डिस्वाहा । गण्डि गण्डि गण्डि गण्डि	कुं कुं कुं कुं कुं कुं कुं कुं कुं	गण्डिस्वाहा । गण्डि गण्डि गण्डि गण्डि	
	मम कुं कुं मम गण्डि गण्डि गण्डि			
	क्षी	क्षी	क्षी	
लं		क्षी		लं

ल	क्षी	ल
<p>ॐ णमो भगवदो अरहदो</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावति</p> <p>उत्तम कुल प्राप्तु प्राप्तु सिद्धिभक्त-धाम्ने</p> <p>सहित धारवर्ना धार मम</p> <p>सेपासे संमास समिगितोदि स्वाहा।</p> <p>कुरु कुरु स्वाहा।</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावति</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावति</p>		
क्षी	क्षी	क्षी
ॐ	ॐ	ॐ

ल	क्षी	ल
<p>ॐ णमो भगवदो अरहदो महति</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं महावीराय मातङ्गयस</p> <p>महावीर बहुभाण कुहस अथाहिन विज्याइ</p> <p>सिद्धयन्ती यस्मि सहिताय मम कुहसिने</p> <p>की महावीर सिसिणमदिनीर जयलं आपराजिते स्वाहा।</p> <p>कुरु कुरु वसट्।</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं महावीराय मातङ्गयस</p> <p>ॐ ह्रीं श्रीं महावीराय मातङ्गयस</p>		
क्षी	क्षी	क्षी
ॐ	ॐ	ॐ

भगवान आदिनाथ के पुत्रों के नाम

भगवान आदिनाथ की दो रानिया थीं। नन्दा एव सुनन्दा - जिनसे आदिनाथ के १०० पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हुईं। इन सबमे भरत सबसे बड़े थे जिनके नाम से ही भारत का नाम पड़ा।

भगवान ऋषभदेव (आदिनाथ) ने अपने सभी पुत्रों को अलग अलग शिक्षा प्रदान की जिससे कि कर्मभूमि में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान वह कर सके।

'जैन धर्म का प्राचीन इतिहास' ग्रंथ के अनुसार अभिधान राजेन्द्र कोष के पृष्ठ ११२९ पर उनके १०० पुत्रों एवं २ पुत्रियों की सूची दी गई है जिसे आगे दर्शाया गया है।

आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण १६/२८ में भगवान आदिनाथ के १०१ पुत्रों का उल्लेख किया है परन्तु सूची नहीं दी गई है।

'श्री मद्भागवत' ५/४/९/९३ के अनुसार भगवान आदिनाथ के १०० पुत्रों का ही वर्णन है परन्तु उनके नामों में अन्तर है।

भगवान आदिनाथ के पुत्रों के नाम

१.	भरत	१६	ध्रुव	३१	गम्भीर
२	बाह्वलि	१७	वच्छ	३२	वसुचर्मा
३	शख	१८	नन्द	३३	सुवर्मा
४	विश्वकर्मा	१९	सुनन्द	३४	राष्ट्र
५.	विमल	२०	सुर	३५.	सुराष्ट
६.	सुभक्षण	२१.	कुरु	३६	बुद्धिकर
७.	अमल	२२	अग	३७.	विविधकर
८.	चित्रांग	२३	वंग	३८	सुयशा
९	ख्याति कीर्ति	२४.	कौशल	३९	यशस्कीर्ति
१०	वरदत्त	२५.	वीर	४०	यशस्कर
११	सागर	२६	कलिग	४१.	कीर्तिकर
१२.	यशोधर	२७.	मागध	४२	सूरण
१३	अमर	२८	विदेह	४३	ब्रह्मसेन
१४	स्थवर	२९	सगम	४४.	विक्रान्त
१५.	कामदेव	३०	दशार्ण	४५	नरोत्तम

४६. पुरुषोत्तम	६६. जय	८६. कश्यप
४७. चन्द्रसेन	६७. विजय	८७. बल
४८. महासेन	६८. विजयन्त	८८. धीर
४९. नमसेन	६९. प्रभाकर	८९. शुभमति
५०. मानु	७०. अरिदमन	९०. सुमति
५१. सुव्रान्त	७१. मान	९१. पद्मनाम
५२. पुष्पयुत	७२. महाबाहू	९२. सिंह
५३. श्रीधर	७३. दीर्घबाहू	९३. सुजाति
५४. दुर्घष	७४. मेघ	९४. संजय
५५. सुसुमार	७५. सुघोष	९५. सुनाम
५६. दुर्जय	७६. विश्व	९६. नरदेव
५७. अजेयमान	७७. वराह	९७. चित्रहर
५८. सुवर्मा	७८. सुसेन	९८. सुरवर
५९. घर्मसेन	७९. सेनापति	९९. द्रढ रथ
६०. आनन्दन	८०. कपिल	१००. प्रभंजन
६१. आनन्द	८१. शैलविचारी	कन्या
६२. नन्दन	८२. अरिजय	१. ब्राह्मी
६३. अपराजित	८३. कुञ्जर बल	२. सुन्दरी
६४. विश्वसेन	८४. जयदेव	
६५. हरिषेण	८५. नाग दत्त	

तीस चौबीसी के तीर्थकरों की नामावलि

तीर्थकर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। वे धर्म तीर्थ की पुनः स्थापना करते हैं। तीर्थकर अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पिणी के तृतीय काल में जन्म लेते हैं। इस अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल में तीर्थकरों की संख्या २४ ही होती है। जैनधर्म में ससार की उत्पत्ति, विनाश और संरक्षण करने वाली कोई ऐसी अव्यक्त/अदृश्य शक्ति नहीं मानी जाती जो ससार का संचालन करती हो और ना ही किसी शक्ति का अवतार होता है। ससार में जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल षट् द्रव्य हैं उनके स्वभाव और कार्य कारण भाव से ससार का उत्पाद, व्यय, ओर ध्रौव्य माना है। आधुनिक विज्ञान भी इस कार्य कारण को स्वीकार करता है।

तीर्थकर मनुष्य ही होते हैं किन्तु वे सामान्य मनुष्यों से भिन्न व असाधारण होते हैं उनमें यह विशिष्टता तीर्थकर नाम कर्म के कारण होती है। तीर्थकर नाम का कर्म होता है जिसका बंध तीर्थकर, केवली और श्रुतकेवली के पाद मूल में अपायविचय, धर्मध्यान की भूमिका में दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का चितवन करने वाले मनुष्य को होता है, उनकी निरन्तर यही भावना रहती है कि मैं किस प्रकार ससार के दुखी प्राणियों का दुख दूर करूँ। ऐसी उच्च भावना करने वाले महान पुण्यशाली जीव को तीर्थकर नामकर्म प्रकृति का पुण्य बंध होता है। इसे आगम में भी कहा है कि 'पुण्यफला अरहंता'। अर्थात् अरिहत पद महान पुण्य फलवाली प्रकृति का बंध करने वाले जीव को ही प्राप्त होता है। जो तीर्थकर के रूप में जन्म लेकर आत्मकल्याण करते हैं।

तीर्थकर प्रकृति का बंध कराने वाली सोलहकारण भावनाएँ निम्न हैं।^१

१ दर्शन विशुद्धि २ विनय सम्पन्नता ३ शीलवृत्तेष्वनतिचार ४ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ५ सवेग ६ शक्तितस्त्याग ७ शक्तितस्तप ८ साधु समाधि ९ वैयावृत्यकरण १० अर्हद्भक्ति ११ आचार्य भक्ति १२ बहुश्रुत भक्ति १३ प्रवचन १४ आवश्यकपरिहाणि १५ सन्मार्ग प्रभावना १६ प्रवचन वत्सल।

इनका महत्त्व आगम में निम्न प्रकार बतलाया गया है -

'एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवो तित्थयर णामा गोदं कम्मं बंधदि'^२

इन सोलह कारण भावनाओं से जीव को तीर्थकर प्रकृति नाम का उच्चगोत्र बंधता है। इन सोलह भावनाओं में दर्शन विशुद्धि भावना मुख्य है।

(१) आ कु कु खा प्र सा पृ० १०४ गा ४७ (२) आ पू पा खा स सि

अ. ६ (३) आ भू व म व

दृग्विशुद्ध्यादयोनाम्नस्तीर्थकृत्वस्य हेतवः ।

समस्ता व्यस्तरूपा वा दृग्विशुद्धया समन्विताः ॥ १

दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण तीर्थकर नामकर्म में कारण हैं चाहें वह सभी हो या पृथक्-पृथक् हो किन्तु दर्शनविशुद्धि का होना आवश्यक है। ऐसा आगम का नियम है।

पंचकल्याणक व्यवस्था

लोकोत्तम तीर्थकर पुण्य प्रकृति के बंध करने वाले पुण्यशाली जीवों के प्रायः गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण यह पाँचो ही कल्याणक होते हैं। अर्थात् पाँचों मेरु सम्बंधि पाँचो भरत क्षेत्र, पाँच ऐरावत क्षेत्र, पूर्व पश्चिम में स्थित एक सौ साठ विदेह क्षेत्र इनमें जन्म लेने वाले तीर्थकरो के पाँच ही कल्याणक होते हैं। परन्तु विदेह क्षेत्र में कल्याणको की निम्न व्यवस्थाएँ भी हैं :-

१. जिन जीवो ने पूर्वभव में सोलहकारण भावनाओं के आधार से तीर्थकर पुण्य प्रकृति का बंध किया हो उनके पाँच ही कल्याणक होते हैं।
- २ तद्भव मोक्षगामी किसी जीव ने वर्तमान गृहस्थ अवस्था में तीर्थकर प्रकृति का बंध किया हो तो उस जीव के तप, ज्ञान और निर्वाण तीन ही कल्याणक होंगे।
- ३ तद्भव मोक्षगामी जीवों में किसी जीव ने जैनेन्द्री दीक्षाधारण करके सोलहकारण भावनाओं का चितवन करके तीर्थकर पुण्य प्रकृति का बंध किया हो तो उनके ज्ञान और निर्वाण दो ही कल्याणक होंगे।

विदेह क्षेत्र में सदैव चौथा काल ही होता है वहाँ तीर्थकर, केवली और श्रुत केवली का सद्भाव निरन्तर रहता है वहाँ उत्कृष्टतया एक साथ 'एक सौ साठ' तीर्थकरो की सभावना रहती है। इसलिए विदेह क्षेत्र में दो कल्याणक से पाँच कल्याणक तक के तीर्थकर भगवान् होते हैं तथा बीस तीर्थकर सदैव विद्यमान रहते हैं। लेकिन पाँच भरत क्षेत्र और पाँच ऐरावत क्षेत्र ही ऐसे हैं जहाँ पाँच कल्याणक वाले पुण्य पुरुष तीर्थकर होते हैं।

वर्तमान काल के चौबीस तीर्थकरो ने स्वर्ग और अनुत्तरो से आकर मध्यलोक में जन्म लिया है। आगामी काल में होने वाले तीर्थकरो में पहले, सोलहवें एवं चौबीसवें यह तीन तीर्थकर नरक से तथा शेष स्वर्ग से आकर जन्म लेंगे। इस प्रकार स्वर्ग एवं नरक से निकलकर तीर्थकर बनने की योग्यता तो है किन्तु तीर्थच और मनुष्यगति से तीर्थकर नहीं होते ऐसा आगम में कथन पाया जाता है।

जम्बूद्वीप, घातकी खण्डद्वीप एव पुष्करार्द्ध द्वीप के पाँचो मेरु सबधी भरत क्षेत्र एव ऐरावत क्षेत्र में भूतकाल, वर्तमानकाल एव भविष्यकाल में होने वाले कुल तीस चौबीसी के सात सौ बीस तीर्थकर होते हैं जिनकी सूची निम्नानुसार है -

सुदर्शन मेरु के भरत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१. श्री निर्वाण	श्री ऋषभनाथ	श्री महापद्म
२. श्री सागर	श्री अजित नाथ	श्री सूरसेन
३. श्री महासाधु	श्री संभवनाथ	श्री सुप्रभ
४. श्री विमलप्रभ	श्री अभिनंदन नाथ	श्री सुवम प्रभ
५. श्री श्रीघर	श्री सुमति नाथ	श्री सर्वायुध
६. श्री सुदत्तदेव	श्री पद्मप्रभ	श्री जगदेव
७. श्री अमलप्रभ	श्री सुपाश्वनाथ	श्री प्रभादेव
८. श्री शुद्धप्रभ	श्री चन्द्रप्रभ	श्री उदयदेव
९. श्री उद्यारक	श्री पुष्पदन्त	श्री उदक
१०. श्री अग्निदेव	श्री शीतलनाथ	श्री प्रश्नकीर्ति
११. श्री संजम	श्री श्रेयांसनाथ	श्री जयकीर्ति
१२. श्री शिव	श्री वासुपूज्य	श्री पूर्णबुद्धि
१३. श्री ज्ञान	श्री विमलनाथ	श्री निष्कषाय
१४. श्री पुष्पाजलि	श्री अनंत नाथ	श्री विमलप्रभ
१५. श्री उत्साह	श्री धर्मनाथ	श्री बहुलप्रभ
१६. श्री परमेश्वर	श्री शातिनाथ	श्री निर्मल
१७. श्री जितशत्रु	श्री कुशुनाथ	श्री चित्रगुप्त
१८. श्री विमल	श्री अरनाथ	श्री समाधिगुप्त
१९. श्री यशोधर	श्री मल्लिनाथ	श्री स्वयंप्रभ
२०. श्री ज्ञानामृत	श्री मुनि सुव्रतनाथ	श्री कदर्प
२१. श्री विशुद्ध	श्री नमिनाथ	श्री जयदेव
२२. श्री सतदेव	श्री नेमिनाथ	श्री विमलेश्वर
२३. श्री तीर्थमद्र	श्री पाश्वनाथ	श्री दिव्यवाद
२४. श्री कृष्ण	श्री वर्धमान	श्री अनंतवीर्य

सुदर्शन मेरु के ऐरावत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमानकाल	भविष्यकाल
१. श्री पचरूप	श्री बालचंद्र	श्री सिद्धारथ
२. श्री जिनधर	श्री मुनिसुव्रत	श्री विमल
३. श्री सांप्रति	श्री अग्निसेन	श्री जयघोष
४. श्री उर्ज्ययंत	श्री नंदिसेन	श्री स्वरमंगल
५. श्री अधिक्षायक	श्री दत्त	श्री नंदिघोष
६. श्री अभिनंदन	श्री व्रतधर	श्री वज्रधर
७. श्री रत्रेस	श्री सोमचंद्र	श्री निर्वाण
८. श्री रामेश्वर	श्री द्यूतदीर्घ	श्री धर्मध्वज
९. श्री अंगेजित	श्री सत् पुष्प	श्री सिद्धसेन
१०. श्री विन्यास	श्री शिवमत	श्री महासेन
११. श्री अरोष	श्री श्रेयांसनाथ	श्री रविमिय
१२. श्री सुविधानक	श्री श्रुतोदक	श्री सत्यसेन
१३. श्री वप्रदत्त	श्री सिंहसेन	श्री चंद्रदेव
१४. श्री कुमार	श्री उपशांत	श्री महाचंद्र
१५. श्री श्रीशैल	श्री गुप्तासन	श्री श्रुतांजन
१६. श्री प्रभंजन	श्री अनंतवीर्य	श्री देवसेन
१७. श्री सौभाग्य	श्री पाश्र्वजीन	श्री सुव्रत
१८. श्री दिवाकर	श्री देवजिन	श्री जिनेंद्र देव
१९. श्री सुवृत बिदु	श्री मरुदेव	श्री पाश्र्व देव
२०. श्री सिद्धिकर	श्री श्रीधर	श्री सुकौशल
२१. श्री ज्ञानघन	श्री श्यामकंठ	श्री अनत
२२. श्री कल्पद्रुम	श्री अग्नि प्रभ	श्री विमल
२३. श्री तीर्थफल	श्री अग्नि दत्त	श्री अमृत सेन
२४. श्री वीरमप्रभ	श्री वीरसेन	श्री अग्निदत्त

विजय मेरु के भरत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१. श्री रत्नप्रभ	श्री युगादिजिन	श्री सिद्धनाथ
२. श्री अमितनाथ	श्री सिद्धांत	श्री सम्यकजिन
३. श्री सभव नाथ	श्री महासेन	श्री जिनेन्द्र जिन
४. श्री अकलंक	श्री परमार्थ	श्री सुपननाथ
५. श्री सुचंद्र	श्री समुद्धरन	श्री सर्वस्वामी
६. श्री सुभकर	श्री भूवर	श्री मुनिनाथ
७. श्री तत्वज्ञायक	श्री उद्योतजिन	श्री वशिष्ठजिन
८. श्री सुंदरजिन	श्री अर्जवजिन	श्री अमरनाथ
९. श्री पुरंदर	श्री अभव्यजिन	श्री बाह्यशात
१०. श्री स्वामीप्रभा	श्री प्रकपजिन	श्री पर्वनाथ
११. श्री वासवदत्त	श्री पद्माभिजिन	श्री अकामजिन
१२. श्री श्रेयास	श्री पद्मनंदि	श्री ध्यानजिन
१३. श्री विश्वरूप	श्री प्रियकर	श्री कल्पनाथ
१४. श्री तपतेज	श्री सुकृत्	श्री सवरजिन
१५. श्री सिद्धारथ	श्री भद्रेश्वर	श्री रवरथजिन
१६. श्री प्रतिबोध	श्री मुनिचद	श्री आनदजिन
१७. श्री सजम	श्री पचमुष्टि	श्री रविप्रभ
१८. श्री देवेद्र	श्री त्रिमुष्टि	श्री चद्रप्रभ
१९. श्री अमलप्रभ	श्री गागक	श्री नदजिन
२०. श्री विश्वसेन	श्री गणनाथ	श्री सुकर्मजिन
२१. श्री मेघनयन	श्री सर्वांगदेव	श्री सुर्कगजिन
२२. श्री त्रिनेत्र	श्री इद्रदत्त	श्री अमनजिन
२३. श्री प्रवर	श्री ब्रह्म नाथ	श्री शाश्वतजिन
२४. श्रीप्रभ	श्री गणपतिनाथ	श्री पाश्वनाथ

विजय मेरु के ऐरावत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१. श्री ब्रजकांति	श्री अपश्चिम	श्री वीरजिन
२. श्री उदय दत्त	श्री पुष्पदंत	श्री विजय जिन
३. श्री सूरस्वामी	श्री अरहंत जिन	श्री सत्यजिन
४. श्री पुरुषोत्तम	श्री सुचारित्र	श्री महामृगेन्द्र
५. श्री सर्णस्वामी	श्री सिद्धनंदि	श्री चितामणि
६. श्री अवबोधन	श्री नंदनाम	श्री अशोक जिन
७. श्री विक्रमजिन	श्री पद्मकूट	श्री द्वीमृगेन्द्र
८. श्री निर्घटक जिन	श्री उदयनंदि	श्री उपासक
९. श्री हरिंद्रनाथ	श्री रुक्मदेव	श्री पद्मचंद
१०. श्री प्रतींद्र जिन	श्री कृपाल जिन	श्री सुबोधक
११. श्री निर्वार्ण जिन	श्री प्रोष्टिल जिन	श्री चिंताहिम
१२. श्री चतुर्मुख	श्री सिद्धेश्वर	श्री उत्साहक
१३. श्री धर्महेत	श्री अमृत देव	श्री अपासिक
१४. श्री शुक्रतेन्द्र	श्री स्वामि जिन	श्री अनारक
१५. श्री श्रुतद्रुज	श्री भोनिलिंग	श्री अनघजिन
१६. श्री विमलनाथ	श्री सर्वार्थसिद्ध	श्री नागेन्द्र जिन
१७. श्री घरणेन्द्र	श्री मेघनंदि	श्री नीलोत्पल
१८. श्री तीर्थनाथ	श्री केशवनंदि	श्री अप्रकंय
१९. श्री देवप्रभ	श्री हरिहर	श्री पुरोहित
२०. श्री सर्वार्थसिद्ध	श्री शांतिनाथ	श्री भिंदक
२१. श्री धर्मिकाय	श्री आनंद जिन	श्री पार्श्व देव
२२. श्री क्षेत्र स्वामी	श्री अधिष्ठित जिन	श्री निर्वाचक
२३. श्री हरचन्द्र	श्री कुंडपाश्र्व	श्री विरोचिस
२४. श्री देवप्रभ	श्री विमोचन जिन	श्री जिनवर जिन

अचल मेरु के भरत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१ श्री वृषभजिन	श्री विश्वचन्द्र	श्री रक्तकेश
२. श्री प्रियमित्र	श्री कपिल	श्री चक्रहरत
३. श्री शातिजिन	श्री वृषभ	श्री परमेश्वर
४ श्री सुमतिजिन	श्री प्रीयतेज	श्री श्रीवृत्तनाथ
५. श्री आदिनाथ	श्री प्रसमजिन	श्री सौमूर्तिक
६. श्री अतिव्यक्त	श्री वृषभाग	श्री सौहूर्तिक
७. श्री कालसेन	श्री चारित्रनाथ	श्री श्रीनिवेश
८ श्री कर्मजिन	श्री प्रभादित्य	श्री स्वेतागद
९ श्री प्रबुद्धजिन	श्री मुजकेश	श्री अरुज जिन
१०. श्री वप्रजिन	श्री वीतवास	श्री देवनाथ
११. श्री सौधर्म	श्री सुराधिप	श्री दयाधिक
१२. श्री तमोद्वीप	श्री दयानाथ	श्री पुष्पनाथ
१३ श्री बज्रस्वामी	श्री सहस्त्रभुज	श्री प्रशांत जिन
१४. श्री प्रबुद्धि जिन	श्री जिनसिंह	श्री निराहार
१५ श्री प्रबुद्ध जिन	श्री ऐरावत	श्री अमूर्तिजिन
१६ श्री अतीत जिन	श्री बाहुजिन	श्री द्विजनाथ
१७ श्री सुमुख जिन	श्री श्रीमाली	श्री नरनाथ
१८. श्री पत्न्योपम	श्री अजोग जिन	श्री श्रीप्रतिच्युत
१९. श्री अकाम जिन	श्री कामशत्रु	श्री नागेन्द्र
२० श्री निरतजिन	श्री आरम्भक	श्री तपोदिक
२१. श्री मृगनाभ	श्री नेमिनाथ	श्री दशानिका
२२. श्री पदस्तजिन	श्री गर्भज्ञान	श्री आरण्यक
२३. श्री देव देवेन्द्र	श्री एकाकार जिन	श्री ज्ञानगर्भ
२४. श्री शिवनाथ	श्री सुकेश	श्री सात्वक जिन

अचल मेरु के ऐरावत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१. श्री जिन सुरमेर	श्री साधित	श्री रविंदु
२. श्री वृत्तवृत्तारथ	श्री स्वामीजिन	श्री सौकुमाल
३. श्री कैटव	श्री स्तभितेंद्र	श्री पृथ्वीपत
४. श्री प्रशस्त जिन	श्री आनंद जिन	श्री कुलरत्न
५. श्री निर्दयांग	श्री प्रोफुल्यजिन	श्री श्रीघर
६. श्री कुलंकर	श्री मुंडिकाक	श्री सोमजिन
७. श्री वर्धमान	श्री प्रहतजिन	श्री वरुणजिन
८. श्री अमृतेन्द्र	श्री मदन सिंह	श्री अभिनंदन
९. श्री संख्यानंद	श्री दशद्रिंद्र	श्री सर्वनाथ
१०. श्री कल्पवृत्त	श्री चन्द्रपाश्व	श्री सुद्रिष्टी
११. श्री हरिनाथ	श्री अब्जबोध	श्री सृष्टिजिन
१२. श्री बाहुजिन	श्री वल्लभ	श्री सुधान्यक
१३. श्री भार्गव	श्री विभूतिजिन	श्री सोमचन्द्र
१४. श्री भद्रस्वामी	श्री सुवर्णजिन	श्री क्षेत्रनाथ
१५. श्री पविपातन	श्री कुसुम	श्री सुदंतक
१६. श्री विपोषित	श्री हरिबास	श्री जगतजिन
१७. श्री ब्रह्मचारी	श्री प्रियमित्र	श्री तपोरिपं
१८. श्री असाक्षिक	श्री सुघर्म	श्री निर्मल
१९. श्री चारित्रेस	श्री रत्नप्रिय	श्री वृत्तपारस
२०. श्री पारिणामिक	श्री नंदिनाथ	श्री बोधिलाभ
२१. श्री शास्वत	श्री अश्वानीक	श्री बाहुनंद
२२. श्री निधिनाथ	श्री पर्वनाथ	श्री दृष्टिस्वामी
२३. श्री कौशिक	श्री पाश्वनाथ	श्री कुकुंभाश्रय
२४. श्री सुघर्मेश	श्री चित्रहृदय	श्री बंछित

मंदर मेरु के भरत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१. श्री मदन जिन	श्री जगन्नाथ	श्री वसतध्वज
२ श्री सुमूरति	श्री प्रभासनाथ	श्री जयतजिन
३. श्री निराग जिन	श्री सूर्यस्वामी	श्री त्रिस्थभ
४ श्री प्रलम्बत	श्री भरतेष	श्री परमव्रह्म
५ श्री पृथ्वीपति	श्री दीर्घानन	श्री अवालिस जिन
६ श्री चारित्रनिधि	श्री विख्यातकीर्ति	श्री प्रवादिक
७ श्री अपराजित	श्री अवसानन	श्री भूमिआनद
८ श्री सुबोध जिन	श्री जिन प्रबोध	श्री त्रितीयनयन
९ श्री बैताल जिन	श्री तपोधन	श्री विद्वशजिन
१० श्री बुद्धेशनाथ	श्री पावकनाथ	श्री परमात्मप्रसग
११. श्री त्रिमुष्टिक	श्री त्रिपुरेश्वर	श्री भूमेन्द्र
१२ श्री मुनिबोधक	श्री सौगत जिन	श्री गोस्वामी
१३ श्री तीर्थस्वामी	श्री वासवनाथ	श्री कल्याण प्रपास
१४ श्री धर्माधीश	श्री मनोहर जिन	श्री सुमगल
१५ श्री धरणेश	श्री शुभकर्म	श्री महावासव
१६ श्री प्रभव जिन	श्री अमलेन्द्राय	श्री उदय दत्त
१७. श्री अनादि देव	श्री इष्टसेवित	श्री ज्योतिसेन्द्र
१८ श्री अनादिप्रभ	श्री धर्मवास	श्री प्रवोधित
१९ श्री सर्वतीर्थ	श्री प्रसादजिन	श्री प्रसमजिन
२० श्री निरुपम	श्री मृगाक	श्री अभयक
२१ श्री कामारिक	श्री अकलक	श्री प्रमत्त
२२ श्री विहारग्रह	श्री स्फाटिकप्रभ	श्री दास्फारिक
२३. श्री पृथ्वीनाथ	श्री गजेन्द्र	श्री व्रतस्वामी
२४ श्री विकास जिन	श्री ध्यान जिन	श्री निधिनाथ

मंदर मेरु के ऐरावत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१. श्री क्रतिन जिन	श्री संकर जिन	श्री जसोवर
२. श्री विशिष्ट जिन	श्री अक्षवास	श्री अभयघोष
३. श्री देवादस	श्री नग्नस्वामी	श्री सुवृत्त जिन
४. श्री उदिष्ट जिन	श्री नग्नाधिक	श्री निर्वाण
५. श्री अस्थानिक	श्री पाखण्डनष्ट	श्री वृत्तवास
६. श्री प्रमाचंद	श्री सुप्रबोव	श्री अतिराज
७. श्री बेनुजिन	श्री तपोनिधि	श्री अजितजिन
८. श्री त्रिभानु जिन	श्री पुष्पवेत्त	श्री बर्जन जिन
९. श्री बज्रांग जिन	श्री धर्मका जिन	श्री शरीरक
१०. श्री अविसेधन	श्री चंद्रवेत्तू	श्री तपस्चंद्र
११. श्री अपाय जिन	श्री मनुरक्तजोति	श्री महेश जिन
१२. श्री लोकोत्तर	श्री वीतराग	श्री सुग्रीव
१३. श्री जलधि जिन	श्री उद्योतन	श्री दृणप्रहार
१४. श्री विद्यापतन	श्री तमोपेक्ष	श्री अंबरीक
१५. श्री सुमेरु जिन	श्री मधुनाथ	श्री दयतात
१६. श्री भावित जिन	श्री मरु देव	श्री तुम्बराख्य
१७. श्री वत्सल जिन	श्री दमम जिन	श्री सर्वशील
१८. श्री जिनालय	श्री वृषभनाथ	श्री दयावृत्त
१९. श्री तौषारिक	श्री शिलातम	श्री जितेन्द्र
२०. श्री भवन स्वामी	श्री विश्वनाथ	श्री तपोदिस
२१. श्री सुकामुख	श्री महेन्द्र नाथ	श्री रत्नाकर
२२. श्री देव देवाधिक	श्री नंदि जिन	श्री देवेश
२३. श्री अकायका	श्री ब्रह्मदत्त	श्री लाक्षण
२४. श्री बिंबित जिन	श्री तमांतक	श्री प्रदेशाय

विद्युन्माली मेरु के भरत क्षेत्र संबंधी नामावली

	भूत काल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१	श्री पद्मचन्द्र	श्री सर्वागजिन	श्री प्रभावक जिन
२	श्री रत्नागद	श्री पद्माकर	श्री सुभाव जिन
३	श्री योगी जिन	श्री प्रभाकर	श्री विभाव जिन
४	श्री नग्नाधिप	श्री योगेश्वर	श्री दिनकर जिन
५	श्री नष्टपाखण्ड	श्री सूक्ष्माग	श्री अघतेजस
६	श्री सुप्रबोद्य	श्री बलनाथ	श्री धन दत्त
७	श्री गुणाधिक	श्री बलातीत	श्री सुपोरव
८	श्री पारित्रिक	श्री कलवक	श्री जिन दत्त
९	श्री ब्रह्मनाथ	श्री परिषाग	श्री सुपाश्वनाथ
१०	श्री मुनिन्द्र जग	श्री निषेधक	श्री सिधु जिन
११	श्री दीप्त काय	श्री पापहार	श्री अस्तिक जिन
१२	श्री राजऋषये	श्री मुक्तिचद्र	श्री भवानिक
१३	श्री विसाख	श्री अप्रासिक	श्री नृपनाथ
१४	श्री अनादित्य	श्री जयचन्द्र	श्री नारायण
१५	श्री रविस्वामी	श्री मालाधार	श्री प्रसमोकरस
१६	श्री सोम दत्त	श्री सजत जिन	श्री भूपतये
१७	श्री जय स्वामी	श्री मलयसिधु	श्री सुदृष्टि जिन
१८	श्री मोक्ष नाथ	श्री अक्षधराख्य	श्री भवभीरक
१९	श्री अग्रभान	श्री देवघर	श्री सुनदन
२०	श्री धनुषाग	श्री देवगन	श्री गर्मारि जिन
२१	श्री रोमाचित	श्री आगामिक	श्री सुवासव जिन
२२	श्री मुक्तिनाथ	श्री विनीत जिन	श्री परवासक
२३	श्री जिनेश जिन	श्री वीतराग	श्री वनवास
२४	श्री प्रसिद्धनाथ	श्री रतानद	श्री भारतेश

विद्युन्माली मेरु के ऐरावत क्षेत्र संबंधी नामावली

भूतकाल	वर्तमान काल	भविष्य काल
१. श्री उपशांत	श्री सुगागेय जिन	श्री अदोषिक
२. श्री फाल्गुन जिन	श्री नलवास	श्री वृषभ जिन
३. श्री पूर्वास जिन	श्री भीम जिन	श्री विनया नंद
४. श्री सौरिक जिन	श्री दयाधिक	श्री मुनिभारत
५. श्री त्रिविक्रम	श्री सुभद्रजिन	श्री इंद्रक जिन
६. श्री गौरिक जिन	श्री स्वामिजिन	श्री चन्द्रवेस्तु
७. श्री नरसिंह	श्री हनक जिन	श्री ध्वजादित्य
८. श्री मृगवास	श्री नंदिघोष	श्री बसुबोध
९. श्री सोमेश्वर	श्री रूपवीर्य	श्री मुक्तिगज
१०. श्री सुधाकर	श्री बज्र जिन	श्री धर्मबोध
११. श्री अपाप जिन	श्री सन्तोष जिन	श्री देवांग
१२. श्री बिबाध जिन	श्री सुधर्म जिन	श्री मारीच जिन
१३. श्री संधिक जिन	श्री फणीष	श्री जीवन जिन
१४. श्री माघात	श्री वीरचन्द्र	श्री जशोधर जिन
१५. श्री अश्वतेज	श्री स्वच्छ रुक्ष	श्री गौतम जिन
१६. श्री विद्याधर	श्री मेघानीक	श्री मुनिशुद्ध
१७. श्री सुलोचन	श्री कोपक्षय	श्री प्रबोधक
१८. श्री मौन देव	श्री अकाम जिन	श्री सदानिक
१९. श्री पुंडरीक	श्री सन्तोषित	श्री चारित्रनाथ
२०. श्री इन्द्रमणि	श्री सत्त्वसेन	श्री शतानंद
२१. श्री चित्रगण	श्री दयानाथ	श्री वेदार्थक
२२. श्री सर्वकाल	श्री क्षमांग	श्री सुधानीक
२३. श्री भूरीश्वर	श्री कीर्तिनाथ	श्री जोतिमूर्त्य
२४. श्री पुण्यांग	श्री शुभदेव	श्री निकलंक

बारह मास की तिथियो में तीर्थकरों के कल्याणक

मास	तिथि	तीर्थकर	कल्याणक
कार्तिक कृष्णा	१	अनतनाथ	गर्भ कल्याणक
	४	सभवनाथ	ज्ञान कल्याणक
	१३	पद्मप्रभ	जन्म, तप कल्याणक
	३०	महावीर	निर्वाण कल्याणक
कार्तिक शुक्ला	२	पुष्पदत्त	ज्ञानकल्याणक
	६	नेमिनाथ	गर्भ कल्याणक
	१२	अरनाथ	ज्ञानकल्याणक
	१५	सभवनाथ	जन्म कल्याणक
मार्गशीर्ष कृष्णा	१०	महावीर	तप कल्याणक
मार्गशीर्ष शुक्ला	१	पुष्पदत्त	जन्म, तप कल्याणक
	१०	अरनाथ	तप कल्याणक
	११	मल्लिनाथ	जन्म, तप कल्याणक
		नमिनार्थ	ज्ञान कल्याणक
	१४	अरनाथ	जन्म कल्याणक
	१५	सभवनाथ	तप कल्याणक
पौष कृष्णा	२	मल्लिनाथ	ज्ञान कल्याणक
	११	चन्द्रप्रभ	जन्म, तप कल्याणक
	१४	शीतलनाथ	ज्ञान कल्याणक
		पार्श्वनाथ	जन्म, तप कल्याणक
पौष शुक्ला	१०	शातिनाथ	ज्ञान कल्याणक
	११	अजितनाथ	ज्ञान कल्याणक
	१४	अभिनन्दननाथ	ज्ञान कल्याणक
	१५	धर्मनाथ	ज्ञान कल्याणक

मास	तिथि	तीर्थकर	कल्याणक
माघ कृष्णा	६	पद्मप्रभ	गर्भकल्याणक
	१२	शीतलनाथ	जन्म, तप कल्याणक
	१४	आदिनाथ	निर्वाण कल्याणक
	३०	श्रेयासनाथ	ज्ञान कल्याणक
माघ शुक्ला	२	वासुपूज्य	ज्ञान कल्याणक
	४	विमलनाथ	जन्म, तप कल्याणक
	६	विमलनाथ	ज्ञान कल्याणक
	९	अजितनाथ	तप कल्याणक
	१०	अजितनाथ	जन्म कल्याणक
		अभिनदननाथ	तप कल्याणक
	१२	अभिनदननाथ	जन्म कल्याणक
	१३	धर्मनाथ	जन्म, तप कल्याणक
फाल्गुन कृष्णा	४	पद्मप्रभ	निर्वाण कल्याणक
	६	सुपार्श्वनाथ	ज्ञान कल्याणक
	७	सुपार्श्वनाथ	निर्वाण कल्याणक
		चन्द्रप्रभ	ज्ञान, निर्वाण कल्याणक
	९	पुष्पदंत	गर्भ कल्याणक
	११	श्रेयासनाथ	जन्म, तप कल्याणक
		आदिनाथ	ज्ञान कल्याणक
	१२	मुनिसुव्रत	निर्वाण कल्याणक
	१४	वासुपूज्य	जन्म, तप कल्याणक
	फाल्गुन शुक्ला	३	अरनाथ
५		मल्लिनाथ	निर्वाणकल्याणक
८		संभवनाथ	गर्भ कल्याणक

मास	तिथि	तीर्थकर	कल्याणक
चैत्र कृष्णा	४	पार्श्वनाथ	ज्ञान कल्याणक
		अनतनाथ	निर्वाण कल्याणक
	५	चन्द्रप्रभ	गर्भ कल्याणक
	८	शीतलनाथ	गर्भ कल्याणक
	९	आदिनाथ	जन्म, तप कल्याणक
	३०	अनतनाथ	ज्ञान कल्याणक
		अरनाथ	निर्वाण कल्याणक
चैत्र शुक्ला	१	मल्लिनाथ	गर्भ कल्याणक
	३	बुधुनाथ	ज्ञान कल्याणक
	५	अजितनाथ	निर्वाण कल्याणक
	६	सभवनाथ	निर्वाण कल्याणक
	११	सुमतिनाथ	जन्म, ज्ञान, निर्वाण
	१३	महावीर	जन्म कल्याणक
	१५	पद्मप्रभ	ज्ञान कल्याणक
वैशाख कृष्णा	२	पार्श्वनाथ	गर्भ कल्याणक
	९	मुनिसुव्रतनाथ	ज्ञान कल्याणक
	१०	मुनिसुव्रत नाथ	जन्म, तप कल्याणक
	१३	धर्मनाथ	गर्भ कल्याणक
	१४	नमिनाथ	निर्वाण कल्याणक
वैशाख शुक्ला	१	बुधुनाथ	जन्म, तप, निर्वाण
	६	अभिनन्दननाथ	गर्भ, निर्वाण कल्याणक
	९	सुमतिनाथ	तप कल्याणक
	१०	महावीर	ज्ञान कल्याणक
ज्येष्ठ कृष्णा	६	श्रेयासनाथ	गर्भ कल्याणक
	१०	विमल नाथ	गर्भ कल्याणक
	१२	अनतनाथ	जन्म, तप कल्याणक
	१४	शान्तिनाथ	जन्म, तप, निर्वाण
	३०	अजितनाथ	गर्भ कल्याणक

मास	तिथि	तीर्थकर	कल्याणक
ज्येष्ठ शुक्ला	४	धर्मनाथ	निर्वाण कल्याणक
	१२	सुपार्श्वनाथ	जन्म, तप कल्याणक
आषाढ कृष्णा	२	आदिनाथ	गर्भ कल्याणक
	६	वासुपूज्य	गर्भ कल्याणक
	८	विमलनाथ	निर्वाण कल्याणक
	१०	नमिनाथ	जन्म, तप कल्याणक
आषाढ शुक्ला	६	महावीर	गर्भ कल्याणक
	७	नेमिनाथ	निर्वाण कल्याणक
श्रावण कृष्णा	२	मुनिसुव्रतनाथ	गर्भ कल्याणक
	१०	कुम्भुनाथ	गर्भ कल्याणक
श्रावण शुक्ला	२	सुमतिनाथ	गर्भ कल्याणक
	६	नेमिनाथ	जन्म, तप कल्याणक
	७	पार्श्वनाथ	निर्वाण कल्याणक
	१५	श्रेयांसनाथ	निर्वाण कल्याणक
भाद्रपद कृष्णा	७	शान्तिनाथ	गर्भ कल्याणक
भाद्रपद शुक्ला	६	सुपार्श्वनाथ	गर्भ कल्याणक
	८	पुष्पदत्त	निर्वाण कल्याणक
	१४	वासुपूज्य	निर्वाण कल्याणक
अश्विन कृष्णा	२	नमिनाथ	गर्भ कल्याणक
अश्विन शुक्ला	१	नेमिनाथ	ज्ञान कल्याणक
	८	शीतल नाथ	निर्वाण कल्याणक

जिस तिथि में जिन तीर्थकरो के कल्याणक हों उन तिथियों में मंदिर जी में विशेष पूजा-विधान एवं धार्मिक आयोजन करना चाहिए ।

चौबीस तीर्थकरों की राशि

प्रतिष्ठा कारक को मूर्ति बनवाते (लेते) समय अपनी राशि एवं तीर्थकरों के जन्मकाल के नक्षत्र के अनुसार उनकी राशि से ग्रह मंत्री का मिलान कर लेना चाहिये। साथ ही वर्गबल आदि का विचार करके जिस तीर्थकर से उचित मिलान हो उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराना चाहिए।

तीर्थकरों के जन्मनक्षत्रानुसार उनकी राशि निम्नानुसार है (यह राशि नाम के अनुसार नहीं है)

क्रमांक	राशि	तीर्थकर
१	मेष	शान्तिनाथ, मल्लिनाथ एवं नमिनाथ
२	वृष	अजितनाथ एवं कुशुनाथ
३	मिथुन	संभवनाथ एवं अभिनदननाथ
४	कर्क	धर्म नाथ
५	सिंह	सुमतिनाथ
६	कन्या	पद्मप्रभ, नेमिनाथ एवं महावीर
७	तुला	सुपार्श्वनाथ एवं पार्श्वनाथ
८	वृश्चिक	चन्द्रप्रभ
९	धनु	आदिनाथ, पुष्पदत्त एवं शीतलनाथ
१०	मकर	श्रेयासनाथ एवं मुनिसुव्रतनाथ
११	कुम्भ	वासुपूज्य
१२	मीन	विमलनाथ, अनन्तनाथ एवं अरनाथ

क्या करें यदि..... ?

- (१) मंदिर निर्माण
 - (२) वेदी निर्माण
 - (१) दीवार से संलग्न प्रतिमा अशुभ है ।
 - (२) वेदी प्रदक्षिणा क्यों ?
 - (३) निर्माण स्थल पर देवों की स्वीकृति की आवश्यकता ?
 - (४) मंदिर की छया का विधान ।
 - (५) गृह चैत्यालय एवं चैत्यालय में प्रतिमा की ऊंचाई ।
 - (६) प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर को क्षति होने पर ।
 - (७) मंदिर जी में जीर्णता (अव्यवस्था) हो जावे ।
 - (८) मंदिर जी में अशुद्धि होने पर ।
 - (९) प्रतिमा जी नीचे जमीन पर गिरने पर ।
 - (१०) प्रतिमा खण्डित होने पर ।
 - (११) खण्डित प्रतिमा त्याज्य क्यों ?
 - (१२) जीर्णोद्धार हेतु वेदी से मूर्ति उठाने का विधान ।
 - (१३) प्रतिमा मंजन करना हो ।
 - (१४) जीर्णोद्धार की हुई वेदी में बिम्ब स्थापना ।
 - (१५) शिखर पर कलशारोहण ध्वजारोहण का विधान ।
 - (१६) मंदिर जी में पूजा प्रक्षालन न होने पर ।
 - (१७) अभिषेक पूजा हेतु शुद्ध जल ।
 - (१८) शांति विधान की आवश्यकता ।
 - (१९) विमानोत्सव एवं रथोत्सव में प्रतिमा का विधान ।
 - (२०) सूतक होने पर ।
-

मंदिर निर्माण

धर्मसाधना एवं आत्मकल्याण केलिये देवशास्त्रगुरु का सान्निध्य आवश्यक है, मंदिर के नाव्यम ये इन तीनों का सान्निध्य प्राप्त होता है अतः मंदिर का होना अनिवार्य है।

जेनं चैत्यालयं चैत्यमुत्त निर्मापयन् शुभम्
वाञ्छन् स्वस्य नृपादेश्च वास्तुशास्त्रं न लंघयेत् ।^(१)

अपने एवं प्रजा के कल्याण केलिये जिनबिम्ब एवं मंदिर बनवाना चाहिये तथा निर्माण कार्य में वास्तुसार का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

मंदिर का निर्माण कैसे करना ?

काष्ठे मृदिष्टके चैव पाषाणे घातुरत्नजे,
उत्तरोत्तरदृढं द्रव्यं लोहकर्म विवर्जयेत् ।
उत्तमोत्तमधात्वादि पाषाणेष्टिककाष्ठकम्,
श्रेष्ठमध्याधमं द्रव्यं लौह चैवधमाधमम् ॥^(२)

काष्ठ, ईट, पत्थर, घातु और रत्न इन द्रव्यों से मंदिर बनवाया जावे तो उत्तरोत्तर मजबूत है, किन्तु लोह सर्वथा वर्जित है। रत्नघातु का मंदिर उत्तमोत्तम, पाषाण का उत्तम, ईट का मध्यम, लकड़ी का अधम एवं लौह का अधमाधम है अर्थात् मंदिर निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं करना चाहिये।

मंदिर निर्माण में अतिशय पुण्य का अर्जन होता है

कोटिवर्षोपवासश्च तपो वै जन्मजन्मनि,
कोटिदानं कोटिदाने प्रासादफलकारणे ॥^(३)

एक नवीन मंदिर बनवाने में इतना फल मिलता है जितना कि करोड़ों वर्ष उपवास करने का, कई जन्मों तक तप करने का और करोड़ों दानों में करोड़ दान का फल मिलता है।

कोटिघ्नं तृणजे पुण्यं मृन्मये दशसंगुणम् ।
ऐष्टकेशतकोटिघ्नं शैलेऽनन्तं फलं स्मृतम् ॥^(४)

घास का देवालय बनवाने में करोड़गुना, मिट्टी का दस करोड़ गुना ईट का सौ करोड़ गुना और पाषाण का अनंत गुना फल देता है।

(१) पं. आ. थ. प्र. सा पृष्ठ २ श्लोक १७ (२) शि. स्मृ. वा वि. अ. ६ श्लोक ११६-११७ (३) शि. र., अ. १३ श्लोक ८५ (४) प्रा. म. अ. १ श्लोक ३५

मंदिर समवसरण का रूप होता है, इसका माप अकृत्रिम चैत्यालयों के अनुसार चौड़ाई से दो गुनी लम्बाई एवं लम्बाई+चौड़ाई से आधी ऊंचाई होनी चाहिये ।

वास्तु शास्त्रानुसार ही मंदिर का निर्माण करना चाहिये अन्यथा समाज एवं परिवार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

अतिदीर्घे कुलच्छेदो ह्रस्वेव्याधिर्विनिर्दिशेत्,
तस्माच्छास्त्रोक्त मानेन सुखदं सर्व कामदम ।^(१)

मंदिर का शिखर मंदिर के मान (प्रमाण से अधिक ऊंचा या लम्बा हो तो कुल की हानि और प्रमाण से छोटा हो तो रोग उत्पन्न करने वाला है)

मंदिर का प्रमुखद्वार पूर्व एवं उत्तर दिशा में ही होना शुभ है, छोटाद्वार दक्षिण दिशा में भी बना सकते हैं ।

पूर्वोत्तरं दक्षिण मरय कार्य द्वारं तथा पूर्वदिशासु नृत्य,
गीतालयं चोत्तरममर्शशास्त्रसद्वाचना गेहमतः प्रशस्तं ।^(२)

इस प्रकार मंदिर के निर्माण कार्य में अनुभवशील शिल्पी एवं आचार्य तथा विद्वान का परामर्श लेना चाहिये।

समाज को चाहिये कि जिन स्थानों पर समाज के अभाव में शिखर बंद बड़े मंदिरों में प्रक्षाल पूजा की व्यवस्था संभव नहीं है वहां की व्यवस्था करे अन्यथा वहां के समवसरण को सुरक्षित स्थानों पर स्थापित करें जिससे जिनबिम्बों की अविनय एवं चोरी आदि से बचाव हो सके । नवीन मंदिरों में भी ऐसे ही स्थानों की प्रतिमाओं को विराजमान करना चाहिये, साथ ही प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने वाले भाइयों को पूजा प्रक्षाल का संकल्प अवश्य लेना चाहिये । पुराने मंदिरों, प्रतिमाओं की सुरक्षा (जीर्णोद्धार) में नवीन मंदिर बनवाने से आठगुना अधिक पुण्यार्जन होता है ।

वापी कूप तडागानि प्रासाद भवनानि च
जीर्णान्युद्धारयेद्यस्तु पुण्यमष्ट गुणं लभेत् ।^(३)

जिन मंदिर प्रतिमा आदि का जीर्णोद्धार कराने से नवीन निर्माण की अपेक्षा आठ गुना फल मिलता है ।

(१) प्रा म, पृष्ठ १४९ (२) आ ज. से, प्र. पा श्लोक १३५ (३) शि. ट., अ. १३ श्लोक १०५

(२) वेदी निर्माण

गर्भगृह के छ भागकर दीवार के पास का एक भाग छोड़कर पाचवे भाग अथवा गर्भगृह के आठ भागकर पीछे का एक भाग छोड़कर सातवे भाग में जिनेन्द्र देव को स्थापित करना चाहिये ।^(१)

किन्ही आचार्यों के मतानुसार गर्भगृह के चार भाग करे जिसमें दीवार से प्रथम भाग राक्षस, द्वितीय भाग ब्रह्म, तृतीय भाग देव एव चतुर्थ भाग मनुष्य का है । दो भाग छोड़कर देव के स्थान में बिम्ब स्थापित करना चाहिये ।^(२)

इस प्रकार गर्भगृह में स्थानानुसार परिक्रमा का स्थान छोड़कर जिनबिम्ब की स्थापना करना आगमानुकूल है ।

आचार्य उमास्वामी ने गृह चैत्यालय एव वेदी की ऊँचाई का विधान इस प्रकार दिया है । गृहे प्रविशतावामभागे शल्यविवर्जिते, देवतावसरं कुर्यात्सार्द्धं - हस्तोर्द्धभूमिके । नीचैर्भूमिस्थितं कुर्याद्वेतावसरं यदि, नीचैर्नीचैस्ततोवश्य सतत्यापि सम भवेत् ॥^(३)

गृह में प्रवेश करते समय बायें भाग में चैत्यालय बनवाना चाहिये यह स्थान शल्य रहित हो चैत्यालय में वेदी की ऊँचाई डेढ़ हाथ होना चाहिये, यदि इससे कम होगी तो बनवाने वाला अपनी सतति के साथ नीचता को प्राप्त होगा ।

आचार्य जयसेन स्वामी ने तीन कटनी की वेदी का विधान किया है ।

गर्भालये स्थापनमीश्वराणां वेदीत्रिमूर्ध्वविशालमध्या ।^(४)

गर्भगृह में डेढ़ हाथ चतुबरे पर जिनबिम्ब स्थापित करने के लिये वेदी की तीन ऊर्ध्व, मध्य एव अधोरूप कटनी करे ।

इस प्रकार जिनबिम्ब के आसन की ऊँचाई नाभि से नीचे नहीं रहना चाहिये ।

नैकहस्तादितोऽन्यूने प्रासादे स्थिरता नयेत्,
स्थिरं न स्थापयेद् गेहे गृहीणां दुःखकृद्दियत् ।^(५)

एक हाथ से छोटी (नीची वेदी) में स्थिरप्रतिमा स्थापित नहीं करना चाहिये तथा गृह मंदिर में स्थिर प्रतिमा विराजमान करना दुःखकारी है

वेदी बनाने के चार प्रकार आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठापाठ में बताये हैं । वेदीचतुर्विधा तत्र चतुरस्रा च पद्मिनी, श्रीधरी सर्वतोमद्रा दीक्षासु स्थापनादिषु । चतुरस्रा चतुःकोणा वेदी सौख्यफलप्रदा, केचिच्चैत्यप्रतिष्ठायां पद्मिनी पद्मसंनिभा ।^(६)

(१) प्रासाद मण्डन, पृष्ठ ७४-७५ (२) ठ फे, वा सा प्र पृष्ठ १३३ गाथा ४५

(३) आ उ स्वा, श्रा श्लोक ९८, ९९ (४) आ ज से, प्र पा श्लोक २२२

(५) शि. स्मृ. वा. वि अ ६ श्लोक १३० (६) आ ज से प्र पा. श्लोक २२८, २२९

(१) चौकोर वेदी (२) कमलाकार (पद्मनी) (३) अर्धचन्द्राकार (श्रीधरी) (४) आठखुंटकी सर्वतोभद्र यह चार प्रकार है। जिनमें प्रथम सुख देने वाली है इसका उपयोग बिम्ब प्रतिष्ठा में, द्वितीय वेदी का उपयोग ज्ञानकल्याणक में, तृतीय वेदी जन्मकल्याणक में एवं चतुर्थ का उपयोग तपकल्याणक में होता है इसलिये मंदिरों में अधिकांश चौकोर तथा पद्मनी वेदी पर बिम्ब स्थापित किये जाते हैं।

(१) दीवार से संलग्न प्रतिमा अशुभ है -

भित्तिसंलग्न-बिम्बश्च पुरुषः सर्वथाऽशुभः,
चित्रमयाश्च नागाद्या भित्तौ चैव शुभावहा । (१)

दीवार से स्पर्शकर स्थापित की हुई प्रतिमा और अन्य महापुरुष की मूर्ति सर्वथा अशुभ है, चित्राम के देवता दीवार पर हो सकते हैं।

दीवार स्थित अलमारी या आले में प्रतिमा स्थापित करना शुभ नहीं है इसी प्रकार दो स्तंभों के पाटे के नीचे या गार्डर, बीम आदि के नीचे भी जिनबिम्ब स्थापित नहीं करना चाहिये।

सूचिमुखं भवेच्छिद्रं पृष्ठे यदा करोति च ।
प्रासादे न भवेत्पूजा गृहे क्रीडन्ति राक्षसाः । (२)

देवालय की पीछे की दीवार में यदि सुई की नौक के बराबर भी छिद्र रखा जावे तो देवालय में पूजा भी नहीं होगी और राक्षसों का निवास रहेगा। अर्थात् वेदी के पीछे कोई अलमारी, रोशनदान आदि नहीं बनाना चाहिये।

(२) वेदी की प्रदक्षिणा क्यों ?

प्रदक्षिणात्रयं कार्यं मेरुप्रदक्षिणायतम् ।
फलं स्याच्छैलराज्यस्य मेरोः प्रदक्षिणाकृत्ते । (३)

सुमेरुपर्वत की तीन प्रदक्षिणा करने में जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल पाषाण के मेरुप्रासाद की तीन प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है।

यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण - पदे - पदे । (४)

जन्म-जन्मान्तरो में जो जो पाप किये हैं वे मंदिर एवं वेदी की प्रदक्षिणा देने से नष्ट हो जाते हैं।

-

(१) शि. र. अ. १२ श्लोक २०५ एवं फे वा. सा. गाथा १३३ (२) शि. र. अ. ५ श्लोक १५४

(३) प्रा. म., अ. ५ श्लोक ३५ (४) शि. र. अ. १३ श्लोक ३०

(३) निर्माण स्थल पर देवों की स्वीकृति की आवश्यकता ?

अहोधरायामिह ये सुराश्च क्षमंतु यज्ञाधिकृतिं ददंतु ।
प्रीतिःपुराणा बहुवासयोगात् क्षितावतोऽस्मद्विनिवेदनं वः ॥ (१)

जिस स्थान पर निर्माण कार्य या आयोजन जैसे मंदिर निर्माण, गृह, कूप, तालाब, अथवा यज्ञ भूमि आदि कार्य करना हो, उस स्थान के स्वामी (भूमिस्थ) देवों के प्रति क्षमापन करे, आदरपूर्वक निवेदन करे कि हे क्षेत्र रक्षक देव । आप इस क्षेत्र में बहुत समय से निवास कर रहे हैं, अतः इस क्षेत्र के प्रति आपका अत्यंत स्नेह है, हम आपके क्षेत्र में (कार्य का नाम) कार्य करना चाहते हैं आप अपनी सहमति प्रदान करें और परिवार सहित हमारा सहयोग करें । तदन्तर विधि पूर्वक - पूजनादि करके भूमि शुद्धि करें ।

प्रतिष्ठा पाठ में जयसेनाचार्य ने उस क्षेत्र में निवास करने वाले देव, तिर्यंच एव मनुष्यो के प्रति क्षमापन का भाव करने को लिखा है ।

तत्स्थानवासान्निखिलान्सुरादीन् संतोष्य पंवेशसुमण्डलेन ।
पूजां विधायेतरदीनजन्तून् सन्मानयेत्करिणिको महात्मा ॥ (२)

उस क्षेत्र में निवास करने वाले देवों को सम्मान पूर्वक सतुष्ट करके आज्ञा प्राप्त करें और पंचपरमेष्ठी की पूजा करें तथा दीन दुखी प्राणियों को करुणापूर्वक यथा योग्य संतुष्ट करें ।

शंका (३)

जयसेन जैसे महान आचार्य ने क्षेत्र के स्वामी व्यन्तर देवों से क्षमापन कराने और उन्हें सतुष्ट करने का विधान क्यों कहा है ?

समाधान-

पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं जो जीव जहां रहते हैं, वहां उनको प्रीति उत्पन्न हो जाती है । यथा -

यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुर्वते रतिम् ।
यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥ (४)

(१) आ. ज. से., प्र. पा. पृ. ५२ श्लोक २१५ (२) वही पृ. ३२ श्लोक ३२
(३) आ. वि. वा. वि. पृ. २३ (४) पू. पा. इ. पृ. ४६ श्लोक ४३

यह एक स्वाभाविक बात है कि प्राणी जिस स्थान पर रहता है, उसको उस स्थान से प्रेम हो जाता है। जो जिस स्थान पर रम जाता है, वह उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहता है।

जब जीवों को अपने निवास स्थान से प्रीति हो जाती है और वे उसे छोड़कर सहज ही अन्यत्र नहीं जाना चाहते तब यदि उनसे बिना पूछे या उन्हें बिना सतुष्ट किये उनके स्थान पर व्यवधान किया जावेगा तो उनके मन में कषायोत्पत्ति की सभावना रहती है, अतः कार्यारम्भ के पूर्व उन्हें सतुष्ट करना आवश्यक है।

शंका (१)

जहाँ पर हम निर्माण कार्य कराना चाहते हैं वहाँ देवों का निवास हो ही वह कैसे संभव है ?

समाधान-

मध्यलोक में सुई की नौक बराबर भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ व्यन्तरदेवों का निवास/गमन न हो।

श्री यतिवृषभाचार्य जी तिलोयपण्णत्ति के छठे अधिकार में व्यन्तर देवों के निवास क्षेत्र का प्रमाण बताते हुये कहते हैं कि -

**रज्जुकदी गुणिदत्त्वा णवणउदि-सहरस्स-अहिय-लक्खेणं ।
तम्मज्झेतिवियप्पा वेंतरदेवाण होंति पुरा ॥^(२)**

राजू के वर्ग को एक लाख निन्यानवे हजार (१९९०००) योजन से गुणा करने पर जो प्राप्त हो उसके मध्य में व्यन्तर देवों के तीन प्रकार के पुर होते हैं।

विशेषार्थ - रत्नप्रभानामक प्रथम पृथ्वी १,८०,००० योजन मोटी है। इसके तीन भाग हैं। अब्बहुल नामक अंतिम भाग ८०,००० योजन मोटा है जिसमें नारकियों का वास है। अवशेष (१,८०,०००-८०,०००) १,००,००० योजन रहा। सुमेरु पर्वत एक लाख योजन ऊँचा है, जिसमें से १,००० योजन उसकी नीव उपर्युक्त एक लाख योजन में गर्भित है इस चित्रा पृथ्वी के ऊपर सुमेरु की ऊँचाई ९९ हजार योजन है इस प्रकार पक भाग से प्रारम्भ कर सुमेरु पर्वत की पूर्ण ऊँचाई पर्यत का क्षेत्र - $(१,००,००० + ९९०००) = १९९०००$ योजन होता है और मध्यलोक एक राजू लम्बा और एक राजू चौड़ा है, अतः घनफल = राजू × राजू × १९९००० योजन है। यही व्यन्तर देवों का निवास क्षेत्र है। इसी आगम प्रमाण से ज्ञात होता है कि मध्यलोक का सुई की नौक बराबर भी क्षेत्र व्यन्तर देवों से रहित नहीं है।

(१) आ. वि. वा. वि. प. पृ० २४-२५ (२) श्री आ. य. ति. प. अ. ६ गा. ५

(४) मंदिर की छाया का विधान

पढमंत जाम वज्जिय धयाईदुति पहर संमवाछया ।
दुहहेऊ णायवा तओ पयत्तेण वज्जिज्जा ।^(१)

पहले और अतिम प्रहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे प्रहर में मंदिर के शिखर, ध्वजादि की छाया गृहस्थ निवास पर आती हो तो दुखकारक जानना अर्थात् द्वितीय एवं तृतीय प्रहर में जहाँ पर शिखर एवं ध्वजा की छाया पड़ती हो वहाँ गृहस्थ को मकान नहीं बनाना चाहिये ।

दुःखं देवकुलासन्ने गृहे हानिश्चतुष्पथे ।
धूर्तमत्यगृहाम्याशे स्यातां सुतघनक्षयौ ॥ ^(२)

यदि गृहस्थ का गृह मंदिर के पास होवे तो दुख कारक है, चौराहे पर हो तो हानिकारक एवं धूर्त और मंत्री के गृह के पास होवे तो पुत्र और धन का विनाश होता है ।

यामयोर्वेश्मनि छायां वृक्षप्रासादजां त्यजेत् ।
सौम्यादितः शुभाः प्लक्षवटोद्गुम्बरपिप्पलाः ॥^(३)

दिन के दूसरे और तीसरे प्रहर में किसी मंदिर के शिखर अथवा ध्वजा की छाया और किसी भी वृक्ष की छाया गृहस्थ के घर पर पड़ती हो तो वह महाअशुभ है, उस घर में निवास नहीं करना चाहिये ।

गृह की पूर्व दिशा में बड़, दक्षिण दिशा में ऊमर पश्चिम दिशा में पीपल और उत्तर दिशा में भी पीपल का वृक्ष अशुभ नहीं होता पर इनकी छाया दूसरे और तीसरे प्रहर में गृह निवास पर नहीं पड़नी चाहिये ।

(१) ठ फे. वा. सा. ग्र. प्र. पृष्ठ ७६

(२) वही, वि. पृष्ठ ८०, एव कु. कु. श्रा. स. पृष्ठ ८२ श्लोक १०२ (३) शि. र. अ. ५ श्लोक २०६

(५) गृह चैत्यालय एवं चैत्यालय में प्रतिमा की ऊंचाई

एकादशांगुल बिम्बं सर्वकामार्थसाधनम् ।
एतत्प्रमाणमाख्यातमतऊर्ध्वं न कारयेत् ॥ (१)

गृह चैत्यालय में ग्यारह अंगुल तक ऊंची (९इंच से कम) प्रतिमा ही विराजमान करना चाहिये। इससे अधिक ऊंची प्रतिमा श्रावक को पीडाकारक होती है।

नैकहस्तादितोऽन्यूने प्रासादे स्थिरता नयेत् ।
स्थिरं न स्थापयेद् गेहे गृहीणां दुःख-कृद्ध्यत् ॥ (२)

एक हाथ से छोटी वेदी में स्थिर प्रतिमा या अचल प्रतिमा (मूलनायक) स्थापित नहीं करनी चाहिये। तथा गृह मंदिर में स्थिर प्रतिमा विराजमान करना दुख का कारण होती है ।

तदूर्ध्वं नव-हस्तान्तं पूजनीया सुरालये ।
दशहस्तादितोयाऽर्चा प्रसादेन विनाऽर्चयेत् ॥ (३)

ग्यारह अंगुल से नौ हाथ पर्यंत (लगभग १३फुट) ऊंची प्रतिमा मंदिर जी में पूज्य है और इससे अधिक ऊंची अर्थात् दशहाथ से अधिक ऊंचाई वाली प्रतिमा मंदिर जी के बिना भी पूज्य है ।

(६) प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर जी को क्षति होने पर

प्राकृतिक आपदा बाढ, भूकम्प, अग्नि एवं बिजली से यदि मंदिर जी को क्षति पहुँचती है तो वृहद् शांति मंत्र का सवालाख जाप करके शांति विधान करें तत्पश्चात् शांतिहवन शांति भक्ति करके जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ करें। समाज के सभी श्रावकों को एकाशन, रस त्याग आदि नियम लेकर णमोकार महामंत्र की संकल्प पूर्वक शक्ति अनुसार जीर्णोद्धार होने तक जाप करना चाहिये ।

(१) ठ . फे., वा. सा. पृष्ठ ८२ एवं आ. उ. स्वा.श्रा. श्लोक १००

(२) शि. स्मृ. वा. वि., अ. ६ श्लोक १३० (३) शि. र. अ. ११ श्लोक ११

(७) मंदिर जी में जीर्णता (अव्यवस्था) हो जावे

मण्डलं जालकञ्चैव कीलकं सुषिरं तथा ।
छिद्रं संधिश्च काराश्च महादोषा इति स्मृताः ॥^(१)

मंदिर जी का शिखर, दीवार, छत एव फर्श आदि में क्षरण होने लगे, चूना/ सीमेन्ट गिरने लगे गड्ढे हो जावे। जाले आदि लग गये हो, (त्रस जीवो का आवास होने लगे) कूड़ा इकट्ठा होने लगे, दीवारों में छिद्र हो जावे, दरार पड़ जावे, शिखर तथा छत पर कोई या वनस्पति होने लगे अर्थात् जीर्णाद्धार तथा सफेदी न कराई जावे तो समाज को पीडाकारक है।

(८) मंदिर जी में अशुद्धि होने पर

दूषितेऽस्थ्यादिभिर्देव-धाम्न्यस्पृश्य-जनैरपि,
संशोष्य सकलं धाम-धुत्वा धूम्रध्वजांकुरैः ।
सिक्त्वा च सुधया देवं तैरेव स्नापयेद् घटैः ॥^(२)

यदि मंदिर जी में हड्डी - मांस - चर्बी आदि गिर जावे, शूकर आदि जानवर प्रवेश कर जावे, चाण्डालादि अस्पृश्य मनुष्य का प्रवेश हो जावे, बच्चे मल मूत्रादि कर देवे या महिलाये असमय में मंदिर जी में ही अशुद्धि से हो जावे तो अशुद्ध पदार्थों को दूर करके पूरा मंदिर धुलवाकर सफेदी कराना चाहिये। तत्पश्चात् विधिपूर्वक अभिषेक शान्तिधारा विधान जप एव हवन आदि अनुष्ठान पूर्वक शुद्धि करके ध्वजारोहण कराना चाहिये।

(९) प्रतिमा जी नीचे जमीन पर गिरने पर

पतिते जिनबिम्बेऽष्टशतेन स्नापयेद् घटैः ।
अष्टोत्तरशतं कुर्यान् मूलमंत्रेण चाह्वतीः ॥^(३)

अभिषेक, प्रक्षाल, पूजन करते समय, विमानोत्सव आदि में प्रतिमा जी ले जाते समय या अन्य कारण से प्रतिमा जी नीचे गिर पडे (खण्डित न हुई हो) तो उस प्रतिमा का १०८ कलशों से अभिषेक, शान्तिधारा, पूजन करके णमोकार मूलमंत्र णमोकार का १०८ बार जप करके १०८ आहूति देकर हवन करे तथा प्रतिमा जी को यथास्थान विराजमान करके प्रायश्चित अवश्य लेवे।

(१) शि र, अ ५ श्लोक १३२ एव प्रा म, अ ८ श्लोक १६

(२) जि स, अ ८ श्लोक २८ (३) जि स, अ ८ श्लोक २४

(१०) प्रतिमा खण्डित होने पर

स्नापयेदंगभंगेषु सहस्रेण जिनेश्वरम्,
होमं वा पातवत् कुर्याद् भग्नं चांग सुसेवयेत् ।
ततो जलाधिवासादिप्रतिष्ठापन- नाचरेत् ॥^(१)

अभिषेक, प्रक्षाल, पूजन करते समय प्रतिमा जी हाथ से गिरने या अन्य कारण से यदि अंग, उपांग और प्रत्यग खण्डित हो जावे तो उन्ही भगवान की अन्य प्रतिमा का १००८ कलशों से अभिषेक, शान्तिधारा, पूजन, शान्तिविधान एवं शांति मंत्राराधन एवं हवन करना चाहिये तथा खण्डित प्रतिमा को विधि पूर्वक अगाध जल राशि में विसर्जित करें तथा गुरु से प्रायश्चित्त लें ।

स्थापिता चैव या मूर्तिर्व्यगिता चेद्विसर्जयेत् ।
तन्मूर्तिः प्रकर्तव्या नान्यमूर्तितं प्रवेशयेत् ॥ (२)

मंदिर जी में स्थापित प्रतिमा जी खण्डित होते ही तत्काल जल में विसर्जन करके एकासन उपवास एवं रस परित्याग का प्रायश्चित्त करते हुये शुभ मुहूर्त में उन्हीं तीर्थकर की नवीन प्रतिमा प्रतिष्ठित कराके स्थापित करना चाहिये। अन्य तीर्थकर की नहीं ।

(११) खण्डित प्रतिमा त्याज्य क्यों ?

या खण्डिताश्च दग्धाश्च विशीर्णा स्फुरतितास्तथा ।
न तासामन्य-संस्कारो गताश्च तत्र देवता ॥^(३)

खण्डित, जली हुई, तड़की हुई तथा फटी हुई प्रतिमा पर मंत्र संस्कार नहीं रहते वह अप्रतिष्ठित हो जाती है और उसमें देवपना भी नहीं रहता अर्थात् वह पूजनीय नहीं है तथापि -

जीर्ण चातिशयोपेतं तद् व्यङ्गमपि पूजयेत् ।
शिरोहीनं न पूज्यं स्यान् निक्षेप्यं तन्नदादिषु ॥ (४)

जो प्रतिमा प्राचीन हो, अतिशय से संपन्न हो, उसकी अंगुली का अग्रभाग, कान या नाक का भाग अर्थात् उपांग खण्डित हो जाने पर भी पूज्य है किन्तु मस्तक आदि से खण्डित प्रतिमा सर्वथा अपूज्य है, उसे मंदिर में नहीं रखकर अगाध जलराशि में विधि पूर्वक विसर्जित करना चाहिये ।

(१) जि. सं. अ. ८ (२) शि. स्मृ. वा. वि. अ. ६ श्लोक १५१

(३) शि. स्म. वा. वि., अ ६ श्लोक १५८ (४) न. से., प्र. दी. एवं आ. उ. श्रा. श्लोक १११

(१२) जीर्णोद्धार हेतु वेदी से मूर्ति उठाने का विधान

प्रासाद-प्रतिमोत्थापश्चर-लग्ने शुभे दिने ।
लञ्चेन चालयेद्देवं सर्वदोष-विवर्जिते ॥^(१)

मंदिर जी मे विराजमान प्रतिमा शुभ दिन एव शुभलग्न मे विधि विधान पूर्वक उठाना चाहिये। पहले मूलनायक एव अन्य प्रतिमाओ को क्रमश विनय पूर्वक उठाना चाहिये ।

जिस वेदी का जीर्णोद्धार करना हो उसके सम्मुख समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हाथो मे श्री फल लेकर भक्ति एव श्रद्धा पूर्वक सकल्प करे तथा जिनालय मे शासनरक्षक देवो का सहयोग शुभकार्य मे प्राप्त करे । सकल्प निम्नानुसार करे ।

'हम सकल जैन समाज (शहर का नाम) के श्रावक जिनालय मे स्थित रक्षक देवो से अनुरोध करते है कि भगवान . (मूलनायक का नाम) की वेदी का जीर्णोद्धार करने मे सहयोग प्रदान करे । वेदी मे विराजमान भगवान के समक्ष हम सभी सकल्प करते है कि इस वेदी मे विराजमान सभी प्रतिमाओ को (स्थान का नाम) पर विराजमान कर जिस प्रकार यहा पूजा प्रक्षाल करते थे उसी प्रकार उस स्थान पर भी पूजा प्रक्षाल करेगे । तथा . (समय की मर्यादा) दिनों मे वेदी का जीर्णोद्धार करके सभी प्रतिमाओ को विधिविधान पूर्वक वेदी प्रतिष्ठा कराके पुन. स्थापित करेगे । इतने समय तक हम एकासन एव (रस का नाम) रस का त्याग (यह सकल्प शक्ति पूर्वक ले) करेगे' । अज्ञानता वश जाने अनजाने मे होने वाली गलतियो के लिये क्षमायाचना करते हुए यह सकल्प करके वेदी पर श्रीफल चढाकर भगवान को नमस्कार करे ।

कार्य आरभ करने के पूर्व अन्य स्थान जहा प्रतिमा जी विराजमान करना हो उस स्थान की शुद्धि, टेविल, चदोबा, छत्र आदि की समुचित व्यवस्था करे । तत्पश्चात् वृहद् शातिमंत्र की कम से कम ग्यारह हजार जाप करके प्रतिमाभिषेक (प्रक्षाल) शातिधारा एव शातिविधान करे । वेदी से प्रतिमा उठाने के पूर्व एक दीपक एव मंगल कलश स्थापित करे । वेदी पूर्णत खाली नही करना चाहिये । सिद्ध भक्ति पढ़कर प्रतिमा जी उठाकर अन्य स्थान पर विराजमान करे, फिर शातिहवन एव शातिभक्ति पढ़कर कार्य का समापन करे ।

अन्य स्थान पर प्रतिमा जी इस प्रकार विराजमान करे कि प्रत्येक प्रतिमा का दर्शन पूजन हो सके तथा उनकी अवमानना न हो इसका विशेष ध्यान रखे। कार्य मे किसी प्रकार की जल्दबाजी एव असावधानी न करे ।

विधि विधान (मंत्राराधन, विधान एवं हवन) किये बिना वेदी से प्रतिष्ठित प्रतिमा जी उठाकर प्राचीन वेदी को खाली नहीं करना चाहिये। क्योंकि जब नवीन मंदिर या वेदी का निर्माण कराकर वेदी प्रतिष्ठा करते हैं तब जिन बिम्ब स्थापन के समय उस स्थान पर रहने वाले देव जिनेन्द्र भक्ति के भाव से उस क्षेत्र की रक्षा करने लगते हैं जो प्रतिमा की अविनय या आगमोक्त कार्य न होने पर विघ्न भी उपस्थित कर सकते हैं।

(१३) प्रतिमा मंजन करना हो

वर्ष में एक बार मंदिर की सफाई, जीर्णोद्धार एवं वर्ष में दो बार प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का मंजन करना चाहिये। मंजन हेतु वेदी से प्रतिमा उठाते समय पूर्ण विधि विधान करना अनिवार्य है, साथ ही ध्यान रखें अचल प्रतिमा (मूलनायक प्रतिमा) को वेदी से मंजन हेतु न उठावे। उसका मंजन उसी स्थान पर करें।

मंजन हेतु अशुद्ध पदार्थों/साधनों का प्रयोग नहीं करें। रीठा के जल एवं पिंसी हुई लवंग के लेप से प्रतिमा का मंजन करें। धातु की प्रतिमा पर नींबू, इमली आदि खट्टे पदार्थों से प्रतिमा पर दाग आने की संभावना रहती है।

(१४) जीर्णोद्धार की हुई वेदी में बिम्ब स्थापना

भूतप्रेतपिशाचादि - राक्षसाश्च वसन्तिकैः ।

तरमात् प्रासादनिष्पन्ने सर्वथा प्रेक्षणं चरेत् ॥^(१)

वेदी का जीर्णोद्धार होने के पश्चात् या नवीन मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वेदी को अधिक समय तक खाली न रखें क्योंकि खाली वेदी में भूत, प्रेत, पिशाच तथा राक्षस आदि देव निवास कर लेते हैं। अतः शीघ्र विधि विधान पूर्वक वेदी प्रतिष्ठा कराकर बिम्ब स्थापन करना चाहिये अर्थात् मंदिर बिना मूर्ति का नहीं रखना चाहिये।

(१) शि. स्मृ. वा. वि., आ. ६ श्लोक १२४

(१५) शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण का विधान

पाहण कट्टिट्टमओ जारिसु पासाउ तारिसो कलसो ।

जह सति पइट्टपच्छ कणयमओ रयण जडिओ अ ॥ (१)

यदि मंदिर पत्थर का बना हो तो कलश पत्थर का करना, लकड़ी का प्रासाद हो तो लकड़ी का कलश करना और यदि ईंट का मंदिर बना हो तो कलश ईंट का करना चाहिये। परन्तु अपनी शक्ति के अनुसार सोने का अथवा रत्न जडित कलश भी करवा सकते हैं।

मंदिर की ऊंचाई के अनुसार कलश एवं ध्वजा लगाना चाहिये। कलश की लम्बाई २१, १५, ११, ९, ७, ५, ३, १ फुट की हो सकती है। कलश में नग १, ३, ५, ७ होना चाहिये।

दण्डः कार्यस्तृतीययांशे शिलातः कलशान्तकम् ।

मध्योऽष्टांशेन हीनोऽसौ ज्येष्ठपादोनः कन्यसः ॥ (२)

खुर शिला से कलश तक ऊंचाई के तीन भाग करना, उनमें से एक (तीसरा भाग) जितना लम्बा ध्वजा दण्ड बनाना, यह ज्येष्ठ मान ध्वजादण्ड है ज्येष्ठमान ध्वजादण्ड में से आठवा भाग कम करे तो मध्यम मान और मध्यम मान का पाचवा भाग घटा देने से कनिष्ठ मान का ध्वजदण्ड होता है।

ध्वजा का वस्त्र दण्ड की लम्बाई जितना लम्बा और दण्ड के आठवे भाग जितना चौड़ा अनेक वर्ण के वस्त्र से सुशोभित कर बनाना चाहिये। (३)

यदि कलश के साथ ताम्रपत्र या पीतल की ध्वजा लगाना हो तो कलश के अनुसार ३ या ५ फुट की ध्वजा या जैसी ऊंचाई हो उसके अनुसार ध्वजा लगाना चाहिये परन्तु ध्वजा की लम्बाई चौड़ाई से दो गुनी होना चाहिये।

मंदिर पर धातु और कपड़ा दोनों प्रकार की ध्वजाये लगवाई जा सकती है।

निश्चिन्हं शिखरं दृष्ट्वा ध्वजाहीनं सुरालयम् ।

असुरावासमिच्छन्ति ध्वजाहीनं न कारयेत् ॥ (४)

मंदिर के शिखर का चिन्ह ध्वजा है। ध्वजारहित मंदिर देखकर असुरदेव वहां वास कर लेते हैं अतः एक दिन भी मंदिर बिना ध्वजा के नहीं रखना चाहिये।

जिस मंदिर की शिखर पर ध्वजा न हो तो उसमें किये गये जप, पूजन, ध्यान, अध्ययन आदि अनुष्ठान निष्फल होते हैं, अतः मंदिर पर नियम से ध्वजा लगानी चाहिये। (५)

(१) फे., वा. सा. प्रा. प्र. गाथा २८ एवं क्षीरार्णव, शिखराधिकार पृष्ठ १६१/४४

(२) प्रा. म. ४/९०/४१ (३) प्रा. म., ४/९३/४६ (४) शि. स्मृ. वा. वि., आ. ७ श्लोक १०२

(५) उ. स्वा. श्रा., पृ. ४० श्लोक १०७ एवं कु. कु. श्रा.

(१६) मंदिर जी में पूजा - प्रक्षालन होने पर ^(१)

मंदिरजी में स्थापित प्रतिमा का नित्य ही प्रातः काल में अभिषेक पूजा होना अनिवार्य है, यदि एक समय जिन प्रतिमा की पूजन न हो सके तो दूसरे समय दुगनी पूजन कर महामंत्र का १०८ बार जाप करना चाहिये ।

(१७) अभिषेक - पूजा हेतु शुद्ध जल ?

जलाशयारामसमग्रशोभा वाल्मीक - जंतुप्रविचारवर्ज्या ।

कीलास्थिदग्धाश्मविवर्जिता भूरत्न प्रशरया जिनवेश्मयोग्या ॥^(२)

मंदिरनिर्माण कूप, वापिका, तड़ाग (तालाब), नदी आदि बगीचा वृक्षसमूह से शोभित और बांबी, जन्तु कीटादिक से रहित, श्मशान एवं शूली आदि स्थान से रहित, दग्ध पाषाणों से रहित स्थान में करना चाहिये

अर्थात् मंदिर निर्माण में कुये आदि के शुद्ध जल (छने जल) का उपयोग करना चाहिये ।

श्रावक की पहचान में मर्यादित छने हुये शुद्ध जल का वर्णन कई आगम ग्रंथों में वर्णित है। जल छानने की विधि एवं जल की मर्यादा का विशेष विवरण क्रियाकोष के पृष्ठ १२५ से १३१ तक कविवर किशन सिंह जी ने किया है । जल छानने का तात्पर्य जल में विद्यमान जीवराशि की रक्षा से है जिस कूप से जल निकाला जावे उसकी जीवाणी (छनित जीव राशि) उसी कूप में उसी दिशा से कुण्डे वाले पात्र से कुये के जल स्तर पर ही विसर्जित करें । ऊपर से फेकने से जीवों का घात होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो कुयों में कई जल स्रोत होते हैं जिनसे आने वाले जल में भिन्नता (भिन्न-भिन्न Ph Value) होती है, अतः जल जीवों की रक्षा का भाव रखते हुये सावधानी पूर्वक जल छान कर जीवाणी विसर्जन करें ।

श्रावक को दिनचर्या के साथ-साथ ब्रतियों को आहार एवं अभिषेक-पूजन में कुयों के शुद्ध जल का ही प्रयोग अनिवार्य है। जल की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें छने जल की मर्यादा मात्र दो घड़ी (४८ मिनट) होती है । इसके पश्चात् उसमें सम्मूर्च्छनत्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं अतः अभिषेक पूजा में नियम से प्रासुक जल का प्रयोग करना चाहिये । ठंडे जल का नहीं ।

हैण्डपम्प (वर्मा) या नल का जल छानने के बाद जीवाणी का विसर्जन नहीं कर सकते इसलिये त्रस जीवों का घात होता है।

वास्तु विज्ञान में भी कूप निर्माण का विधान किया है।

कूपे वास्तो - मध्यदेशेऽर्थनाशस्त्वैशान्यादौ पुष्टिरैश्वर्यं वृद्धिः।

सूनोर्नाशः स्त्रीविनाशो मृतिश्च सम्पत्पीडा शत्रुतः स्याच्च सौख्यम् ॥ (१)

मंदिर या गृह में कूप निर्माण उत्तर या पूर्व दिशा में करना चाहिये। मध्य में या अन्य दिशा विदिशा में कूप निर्माण हानिकारक होता है।

इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक पूजन में कूपों के शुद्ध प्रासुक जल का ही प्रयोग आगमानुसार किया जाना चाहिये। लवग आदि से विरेचित जल की मर्यादा भी कम होती है अतः प्रासुक जल का ही प्रयोग करना चाहिये।

वापीकूपतडागानि प्रासादभवनानि च।

जीर्णान्युद्धारयेद्यस्तु पुण्यमष्टगुणं लभेत् ॥ (२)

वापी, कूप, तडाग (तालाब) जिनमंदिर आदि का जीर्णोद्धार कराने से नवीन निर्माण की अपेक्षा आठ गुणा अधिक फल मिलता है। अतः इनका जीर्णोद्धार अवश्य कराना चाहिये। अर्थात् इनको नष्ट होने से रोकना चाहिये। इनकी सुरक्षा करना चाहिये।

(१८) शान्ति विधान की आवश्यकता

भूम्यारम्भे तथा कूर्मे शिलायां सूत्रपातने।

खुरे द्वारोच्छ्रये स्तम्भे पट्टे पद्मशिलासु च ॥

शुकनाशे च पुरुषे घण्टायां कलशे तथा।

ध्वजोच्छ्रये च कूर्मीत शान्तिकानि चतुर्दश ॥ (३)

(१) भूमिका आरम्भ (२) कूर्मन्यास (३) शिलान्यास (४) सूत्रपात (५) खुरशिला स्थापन (६) द्वार (७) स्तम्भ स्थापन (८) पाट चढ़ते समय (९) पद्म शिला (१०) शुकनाश (११) प्रासाद पुरुष के स्थापन समय (१२) अमलसार (१३) कलशारोहण (१४) ध्वजारोहण।

यह चौदह कार्य करते समय शांति विधान करना चाहिये।

(१) वि वि प्र अ, पृष्ठ ५ (आ वि वा वि प पृष्ठ ३३ से)

(२) शि र, अ ५ श्लोक १०५ (३) प्रा म, अ १ श्लोक ३७, ३८

(१९) विमानोत्सव एवं रथोत्सव में प्रतिमा का विधान

प्रत्यग्रं चलनक्षमं दृढवपुःसंधिं तथा धातुजं ।
योग्यं नित्यमहोत्सवेषु शिविकासत्स्यंदनारोहणे ॥^(१)

विमानोत्सव एवं रथोत्सव तथा गजरथ आदि में धातु की प्रतिमा विराजमान करना चाहिये। पाषाण की प्रतिमा का विधान नहीं है। क्योंकि धातु की मूर्ति सुदृढ़ संधि वाली होती है अतएव किसी प्रकार के अनिष्ट की आंशका नहीं रहती।

वेदी से प्रतिमा जी उठाने के पूर्व स्नानकर शुद्ध धोती दुपट्टा पहिनें, सिद्ध भक्ति पढ़कर नौ बार णमोकार मंत्र की जाप करके अर्घ चढ़ाकर प्रतिमा जी उठावें एवं झालर, घंटा, चंवर आदि के साथ विनय पूर्वक ले जावें।

(२०) सूतक होने पर

परिवार/घर में सूतक हो जाने पर देव शास्त्र गुरु का प्रक्षाल एवं द्रव्य से पूजन नहीं करना तथा मंदिर जी के सामान का स्पर्श नहीं करना मंदिर के बाहर से देवदर्शन पाठ आदि कर लेवें सूतक का समय पूर्ण होने पर पूजनादि करके पात्रदानादि करें।

यदि धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हों तथा सकलीकरण हो चुका हो तो उस व्यक्ति को घर/परिवार का सूतक नहीं लगता, वह व्यक्ति सूतक वाले घर से संपर्क नहीं रखे, सूतक संबंधी कार्यों में नहीं जावे। अपने रहने एवं भोजन की व्यवस्था अन्यत्र कर लेवे।

सूतक का समय निम्नानुसार होता है।

- (१) जन्म का सूतक दस दिन तक होता है।
- (२) यदि अपने घर में दासी तथा पुत्री की प्रसूति हो तो एक दिन का सूतक लगता है, घर से बाहर हो तो सूतक नहीं लगेगा।
- (३) यदि पालतू जानवर अपने घर में जनें तो एक दिन का सूतक लगेगा घर से बाहर हो तो सूतक नहीं लगेगा।

- (४) मृत्यु का सूतक तीन पीढ़ी तक १२ दिन का लगेगा, चौथी पीढ़ी में दस दिन का, पाँचवीं पीढ़ी में छ एव छटवीं पीढ़ी में पाँच दिन का, सातवीं पीढ़ी में तीन दिन का, आठवीं पीढ़ी में एक दिन रात का तथा नवमीं पीढ़ी में स्नान मात्र से शुद्धता हो जाती है ।
- (५) गर्भपात में सूतक जितने माह का गर्भ हो उतने दिन का लगेगा । तथा प्रसूति स्त्री को सूतक ४५ दिन का लगेगा ।
तीन दिन के बालक की मृत्यु का माता पिता को दस दिन का, आठ वर्ष के बालक की मृत्यु का दस दिन का, इसके आगे बारह दिन का सूतक लगेगा ।
- (६) अपने कुल के गृह त्यागी का सन्यासमरण या कुटुम्बी का सग्राम मरण हो तो एक दिन का सूतक लगेगा ।
- (७) गृह निवास के बाहर सूतक होने के खबर मिलने पर जितने दिन सूतक अवधि के शेष हो उतने दिन सूतक लगेगा । रजस्वला स्त्री गृहकार्य के लिये चौथे दिन तथा देवपूजन, आहारदान के लिये पाँचवे दिन शुद्ध होती है । इन दिनों में रजस्वला स्त्री को धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित नहीं होना चाहिये। विशेष अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति से विघ्न आने की संभावना होती है ।

सूतक विधान में आचार्यों के मतों में कुछ भिन्नता है ।

इसे ध्यान रखें ।

संदर्भित ग्रंथ

- १ मंगल मंत्र णमोकार - एक अनुचितन, डा० नेमिचन्द्र जैन, ज्योतिषाचार्य
- २ देव पूजा प्रवचन - क्षु० सहजानन्द वर्णी
३. प्रतिष्ठा पाठ - आचार्य जयसेन अपर नाम वसुबिदु
- ४ वृहद् - वास्तुमालायाम् - टीका रमाकात द्विवेदी
- ५ प० मन्नूलाल जी जैन प्रतिष्ठाचार्य की हस्तलिखित डायरी
- ६ गोम्मट सार (जीव काण्ड) - श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धातचक्रवर्ती
- ७ प्रतिष्ठा सारोद्धार - प० आशाधर
- ८ त्रिलोकसार - श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धात चक्रवर्ती
- ९ वास्तुसार प्रकरण - ठक्कुर फेरूमल
- १० षट्खण्डागम - धवलाटीका पुस्तक ४
- धवलाटीका पुस्तक ६
- धवलाटीका पुस्तक ८
- धवलाटीका पुस्तक ९
आचार्य पुष्पदत्त भूतबली
टीकाकार आचार्य श्री वीरसेनाचार्य
- ११ प्रतिष्ठासार सग्रहस्य श्लोका - आचार्य वसुनदी
- १२ आदि पुराण - आचार्य जिनसेन
- १३ भारतीय मूर्तिकला के विकास मे जैनो का योगदान
- १४ प्रतिष्ठा तिलक - श्री नेमिचन्द्र देव
- १५ प्रतिष्ठाचन्द्रिका - श्री शिवरामजी पाठक राची
- १६ वृहत्सहिता - श्री वराहमिहर
- १७ प्रतिष्ठा मयूख
- १८ मुहूर्त चक्रावलि
- १९ शीघ्र बोध - दैवज्ञ काशीनाथ
- २० लोक विजय पचाग - श्री जगन्नाथ झा
- २१ चिताहरण जत्री - १९८८ सम्पादक, बचान प्रसाद त्रिपाठी
- २२ ज्योतिष मुहूर्त विज्ञान
- २३ भारतीय ज्योतिष - डा० नेमिचन्द्र जैन ज्योतिषाचार्य

२४. उद्धरण रत्नमाला
२५. चरचा समाधान - प० भूधर दास
२६. शांतिविधान - प० जिनदास
२७. महाबंध - आचार्य भूतबली
२८. जैन सिद्धांत भवन ग्रंथावली आरा
२९. धर्मरसिक ग्रंथ - सकलन गणधराचार्य कुंथुसागर
- ३० प्रतिष्ठासारसंग्रह - ब्र. शीतल प्रसाद
३१. गणधरवल्लय विधान - आ. सकल कीर्ति
- ३२ आ. महावीर कीर्ति स्मृतिग्रंथ
- ३३ मंदिर वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण विधि - डा० पन्नालाल सहित्याचार्य
३४. धर्मध्यान दीपक
३५. सिद्ध भक्ति प्रवचन - क्षु. श्री सहजानंद वर्णी
३६. श्रावक का नित्य क्रिया कलाप - संकलन मुनि श्री आदिसागर
३७. मृत्युंजय णमोकार - मुनि श्री अमरेन्द्र विजय
३८. श्री गोम्मट प्रश्नोत्तर चिंतामणि - गणधराचार्य कुंथुसागर
३९. मूकमाटी महाकाव्य - आचार्य विद्यासागर
- ४० ऋषिमण्डल मंत्र कल्प पूजा विधान - श्री विद्याभूषण सूरि
४१. ज्ञानार्णव. - शुभचन्द्राचार्य
४२. णमोकार मंत्र कल्प - आचार्य देशभूषण
४३. शिल्प स्मृति वास्तु विद्यायाम्
४४. प्रासाद मण्डन - श्री सूत्रधार मण्डन
४५. शिल्प रत्नाकर
४६. इष्टोपदेश - आचार्य पूज्यपाद स्वामी
४७. वास्तुविज्ञान परिचय - आर्यिका विशुद्धमति
४८. तिलोपपण्णत्ती - आचार्य यतिवृषभ
४९. आचार्य कुन्दकुन्द श्रावकाचार - आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी
५०. जिन संहिता
५१. प्रतिष्ठा दीपक - नरेन्द्र सेन
५२. विश्वकर्मा विद्या प्रकाश ग्रंथ
५३. क्रियाकोष - कविवर किशन सिंह
५४. क्षीरार्णव - श्री विश्वकर्मा प्रणीत

- ५५ त्रिकालवर्ती महापुरुष - सकलन आदिसागर मुनि
 ५६ तीर्थकर - प० सुमेरु चन्द्र दिवाकर
 ५७ सर्वार्थ-सिद्धि - श्रीमत्पूज्यपादाचार्य
 ५८ जैन मंत्र शास्त्र
 ५९ कार्तिकेयानुप्रेक्षा - आचार्य कार्तिकेय स्वामी
 ६० प्रतिमा विज्ञान - श्री बालचन्द्र जैन
 ६१ केवलज्ञान प्रश्न चूड़ामणि - सम्पादक डा० नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य
 ६२ लग्न चन्द्रिका - सर्वशास्त्र विशारद काशीनाथ
 ६३ मुहूर्त चितामणि - दैवेज्ञराम विरचित
 ६४ वास्तु रत्नावली
 ६५ मुहूर्त गणपति - दैवज्ञवर्य गणपति विरचित
 ६६ जैनेन्द्र सिद्धान्तकोष - भाग २
 - भाग ३
 - भाग ४ - क्षु० जिनेन्द्र वर्णी
 ६७ तीर्थकर मासिक (पूजा विशेषाक) - डा० नेमिचन्द्र जैन
 ६८ ज्योतिष सार - सुकदेव
 ६९ कषायपाहुड (जयधवला) पुस्तक प्रथम - श्री गुणधराचार्य
 ७० स्वयम्भू स्तोत्र - आचार्य समन्तभद्र
 ७१ दशभक्त्यादि सग्रह - आचार्य पूज्यपाद स्वामी
 ७२ सावयधम्मदोहा - आचार्य देवसेन
 ७३ रयणसार - आचार्य कुन्दकुन्द
 ७४ पद्मनदिपचविशतिका - आचार्य पद्मनन्दि
 ७५ पचास्तिकाय - आचार्य कुन्दकुन्द
 ७६ परमार्थप्रकाश - श्रीमद्-योगीन्दुदेव
 ७७ सागारघर्मामृतम् - महापण्डित आशाधर
 ७८ भगवती आराधना - आचार्य शिवकोटी
 ७९ अमितगतिश्रावकाचार - आचार्य अमितगति
 ८० वसुनदिश्रावकाचार - आचार्य वसुनदि
 ८१ भावसग्रह - आचार्य देवसेन
 ८२ सिद्धात सग्रह - आचार्य नरेन्द्र सेन
 ८३ यशस्तिलकचम्पू महाकाव्य - आचार्य सोमदेव

-
-
८४. भट्टकलंक संहिता - आचार्य अकलंकदेव
 ८५. रत्नकरण्डक श्रावकाचार - आचार्य समन्तभद्र टीका पं. सदासुखदास
 ८६. उमास्वामी श्रावकाचार - आचार्य उमास्वामी
 ८७. मूलाचार - आचार्य कुन्दकुं
 ८८. जबूदीव पण्णत्ति सग्रह
 ८९. मूलाचार प्रदीप - आचार्य सकलकीर्ति
 ९०. पद्मपुराण - रविषेणाचार्य
 ९१. तत्त्वार्थसूत्र - आचार्य उमास्वामी
 ९२. राजेन्द्र अभिधान कोश
 ९३. स्याद्वाद पूजाञ्जलि
 ९४. सुदर्शन चरित्र - विद्यानंदि
 ९५. अभ्रदेव व्रतोद्योतन श्रावकाचार - आचार्य अभ्रदेव
 ९६. भाव पाहुड - आचार्य कुन्दकुन्द
 ९७. प्रश्नोत्तर श्रावकाचार - आचार्य सकल कीर्ति'
-

संक्षिप्त शब्द - संकेत सूची

- आ ज से , प्र पा - आचार्य जयसेन, प्रतिष्ठापाठ
 वृ वा मा - वृहद् वास्तुमाला, टीका रमाकात द्विवेदी
 प म ला जैन, ह लि डा - प० मन्मूलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य की हस्तलिखित डायरी।
 आ ने च सि च , गो सा - आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्ती,
 गोम्मटसार (जीवकाण्ड)
 प आ ध , प्र सा - पंडित आशाधर, प्रतिष्ठासारोद्धार
 ठ फे , वा सा प्र - ठक्कुर फेरुमल, वास्तुसार, प्रकरण
 आ पु द भू , ष ध पु - आचार्य पुष्पदत्त भूतबली षट्खण्डागम धवला पुस्तक
 आ व न , प्र सा स - आचार्यवसुनदी, प्रतिष्ठासारसंग्रह
 आ उ स्वा श्रा - आचार्य उमास्वामी श्रावकाचार
 आ जि से , आ पु - आचार्य जिनसेन, आदिपुराण
 आ ने च सि च , त्रि सा - आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धात चक्रवर्ती, त्रिलोक सार
 श्री ने च , प्र ति - श्री नेमिचन्द्र देव, प्रतिष्ठातिलक
 प शि रा पा , प्र च - प शिवरामजी पाठक, प्रतिष्ठाचन्द्रिका
 डा ने च , भा ज्यो - डा० नेमिचन्द्र जैन, ज्योतिषाचार्य, भारतीय ज्योतिष
 ब्र शी प्र , प्र सा स - ब्र शीतल प्रसाद, प्रतिष्ठासारसंग्रह
 आ शु च , ज्ञा - आचार्य शुभचन्द्राचार्य, ज्ञानार्णव
 आ दे भू , ण म क - आचार्य देशभूषण, णमोकार मंत्र कल्प
 शि स्मृ वा वि - शिल्प स्मृतिवास्तु विद्यायाम्
 प्रा म - प्रासाद मण्डन, श्री सूत्रधार मण्डन
 शि र - शिल्प रत्नाकार
 आ पू पा , इ - आचार्य पूज्यपाद, इष्टोपदेश
 आ वि , वा वि प - आर्यिका विशुद्धमति, वास्तु विज्ञान परिचय
 श्री आ य , ति प - श्री आचार्य यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ती
 आ कु , कु श्रा - आचार्य कुन्दकुन्द, कुन्दकुन्द श्रावकाचार
 जि स - जिन सहिता
 न से , प्र दी - नरेन्द्र सेन, प्रतिष्ठादीपक
 वि वि प्र ग्र - विश्वकर्म विद्या प्रकाश ग्रंथ
 आ स की , ग व वि - आचार्य सकलकीर्ति, गणधरवल्लय विद्यान ।

